
भारतीय ज्ञानपीठ

(स्थापना फाल्गुन कृष्ण ६, वीर नि स २४७०, विक्रम स २०००, १८ फरवरी, १९४४)

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति मे

स्व० साहू शान्तिप्रसाद जैन द्वारा संस्थापित

एव

उनकी धर्मपत्नी स्व० श्रीमती रमा जैन द्वारा सपोषित

मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तमिल आदि प्राचीन भाषाओं मे उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उनका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-भण्डारों की सूचियों, शिलालेख-संग्रह, कला एवं स्थापत्य पर विशिष्ट विद्वानों के अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी *Chera*, इसी ग्रन्थमाला मे प्रकाशित हो रहे हैं।

ग्रन्थमाला सम्पादक (प्रथम संस्करण)

डॉ. हीरालाल जैन एवं डॉ. आ. ने. उपाध्ये

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

१८, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-११० ००३

मुद्रक नागरी प्रिंटर्स, दिल्ली-११० ०३२

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित

MAHĀBANDHO
[MAHĀDHAVALA SIDDHĀNTAŚĀSTRA]
of
Bhagavanta Bhūtabalī
[CHATURTHA PRADEŚĀ-BANDHĀDHIKĀRA]

Vol. VII

Edited and Translated by
Pt. Phoolchandra Siddhantashastrī



BHARATIYA JNANPITH

Second Edition : 1999 □ Price : Rs. 140.00

BHARATIYA JNANPITH

Founded on Phalgunā Krishna 9, Vira N Sam 2470 • Vikrama Sam 2000 • 18th Feb 1944

MOORTIDEVI JAIN GRANTHAMALA

Founded by

Late Sahu Shanti Prasad Jain

In memory of his late Mother Smt Moortidevi
and

promoted by his benevolent wife
late Smt Rama Jain

In this Granthamala Critically edited Jain agamic, philosophical,
puranic, literary, historical and other original texts
available in Prakrit, Sanskrit, Apabhramsha, Hindi,
Kannada, Tamil etc , are being published
in the respective languages with their
translations in modern languages

Also

being published are
catalogues of Jain bhandaras, inscriptions, studies,
art and architecture by competent scholars,
and also popular Jain literature

•

General Editors (First Edition)

Dr Hiralal Jain & Dr A N Upadhye

Published by

Bharatiya Jnanpith

18, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003

Printed at Nagri Printers Delhi-110032

All Rights Reserved by Bharatiya Jnanpith

महाबन्ध का सारांश

महाबन्ध क्या है ?

'महाबन्ध' का सीधा-सादा अर्थ है—महान् बन्धन। दुनिया में एक-से-एक बड़े बन्धन हैं जिनको शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियों के बल से तोड़ा जा सकता है, लेकिन मोह, राग एक ऐसा बन्धन है जिसे साधु, सन्त, योगी ही अध्यात्मयोग से तोड़ सकता है। मोह, राग-द्वेष का नाम 'कर्म' है। इनमें अपनेपन की बुद्धि से कर्मबन्ध होता है। कर्म-बन्ध से जन्म-मरण, सुख-दुःख की प्राप्ति होती है जो ससार का मूल कारण है। 'कर्म' किसी भाव का नाम मात्र नहीं है, किन्तु वह एक हकीकत है जो द्रव्य और भाव रूप से अपना अस्तित्व रखती है। इसलिए मूल में कर्म के दो भेद हैं—भावकर्म और द्रव्यकर्म। जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, ऐसे काल के अनादिनिधन प्रवाह में अनादि काल से भावकर्म के निमित्त से द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म के निमित्त से भावकर्म प्रत्येक समय में उत्पन्न होता रहता है।

जो सदा काल ज्ञान, दर्शन में चेतता है उसे 'चैतन्य' और जो जीवित रहता है उसे 'जीव' कहते हैं। जीव चेतन है, कर्म जड़ है। लेकिन अनादि काल से दोनों का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। आगम ग्रन्थों में 'कर्म' शब्द का प्रयोग इन तीन अर्थों में मिलता है—जीव की स्पन्दन क्रिया, जिन भावों (राग-द्वेष, मोह) से स्पन्दन क्रिया होती है और जो कर्म रूप (कार्मण) पुद्गलो में सत्कार के कारण उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जन्म-जन्मान्तरो में बने रहनेवाले वासनात्मक सत्कार 'कर्म' है। 'कर्म' का मुख्य काम जीव को ससार में रोककर रखना है। राग-द्वेष और मोह के निमित्त से आत्मा के साथ जो कर्म सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं उनके साथ अमुक समय तक बने रहने को स्थिति कहते हैं।

'महाबन्ध' सात पुस्तकों में है। पहली पुस्तक प्रकृतिबन्धाधिकार है। इसमें कर्म के स्वभाव का स्वरूप बताया गया है। 'प्रकृति' का अर्थ स्वभाव है। कर्म के असली स्वभाव का नाम मूल प्रकृति है। अलग-अलग भाग के रूप में जिसे कहा जाए वह उत्तर प्रकृति है। स्वभाव बतलाने का प्रयोजन द्रव्य की स्वतन्त्रता बतलाना है। जीव कभी कर्म रूप नहीं होता और कर्म कभी जीव रूप नहीं होता। किन्तु इन दोनों के सम्बन्ध का नाम बन्ध है। कोई भी वस्तु अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। नीम अपनी कड़वाहट छोड़कर मीठा नहीं होता और शक्कर कभी मिठास छोड़कर अन्य रस-रूप नहीं होती।

आगम छह खण्डों में निबद्ध है। आगम ग्रन्थों को ही सिद्धान्तशास्त्र कहते हैं। आचार्य नेमिचन्द्र का कथन है कि जीवस्थान, क्षुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्य, वेदनाखण्ड, वर्गणाखण्ड और महाबन्ध के भेद से षट्खण्ड रूप सिद्धान्तशास्त्र है। (कर्मकाण्ड, गा ३६७)

कर्म की सामान्य प्रकृतियों १४८ हैं। इनके विशेष भेद अनन्त हो जाते हैं। ओष से ५ ज्ञानावरण तथा ५ अन्तराय की प्रकृतियों का सर्वबन्ध होता है। आयुर्कर्म को छोड़कर सातों कर्मों की प्रकृतियों निरन्तर बँधती रहती हैं। कर्म की प्रकृतियों के स्वरूप को कहना, वर्णन करना 'प्रकृति-समुक्तीर्तन' कहलाता है जो 'महाबन्ध' के प्रथम भाग का मूल विषय है। यह 'प्रकृतिबन्ध-अधिकार' 'षट्खण्डागम' के वर्गणा खण्ड के अन्तर्गत बन्धनीय अर्थाधिकार में २३ पुद्गल वर्गणाओं की प्ररूपणा में विवेचित है। २४ अनुयोगद्वारों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। 'महाबन्ध' में भी यही शैली अपनाई गयी है। इसमें ज्ञानावरणीय की उत्तर तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियों का विवेचन किया गया है। यह कहा गया है कि मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योगो के निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्मों के निमित्त से जाति, बुद्धापा, मरण और वेदना उत्पन्न होती हैं। कर्म शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। जीवों को एक और अनेक जन्मों में पुण्य तथा पाप कर्म का फल मिलता है। कर्म के उदय में जीव के राग-द्वेष और मोह रूप भाव होती हैं। उन भावों के कारण कर्म बँधते हैं। कर्मों से चार (मनुष्य, तिर्यच, नरक, देव) गतियों में जन्म लेना पड़ता है। उससे शरीर मिलता है। शरीर के मिलने से इन्द्रियों होती हैं। उनसे यह जीव विषयों को ग्रहण करता है। विषयों

को ग्रहण करने से राग-द्वेष रूप परिणाम होते हैं। यही सप्ता-चक्र है।

‘महावन्ध’ में सामान्यतः बन्ध के चार भेदों (प्रकृति-स्थिति-अनुभाग-प्रदेश-बन्ध) का बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। मूल में प्रश्न यह है कि जीव अमूर्त है और कर्म मूर्तिक है। अमूर्तिक होने से जीव में स्पर्श गुण नहीं है। जब जीव कर्म को छू नहीं सकता है तो फिर बंधता कैसे है? इसका मुख्य कारण जीव की अपनी कमजोरी है। जीव ज्ञानमय है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म के उदय में अपने को भूला हुआ पर को जानने में लगा रहता है। परिणाम करने की शक्ति जीव में है। अतः राग-द्वेष, मोह रूप परिणामन से कर्म का बन्ध करता रहता है और अज्ञानी (आत्मज्ञान नहीं होने से) बना रहता है। मिथ्यात्व, असयम, कपाय और योग के निमित्त से कर्म का बन्ध होता है। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डक सस्थान, असंप्राप्तासुपाटिका सहनन का बन्ध करने वाला मिथ्यादृष्टि होता है। (महावन्ध, भा १, पृ ४७) मिथ्यात्व के उदय में ही प्रथम गुणस्थान (योग और मोह से उत्पन्न स्थिति) होता है। मिथ्यात्व के भाव से मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्व का बन्ध करता है। मिथ्यात्व का बन्ध करने वाला ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कामर्ण शरीर, ४ वर्ष, अगुरुलघु, अपघात, निर्माण और ५ अन्तराय का नियम से बन्धक है। (वही, पृ १३५) मिथ्यात्व में भी रजना शक्ति है, इसलिए मिथ्यात्व का बन्ध करने वाला तीनों लोकों का स्पर्शन करता है। मिथ्यात्व के बन्धकों का स्पर्शन-क्षेत्र ८/१४, १३/१४ या सर्वलोक है। (वही, पृ २४८) यही नहीं, ‘कर्म की स्थिति’ से मतलब केवल ‘मोह’ या ‘मिथ्यात्व’ की सत्तर कोडा-कोडी (एक करोड़ में एक करोड़ का गुणा करने पर जो सख्या हो) सागर की स्थिति से है जिसमें सब कर्मों की स्थिति का सग्रह है। (महावन्ध, भा १, पृ ६३)

कर्म की स्थिति दो तरह की होती है—कर्मस्थिति और निषेकस्थिति। द्रव्यकर्म आठ प्रकार के है—ज्ञानावरणीय (जो सम्पूर्ण ज्ञान को प्रकट होने से रोके), दर्शनावरणीय (जो पूर्ण दर्शन को विकसित न होने दे), वेदनीय (जिससे सुख-दुःख का वेदन हो), मोहनीय (जिससे मोह रूप अनुभव हो), आयु (जिससे जीव को अमुक समय तक शरीर में रहना पड़े), नाम (जिससे गति, जाति, शरीर आदि मिलता है), गौत्र (जैच-नीच कुल जिससे मिले) और अन्तराय (विघ्न-बाधा उत्पन्न करनेवाला)। ये कर्म की मूल प्रकृति के आठ भेद कहे गये हैं। इन आठ मूल प्रकृतियों के १४८ भेद होते हैं। इनमें से कर्मबन्ध योग्य १२० प्रकृतियाँ हैं। यद्यपि उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं, लेकिन दर्शन मोहनीय की सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दो अवन्ध-प्रकृतियाँ हैं और पाँच बन्धनो तथा पाँच सघातों का पाँच शरीरों में अन्तर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार स्पर्शदिक के वीस भेदों के स्थान पर चार का ग्रहण किया गया है, इसलिए २८ प्रकृतियाँ कम हो कर १२० प्रकृतियाँ कही गयी हैं। इन कर्म-प्रकृतियों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय की १६, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भयद्विक, तैजसद्विक, अगुरुलघुद्विक, निर्माण और वर्षचतुष्टक ये ४७ ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं।

द्रव्यकर्म की रचना कर्म-परमाणुओं से होती है। जीव के राग-द्वेष, मोह भाव के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो स्पन्दन क्रिया होती है, उससे समान गुण वाले वर्गों का समूह वर्गणा रूप परिणामन करता है जो कर्म का आकार ग्रहण करता है। यद्यपि वर्गणाएँ तैर्दस प्रकार की कही गयी हैं, किन्तु उनमें से आहार वर्गणा, तैजसवर्गणा, भापावर्गणा, मनोवर्गणा और कामर्णवर्गणा ये ही पाँच ग्रहण योग्य हैं। कामर्ण-वर्गणा से कर्म की रचना होती है। कर्म के परमाणु कहीं बाहर से नहीं आते, वे शरीर में ही विद्यमान (मौजूद) हैं। प्रत्येक कर्म-प्रकृति की वर्गणा भिन्न-भिन्न है। कर्म-परमाणु स्कन्धों के रूप में निक्षिप्त होते हैं जिनको निषेक कहा जाता है। कर्म निषेक रूप में बँधते हैं और निषेक रूप में झड़ते हैं। मिथ्यादर्शन, असयमादि परिणामों से कामर्ण वर्गणा के परमाणु कर्म रूप से परिणत होकर जीवप्रदेशों के साथ सम्बद्ध होते हैं जिसे ‘प्रकृतिबन्ध’ कहते हैं। इस प्रकृतिबन्ध की प्ररूपणा २४ अनुयोगद्वारों में की गयी है जो ‘महावन्ध’ की पहली पुस्तक के रूप में हैं। एक समय में एक ही कर्म-प्रकृति का बन्ध होता है। उरुकृष्टबन्ध, अनुकृष्टबन्ध, जयन्धबन्ध और अजयन्धबन्ध प्रकृतिबन्ध में सम्भव नहीं है।

महाबन्ध का विषय—

‘महाबन्ध’ का मूल विषय कर्म-बन्ध है। बन्ध का अर्थ है—बंधना। प्रश्न यह है कि जीव बंधता है, कर्म बंधता है या दोनों परस्पर बंधते हैं अथवा बाँधते हैं। आचार्य भूतवली भगवन्तो का अभिप्राय प्रकट करते हुए कहते हैं—‘को बधो को अबधो!’ (पु.१, पृ.३६) अर्थात् मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगकेवली तक सभी बन्धक है। ‘बन्ध’ का अर्थ बंधना तथा बंधनेवाला है। यदि जीव कर्म से बंधता है तो ससारी है और कर्मों से छूट जाता है तो मुक्त है। यह सुनिश्चित है कि जीव अपने आपको भूल जाने के कारण स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है, तभी कर्म उसके साथ सयोग में है। लेकिन महज सयोग मात्र नहीं है, हकीकत भी है। जीव के स्वभाव में किसी कर्म का प्रवेश नहीं है। कहा भी है—“दव्यस्स दव्वेण दव्व-भावाण वा जो सजोगो समवाजो वा सो बधो णाम।” (षट्खण्डागम, धवला पु १४, पृ.१) अर्थात् द्रव्य का द्रव्य रूप से और द्रव्य का भाव रूप से जो सयोग या समवाय है उसका नाम बन्ध है। व्यवहार से भी जीव भावों के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। अतः राग-द्वेष, मोह के अतिरिक्त कर्म की प्रकृति क्या है? उसका सम्बन्ध जीव के प्रदेशों के साथ है। यह भी स्पष्ट है कि एक साथ कुछ समय तक एक ही प्रदेश में जीव और कर्म के रहे बिना सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। इसलिए जीव और कर्म का एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध कहा गया है। जैसे एक ही बर्तन में दूध और पानी मिले हुए होने पर भी अलग-अलग हैं, इसी प्रकार जीव और कर्म के एक साथ रहने पर भी वे दोनों अलग-अलग हैं। यही नहीं, दोनों के काम भी अलग-अलग हैं, लेकिन कर्म का फल जीव को मिलने के कारण, क्योंकि जीव उस रूप वेदन करता है, इसलिए कर्म की प्रकृति को जीव रूप कहा जाता है अर्थात् उस समय जीव का वही भाव होता है।

चौदह गुणस्थानों में से प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति और आहारकद्विक का बन्ध न होने से ११६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। द्वितीय गुणस्थान सासादन में मिथ्यात्वादि १६ प्रकृतियों का बन्ध न होने से १०१ कर्म-प्रकृतियों का बन्ध होता है। मिश्र गुणस्थान में ६६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। चतुर्थ गुणस्थान में अविरत सम्यग्दृष्टि के देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध प्रारम्भ हो जाने से ६१ कर्म-प्रकृतियों का बन्ध होता है। पंचम देशविरत गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण ४ प्रकृतियों का बन्ध न होने से ६७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। प्रमत्तगुण में ६३ और अप्रमत्तगुणस्थान में ५६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। अपूर्वकरण में ५८ प्रकृतियों का, अनिवृत्तिकरण में २२ प्रकृतियों का तथा उपशान्तकपाय में १७ कर्म-प्रकृतियों का बन्ध होता है। सूक्ष्म साम्पराय, क्षीणकषाय और सयोगकेवली गुणस्थानों में केवल १ कर्म-प्रकृति का बन्ध होता है। किन्तु चौदहवें गुणस्थान अयोगकेवली में किसी भी प्रकृति का बन्ध नहीं होता।

जैनधर्म भावप्रधान है। जीवों के मिथ्यात्व अवस्था में मिथ्या भाव होते हैं और सम्यक्त्व अवस्था में सम्यक्त्व भाव होते हैं। वास्तव में जीव में प्रत्येक भाव रूप परिणामन उसकी अपनी योग्यता से होता है, किन्तु कथन निमित्तसापेक्ष किया जाता है। सिद्धान्तशास्त्र में अन्तरग, बहिरग कारण निमित्त की अपेक्षा कहे गए हैं। परन्तु जीव का स्वभाव परमनिरपेक्ष है। अन्तर इतना ही है कि परमात्म में आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव का वर्णन सर्वप्रथम किया जाता है, किन्तु सिद्धान्त (आगम) ग्रन्थों में उसे सबसे अन्त में समझाया जाता है।

परिणाम दो प्रकार के हैं—सराग और वीतराग। जैनधर्म वीतराग भाव में है। अतः जैनधर्म वीतराग है। पचगुरु वीतराग है। जिनवाणी वीतरागता की प्रतिपादक है और अर्हन्त-प्रतिमा वीतरागता की प्रतीक है। जैनसाधु आदर्श हैं। परमार्थ से वीतरागता ही साधुता है।

अन्य प्रकार से दो प्रकार के परिणाम हैं—उत्कृष्ट और जघन्य। ‘अनन्त’ नाम ससार का है, क्योंकि उसका कभी अन्त नहीं है। जो ससार का कारण है—वह ‘अनन्त’ है। यहाँ पर ‘मिथ्यात्व’ परिणाम को ‘अनन्त’ कहा गया है। राग, द्वेष ससार का कारण है, बन्ध का कारण है, ससार में टिकानेवाला और उसका फल देने की शक्तिवाला है, किन्तु अनन्त ससार का कारण मिथ्यात्व ही है। जो उस मिथ्यात्व के साथ (अनु)

बंधती है, उसकी सहचरी है, उस कपाय को अनन्तानुबन्धी कहते हैं।

(“तथाहि—अनन्तससारकारणत्वात् मिथ्यात्वमनन्त तदनुबन्धनतीत्यनन्तानुबन्धिन्।” —गोमटसार, कर्मकाण्ड भा १, गा ४५ की जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका) मिथ्यात्व में भी स्निग्धता है। (पचास्तिकाय, गा ६७, समयटीका)

‘महाबन्ध’ में यह प्रश्न किया गया है कि किस भाव से जीव कर्म-प्रकृति को बंधता है? उत्तर है कि सभी प्रकृतियों का बन्ध औदयिक भाव से होता है। (ओदङ्गो भावो। एव याव अणाहरउ त्ति पेदव्व।) अर्थात् जब तक जीव अनाहारक अवस्था प्राप्त नहीं करता है, तब तक औदयिक भाव से कर्म बंधता है। मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व भाव से चारों गतियों का बन्धक होता है। मिथ्यात्व, हुण्डक सस्थान, नपुसकवेद, असप्राप्तासृपाटिका सहनन, एकेन्द्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, साधारण, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु ये १६ प्रकृतियों मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व भाव से बंधती है। ये बन्धव्युच्छिति वाली प्रकृतियों हैं। (महाबन्ध पृ ५, पृ ३७७)

विश्व के सभी प्राणी कर्म-फल में अधिक रुचि रखते हैं। कोई जीव दुःख नहीं चाहता है, सभी सुखी रहना चाहते हैं। किन्तु जीव पुद्गल के आलम्बन से, सस्कार (कर्मादय) के कारण राग-द्वेष, मोह (मिथ्यात्व) भावों को न पहचान कर, उनसे निवृत्त हुए बिना जिन भावों से स्पन्दन किया करता है, उनसे कर्मण पुद्गलों को ग्रहण कर निरन्तर कर्म-बन्ध करता रहता है। वस्तुतः मोहनीय कर्म के उदय से बुद्धि का विपरीत परिणाम होता है। यह अज्ञान तथा अध्यवसान भाव ही बन्ध का मूल कारण है। क्योंकि अपने असली भाव को और मौजूदा भाव को वह नहीं पहचानता है।

‘महाबन्ध’ की द्वितीय, तृतीय पुस्तक में स्थितिवन्ध का प्रतिपादन है। कर्म का मुख्य कार्य जीव को ससार में रोककर रखना है। कर्म-सिद्धान्त की दृष्टि से स्थिति और अनुभाग बन्ध सबसे अधिक-महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि पूर्व शरीर छूटने पर नवीन जन्म की प्राप्ति के पूर्व ही कहीं, किस जन्म को धारण करना है और वहाँ कब तक रहना है, यह सब पहले ही सुनिश्चित हो जाता है। ‘स्थितिवन्ध’ का सामान्य अर्थ है—शरीर में जीव का अमुक समय तक रहना। स्थिति बन्ध के मुख्य चार भेद कहे गये हैं। स्थितिवन्ध तथा अनुभागबन्ध का सामान्य कारण कषाय है। आगम में कषायों के विविध भेदों तथा स्थानों का उल्लेख मिलता है। उनमें से कषाय-अध्यवसान-स्थान दो प्रकार के होते हैं—सक्लेशस्थान और विशुद्धिस्थान। असाता के बन्ध योग्य परिणामों को सक्लेश और साता के बन्ध योग्य परिणामों को विशुद्ध कहा जाता है। ये दोनों प्रकार के परिणाम कषायरूप होने पर भी विभिन्न जाति के हैं। फिर जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से दोनों ही तरह के परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। इनका सामान्य नियम यह है कि तिर्यच-मनुष्य-देवायु के सिवाय सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्कृष्ट सक्लेश परिणामों से होता है, किन्तु विशुद्ध परिणामों से जघन्य स्थितिवन्ध होता है। यहाँ पर विशेष रूपसे उल्लेख योग्य यह है कि ‘महाबन्ध’ में इन परिणामों के सन्दर्भ में ससारी जीवों को दो रूपों में विभक्त कर दिया है—साताबन्धक और असाताबन्धक। दोनों तरह के जीव तीन-तीन प्रकार के होते हैं—चतु स्थान, तृतीय स्थान तथा द्विस्थानबन्धक। साता के चार स्थानों का बन्ध करनेवाले जीव सर्वविशुद्ध होते हैं। त्रिस्थानक बन्ध करनेवाले सक्लेश्चर और द्विस्थानबन्धक जीव उनसे भी अधिक सक्लेश्चर होते हैं। इसी प्रकार साता के उदय में भी जानना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि ‘महाबन्ध’ में सक्लेश और विशुद्धि परिणामों में भेद होने पर भी वे विशेष अर्थ के वाचक हैं जो तारतम्य (रूप अंश) के सूचक हैं।

मोहनीय (दर्शनमोह, मिथ्यात्व) कर्म का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर कोडाकोडी सागर है। इसलिए इसे ज्ञानावरणादि के द्रव्य से बहुत द्रव्य मिलता है। मोहनीय कर्म को जो सर्वधाति द्रव्य मिलता है, उसमें से एक भाग चार सन्वतन कषायों में और दूसरा एक भाग चारह कषायों में तथा मिथ्यात्व में विभक्त हो जाता है। मिथ्यात्व का भाग कषायों और नोकषायों को मिलता है। (“मिच्छत्तस्स भागो कषाय-पाकनाएतु गच्छदि।”—महाबन्ध पु ६, पृ ३०७)

‘महावन्ध’ की चौथी और पाँचवीं पुस्तक में अनुभाग वन्ध का विवेचन है। ‘अनुभाग’ शब्द का अर्थ है—फल देने की शक्ति। जिस कर्म की जितनी फल देने की शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम अनुभागवन्ध है। यह फल निषेको के रूप में मिलता है। प्रकृतिवन्ध की भाँति पाँचवीं पुस्तक में भी स्पष्ट उल्लेख है कि ओषसें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभाग के वन्धक जीवों का कौन भाव है? औदयिक भाव है। (ओषे सव्यपगदीण उक्कत्साणुक्कत्स अणुभाग वंधए त्ति को भावो? ओदइगो भावो।—पृ २२१) मिथ्यात्व सबसे तीव्र अनुभाग वाला है। अनन्तानुबन्धी लोभ का अनुभाग अनन्तगुणा हीन है। यही नहीं, अनन्तानुबन्धी लोभ के अनुभाग से मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। (वही, पृ. २२५) यह भी निवम है कि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का वन्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, नपुसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका निवम से वन्ध करता है। (वही, पृ २)

यह भी कहा गया है कि जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान है वे ही अनुभागवन्धस्थान है। अन्य जो परिणामस्थान है वे ही कषाय उदयस्थान कहे जाते हैं। यह अवश्य है कि जवन्य स्थिति में अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान मिथ्यात्व और सोलह कपायों के सबसे कम तथा उत्कृष्टस्थिति में विशेष अधिक होते हैं। इस विशेषता का उल्लेख भी यहाँ किया गया है कि अप्रशस्त ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों को मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्व के सन्मुख होकर वॉधता है और प्रशस्त ध्रुववन्ध वाली प्रकृतियों को सत्यदृष्टि सत्यत्वके सन्मुख होकर वॉधता है। अतः इनके उत्कृष्ट अनुकृष्ट अनुभागवन्ध के अन्तरकाल का निषेध किया गया है। (वही, पृ ३६६)

यद्यपि सर्वघाती और देशघाती का भेद घातिकर्मों में किया जाता है, किन्तु अघातिकर्मों को घातिप्रतिबद्ध मानकर चतुर्थ पुस्तक में निषेकप्ररूपणा और स्पर्धकप्ररूपणा रूप में दो भेद किये गये हैं। आठों कर्मों के जो देशघातिस्पर्धक कहे गए हैं, उनकी प्रथम वर्णना से लेकर निषेको का विचार किया गया है। प्रत्येक कर्म-परमाणु में अनन्तान्त शकत्वश उपलब्ध होते हैं। अनुभाग के शक्ति-अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अनुभाग में ऐसे कर्म-परमाणुओं का कथन किया जाता है जिनमें समान अविभागप्रतिच्छेद पाए जाते हैं। इन कर्म-परमाणुओं के प्रत्येक वर्ग और उनके समुदाय की वर्णना सज्ञा है। अनुभाग की अपेक्षा एक-एक वर्णना में अनन्तान्त वर्ग होते हैं। इस प्रकार की अनन्तान्त वर्णनाओं का एक स्पर्धक होता है। पहली वर्णना से दूसरी, तीसरी आदि वर्णना के प्रत्येक वर्ग में एक-एक प्रतिच्छेद अधिक होता है। इस प्रकार अन्तिम वर्णना तक जानना चाहिए।

अघातिकर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त रूप से अनुभाग दो प्रकार का है। प्रशस्त अनुभाग अमृत के समान और अप्रशस्त अनुभाग विषके समान माना गया है। क्योंकि घातिकर्मों की सभी प्रकृतियों पापरूप ही होती हैं। सादि-अनादि, ध्रुव-अध्रुववन्धरूप प्ररूपणा की गयी है। इसमें यही विशेष है कि भव्यजीवों में ध्रुववन्ध नहीं होता है। शेष मार्गणाओं में सादि तथा अध्रुववन्ध होता है। स्वामित्वप्ररूपणा के अन्तर्गत प्रत्ययानुगम की अपेक्षा छह कर्म मिथ्यात्वप्रत्यय, असयमप्रत्यय और कपायप्रत्यय होते हैं। ‘महावन्ध’ में वार-वार यह कहा गया है कि औदयिक भाव वन्ध के कारण है। वास्तव में मोह जनित औदयिक भाव ही वन्ध के कारण हैं।

‘महावन्ध’ के छठे और सातवें भाग में प्रदेशवन्ध का विशद वर्णन है। कर्मरूप से परिणत पुद्गल स्कन्धों की संख्याका अवधारण परमाणु रूप से होना कि कितने परमाणु कर्म रूप से परिणत हुए, उसे प्रदेशवन्ध कहते हैं। जीवके सभीय योगस्थानों के द्वारा बहुत प्रदेशों का आगमन होता है। अतः योगस्थान प्ररूपणा के अन्तर्गत दश अनुयोगद्वारों में प्रतिपादन किया गया है। वस्तुतः आठ कर्मों के वन्ध के समय कर्म-परमाणुओं का सबसे अल्प भाग आयुर्कर्म को मिलता है। उससे विशेष अधिक नामकर्म को और उससे भी विशेष अधिक गोत्रकर्म को मिलता है। उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्म को विशेष अधिक भाग मिलता है। उससे भी विशेष अधिक वेदनीय कर्म को मिलता है। यह स्वाभाविक ही है कि जिस कर्म की जैसी स्थिति है, उसे वैसा ही भाग उपलब्ध होता है। मोहनीय का ज्ञानावरणादि के द्रव्य से

वहुत द्रव्य मिलता है। उत्तर प्रकृतियों में कर्म परमाणुओं का वितरण कर्मवन्ध के समय ज्ञानावरणीय कर्म को जो एक भाग मिलता है वह चार भागों में विभक्त होकर अभिनिर्वोधिकज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण और मन पर्ययज्ञानावरण इन चार कर्मों को प्राप्त होता है। इनमें विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि मोहनीय कर्म को उपलब्ध देशघातीय भाग दो भागों में विभक्त हो जाता है—कपाय वेदनीय और नोकपायवेदनीय। कपायवेदनीय का द्रव्य चार भागों में और नोकपायवेदनीय का पाँच भागों में विभक्त हो जाता है। और मोहनीय कर्म को जो सर्वधाति द्रव्य प्राप्त होता है उनमें से एक भाग चार सञ्चलन कपायों में तथा दूसरा एक भाग वारह कपायों में और मिथ्यात्व में विभक्त हो जाता है।

जघन्य और उल्कृष्ट के भेद से प्ररूपणा दो प्रकार की गई है। ओष से सभी प्रकृतियों का उल्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करने वाले जीवों का भाव औदयिक कहा गया है। भावानुगम की अपेक्षा भी ओष से सब प्रकृतियों के भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपद के वन्धक जीवों का भाव भी औदयिक कहा गया है। जो कुल जीवराशि है उसमें सब प्रकृतियों के सम्भव सभी पदों के वन्धकों का विभाग किया जाए, तो कितना भाग किसको मिलेगा, यह विचार भागाभाग में किया गया है। सब पदों के वन्धक जीवों का परिमाण अनन्त कहा गया है। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक और वादर अग्निकायिक जीवों में सब प्रकृतियों का उल्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असख्यातवै भागप्रमाण है। इनमें नरकायु, मनुष्यायु, देवायु का निरन्तर वन्ध सम्भव नहीं है, क्योंकि इनका वन्ध करने वाले अधिक से अधिक असख्यात जीव होते हैं। आयुवन्ध का कुल काल अन्तर्मुहूर्त होने से इनका निरन्तर वन्ध सम्भव नहीं है। सभी प्रकृतियों का उल्कृष्ट प्रदेशवन्ध अपने-अपने स्वामित्व के अनुसार होता है। 'महावन्ध' के सातवें भाग में विस्तार से क्षेत्रप्ररूपणा, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव तथा अल्पबहुत्व के भगों के रूप में विवेचन किया गया है। स्वामित्व में विशेषता यह कही गयी है कि मिथ्यात्व के अवक्तव्यवन्ध का सासादन सम्भवत्त्व से च्युत होकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हुआ है वह जीव स्वामी है। (भाग ७, पृ. २३०)

वन्ध करनेवाले जीवों का सभी लोक क्षेत्र है। तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पद के वन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय, उल्कृष्ट काल आवलि के असख्यातवै भागप्रमाण है। सामान्यत जघन्य अन्तर सभी जीवों का एक समय है किन्तु उल्कृष्ट अन्तर में भिन्नता है। सम्पद्दृष्टि जीव मिथ्यात्व या सासादन को अधिक-से-अधिक सात दिन-रात प्राप्त नहीं होते। भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है जो अनाहारक मार्गणा तक है। मिथ्यादृष्टि असङ्गी जीवों में पचेन्द्रिय जीवों के समान अल्पबहुत्व का भग है। मिथ्यादृष्टि के जो प्रदेशवन्ध स्थान होते हैं उतने को परिपाटी कहते हैं। अवस्थितवन्ध इसलिए कहलाता है कि इस समय जो जीव जिन प्रदेशों को वौघता है उनको अनन्तर (वाद में) पिछले समय में घटाकर या बढ़ाकर वौघे गये प्रदेशों के अनुसार उतने ही वौघता है। अवन्ध के वाद वन्ध होना अवक्तव्यवन्ध कहलाता है। प्राय सभी प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उल्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। कृष्ण, नील, कापोत लेश्या वाले जीव सब लोक में पाये जाते हैं। भव्य जीवों में ओष के समान भग है। अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असङ्गी जीवों में मत्त्वज्ञानी जीवों के समान भग है।

महावन्ध का प्रयोजन—

'महावन्ध' के लेखन का एक मात्र प्रयोजन जीवों को मंजूदा परिस्थिति का ज्ञान कराना है। जीव कित्त प्रकार अपनी कर्तृत् से सत्तार के जेलखाने में पडा है। इस परार्धीनता को जाने बिना कोई स्वन्त्रता का पुरुपार्थ कँते कर सकना है? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि समय, तप, त्याग का मार्ग स्वाधीन होने का उपाय है। आध्यात्मिक जागृति बिना यह सम्भव नहीं है। अत उतका पुरुपार्थ करना चाहिए।

प्राथमिक वक्तव्य

(प्रथम संस्करण, १९५८ में)

महावन्धकी इस सातवीं जिल्दके साथ एक महान् साहित्यिक निधि का प्रकाशन सम्पूर्ण हो रहा है। इसके लिये उसके विद्वान् सम्पादक पं० फूलचन्द्र शास्त्री तथा भारतीय ज्ञानपीठके अधिकारियोंको जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है।

विद्वान् पाठकोंको ज्ञात होगा कि प्रस्तुत महावन्ध आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलीकी अद्वितीय सूत्र-रचना पट्खण्डागमका ही लुटा खण्ड है। इसके पूर्वके पाँच अर्थात् जीवद्वारा, सुहावन्ध, बंधसामित्त, वेदना और वगणा खण्डोंका सम्पादन व प्रकाशन कार्य भी विदिशा निवासी श्रीमन्त सेठ सितानाराय लक्ष्मीचन्द्रजी द्वारा स्थापित जैन-साहित्य उद्धारक ग्रन्थमाला द्वारा सम्पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार पूरा पट्खण्डागम अपनी वीरसेन कृत धवला टीका और आधुनिक हिन्दी अनुवाद सहित १६ + ७ = २३ जिल्दोंमें समाप्त हुआ है जिनकी प्रष्टसंख्या दस हजारसे ऊपर होती है। धवला टीकाकी श्लोक-संख्या परम्परानुसार बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण और महावन्धकी चालीस हजार श्लोक प्रमाण मानी गई है। यदि अधिक नहीं तो इतना ही इस अनुवादका प्रमाण मान लें तो इस पूरी प्रकाशित रचनाका प्रमाण लगभग सवा दो लाख श्लोक प्रमाण हो जाता है। धवलाका प्रथम भाग सन् १९३६ में प्रकाशित हुआ था और अथ सन् १९५८ में उसका अन्तिम सोलहवाँ भाग और महावन्धका अन्तिम सातवाँ भाग प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार गत अठारह-उन्नीस वर्षोंमें जो यह विपुल साहित्य व्यवस्थित रीतिसे प्रकाशित हो सका इसे इस युगकी विशेष साहित्यिक अभिरुचिका ही प्रभाव कहना चाहिये।

जैन तीर्थङ्करों द्वारा उपदिष्ट आचाराङ्ग आदि द्वादशाङ्ग श्रुतके अन्तर्गत जिस बारहवें अङ्ग "दिष्टिवादका समस्त जैन परम्परानुसार लोप हो गया है, उसके एक अंशका अर्थोद्धार आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भगवान् पुष्पदन्त और भूतबलीने "पट्खण्डागम"सूत्रोंके रूपमें किया था। इसी महान् घटनाकी स्मृतिमें ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमीकी तिथि आज तक श्रुतपञ्चमी या ऋषिपञ्चमीके नामसे मनाई जाती है। वर्तमान वीर निर्वाण संवत् २४८४ की श्रुतपञ्चमी इस दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है कि इस वर्षमें वही "पट्खण्डागम"शताब्दियों तक शास्त्रमण्डारमें निरुद्ध रहनेके पश्चात् पुनः प्रकाशमें आया है।

प्राचीन साहित्यके प्रकाशनकी यह सफलता बड़ी सन्तोषजनक है। किन्तु यह समझ बैठना हमारो बड़ी भूल होगी कि इस साहित्यके उद्धारका कार्य परिलप्त हो गया। इन परमागम ग्रन्थों और उनकी टीकाओंके सम्पादन-प्रकाशन कार्यकी प्राचीन साहित्योद्धार कार्यकी प्रथम सीढ़ी कहना उचित होगा। जैसा कि उक्त ग्रन्थ-भागोंकी प्रस्तावनाओंमें हम बारम्बार कह चुके हैं, इनका पाठ-संशोधन सीधा मूल ताडपत्रीय प्रतियों परसे नहीं हुआ, किन्तु उनपरसे की हुई प्रतिलिपियोंके आधारसे ही विशेषतः हुआ है। जो थोड़ा-बहुत मिलान सीधा ताडपत्रीय प्रतियोंसे दूसरोंके द्वारा कराया जा सका है, उससे सम्पादकोंको पूरा सन्तोष नहीं हुआ। तथापि उस थोड़ेसे मिलानके द्वारा ही यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त उपलब्ध ताडपत्र प्रतियों से मिलान कितना आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, मूडबिन्नीमें पट्खण्डागमकी एक सम्पूर्ण और दो खण्डित ताडपत्रीय प्रतियाँ हैं। इनके पाठोंमें भी परस्पर कहीं-कहीं भेद है, जैसा धवला भाग तीनों प्रकाशित पाठान्तरोंसे देखा जा सकता

हैं। सत्प्ररूपाके सूत्र ६३ के पाठके सम्बन्धमें वह उतना मतभेद और बखेड़ा कभी न उत्पन्न होता, यदि प्रारम्भसे ही हमें ताड़पत्रीय प्रतियोंके मिलानकी सुविधा प्राप्त हुई होती और वह सब विवाद तभी समाप्त हो सका, जब हमारे द्वारा अनुमानित पाठका ताड़पत्रीय प्रतियोंसे पूर्णतः समर्थन हो गया। तात्पर्य यह कि जब तक एक वार इस सम्पूर्ण प्रकाशित पाठका ताड़पत्रीय प्रतियों अथवा उनके चित्रोंसे विश्वित् मिलान कर मूलपाठ अङ्कित न कर लिये जायेंगे, तबतक हमारा यह सम्पादन-प्रकाशन कार्य अथूरा ही गिना जायगा और उन मूल प्रतियोंकी आवश्यकता व अपेक्षा वनी ही रहेगी।

पाठ-संशोधन पूर्णतः प्रामाणिक रीतिसे सम्पन्न हो जानेके पश्चात् इन ग्रन्थोंके विशेष अध्ययनकी समस्या सम्मुख उपस्थित होती है। इन ग्रन्थोंका विषय कर्म-सिद्धान्त है जो जैन धर्म और दर्शनका प्राण कहा जा सकता है। यह विषय जितने विस्तार, जितनी सूक्ष्मता, और जितनी परिपूर्णताके साथ इन ग्रन्थोंमें—उनके सूत्रों और टीकाओंमें—वर्णित है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। इसका जो हिन्दी अनुवाद और साथ-साथ थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन व स्पष्टीकरण इस प्रकाशनमें किया जा सका है वह विषय-प्रवेशमात्र ही समझना चाहिये। इस विषयसे हमारा उत्तर-कालीन समस्त साहित्य ओत-प्रोत है। दिग्गम्बर और श्वेताम्बर साहित्यमें समान रूपसे अनेक ग्रन्थोंमें कर्मसिद्धान्तकी नाना शाखाओं और नाना तत्त्वोंका प्रतिपादन पाया जाता है। इस समस्त कर्म सिद्धान्तसम्बन्धी साहित्यका ऐतिहासिक क्रमसे अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे इसके भिन्न तत्त्वों और नाना मतोंका विकास स्पष्ट समझमें आ सके और उसका सर्वांग—सम्पूर्ण व्याख्यान आधुनिक रीतिसे किया जा सके। भारतीय साहित्यमें कर्मसिद्धान्तकी चर्चा इतनी व्यवस्थित रूपमें अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है।

जिन्होंने अपने विपुल दानों द्वारा हार्दिक उत्साहके साथ इन ग्रन्थोंका सम्पादन-प्रकाशन कराया है, हम भली भँति जानते हैं, कि वे साहू शान्ति प्रसादजी और उनकी धर्मपत्नी रमा रानी जी, किसी व्यापारिक बुद्धिसे प्रभावित नहीं हुए, किन्तु शुद्ध धार्मिक और साहित्योद्धारकी भावनासे ही प्रेरित थे। अतएव हम आशा ही नहीं, किन्तु विश्वास भी करते हैं कि वे अपने विशुद्ध और उच्च कार्यके उक्त अवशिष्ट अंशोंपर अवश्य ध्यान देंगे और ऐसी योजना बना देंगे, जिससे वह कार्य निर्विलम्ब प्रारम्भ होकर सन्तोष जनक रीतिसे गतिशील हो जावे।

इस साहित्योद्धारकी जो यह एक मंजिल इस ग्रंथके प्रकाशनके साथ समाप्त हो रही है, उसके लिए हम सूडाभिन्नीके सिद्धान्त वसुदिके भट्टारकजी व अन्य सब अधिकारियों, प्रतिलिपियोंके स्वामियों, सम्पादकों, प्रकाशकों एवं अन्य विद्वानोंको हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस महान् कार्यकी सफलतामें सहयोग प्रदान किया है।

हीरालाल जैन
आ० ने० उपाध्ये
प्रधान सम्पादक

सम्पादकीय

प्रदेशबन्धका मूलप्रकृतिप्रदेशबन्ध और उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्धके चौबीस अनुयोग द्वारोंमेंसे परिमाण अनुयोगद्वार तकका भाग सम्पादन होकर अनुवादके साथ प्रकाशित हुए लगभग तीन माह हुए हैं। उसके कुछ ही दिन बाद उसका शेष भाग सम्पादन होकर अनुवादके साथ प्रकाशित हो रहा है। पूर्व भागके साथ यह भाग भी मुद्रित होने लगा था, इसलिए इसके प्रकाशित होनेमें अधिक समय नहीं लगा है।

पूर्व भागोंके समान इस भागके सम्पादनके समय भी हमारे सामने दो प्रतियाँ रही हैं— एक प्रेस कार्पी और दूसरी ताम्रपत्र प्रति। मूल ताड़पत्र प्रति तो अन्त तक नहीं प्राप्त हो सकी है। इस भागके सम्पादनमें उक्त दोनों प्रतियोंका समुचित उपयोग हुआ है। दोनों प्रतियोंका सहायतासे जिन पाठोंका संशोधन करना सम्भव हुआ उनका संशोधन करनेके बाद भी बहुतसे ऐसे पाठ रहे हैं जो चिन्तन द्वारा स्वतन्त्ररूपसे सुझाए गये हैं। इस प्रकार जितने भी पाठ मूलमें सम्मिलित किये गए हैं उन्हें स्वतन्त्ररूपसे [] ब्रैकेटके अन्दर दिखलाया गया है और जिन पाठोंका संशोधन नहीं हो सका है उन्हें वैसा ही रहने दिया है। अभी तककी जानकारीके अनुसार यही कहना पड़ता है कि मूडबिंदीमें "महाबन्धकी एक ही ताड़पत्र प्रति उपलब्ध है। यह भी अधिक मात्रामें मुद्रित और रखलित है। उसमें भी प्रदेशबन्ध पर स्त्रलनका सबसे अधिक प्रभाव दिखलाई देता है। इस भागमें ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनका यत्किञ्चित् अंश भी शेष नहीं बचा है। स्वामित्व आदिके आधारसे उनकी पूर्ति करना भी सम्भव नहीं था, इसलिए उन्हें हमने मुद्रित स्थितिमें ही रहने दिया है।

महाबन्धकी उपलब्ध हुई ताड़पत्र प्रति कितनी पुरानी है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके अन्तमें अलग-अलग प्रशस्ति उपलब्ध होती है। उन दोनों प्रशस्तियोंसे इतना बोध अवश्य होता है कि सेनकी पत्नी मल्लिकञ्जाने श्री पञ्चमी व्रतके उद्यापनके फलस्वरूप महाबन्धको लिखाकर आचार्य मायनन्दको भेंट किया। इसी आशयकी एक प्रशस्ति प्रदेशबन्धके अन्तमें भी आई है। उसे हम अनुवादके साथ आगे उद्धृत कर रहे हैं। स्थितिबन्ध और प्रदेशबन्धके अन्तमें आई हुई प्रशस्तिमें मेघचन्द्र व्रतपतिका विशेषरूपसे उल्लेख किया है और मायनन्द व्रतपतिको उनके पादकमलोमें आसक्त बतलाया है।

मेरा विचार था कि इन प्रशस्तियोंके आधारसे मैं कुछ लिखूँ। किन्तु वर्तमानमें इस प्रकारका प्रयत्न करना असामयिक होगा, क्योंकि धवला और सम्भवतः जयधवलके अन्तमें पुस्तक दान करनेवालेकी जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है, उसके अनुवादके साथ प्रकाशमें आनेके बाद ही इस पर सर्वाङ्गरूपसे विचार होना उचित प्रतीत होता है।

यह हम पिछले भागोंकी प्रस्तावनामें बतला आये हैं कि स्थितिबन्धके मुद्रित होनेके बाद ही हमें ताम्रपत्र प्रति उपलब्ध हो सकी थी। इसलिए अभी तक उस प्रतिसे स्थितिबन्धका मिलान होकर न तो पाठ-भेद लिए जा सके हैं और न शुद्धि-पत्र ही तैयार हो सका है। प्रकृतिबन्धका सम्पादन और अनुवाद तो हमने किया ही नहीं है, इसलिए उसके सम्बन्धमें हम विचार ही करनेके अधिकारी नहीं हैं। इतना अवश्य ही सकेत कर देना अपना कर्तव्य समझते

हैं कि समस्त "महाबन्ध"का योग्य रीतिसे सम्पादन होकर प्रकाशमें आनेमें जो थोड़ी-बहुत न्यूनता रह गई है उस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रसङ्गसे हम यह आशा करे तो कोई अत्युक्ति न होगी कि समस्त "महाबन्ध"का ताडपत्र प्रतिसे मिलान होनेकी ओर भी भारतीय ज्ञानपीठका ध्यान जायगा। दिगम्बर परम्परामें पट्खण्डागम और कषायप्राप्त मूल श्रुत माने गये हैं, इसलिए इनके प्रत्येक पद और वाक्यकी रक्षा करना दिगम्बर संवका कर्तव्य है।

इस भागके सम्पादनके समय भी हमें श्रीयुक्त पं० रतनचन्द्र मुख्तार और पं० नेमिचन्द्रजी वकील सहारनपुरवालोंने सहायता प्रदान की है, इसलिए हम उनके आभारी हैं।

इस भागकी समाप्तिके साथ "महाबन्ध" समाप्त हो रहा है। अन्य अनेक अङ्कनोके रहते हुए भी इस कार्यको सम्पन्न करनेके अनुकूल हमारा मनोबल बना रहा, यह वीतराग मार्गकी उपासना का ही फल है। वस्तुतः बाह्य साधन सामग्री ऐहिक है। अन्तरङ्गका निर्माण हुए बिना केवल उसकी साधना पारमार्थिक जीवनके निर्माणमें सहायक नहीं हो सकती, यह बात पद-पद पर अनुभवमें आती है। हमें ऐसे गुरुतर कार्यके निर्वाह करनेका सुअवसर मिला और हम उसका समुचित रीतिसे निर्वाह करनेमें सफल हुए, इसके लिए हम अपने भीतर प्रसन्नताका अनुभव करते हैं।

जिन्होंने वीतराग मार्गको जीवनमें उतारकर उसका प्रकाश किया, वे महापुरुष सबके द्वारा तो वन्दनीय हैं ही, किन्तु जो उस मार्ग पर यत्किञ्चित् चलनेका प्रयत्न करते हैं और जो ऐसे कार्यमें समुचित साहाय्य प्रदान करते हैं वे भी अभिनन्दनीय हैं। किमधिकम्।

—फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

अन्तिम प्रशस्ति

श्रीमलधारीमुनीन्द्रपदामलसरसीरुहभृंगनमलिनकिञ्चे ।
प्रेमं मुनिजनकैरवसोमनेनलमाघनंदियतिपति एसेदं ॥१॥

जितपंचेषु^१ प्रतापानलनमलतरौत्कृष्टचारित्रारा-
जिततेजं भारतिभासुरकुचकलशालीढभाभारनलूना-
यत्तारोदारहार^२ समदमनियमालकृतं माघनंदि-
व्रतिनार्थं शारदाश्रीज्ज्वलविशदयशोवल्लरीचक्रवालं ॥२॥

जिनवक्त्रांभोजविनिर्गतहितसुतराद्धान्तकिंजल्कसुस्वा-
दन.....ज-पदसुतभूपेंद्रकोटीरसेना.....
तिनिकायभ्राजितांघ्रिद्वयनखिलजगद्भव्यनीलोत्पलाह्ला-
दनताराधीशने^३ केवलमे भुवनदोल् माघनंदिव्रतीन्द्रम् ॥३॥

श्री मलधारी मुनीन्द्रके निर्मल चरणरूपी कमलमें भौरिके समान सुशोभित होनेवाले,
निर्मल प्रेमी और मुनिजनरूपी कुमुदके लिए चन्द्रमाके समान माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥१॥

जिन्होंने मन्मथको जीत लिया है, जिनकी प्रतापरूपी अग्नि व्याप्त हो रही है, जिनका
तेज निर्मलतर उत्कृष्ट चारित्रसे शोभायमान हो रहा है, जो सरस्वतीके प्रकाशमान कुचरूपी
कलशमें संलग्न है, जो प्रकाशमान हैं, नवीन और दीर्घतर उदार हारस्वरूप है, शम, दम और
नियमसे अलंकृत हैं तथा जो शरत्कालीन मेघके समान उज्ज्वल और विस्तृत यश-समूहसे
विभूषित हैं ऐसे माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥२॥

जो जिनेन्द्रदेवके मुखरूपी कमलसे निकले हुए हितकारी और मान्य सिद्धान्तरूपी कमल
के परागका रसास्वादन करनेमें भौरिके समान हैं, अनेक पृथिवीपति जिनके चरण-कमलोंमें
नमस्कार करते हैं, जिनके पदयुगल अनेक सेनापतियोंके सुकुट-समूहसे सुशोभित हो रहे हैं और
जो समस्त भव्यरूपी नील कमलोंको आह्लादित करनेके लिए चन्द्रमाके समान हैं, ऐसे एकमात्र
माघनन्दि व्रतपति हुए ॥३॥

१ 'नल्कापुनन्वियतिपति नेसेदं' महाबन्ध प्रथक पुस्तक प्रस्तावना पृ० ३६ ।

२. 'जितप्रपंचेषु' स० प्र० पु० प्र० पु० ३६ ।

३ 'यत् सारोदारहार' स० प्र० पु० प्र० पु० ४० ।

४. 'नीलोत्पलांगा द्वताराधीशने' स० प्र० पु० प्र० पु० ४० ।

घरराद्धान्नामृतांभोनिधितरलतरंगोत्करचालितां^१:-
 करणं श्रीमेघचन्द्रव्रतिपतिपदपंकेरुहासक्तपट-
 चरणं तीव्रप्रतापोष्टतविनतवलोपेतपुष्पेषुभृत्सं-
 हरणं सैद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगल्दं माधनंदित्रतीन्द्रम्^२ ॥४॥

श्रीपंचमियं नोतुद्यापनमं^३ माडि चरेसि राद्धान्तमना ।
 रूपवती सेनवधू जितकोपं^४ श्रीमाधनंदिपतिगित्तल्^५ ॥५॥

भद्रं भूयात्, वर्धतां जिनशासनम् ।

जिनका अन्तःकरण श्रेष्ठ सिद्धान्तरूपी अमृतजलनिधिसे तरल तरङ्गकणोंसे प्रचालित हुआ है, जो श्री मेघचन्द्र व्रतिपतिके चरणरूपी कमलमें आसक्त भौरेके समान हैं, जो तीव्र प्रतापी हैं, जिन्होंने विशाल बलशाली कामको जीत लिया है और सैद्धान्तिकोंमें अग्रेसर हैं, ऐसे माधनन्दि व्रतीन्द्र हुए ॥४॥

सिद्धान्तको माननेवाली रूपवती सेनकी पत्नीने श्री पञ्चमी व्रतका उद्यापन कर इस ग्रन्थको लिखवा कर जितकौध माधनन्दि यतिको समर्पित किया ॥५॥

मङ्गल हो, जिनशासनकी वृद्धि हो ।

१. 'स्कट्चालितां' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

२. 'करण श्रीमेघचन्द्रव्रतिपतिपदपंकेरुहासक्तपटपद्' ॥
 'स' ।

चारणं सैद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगल्दं माधनंदित्रतीन्द्रम्^२ ॥४॥ म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

३. 'नोतुद्यापनेय' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

४. 'जितकोप' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

५. 'श्रीमाधनंदिपतिगित्तल्' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

विषयानुक्रमिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
क्षेत्रप्ररूपणा	१-३	स्वानित्त्वानुगम	१०८-१०९
क्षेत्रप्ररूपणाके दो भेद	१	कालानुगम	११०-१११
उत्कृष्ट क्षेत्रप्ररूपणा	१-४	अन्तगानुगम	११२-१४९
वचन्य क्षेत्रप्ररूपणा	५-६	भागामागानुगम	१५०
स्पर्शनप्ररूपणा	७-५८	परिमाणानुगम	१५०-१५२
स्पर्शनप्ररूपणाके दो भेद	७	क्षेत्रानुगम	१५३
उत्कृष्ट स्पर्शनप्ररूपणा	७-४५	स्पर्शानुगम	१५३-१८०
वचन्य स्पर्शनप्ररूपणा	४५-५८	कालानुगम	१८०-१८७
कालप्ररूपणा	५९-६३	अन्तगानुगम	१८८-१९१
कालप्ररूपणाके दो भेद	५९	भाषानुगम	१९१
उत्कृष्ट कालप्ररूपणा	५९-६१	अल्पबहुत्वानुगम	१९१-१९७
वचन्य कालप्ररूपणा	६२-६३	पदविक्षेप	१९७-२२६
भन्तरप्ररूपणा	६३-६४	तीन अनुयोगद्वारोक्त निर्देश	१९७
अन्तःप्ररूपणाके दो भेद	६३	समुक्तीर्तना	१९७-१९८
उत्कृष्ट अन्तःप्ररूपणा	६३-६४	समुक्तीर्तनाके दो भेद	१९७
वचन्य अन्तःप्ररूपणा	६४	उत्कृष्ट समुक्तीर्तना	१९७-१९८
भावप्ररूपणा	६५	वचन्य समुक्तीर्तना	१९८
भावप्ररूपणाके दो भेद	६५	स्वामित्व	१९८-२२५
उत्कृष्ट भावप्ररूपणा	६५	त्वानित्वके दो भेद	१९८
वचन्य भावप्ररूपणा	६५	उत्कृष्ट स्वामित्व	१९८-२२३
अल्पबहुत्वप्ररूपणा	६५-१०७	वचन्य स्वामित्व	२२३-२२५
अल्पबहुत्वप्ररूपणाके दो भेद	६५	अल्पबहुत्व	२२५-२२६
त्वस्थान अल्पबहुत्वके दो भेद	६५	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	२२५-२२६
उत्कृष्ट त्वस्थान अल्पबहुत्व	६५-७५	वचन्य अल्पबहुत्व	२२६
वचन्य त्वस्थान अल्पबहुत्व	७५-८१	अज्ञवन्व वृद्धि आदिके विषयमे सूचना	२२६
परस्थान अल्पबहुत्वके दो भेद	८१	वृद्धिवन्व	२२७-३०१
उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व	८१-९३	तेरह अनुयोगद्वारोक्ती सूचना	२२७
वचन्य परस्थान अल्पबहुत्व	९४-१०५	नसुक्तीर्तना	२२७-२२९
भुजगारवन्व	१०५-१९७	स्वामित्व	२३०-२३५
अर्थपद	१०५	काल	२३५-२३६
तेरह अनुयोगद्वारोक्त निर्देश	१०५		
समुक्तीर्तनानुगम	१०६-१०७		

१ भन्तरकालके अन्तका अर्थ, भंगविषय पूरा और भागामागकी अन्तकी एक पंक्तिको छोड़ कर पूरा भागामाग वृद्धित है ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अन्तर	२३७-२६७	अल्पबहुत्व	३०३-३०६
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	२६७-२६६	जीवसमुदाहार	३०६-३१६
नाना जीवोंकी अपेक्षा भागाभाग	२६६-२७०	दो अनुयोगद्वारोक्ता नामनिर्देश	३०६
नाना जीवोंकी अपेक्षा परिमाण	२७१-२७६	प्रमाणानुगम	३०६-३०८
नाना जीवोंकी अपेक्षा क्षेत्र	२७६-२८१	प्रमाणानुगमके दो अनुयोगद्वार	३०६
नाना जीवोंकी अपेक्षा स्पर्शन	२८२-२८४	योगस्थानप्ररूपणा	३०६-३०७
नाना जीवोंकी अपेक्षा काल	२८५-२६०	प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणा	३०७-३०८
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर	२६१-२६४	जीवसमुदाहारमे अल्पबहुत्व	३०८-३१६
नाना जीवोंकी अपेक्षा भाव	२६५	अल्पबहुत्वके तीन अनुयोगद्वार	३०८
नाना जीवोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व	२६५-३०१	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	३०८-३०६
अध्ययसानसमुदाहार	३०१-३०६	जघन्य अल्पबहुत्व	३०६-३१०
दो अनुयोगद्वारोक्ता नामनिर्देश	३०१	जघन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्व	३१०-३१६
परिमाणानुगम	३०१-३०३	अन्तिम मङ्गलाचरण	३१६

महाबन्धो
चउत्थो पदेशबन्धाहियारो

सिरि-भगवंतभूद्वलिभडारयणीदो

महाबंधो

चउत्थो पदेसवंधाहियारो

खेँत्तपरूवणा

१. खेँत्तं दुविहं-जहण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे०
आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०-वेउव्वियल्ल०-आहार०२-तिन्थ० उक्क० अणु० पदे०वं०
केवडि खेँत्ते ? लोमस्स असंखेँज्जदिभागे । सेसाणं कम्माणं उक्क० पदे०वं० केव० ?
लोमस्स असंखेँ० । अणु० पदे०वं० केव० ? सच्चलोगे । एवं ओघभंगे तिरिक्खोघो
कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि०-कम्मइ०-णानुंस०-कोधादि०४-मटि-मुद०-असंज०-
अचक्खु०-किण्ण०-णील०-काउ०-भवसि०-अ-भवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-
अणाहारग ति ।

क्षेत्रप्ररूपणा

१. क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका
है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिकपट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भाग-
प्रमाण क्षेत्र है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके
असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ?
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तीर्थञ्ज, काययोगी, आँटारिककाययोगी,
औटारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार रूपयावाले, मत्त्वजानी,
श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुद्दर्शनी, कृष्णलेख्यावाले, नीललेख्यावाले, कापोतलेख्यावाले, भय्य, अभय्य,
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपने-अपने न्वामित्तके अनुसार
संज्ञी जीव और तीन आयु आदि बारह प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध किन्हींका असंज्ञी जीव
आदि तथा किन्हींका संज्ञी जीव करते हैं, इसलिये सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले
जीवोंका क्षेत्र और तीन आयु आदिके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके
असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । यद्यपि मनुष्यायुका बन्ध एकेन्द्रिय आदि भी करते हैं, पर ऐसे
जीव असंख्यातसे अधिक नहीं होते और इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाणसे अधिक नहीं
होता, इसलिये इस अपेक्षासे भी उतना ही क्षेत्र कहा है । उक्त बारह प्रकृतियोंके सिवा शेष
प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्वलोक है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका

२. सच्चोरइएसु सच्चपगदीणं उक्क० अणु० पदे०वं० केव० ? लोगस्स असंखे० । सेसाणं पि असंखेज्जरासीणं एवं चेव कादव्वं ।

३. एइंदिएसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-सुहुम०-पज्ज०-अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० केव० ? सच्चलोगे । मणुसाउ० ओघं । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० लोग० असंखे० । अणु० केव० ? सच्चलोगे । सेसाणं उक्क० लोग० संखेज्जदि० । अणु० सच्चलो० । एवं वादरएइंदियपज्जत्तपज्जत्तगाणं । णवरि तससंजुत्ताणं उक्क० अणु० लोग० संखेज्ज० । णवरि मणुसगदि०४ उक्क० अणु० लोग० असंखे० । सच्चसुहुमेसु सच्चपगदीणं उक्क० अणु० सच्चलो० । णवरि मणुसाउ० उक्क० अणु० असंखे० ।

एकेन्द्रियादि अनन्त जीव बन्ध करते हैं और वे वर्तमानमे सर्व लोकमे पाये जाते हैं। यहाँ सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाँ गिनाई है, उनमे बन्धको प्राप्त होनेवाली अपनी-अपनी प्रकृतियोंके अनुसार यह क्षेत्र प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमे ओषके समान क्षेत्रके जाननेकी सूचना की है।

२. सब नारकियोंमे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। शेष असंख्यात संख्यावाली राशियोंमे इसी प्रकार क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए।

विशेषार्थ—सब नारकी और यहाँ निर्दिष्ट अन्य मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है।

३. एकेन्द्रियोंमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है। मनुष्यायुका भंग ओषके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्वलोक क्षेत्र है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। उसमे भी इतनी और विशेषता है कि मनुष्यगतिचतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। सब सूक्ष्म जीवोंमे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोकप्रमाण क्षेत्र है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है।

४. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ० सव्वपगदीणं उक्क० लोग० असंखे० । अणु० सव्वलो० । णवरि वादरेसु सुहुमसंजुत्ताणं उक्क० लोग० असंखे० । अणु० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं उक्क० अणु० लोगस असंखे० । वादरपज्जत्ताणं पंचिदियअपज्जत्तभंगो । वादरअपज्जत्ताणं एइंदियसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सव्वलो० । सेसाणं उक्क० अणु० लोग० असंखे० । एवं वाउकाइगस्स वि । णवरि यम्हि

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुदातके समय वादर एकेन्द्रिय जीवोंके और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सव्व एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र कहा है। मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है, यह स्पष्ट ही है। विशेष सुलासा ओघप्ररूपणाके समय कर आये हैं। एकेन्द्रियोंमें मनुष्यगतिद्विक और उषगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अनन्त जीव करते हुए भी वे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रमें ही पाये जाते हैं, इसलिए यह क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है, पर इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानस्थित सव्व एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए यह क्षेत्र सव्व लोक कहा है। इनके सिवा जो शेष प्रकृतियों बचती हैं उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध, जो वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव स्वस्थान स्थित हैं उन्हींके होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानगत सव्व एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए यह क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है। वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें यह क्षेत्र प्ररूपणा अधिकल घटित हो जाती है, इसलिए इसे एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र वादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे जीव जो मनुष्यगतिद्विक और उषगोत्रका बन्ध करते हैं, उनका स्वस्थान स्थित क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही पाया जाता है, क्योंकि वायुकायिक जीव इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते, इसलिए इन तीन मार्गाओमें उक्त तीन प्रकृतियों और मनुष्यायु इन चार प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। पर त्रससंयुक्त अन्य प्रकृतियोंका वादर वायुकायिक जीव भी बन्ध करते हैं, इसलिए उनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवे भागप्रमाण कहा है। सव्व सूक्ष्म जीव सव्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए उनमें मनुष्यायुके सिवा अन्य सव्व प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है। वहाँ भी मनुष्यायुका दोनों पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है।

४ पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक और वादर अग्निकायिक जीवोंमें सव्व प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि वादरोंमें सूक्ष्मसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इनके वादर पर्याप्तकोमें पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है। इनके वादर अपर्याप्तकोमें एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है और शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विवेकता है कि जहाँ लोकके असंख्यातवे भाग-

लोगस्स असंखेँ० तम्हि लोगस्स संखेँज्ज० । सन्ववण्णप्फदि-णियोद० एहंदिमंगो ।
णवरि यम्हि लोगस्स संखेँज्ज० तम्हि लोगस्स असंखेँ० । वादरपत्ते० पुढविमंगोऽ ।

प्रमाण क्षेत्र कहा है वहाँ लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए। सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है वहाँ लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए। वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोमे वादर पृथिवीकायिक जीवोके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि तीनमे और वादर पृथिवीकायिक आदि तीनमे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध वादर पर्याप्तक जीव करते है, इसलिए इनमें सामान्यसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है, क्योंकि इनके पर्याप्तकोका क्षेत्र स्वस्थान और समुद्घात दोनो प्रकारसे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इनमे सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सबके सम्भव है और पृथिवीकायिक आदि तीनका सर्व लोक क्षेत्र है, इसलिए इन मार्गणाओमे सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है। मूलमे यह क्षेत्र सामान्यसे छहो मार्गणाओमें कहा है, इसलिए तीन वादर मार्गणाओमे अपवाद बतलानेके लिए आगे अलगसे विचार किया है। बात यह है कि वादरोका सर्वलोक क्षेत्र मारणान्तिक और उपपाद पदके समय ही बन सकता है, पर ऐसे समयमे इनके त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए तो वादर पृथिवीकायिक आदि तीनमे त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। तथा जैसा कि स्वामित्व अनुयोगद्वारासे ज्ञात होता है वादरोमे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध वादर पर्याप्तक जीव ही करते हैं और इन तीन मार्गणाओमें वादर पर्याप्तक जीवोका क्षेत्र किसी भी अवस्थामे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होता है, इसलिए इनमे सूक्ष्मसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र सर्वलोक प्रमाण कहा है। पञ्चन्द्रिय अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंके दोनो पदोकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका निर्देश-पहले कर आये हैं, वही क्षेत्र यहाँ वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि तीनमे प्राप्त होता है, इसलिए यह प्ररूपणा पञ्चन्द्रिय अपर्याप्तकोके समान जाननेकी सूचना की है। वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि तीन मार्गणाओमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध हो सकता है, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है। पर इनमे त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका प्रदेशबन्ध स्वस्थानमे ही सम्भव है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। वायुकायिक जीव और उनके अवान्तर भेदोंमे पृथिवीकायिक और उनके अवान्तर भेदोंके समान ही क्षेत्रप्ररूपणा घटित कर लेनी चाहिए। पर वादर वायुकायिक और उनके अवान्तर भेदोका क्षेत्र लोकके संख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए वादर पृथिवीकायिक और उनके अवान्तर भेदोंमे जहाँ लोकका असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है वहाँ पर इनमे लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए। सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोका क्षेत्र एकेन्द्रियोंके समान बन जानेसे उनमे एकेन्द्रियोंके समान क्षेत्र प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है। वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक और उनके अवान्तर भेदोंमे वादर पृथिवीकायिक और उनके अवान्तर भेदोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनमें वादर पृथिवीकायिक और उनके

५. जहणए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०—वेउव्वियल्ल०—
आहार०—र-तित्थं जह० अजह० के० ? लोगस्स असंखे० । सेसाणं जह०
अजह० के० ? सव्वलो० । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०—ओरालि०
मि०—कम्मह०—णत्तुंस०—कोधादि०—४—मदि-सुद०—असंज०—अचक्खु०—किण्ण-णील-काउ०—
भवसि०—अ-भवसि०—मिच्छा०—असण्णि०—आहार०—अणाहारग ति ।

६. सेसाणं सव्वाणं संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं सव्वपगदीणं जह० अजह० लोगस्स
असंखे० । एइंदिएसु सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो० । एवरि मणुसाउ० जह०
अजह० लोगस्स असंखे० । एवं सव्वसुहुमाणं ।

अवान्तर भेदोंके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । यहाँ पूर्वोक्त सत्र मार्गणाओमें मनुष्यायुके दोनो पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है ।

५ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रीयिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनवाले, कृष्णलेस्यावाले, नीललेस्यावाले, कापोतलेस्यावाले, भव्य, अमव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—तीन आयु आदिका एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव बन्ध नहीं करते । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय आदिमें भी प्रारम्भकी नौ प्रकृतियोंका असंज्ञी और संज्ञी जीव कदाचित् बन्ध करते हैं और अन्तको तीन प्रकृतियोंमें आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थानवाले तथा तीर्थङ्करप्रकृतिका असंयतसम्यग्दृष्टि आदि पाँच गुणस्थानवाले जीव कदाचित् और कोई-कोई बन्ध करते हैं । यदि उक्त प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले इन सब जीवोंके क्षेत्रका विचार करते हैं तो वह लोकके असंख्यातवे भागसे अधिक प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहाँ ओघसे उक्त सत्र प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । तथा शेष सत्र प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव योग्य सामर्थ्यके सद्भावमें करते हैं और अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । यहाँ मूलमें कही गई सामान्य तिर्यञ्च आदि मार्गणाओमें यह ओघप्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान क्षेत्र प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । मात्र जिन मार्गणाओमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है, उसे ध्यानमें रखकर ही ओघप्ररूपणाके अनुसार वहाँ क्षेत्रप्ररूपणा घटित करनी चाहिए ।

६ शेष सत्र संख्यात और असंख्यात राशिवाली मार्गणाओमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है । एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवों

७. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० ओघभंगो । तसिं चैव वादराणं [वादरपज्जत्ताणं] एइंदियसंजुत्ताणं जह० लोगस्स असंखें० । अज० सच्चलो० । तससंजुत्ताणं जह० अजह० लोगस्स असंखें० । एवं वादरपुढविअपज्जत्तादि०४ । सच्चवणफ्फदि०-णियोदाणं सच्चै चैव भंगो सच्चलोगो० । वादरपज्जत्तपत्ते० वादरपुढविभंगो । एवं एदेण वीजेण णेद्वं । एवं खेंत्तं समत्तं

का क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसी प्रकार अर्थात् एकेन्द्रियोंके समान सब सूक्ष्म जीवोंमें क्षेत्रप्ररूपणा जाननी चाहिए ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि पौंचकां छोड़कर अन्य जितना असंख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं और संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं उनका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके दोना पदवाले जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण जाननेकी सूचना की है । तथा एकेन्द्रियोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें मनुष्यायुको छोड़कर सब प्रकृतियोंके दोनां पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । इनमें मनुष्यायुके दोनां पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भी सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें एकेन्द्रियोंके समान प्ररूपणा वन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है ।

७. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । उन्हींके वादरो व वादर पर्याप्तकोमें एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसी प्रकार वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि चारोंमें जानना चाहिए । सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद् जीवोंमें सब प्रकृतियोंके दोनां पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि चारों मार्गणाओंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके दोनां पदवालोंका क्षेत्र ओघके समान जाननेकी सूचना की है । इन चारोंके वादरोमें एकेन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है और अजघन्य प्रदेशबन्ध मारणान्तिक और उपपाद्पदके समय भी सम्भव है, इसलिए इनमें एकेन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । इनमें त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका बन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए इनके दोनां पदवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि चारोंमें भी इसी प्रकार अर्थात् वादर पृथिवीकायिक आदि चारोंके समान क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए । सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद् जीवोंमें सब लोक क्षेत्र कहनेका कारण स्पष्ट ही है । तथा वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंका भङ्ग वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है, यह भी स्पष्ट है । यहाँ जिन मार्गणाओंका क्षेत्र नहीं कहा है, उसे जाननेके लिए इसी प्रकार इस वीजपदके अनुसार ले जाना चाहिए यह सूचना की है । यहाँ वादर वायुकायिक व उनके अपर्याप्तकोमें लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं कहा है, यह विचारणीय है । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि चारोंका क्षेत्र विलकुल नहीं कहा । शायद इसके लिए अन्तमें 'एवं एदेण वीजेण' इत्यादि सूचना की है । पहले कह आये हैं कि जघन्य प्रदेशबन्ध वायुकायिक जीव तद्भवस्थके प्रथम समयमें जघन्य योग

फोसणपरूवणा

८. फोसणाणुगमेण दुविहं—जहण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-
ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-मणुसग०-
चदुजादि-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-तस-वादर-जस०-उच्चा०-पंचंत० उक्क०
पदे०-बंधगेहि केवडियं खेंत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेंज्जदिभागो । अणु० सव्वलोगो ।
शीणगिद्धि० ३-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु० ४-णुसंज०-पर०-उस्सा०-पज्ज०-धिर-सुभ-
णीचा० उक्क० लोगस्स असंखें० अट्टचोदंस० सव्वलोगो वा । अणु० सव्वलोगो ।
णिहा-पयला-अपच्चक्खाण० ४-क्खणोक्क०-तिरिक्खाउ०-आदाव० उक्क० लोगस्स असंखें०
अट्टचोदंस० । अणु० सव्वलो० । पच्चक्खाण० ४-समचदु०-दोविहा०-सुमग-दोसर-आदे०
उक्क० छ० । अणु० सव्वलो० । दोआउ०-आहार० २ उक्क० अणु० खेंत्तंभंगो ।
मणुसाउ० उक्क० अट्टचो० । अणु० सव्वलो० । दोगदि०-दोआणु० उक्क० अणु०

सहितके होता है, किन्तु ऐसे जीव असंख्यात होते हुए भी बहुत कम होते हैं जो लोकके असंख्यातवें
भागमें ही पाये जाते हैं, अतः लोकका संख्यातवर्गो भाग नहीं कहा । पृथिवीकाधिक आदि चांगे
स्थावरोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान कहा । तथा वादर साम्बन्ध व वादर अपर्याप्तमे जो विज्ञेयता
थी, वह अलगसे खोल दी गयी है ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

स्पर्शानुगम

८. स्पर्शानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो
प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार
संवलन, पुरुषवेद, मनुष्यगति, चार जाति, औद्गारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, असंख्यातासृपादिका-
संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रस, वादर यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन
किया है । त्त्यानगृद्धिप्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद,
परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके
असंख्यातवें भाग प्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिट्टा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, छह नोकपाय, तिर्यश्चायु और
आतपका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-
वाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान,
दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके
कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और आहारकद्विक
का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । दो गति और दो जानुपूर्विका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने

छत्रौदम० । तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-
 उप०-थावर-सुहुम-अपज्ज०-पत्ते०-साधा०-अथिर-असुभ-दूमग-अणादें०-अजस०-णिमि०
 उक्क० लोगस असंखें० सव्वलोगो वा । अणु० सव्वलोगो । उज्जो० उक्क० अट्ट-
 णव० । अणु० सव्वलो० । इत्थि०-चदुसंठा०-पंचसंध० उक्क० अट्ट-वारह० । अणु०
 सव्वलो० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु० वारह० । तित्थि० उक्क० खेंत्तमंगो ।
 अणु० अट्टचौ० ।

त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अवशःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, चार संस्थान और पाँच संहननका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है । चार संवलय और पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नौवें गुणस्थानमें होता है । तथा मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्यगतिके मिथ्यादृष्टि संज्ञी पर्याप्त जीवके होता है । यतः इन सब जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इन सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । इसी प्रकार नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्करप्रकृतिको छोड़कर अन्य सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी एकेन्द्रिय आदि जीव करते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा भी सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । स्थानगृह्णितिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चारों गतिके संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं । असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चारों गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं । तथा परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तीन गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । यत इन जीवोंके इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानस्वस्थानमें, विहारवत्स्वस्थानके समय और मारणात्मिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । निद्रा, प्रचला और छह नोकपायका उत्कृष्ट

६. गिरएसु छद्दस०-चारसक०-सत्तणोक्क० उक्क० खँत्तमं० । अणु० छच्चोदंस० ।

प्रदेशान्ध चारो गतिके पर्याप्तक सम्यग्दृष्टि जीव करते है । अप्रत्याख्यानावरण चारका चारो गतिके असंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्त जीव उक्कट्ट प्रदेशान्ध करते है । तिर्यञ्चायुका चारों गतिके संज्ञो पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उक्कट्ट प्रदेशान्ध करते हैं । तथा आतपका तीन गतिके संज्ञो पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उक्कट्ट प्रदेशान्ध करते हैं । यतः इन जीवोंके इन प्रकृतियोंका उक्कट्ट प्रदेशान्ध स्वस्थान-स्वस्थानके समय और विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, अतः इनका उक्कट्ट प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका दो गतिके संयतासंयत जीव, समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, और सुभग आदि तीनका दो गतिके संज्ञो पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव तथा अप्रशस्त विहायोगति और दुस्वरका दो गतिके संज्ञो पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उक्कट्ट प्रदेशान्ध करते हैं । यतः इन जीवोंके स्वस्थानस्वरथानके समय और मारणान्तिक समुद्घातके समय उक्कट्ट प्रदेशान्ध हो सकता है, अतः इन प्रकृतियोंका उक्कट्ट प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । यहाँ इतना विरोध जानना चाहिए कि अप्रशस्तविहायोगति और दुस्वरका नीचे मारणान्तिक समुद्घात कराते समय तथा ग्रेष प्रकृतियोंका ऊपर मारणान्तिक समुद्घात कराते समय उक्कट्ट प्रदेशान्ध कहना चाहिए । तथा मूलमे स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहा है, फिर भी वह सम्भव है, इसलिए विरोधार्थमे हमने उसका निर्देश कर दिया है । नरकायु, देवायु और आहारकद्विकके दोनो पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है । मनुष्यायुका उक्कट्ट प्रदेशान्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इसका उक्कट्ट प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका दोनो प्रकारका प्रदेशान्ध क्रमसे नारकियोंमे और देवोंमे मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका दोनो प्रकारका प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी तिर्यञ्जगति आदिका उक्कट्ट प्रदेशान्ध सम्भव है । स्वस्थानमे तो यह सम्भव है ही, इसलिए इनका उक्कट्ट प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । देव विहारवत्त्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमे ऊपर मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी उद्योतका उक्कट्ट प्रदेशान्ध करते हैं, इसलिए इसका उक्कट्ट प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय तथा नारकियों और देवोंके तिर्यञ्चो और मनुष्योंमे मारणान्तिक समुद्घातके समय भी खोद्वे आदिका उक्कट्ट प्रदेशान्ध सम्भव है, इसलिए इनका उक्कट्ट प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नारकियों और देवोंमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी वैकृतिकद्विकका उक्कट्ट और अनुकृत प्रदेशान्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनो पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उक्कट्ट प्रदेशान्ध मनुष्य करते हैं, इसलिए इसका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण होनेसे इस क्षेत्रके समान कहा है । तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी इसका अनुकृत प्रदेशान्ध होता है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका अनुकृत प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

६. नारकियोंमे छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकषायोका उक्कट्ट प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुकृत प्रदेशान्ध करनेवाले जीवोंने

दोआउ०-मणुसगदिदुग-तिथि०-उच्चा० उक्क० अणु० खेत्तंभंगो । सेसाणं सच्चपगदीणं उक्क० अणु० छच्चोदंस० । एवं सच्चणेरइयाणं अप्पप्पयो फोसणं णेट्ठवं ।

१०. तिरिक्खेसु पंचणा०-थीणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एहंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंहुं-] वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० लोगस्स असंखे० सच्चलोगो वा । अणु० सच्चलो० । छदंस०-धारसक०-सत्तणोक०-समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० उक्क० छच्चोदंस० । अणु० सच्चलो० । इत्थि० उक्क० दिवडुच्चोदंस० । अणु० सच्चलो० ।

त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्य-गतिद्विक, तीर्थद्वारप्रकृति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब नारकियोंका अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकमें छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पर्याप्त सम्यग्दृष्टि ही करते हैं, इसलिये इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे क्षेत्रके समान कहा है । यद्यपि छठेसे लेकर प्रथम नरक तकके सम्यग्दृष्टि नारकी मरकर मनुष्य होते हैं और इनके मारणान्तिक समुद्रातके समय उक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, पर गेसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागसे अधिक नहीं होता, इतना यहाँ स्पष्ट जानना चाहिए । दो आयुका प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय नहीं होता । मनुष्यगतिद्विक आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय सम्भव होनेपर भी स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग-प्रमाण ही रहता है, इसलिये इन प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा भी स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । अब रहे प्रथम ढण्डकमें कहीं गई प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव और शेष सब प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव सो मारणान्तिक समुद्रातके समय शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तथा मारणान्तिक समुद्रात और उपपादके समय इन सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिये इस अपेक्षासे यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । प्रथमादि पृथिवियोंमें यह स्पर्शन इसी प्रकार घटित होनेसे उसे सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र सामान्य नारकियोंका जहाँ कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ अपना-अपना स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

१०. तिर्यञ्चामे पाँच ज्ञानावरण, स्थानपृथिविक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अयुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश'कीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, चारह कपाय, सात नोकपाय, समचतुरस्रसंस्थान, दोविहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदका

दोआउ० खेचेंभंगो । तिरिक्खाउ०-मणुस०-चदुजादि-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-
छस्संघ०-मणुसाणु०-आदा० [तस-] वादर० उक० खेचेंभंगो । अणु० सच्चलो० ।
दोगादि-दोआणु० उक० अणु० छचौँदिस० । वेउळ्वि०-वेउळ्वि०अंगो० उक० अणु०
वारह० । उजो०-जस० उक० सत्तचौँदिस० । अणु० सच्चलो० ।

११. पंचिदि०तिरिक्ख०३ पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-

उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, त्रस और वादरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आयुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियादि सबके यथासम्भव बंधनेवाली प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धकी अपेक्षा स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है, इसलिए इस स्पर्शनका यहाँ व आगे हम अलग-अलग स्पष्टीकरण नहीं करेंगे । जहाँ विशेषता होगी उसका खुलासा अवश्य करेंगे । पाँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सबी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग और- सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय छह दर्शनावरण आदिका तथा नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय अप्रशस्त विहायोगति और दु स्वरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले तिर्यञ्चोके खीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव होनेसे इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकायु और देवायुका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय नहीं होता, इसलिए इनके दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तिर्यञ्चायुका प्रदेशवन्ध तो मारणान्तिक समुद्रातके समय होता ही नहीं । शेषका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय भी होता है; फिर भी यह स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए इसका भंग क्षेत्रके समान कहा है । दो गति और दो आयुपूर्वीकी अपेक्षा स्पर्शन तथा वैक्रियिकद्विककी अपेक्षा स्पर्शन जिस प्रकार ओष परूपणके समय घटित करके बतलाया है, उसी प्रकार यहाँपर भी घटित कर लेना चाहिए । जो ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते हैं उनके भी उद्योत और यश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

११. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, स्यान्तुद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व,

णुंसं०-गीचा-यंचंत० उक० अणु० लो० असंखं० सव्वलो० । छदंसं०-वारसक०-
हस्सरदि-अरदि-सोग-भय-दु० उक० छच्चोदंसं० । अणु० लो० असंखं० सव्वलो० ।
इत्थि० उक० अणु० दिवडुच्चोदंसं० । पुरिसं०-दोगदि-समचदु०-दोआणु०-दोविहा०-
सुभग-दोसर-आदें०-उच्चा० उक० अणु० छच्चोदंसं० । चदुआउ०-मणुसग०-तिण्णिजादि-
चदुसंठा०-ओरा०अंगो०-छस्संय०-मणुसाणु०-आदा० उक० अणु० लो० असं० ।
तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-थावर-
सुहुम-भजत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादें०-अजस०-णिमि०
उक० अणु० लो० गस्स असं० सव्वलो० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक० अणु०
वारह० । पंचिदि०-तस० उक० खेंत्तंभंगो । अणु० वारहचोदंसं० । उज्जो०-जस० उक०
अणु० सत्तचो० । वादर० उक० खेंत्तंभंगो । अणु० तेरह० ।

अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगात्र और पौंच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका औरसर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, वारह कपाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, दो गति, समचतुरस्रसंस्थान, दो आनुपूर्वा, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा और आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामर्णशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम धारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम जात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादरप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—उक्त तीन प्रकारके तिर्यञ्च स्वस्थान और एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय दोनों अवस्थाओंमें पौंच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इन दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध उपर आनत कल्पतकके देघोंमें

१२. पंचिदि०तिरि०अपञ्ज० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०--
सत्तणोको०-तिरिक्ख०-[एइदि०-]ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-णण०४-तिरिक्खाणु०-
अगु०४-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादें०-
अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० लोगस्स असंखें० सच्चलो०। इत्थि०-पुरिस०-
दोआउ०-[मणुस०-] चटुजा०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-उत्तसंध०-मणुसाणु०-आदा०-
दोबिहा०-तस-सुभग-दोसर-आदें०-उच्चा० उक्क० अणु० खेंत्तभंगो। उज्जो०-जस० उक्क०
अणु० सत्तचौं। वादर० उक्क० खेंत्तभंगो। अणु० सत्तचौदिस०। एवं सच्चअपञ्जत्तायाणं

भारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन जैसा पाँच ज्ञानावरणादिकी अपेक्षा घटित करके बतला आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। तथा आगे तिर्यञ्जगति आदि प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी यह स्पर्शन कहा है सो वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। देवियोंमें भारणान्तिक समुद्रातके समय स्त्रीवेदके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए यहाँ स्त्रीवेदके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। ऊपर आन्त कल्पतक के देवोंमें भारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके पुरुषवेद आदिके दोनों पद सम्भव होनेसे इनकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। चार आयु आदिके दोनों पदवालोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है; क्योंकि चार आयुओंका बन्ध स्वस्थानमें ही होता है और शेष प्रकृतियोंका बन्ध भारणान्तिक समुद्रातके समय होते हुए भी स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागसे अधिक नहीं होता। वैकृत्यादिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन ओषधप्रमाणमे घटित करके बतला आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इसी प्रकार यह स्पर्शन पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसप्रकृतिके अनुत्कृष्ट पदकी अपेक्षा भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। ऊपर एकेन्द्रियोंमें भारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके उद्योत और यशःकीर्तिके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदवालोंका त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। वादरप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह भी स्पष्ट है। तथा नीचे छह राजू और ऊपर सात राजू क्षेत्रके भीतर भारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके वादर प्रकृतिका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है।

१२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुत्कृष्टचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अजादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह लंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका

तसाणं सव्वविगल्लिदियाणं च वादरपुहवि०-आउ०-तेउ०पञ्जत्तयाणं च ।

१३. मणुम०३ पंचणा०-छदंस०-सादा०-बारसक०-छण्णोक०-पंचंत० उक्क० खेंत्तभंगो । अणु० लोगसस असंखे० सव्वलो० । थीणगिद्वि०३-असादा०-मिच्छ०-अण-ताणु०-४-णवुंस०-तिरिख्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण४-तिरिक्खाणु०-अगु०-४-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्ते०-साधार-थिराथिर-सुभासुभ-द्भग०-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा० उक्क० अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० । उज्जो० उक्क० अणु० सत्तचो० । वादर०-जस० उक्क० खेंत्तभंगो । अणु० सत्तचो० । सेसाणं उक्क० अणु० खेंत्तभंगो ।

स्पर्शन किया है । वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय तथा वादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त और वादर अमिकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए । विशेषार्थ—ये पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव स्वस्थान और मारणान्तिक समुद्रात दोनों अवस्थाओंमें पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पदोंका बन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । स्त्रीवेद आदिका यथासम्भव एकेन्द्रिय आदिमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय बन्ध नहीं होता । दूसरे दो आयुओंका तो मारणान्तिक समुद्रातके समय बन्ध होता ही नहीं, इसलिए यहाँ इन स्त्रीवेद आदिके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । उद्योत और यश कीर्तिका स्पष्टीकरण पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी प्ररूपणके समय कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । उद्योतके समान ही वादरका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । वादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है । यहाँपर अन्य जितनी मार्गणाँ गिनाई है उनमें यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है ।

१३. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चारह कपाय, छह नोकपाय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृह्णिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ताउत्कृष्टचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादिय, अयश कीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादर और यश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

१४. देवेसु पंचणा०-थीणागि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अर्णताणु०४-णवुंस०-
तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-
उज्जो०-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ-दूमग-अणादें०-जस०-अजस०-
णिमि०-णीचा०-पंचत० उक्क० अणु० अट्ट-णव० । छदंस०-वारसक०-छण्णोक० उक्क०
अट्टुचों । अणु० अट्ट-णव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-
ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव-दोविहा०-त्तस-सुभग-दोसर-आदें०-तित्थ०
उक्क० अणु० अट्टुचों । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं पेदव्वं ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामित्व यथायौग्य
गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके वन जाता है और इन जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण
है । क्षेत्र भी इतना ही है, अत इन कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके
समान कहा है । मनुष्यत्रिकमें एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके भी इन कर्मोंका
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके
असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । स्थानगृद्धित्रिक आदि प्रकृतियोंका भी
दोनों प्रकारका वन्ध इसी प्रकार एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घातके समय वन जाता है, इसलिए
इनका दोनों प्रकारका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवे भाग और
सर्वलोकप्रमाण कहा है । उद्योतकी अपेक्षा दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पहले
पञ्चन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें घटित करके बतला आये है, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए ।
मात्र वहाँ यश.कीर्ति प्रकृतिको उद्योतके साथ गिनाकर स्पर्शन कहा है । पर मनुष्यत्रिकमे इसका
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध गुणस्थान प्रतिपन्न जीव करते हैं, इसलिए इनमे इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध
करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है । वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध
करनेवाले जीवोंका भी इतना ही स्पर्शन वनता है, इसलिए यहाँपर यश.कीर्तिको वादर प्रकृतिके
साथ सम्मिलित कर इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका एक साथ
स्पर्शन कहा है । तथा इन दोनों प्रकृतियोंका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध ऊपर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक
समुद्घात करते समय भी होता है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ
कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । यहाँ गिनाई गई इन प्रकृतियोंके सिवा अन्य जितनी
प्रकृतियों बचती है, उनके दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे
उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है ।

१४ देवोमे पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व,
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,
कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, स्थावर,
वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यश कीर्ति, अयश कीर्ति,
निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने
त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह
दर्शतावरण, वारह कपाय और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने
त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति,
पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति,
त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध

१५. एङ्दिएसु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणो०-
तिरिक्ख०-एङ्दि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-त्रण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-
सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादं०-अजस०-
णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०
ओरा०अंगो०-छस्सबंध०-दोविहा०-तस-चादर-सुभग-दोसर-आदं० उक्क० लोगस्स
संखँज्जदिभागो । अणु० सव्वलोगो । एवं तिरिक्खाउ० । मणुसाउ० उक्क० खँच-
भंगो । अणु० लोगस्स असंखँ० सव्वलोगो वा । मणुसगादिदुग-उच्चा० उक्क०
खँचभंगो । अणु० सव्वलो० । उज्जो०-जस० उक्क० सत्तचो० । अणु० सव्वलो० ।
सेसाणं उक्क० खँचभंगो । अणु० सव्वलो० ।

करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
विहारवत्त्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय बन जाता है, उनका
उन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्शन
कहा है और जिनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय नहीं
बनता, उनका उन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन
कहा है । इन्हीं विशेषताओंको और अपने स्पर्शनको ध्यानमें रखकर देवोंके सब अवान्तर भेदोंमें
स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

१५. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय,
सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर,
हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगात्यानुपूर्वी, अगुरूलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त,
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र
और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग,
छह संहनन, दो विहयोगति, त्रस, वादर, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार
तिर्यञ्चयुकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यश कीर्तिका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें वादर पर्याप्त जीव ही सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते

१६. वादर-पञ्जापञ्जाण^१ एङ्दियसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सच्चलो० ।
इत्थि०-पुरिस०-तिरिक्खाउ०-चदुजादि-पंचसंठा०-ओगलि०-अंगो०-छस्संध०-आदाव-
दोविहा०-तस- [वादर-] सुभग-दोसर-आदं० उक्क० अणु० लोगस्स संखेंज्जदिभागो ।
मणुसाउ०-मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० अणु० लोगस्स असंखें० । सच्चसुहुमाणं

हैं, पर अन्य एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी ये जीव पाँच ज्ञानावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं और उनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सब एकेन्द्रियोंके होता है, इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। खीवेद आदि छव्वीसका, मनुष्यगति आदि तीनका, उद्योत आदि दोका और जिन प्रकृतियोंका यहाँ नाम निर्देश नहीं किया है, उनका भी सब एकेन्द्रिय जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए इनमे इन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा खीवेद आदि छव्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोमें वादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीव करते हुए भी इनका सब प्रकारका स्पर्शन लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। इनमे तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन खीवेद आदिके समान घटित हो जानेसे यह उनके समान कहा है। मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध यद्यपि अभिनकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोड़कर सब एकेन्द्रिय जीव करते हैं, पर ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण बन जानेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। एक साथ एकेन्द्रिय जीव यदि मनुष्यायुका बन्ध करे तो असंख्यात जीव करेगे और उस समय यदि इनका क्षेत्रस्पर्शन देखा जाय तो वह लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण ही प्राप्त होगा, इसलिए तो यह उक्त प्रमाण कहा है और इस तरह यदि अतीत कालीन सब स्पर्शनका योग किया जाय तो वह सर्व लोकगत हो जानेसे उक्त प्रमाण कहा है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यो तो सब एकेन्द्रिय वादर पर्याप्त जीव उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं, पर ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवै भागसे अधिक नहीं होता। हाँ, जो एकेन्द्रिय ऊपर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी इन दो कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है; इसलिए यहाँ इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। यहाँ शेष प्रकृतियोंमें आतप प्रकृति वचती है सो उसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है।

१६ वादर एकेन्द्रिय और उसके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमे एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है। खीवेद, पुषवेद, तिर्यञ्चायु, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, दो विहायो-गति, त्रस, वादर, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवै भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायु, मनुष्यगति मनुष्य-गत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूक्ष्म जीवोंमे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी

सन्वपगदीणं उक्क० अणु० सन्वलो० । णवरि मणुसाउ० उक्क० अणु० लो० असंखे० सन्वलो० ।

१७, पुढवि०-आउ०-तेउ० एंडंदिपगदीणं उक्क० लोगस्स असंखे० मन्व-
लोगो० । अणु० सन्वलो० । सेसाणं तसपगदीणं आदावं च उक्क० लोगस्स असंखे० ।
अणु० सन्वलो० । दोआउ० [एंडंदिप] ओवं । एवं वादरपुढवि०-आउ०-तेउ० ।
बादरपुढवि०-आउ०-तेउ० पज्जत्तयाणं एंडंदिपसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सन्वलो० । तस-
संजुत्ताणं आदावं च उक्क० अणु० लोगस्स असंखे० । एवं वाउकाइयाणं पि । णवरि
यम्हि लोगस्स असंखे० तम्हि लोगस्स संखेज्जदिभागो कादच्चो ।

विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके अमंग्या-
तवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—वादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंमें एकेन्द्रियजाति समुक्त
प्रकृतियोंका दो प्रकारका प्रदेशबन्ध मार्णान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, इसलिए उनके
दोनों पदोंकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । इनमें स्वीट आदिका उत्कृष्ट व अनु-
त्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोंमें समुद्रात करनेवाले जीवोंके नहीं होता । आतपका होकर भी वह
वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें समुद्रात करनेवाले जीवोंके ही होता है और तिर्यञ्चायुका मार्णान्तिक
समुद्रातके समय बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन कर्मोंके दोनों पदवालोंका लोकके अस्यातवे
भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा मनुष्यायु और मनुष्यगति आदि तीनका वायुकायिक जीव
बन्ध नहीं करते, इसलिए यहाँ मनुष्यायु आदि चार कर्मोंके दोनों पदवालोंका लोकके असस्यातवे
भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । सब सत्त्व जीव सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें मनु-
ष्यायुके बिना सब प्रकृतियोंके दोनों पदवालोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनमें
मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन तो लोकके असस्यातवे भागप्रमाण है, पर
अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण वन जानेसे यह वर्तमानकी अपेक्षा लोकके असस्यातवे भागप्रमाण
और अतीतकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण कहा है ।

१७ पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवोंमें एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असस्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । शेष त्रसप्रकृतियोंका और आतपका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असं-
ख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व-
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओंकी अपेक्षा स्पर्शन सामान्य एकेन्द्रियोंके समान
है । इसी प्रकार वादर पृथिवीकायिक, बादर, जलकायिक और वादर अग्निकायिक जीवोंमें जानना
चाहिए । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और वादर अग्निकायिक पर्याप्त
जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका और आतपका उत्कृष्ट और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असस्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँपर लोकके
असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है, वहाँपर लोकके संख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन
करना चाहिए ।

१ आ०प्रती 'लोगस्स असंखे० । अणु० इति पाठः । २ 'तेउ० ओष पद । बादरपुढवि०' इति पाठ ।

१८. वणफ्फदि-णियोदेसु एइंदियभंगो । णवरि यम्हि लोगस्स संखेंअदिभागो तम्हि लोगस्स असंखेंअदिभागो कादब्बो । वादरवणफ्फदि-वादरणियोदणं पज्जत्तापज्जत्ताणं एइंदियपगदीणं उक्क० अणु० सच्चलो० । तससंजुत्ताणं उक्क० अणु० खेंत्तभंगो । उज्जो०-जस० उक्क० अणु० सत्तचो० सच्चवादराणं च । वादर० उक्क० खेंत्तभंगो । अणु० जसगिच्चिभंगो । वादरवणफ्फदिपत्ते० वादरपुढवि०भंगो ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि तीनमे भी वादर पर्याप्त जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए इनमे एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। साथ ही यह बन्ध मारणान्तिक समुद्रान्तके समय भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन भी कहा है। इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन है, यह स्पष्ट ही है। इनमे आतपसहित जेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय नहीं होता, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। यद्यपि आतपका एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, पर ऐसे जीव वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तकोमे ही मारणान्तिक समुद्रात करते हैं, इसलिए इस अपेक्षासे भी उक्त स्पर्शनके प्राप्त होनेमे कोई बाधा नहीं आती। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पृथिवीकायिक आदि सब करते हैं, इसलिए इनके इस पदवालोका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। दो आयुओंकी अपेक्षा जो प्ररूपणा एकेन्द्रियोंमे कर आवे हैं वह यहाँ भी वन जाती है, इसलिए इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। वादर पृथिवीकायिक आदि तीनमे सब प्ररूपणा पृथिवीकायिक आदि तीनके समान घटित हो जाती है, इसलिए इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि तीनमे एकेन्द्रियमयुक्त प्रकृतियोंके दोनो पद मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनो पदोंकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा त्रससंयुक्त और आतपका बन्ध करनेवाले उक्त जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागसे अधिक स्पर्शन किसी भी अवस्थामे सम्भव नहीं है, इसलिए यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। वायुकायिक और उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंमे सब स्पर्शन पृथिवीकायिक और उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंके समान वन जानेसे इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए, यह कहा है। मात्र उनसे इनमे जितनी विशेषता है, उनका अलगसे उल्लेख किया है।

१९ वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमे एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकके संख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है, वहाँ पर लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहना चाहिए। वादर वनस्पतिकायिक और वादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमे एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यश कीर्तिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब वादरोंमे उद्योत और यश कीर्तिका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए। वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन यश कीर्तिके समान है। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमे वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है।

१६. पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि० पंचणाणा०-चदुदंसणा०-सादा०-
चदुसंज०-[जस०-] पंचंत० उक्क० खैत्तभंगो । अणु० अट्टचौं० सव्वलोगो वा । धीण-
गिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-पर०-उत्सा०-पज्ज०-थिर-सुम०-
णीचा० उक्क० अणु० अट्टचौं० सव्वलो० । णिहा-पयला-अपचक्खाण०४-ऊण्णोक्क०
उक्क० अट्टचौंदस० । अणु० अट्टचौंदस० सव्वलो० । पच्चक्खाण०४ उक्क० छचौंदस०
अणु० अट्टचौंदस० सव्वलो० । इत्थिवे०-चदुसंठा०-पंचसंघ० उक्क० अणु० अट्ट-वारह० ।
पुरिस०-पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-तस० उक्क० खैत्तभंगो । अणु० अट्ट-

विशेषार्थ—वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोमे एकेन्द्रियांके समान भङ्ग है, यह स्पष्ट ही है । मात्र एकेन्द्रियोंमे वायुकायिक जीव भी आ जाते हैं जो कि इनसे अलग कायवाले हैं, इसलिए एकेन्द्रियोंमे जहाँ लोकके संख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ इन जीवोमे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन जाननेकी सूचना की है । वादर वनस्पतिकायिक और वादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव होनेसे इनके दोनो पदोंकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । ये जीव त्रस प्रकृतियोंका बन्ध करते समय एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्रात नहीं करते, इसलिए इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अब रही उद्योत, यश.कीर्ति और वादर ये तीन प्रकृतियोंो सो इनके दोनो प्रकारके स्पर्शनका पहले अनेक बार खुलासा कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । इनमेसे उद्योत और यश कीर्ति इन दो प्रकृतियोंका अन्य सब वादरोमे यह स्पर्शन घटित हो जाता है, इसलिए उसे अन्तमे इनके समान जाननेकी सूचना की है । वादर प्रत्येकवनस्पतिकायिक जावोंका भङ्ग वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है, यह स्पष्ट ही है ।

१६ पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, यश.कीर्ति और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ता-नुचरधी चतुष्क, नपुंसकवेद, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और नीचगांत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अपत्यात्याना-वरणचतुष्क और छह नांकपायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, चार संस्थान और पाँच संहननका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुसपवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन और त्रसका

वारह० । दोआउ०-तिणिणजादि-आहारदुर्गं उक्क० अणु० खैत्तभंगो । दोआउ०-आदाव० उक्क० अणु० अट्टचोदिस० । दोमादि-दोआणु० उक्क० अणु० छच्चोदिस० । तिरिक्खसु०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण४—तिरिक्खाणु०-अणु०-उप०-धावर-पत्ते०—अथिर-असुभ-दूभग-अणादें०-अजस०-णिमि० उक्क० लोगस्स असखें० सव्वलो० । अणु० अट्ट० सव्वलो० । मणुस०-मणुसाणु०-तित्थं० उक्क० खैत्तभंगो । अणु० अट्टचो० । एवं उच्चा० । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो [उक्क०] अणु० वारह० । समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदें० उ० छच्चो० । अणु० अट्ट-वारह० । उज्जो-वादर० उक्क० अट्ट-णवचोदिस० । अणु० अट्ट-तेरह० । णवरि वादर० उक्क० खैत्तभंगो । [सुहुम०-अपज०-साधार० पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो ।] एवं चक्खु०-सण्णि ति । कायजोगि० ओधं ।

उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति और आहारकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु और आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, प्केन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, स्थावर, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश क्रीति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असत्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार उच्चगोत्रके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए । वैकियिकशरीर और वैकियिक शरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । समचतुरस्र-संस्थान, दो विहायोगति, सुभग, दो म्वर और आदेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और वादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान है । इसी प्रकार चक्षुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । तथा काययोगी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

१ ता० प्रती 'मणुस० मणुपु (?) ति थ०' आ०प्रती 'मणुस० मणपज० तित्थं' इति पाठः ।

२ ता० प्रती आ० उ० (दे) छच्चो०' आ०प्रती 'आदे० छच्चो०' इति पाठः ।

विशेषार्थ—पञ्चदश्यादि आदि मार्गणाओमें पाँच ज्ञानावणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्शन किया है। इनका क्षेत्र भी इतना ही है, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा विहारवत्त्वस्थान और मारणान्तिकके समय भी इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुकृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्थानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियोंके दोनो पदोंका स्पर्शन ज्ञानावणादिके अनुकृष्ट पदके समान घटित हो जानेसे वह भी त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक प्रमाण कहा है। निद्रा आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इस लिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। निद्रादिकके अनुकृष्टके समान प्रत्याशानावरण चतुष्क और तिर्यञ्जगति आदि इक्कीस प्रकृतियोंके अनुकृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका भी उक्त प्रमाण स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे वह इस स्पर्शनका हम अलगसे ग्राह्यकरण नहीं करेंगे। अन्युत कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीव भी प्रत्याशानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और सासादनसमयगृद्धियोंके मारणान्तिक समुद्रातके समय भी स्त्रीवेद आदि दस प्रकृतियोंके दोनो पदोंका बन्ध सम्भव है, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पुरुषवेदका अतिवृत्तिकरणमें और पञ्चन्द्रियजाति आदि पचचीस नाम प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला दो गतिका जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है, इसलिए इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है, सो यह स्त्रीवेद आदिका स्पर्शन घटित करके घतला आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। दो आयु आदि सात प्रकृतियोंके दोनो पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्ज्यायु, मनुष्यायु और आतपके दोनो पदोंका बन्ध देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी दो गति और दो आयुपूर्वके दोनो पद सम्भव है, इसलिए इनके दोनो पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी तिर्यञ्जगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है। मनुष्यगतिद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन स्वामित्वको देखते हुए लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तथा देवोंके स्वस्थानविहारके समय भी इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। उच्चगोत्रके दोनो पदवालोंका स्पर्शन मनुष्यगति आदिके समान ही बन जानेसे वह उस प्रकार कहा है। नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके भी वैकृतिकद्विकके दोनो पद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदिका देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय और अप्रशस्त विहायोगति तथा दुस्वरका नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय और सासादन जीवोंके

२०. ओरालि० पंचणाणावरणदंडओ ओवं । थीणगिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०-
अर्णताणु०४-गर्वुस० उक्क० लोगस्स असखें० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । णिहा-
पयला-अपच्चक्खाण०४-छण्णोक्क० उक्क० छच्चो० । अणु० सव्वलो० । एवं पच्चक्खाण०४-
[समचदु०-सुभग-दोसर-आदें०] । इत्थि० उक्क० दिवडुच्चोदंस० । अणु० सव्वलो० ।
पुरिस०-तिरिक्खाउ०-मणुस०-चदुजादि-चदुसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-
आदाव०-दोविहा०-तस-वादर० उक्क० खेंत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । दोगदि-दोआणु०
उक्क० अणु० छच्चो० । तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क्क०-हुंड०-वण्ण० ४-तिरि-

मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव होनेसे इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और देवोंके एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और वैक्रियिककाययोगी जीवोंके मारणान्तिक समुद्घातके समय इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। वादर-प्रकृतिका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन उद्योतके अनुत्कृष्टके समान ही घटित कर लेना चाहिए। तथा इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। सूक्ष्म आदिका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है, यह भी स्पष्ट है। चक्षुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमे उक्त प्रकारसे स्पर्शन घटित हो जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा काययोग एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव होनेसे इसमे ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, अतः ओघके समान जाननेकी सूचना की है।

२० औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। स्थान-गुद्धित्रिक, असातावेदनीय, भिख्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, दो स्वर और आदेयकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए। स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेद, तिर्यञ्चयु, मनुष्य-गति, चार जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस और वादरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ढाँ गति और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-

कखाणु०-अणु०४-थावर-सुहुम-पञ्जतापञ्ज-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-मुभासुभ-दूभग
 अणादें०-अजस०-णिमि०-णीचा० उक्क० लोगरस असखें० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० ।
 [वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु० वारहचौदस० ।] तिणिआउ० तिरिक्खोवं ।
 आहारदुगं तित्थ० खेंत्तभंगो । उज्जो० उक्क० सत्तचौदसं० । अणु० सव्वलो० । जस०
 पुरिस०भंगो ।

गत्यानुपूर्वा, अगुम्लघुचनुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैकियिकशरीर और वैकियिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीन आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है। आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। यशकीर्तिका भङ्ग पुरुषवेदके समान है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिके दोनो पदवालोंका स्पर्शन ओषके समान यहाँ घटित हो जानेमे वह ओषके समान कहा है। स्यानगृद्धि तीन आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव स्वस्थानके समान मार्णान्तिक समुद्रातके समय भी उसका बन्ध करते हैं, इसलिए इस अपेक्षासे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा औदारिककाययोगका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण होनेसे इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। ऊपर आनतकल्प तकके देवोंमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी निद्रा आदि वारह प्रकृतियोंका और चार प्रत्याख्यानावरणका दोनो प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनो पदोंका त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंमे मारणान्तिक समुद्रातके समय ऋषेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा एकेन्द्रियादि सब जीव इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं, अतः इसके इस पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह स्पर्शन कहा हो, वह इसी प्रकार जानना चाहिए। यहाँ पुरुषवेद आदिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके स्वामित्वको देखते हुए इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह क्षेत्रके समान कहा है। दो गति और दो आनुपूर्विके दोनो पदवालोंका त्रसनालीके छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शनका पहले अनेक वार स्पष्टीकरण कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। और इसे दूना कर देनेपर वैकियिकद्विककी अपेक्षा दोनो पदवालोंका स्पर्शन हो जाता है। स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी तिर्यञ्चगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट पदवालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तीन आयुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान और आहारकद्विक व तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे

२१. ओरालियमि० पंचणा०-धीणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अर्णताणु०४-
णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०- तिणिसरीर-हुंड०- वण्ण०४-तिरिक्खाणु०- अणु०४-
धावर-सुहुम- पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-विराथिर-सुमासुभ-दुभग-अणादे०-अज्जम०-
णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० लोमस्स असंवे० । अणु० सच्चलो० । सेमार्ण उक्क०
अणु० खेत्तभंगो ।

२२. वेउन्नियका० पंचणा०-धीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अर्णता ग०
४-णवुंस०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट-नेरह० । छदंस०-वारसक०-छण्णोफ०
उक्क० अट्टो० । अणु० अट्ट-नेरह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंटा०-ओगलि०
अंगो०-छसंप०-दोविहा०-नस-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० अणु० अट्ट-वारह० ।
णवरि पुरिस० उक्क० अट्ट० । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव-तित्थ०-उच्चा०

चौदह भागप्रमाण कहा है । पुरुषवेदकी अपेक्षा जो स्पर्शन कहा है उसी प्रकार यश कीतिरि
अपेक्षा भी स्पर्शन बन जाता है । इमलिए इसका भङ्ग पुरुषवेदके समान कहा है ।

२१. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुद्धितिक, मातानेदनीय,
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति,
तीन शरीर, हुण्डमस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुद्वयचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म,
पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, माधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति,
निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यात
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके एक समय
पूर्व करते हैं, इसलिए इनके इस पदवालोका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।
तथा औदारिकमिश्रकाययोगीका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन होनेसे इनके अनुकृष्ट प्रदेशवालोका
उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तां शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके एक
समय पूर्व संज्ञा पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके
असंख्यातवे भागप्रमाण होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है और इनके अनुकृष्ट प्रदेशवाले जीवोंका
जिसका जो क्षेत्र कह आये हैं वह यहा स्पर्शन घटित हो जानेसे वह भी क्षेत्रके समान
कहा है ।

२२ वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुद्धितिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व,
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेश-
वन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, वारह कपाय और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने-
वाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा
इसका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच सस्थान, औदारिक
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह सहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो म्वर और आदेयके उत्कृष्ट और
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध

उक्क० अणु० अट्टुचौदिस० । तिरिक्ख०—तिणिणिसरीर—हुंड०—वण्ण०४—तिरिक्खाणु०—
अगु०४—उज्जो०—वादर—पज्जत्त—पत्ते०—थिरादितिणियु०—दूमग—अणादें०—णिमि० उक्क०
अट्टु—णव० । अणु० अट्टु—तेरह० । एह्दि०—थावर० उक्क० अणु० अट्टु—णव० ।

२३. वेउव्वियमि०—आहार०—आहारमि०—अवगदवे०—मणपज्ज०—संजद—सामाह०—
छेदो०—परिहार०—सुहुमसंप० उक्क० अणु० खेंत्तमंगो ।

२४. कम्मइ० पंचणाणा०—धीणगिद्धि०३—दोवेद०—मिच्छ०—अणंताणु०४—
णत्तुंस०—णीचा०—पंचंत० उक्क० वारह० । णवरि मिच्छ०पगदीणं उक्क० ऐक्कारह० ।

करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, आतप, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, हुण्डमंरथान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-
गत्यानुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादय और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोगमें विहारवत्त्वस्थानकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है । मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम तेरह वटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्शन है । एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेपर त्रसनाली के कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है । तथा नागक्रियाका तिर्यञ्चो और मनुष्योंमें व देवोंका तिर्यञ्चो और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेपर मिलाकर त्रसनालीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है, इसलिए यहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो स्पर्शन कहा है, वह पूर्वोक्त स्पर्शनका देखकर अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार घटित कर लेना चाहिए । अन्य विशेषता न होनेसे यहाँ हमने उसे अलग-अलग घटित करके नहीं बनलाया है ।

२३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, मनःपर्ययज्ञानी, सयत, सामायिकसंयत, छेत्रोपस्थापनामयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्म-
माप्परायसंयत जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणाओंमें अपना-अपना स्पर्शन लोकके असख्यातवे भागप्रमाण ही है, इसलिए यहाँ अपनी-अपनी प्रकृतियोंके दोनो पदवालोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण प्राप्त होनेसे क्षेत्रके समान कहा है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र भी इतना ही है ।

२४. कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानशुद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नृसंपकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-
वाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम

अणु० सव्वलो० । छद्दंसं०-वारसकं०-सत्तणोकं०-उच्चा० उक्क० छच्चोँ । अणु० सव्वलो० । इत्थि०-चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थं०-दुस्सर० उक्क० वारह० । अणु० सव्वलो० । दोगदि-पंचजादि-तिण्णिसरीर-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-असंप०-वण्ण०-४-दोआणु०-[अणु०-उप०-] तस-थवरादिसत्त-अथिगादिपंच-णिमि० उक्क० खेंत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । देवगादिपंचग० उक्क० अणु० खेंत्तभंगो । समचदु०-पसत्थं०-सुभग-मुस्सर-आदें० उक्क० छच्चोँ । अणु० सव्वलो० । पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिर-सुभ-जस० उक्क० छच्चोँ । अणु० सव्वलो० । एवं आदाउजो० ।

न्यारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-वाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण वारह कषाय, सात लोकपाय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । न्नीवेद चार संस्थान, पाँच मंहनन, अप्रशान्त विहायो-गति और दुत्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण-क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति, पाँच जाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गापाङ्ग, असम्पामान्पटिका संहनन, वर्णचतुष्क, दो आणुपूर्वा, अणुगुल्लयु, उपधात, त्रस और त्यावर आदि सान, अन्धिर आदि पाँच और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । समचतुरन्धसंस्थान, प्रशान्त विहायोगति, सुभग, सुन्दर और आद्रेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । परधात, उच्छ्रान, पर्याम, म्थिर, शुभ और यश कौतिका उत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार आतप और उद्योतके दोनों पदवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वह काम्य काययोगके उक्त प्रमाण स्पर्शनको देखकर घटित कर लेना चाहिए । शेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है—चार्गे गतिके काम्यकाययोगी मंजी जीव पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं । यतः इन जीवोंका स्पर्शन नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुल कुछकम वारह राजप्रामाण प्राप्त होता है, अतः यहाँ यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । मात्र जो मिथ्यादृष्टि जीव न्यानगुद्वित्रिक मिथ्यात्व, अनन्तानु-बन्धीचतुष्क नपुंसकवेद और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, उनका उपर कुछ कम पाँच राजप्रामाण ही स्पर्शन वन सकता है, क्योंकि न तो ऐसे जीव आनतादिकमे उत्पन्न होते हैं और न आनतादिकसे आकर मनुष्यगतिमे ही उत्पन्न होते हैं । अतः यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृ-तियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम न्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । छह दर्शनावरण आदिका नन्यगदृष्टि काम्यकाययोगी ही उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं और ऐसे जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण होता है;

२५. इत्थिवेदेसु पंचणा०-धीणगिद्वि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-
णधुंसं०-पीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट० सव्वलो० । णिहा-पयला-अपचक्खाण०४-
छण्णोक० उक्क० अट्ट० । अणु० अट्ट० सव्वलो० । चदुदंसणा०-चदुसंन० उक्क०
खैंत्तभंगो । अणु० अट्टच्चो० सव्वलो० । पच्चक्खाण०४ उक्क० छच्चो० । अणु० अट्ट०
सव्वलो० । इत्थि०-दोआउ०-चदुसंटा०-पंचमंघ०-आटावुज्जो० उक्क० अणु० अट्ट० ।
पुरिस-मणुस०-ओरालि०-अंगो०-असंप०-मणुसाणु० उक्क० खैंत्तभंगो । अणु० अट्टच्चो० ।
दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ० खैंत्तभंगो । दोगट्टि-दोआणु० उक्क०

अत. यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । ऋग्वेद आदिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन अपने-अपने स्वामित्वको जानकर पाँच ज्ञाना-
वरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालेके समान ही चरित कर लेना चाहिए । दो गति
आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो क्षेत्र कहा है वही यहाँ पर स्पर्शन प्राप्त
है, इसलिये यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । यहाँ देवगतिपञ्चक्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध सम्यग्दृष्टि जीव ही करते हैं, इसलिये इनके दोनों पदवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके
समान कहा है, क्योंकि इन जीवोंका लोकके अमंन्यालय भागसे अधिक स्पर्शन नहीं
प्राप्त होता । सुभगादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव ऊपर त्रसनालीके कुछ कम छह
बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिये यह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार
परवात आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने स्वामित्वके अनुसार
त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण चरित कर लेना चाहिए ।

२६. ऋग्वेदवाले जीवोंसे पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुद्वित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व,
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नृपसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तगयका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और छह नोकपायके उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे
चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चाग दर्शनावरण आंग चाग संव-
लनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर-
नेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम
छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने
त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
ऋग्वेद, दो आयु, चार स्थान, पाँच संहनन, आतप और उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तृपाटिका संहनन, और मनुष्य-
गत्यानुपूर्वका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके दोनों पदवालोका स्पर्शन

१ ता० प्रती 'मिच्छ० मिच्छ० (?) अणताणु० णु०' इति पाठः । २ आ०प्रती 'अट्ट० ।
इत्थि०' इति पाठः । ३ आ० प्रती 'आटाउजो० उक्क०' इति पाठः ।

अणु० छत्रौ० । तिरिक्ख०-पइंदि०-ओगलि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खणु-
अगु०-उप०-थावर-पत्ते०-अथिग-अमुभ-दुभग-अणादें०-अजस०-णिमि० उक्क० लंगस्स
असंखें० सच्चलो० । अणु० अट्ट० सच्चलो० । पंचिदि०-तस० उक्क० खेंत्तमंगो ।
अणु० अट्ट-वारह० । [वेउच्चि०-वेउच्चि०-अगो० उ० अणु० वारहचौदस०] समचदु०-
दोविहा०-सुभग-दोसर-आदें० उक्क० छ० । अणु० अट्टचौ० । पर०-उस्सा०-पज्ज०-
थिर-सुभ० उक्क० अणु० अट्टचौ० सच्चलो० । उज्जो० उक्क० अणु० अट्ट-णव० । वादर०
उक्क० खेंत्तमंगो । अणु० अट्ट-तेरह० । सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क० अणु० लोगम्म
असंखें० सच्चलो० । जस० उक्क० ओघं । अणु० अट्ट-णवचौदस० । एवं पुरिसवेदे
वि । णवग्गि तित्थ० उक्क० खेंत्तमंगो । अणु० अट्टचौ० ।

क्षेत्रके समान है। दो गति और दो अनुपूर्विका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने
त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यञ्चगति, पकेन्द्रिय-
जानि, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसम्भान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका,
अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, प्रत्येक, अग्नियर, अशुभ, दुर्भग, अनाद्य, अयशकीर्ति और
निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके अमस्त्यातव भाग और सर्व
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाली-
के कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पश्चैन्द्रिय-
जानि और त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भाग-
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञापात्रके उत्कृष्ट और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है। समचतुरन्वसम्भान, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके
कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वादरका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने
लोकके असंख्यातव भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। यशकीर्तिका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओषके समान है। तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें तीनों
प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—सौवेदियोंमें जहाँ त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन

२६. णवुंसगे० पंचणा०-थीणगिदि०३-दीवेद०-मिच्छ०-अर्णताणु०४-

कहा है वहाँ देवोंके स्वरथान विहारकी सुगृहतामे जानना चाहिये । अन्य स्पर्शन इसीमे गर्भिन हो जाता है । जहाँ सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ एकेन्द्रियोंमे मागणान्तिक समुद्रान क्राकर यह प्राप्त किया गया है । कहीं उपपादपदकी अपेक्षा भी यह स्पर्शन प्राप्त हो सकता है तो विचार कर लगा लेना चाहिये । जहाँ पूर्वीक दोनो प्रकारका स्पर्शन कहा है, वहाँ उन दोनो विचाराओंको ध्यानमे रखकर वह ले आना चाहिये । त्रसनालीके कुछ कम छद्म बटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन देवोंमे और नारकियोंमे मागणान्तिक समुद्रान करानेमे प्राप्त होता है तो स्वामित्वको देखकर जहाँ जो सम्भव हो वहाँ वह घटित कर लेना चाहिये । पुरुषवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके अमन्यातव्य भागप्रमाण कहनेका कारण यह है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तो अनिवृत्तकरणमे होता है तथा मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नामकर्मकी पंचास प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले सर्वा मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य गतिके जीव करते हैं । दो आयु आदि आठ प्रकृतियोंके दोनो पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह पहले अनेक बार स्पष्ट कर आये हैं । तिर्यञ्चगति आदि एकौस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले दो गतिके सर्वा मिथ्यादृष्टि जीव स्वस्थानमे और एकेन्द्रियोंमे मागणान्तिक समुद्रातके समय उन दोनो पदवालोंमे करने है, इसलिए उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके अमन्यातव्य भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । पञ्चन्द्रियजाति और त्रसके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी मनुष्यगतिके ही समान है, इसलिए उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके अमन्यातव्य भागप्रमाण कहा है । तथा इन दोनो प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और नारकियों व देवोंमे मागणान्तिक समुद्रात करते समय भी सम्भव है, इसलिए उनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम चोदह भागप्रमाण कहा है । नारकियों और देवोंमे मागणान्तिक समुद्रात करते समय वैकल्पिकद्विकके दोनो पद सम्भव है, इसलिए उनके दोनो पदवालोंका त्रसनालीके कुछ कम चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंमे मागणान्तिक समुद्रात करते समय भी मनुष्य और तिर्यञ्च समचतुरन्वसंस्थान आदिका और नारकियोंमे मागणान्तिक समुद्रात करते समय अप्रशक्त विहायगति और दुस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छद्म बटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । सूक्ष्म आदि तीन प्रकृतियोंका दोनो प्रकारका प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्योंके स्वस्थानमे व एकेन्द्रियोंमे मागणान्तिक समुद्रातके समय सम्भव है, इसलिए इनके दोनो पदवालोंका लोकके असल्यातव्य भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । स्त्रीवेदियोंमे शेष जिस स्पर्शनका यहाँ स्पष्टीकरण नहीं किया है उसका पहले अनेकवार स्पष्टीकरण कर आये हैं, इसलिए उसे बर्हासे जान लेना चाहिये । यश कीर्तिके उत्कृष्ट पदवालोंका स्पर्शन ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा देवियोंके विहारके समय और एकेन्द्रियोंमे मागणान्तिक समुद्रातके समय भी इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । पुरुषवेदी जीवोंमे यह स्पर्शन अविकल घटित हो जाता है इसलिए उनमे स्त्रीवेदी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र देवोंमे तीर्थद्वार प्रकृतिका भी बन्ध होता है, इसलिए पुरुषवेदियोंमे इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण वन जानेसे इसकी अलगसे सूचना की है ।

२६ नपुमकवेदी जीवोंमे पाँच ज्ञानावर्ण, स्थानगुद्वित्रिक, दो वेदनाय, मिथ्यात्व, अनन्तानुक-वीचनुष्क, तिर्यञ्चगति भयुक्त प्रकृतियों, नाचगात्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट

तिरिक्खगदिसंजुत्ताणं [णीचा०-पंचंत०] उक्क० लोगस्स असंखेँ० सच्चलो० । अणु० सच्चलो० । णिहा-पयला-अट्ठक०--सत्तणोक०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदें०-उच्चा० उक्क० छ० । अणु० सच्चलो० । चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस० उक्क० खेंत्तंभंगो । अणु० सच्चलो० । [दोआउ०] वेउव्वियल्लक्कं आहारदुगं ओघं । [तिरिक्खाउ०-मणुसाउ०-सुहम-अपज्ज०-साधा० तिरिक्खोघं ।] मणुस०-चदुजादि-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-आदाव०-जस० उक्क० खेंत्तंभंगो । अणु० सच्चलो० । [पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिर-सुभ० उक्क० लोग० असंखेँ० सच्चलो० । अणु० सच्चलो० ।] उज्जो० उक्क० सत्तचोँ० । अणु० सच्चलो० । [तित्थ० खेंत्तंभंगो ।] कोधादि० ४ ओघं ।

प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, सात नोकपाय, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विद्या-योगति, सुभग, दोस्वर, आदेय और उन्नगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार दर्शनावरण, चार संव्वलन और पुरुष-वेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, वैक्रियिकपट्टक और आहारकट्टिकका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, सूत्रम, अपर्याप्त और साधारणका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशारीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रा-प्राप्तपाटिकासंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और यशःक्रीतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कप्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्टप्रदेशबन्ध संज्ञी जीव स्वस्थानमें तो करते ही हैं, पर एकेन्द्रियामे मारणांतिक समुद्रातके समय भी उनके वह सम्भव हैं, इसलिए इनका उत्कृष्टप्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्टप्रदेशबन्ध सब जीवोंके सम्भव है, अतः यह स्पर्शन सर्व लोक-प्रमाण कहा है । आगे भी जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह स्पर्शन कहा है, वह इसी प्रकार जानना चाहिए । निद्रादिकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके म्चामी अलग-अलग जीव बतलाये हैं । उनका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण वन जानसे यहाँ वह उक्त प्रमाण कहा है । चार दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संयत जीवोंमें अलग-

२२. विभंगे० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक्०-
पर०-उस्सा०-पज्जत्त०-थिर-सुभ-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्टुचो० सच्चलो० ।
इत्थि०-पुरिस०-चहुसंठा०पंचसंघ० उक्क० अणु० अट्टु-वारह० । दोआउ०-तिण्णिजादि०
उक्क० अणु० खेत्तमंगो । दोआउ०-आदाव०-उच्चा० उक्क० अणु० अट्टुचो० । णिरयगदि-
दुगं ओषं । तिरिक्खगदिदंडओ उक्क० ओषो । अणु० अट्टुचो० सच्चलो० । मणुसगदि-
दुगं उक्क० खेत्तमंगो । अणु० अट्टु० । देवगदिदुगं उक्क० अणु० पंचचो० । पंचिदि०-
ओगलि०अंगो०-असंपत्त०-तस० उक्क० खेत्तमंगो । अणु० अट्टु-वारह० ।

नामक्रियोम और ऊपर सहस्रार स्वर्गतकके देवोमं मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके वैकि-
यिकद्विकका दोनो प्रकारका प्रदेशबन्ध होता है, इसलिये इनके दोनो पदवालोंका स्पर्शन त्रसनाली
का कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । परघात आदि प्रकृतियोंकी अपेक्षा जो
स्पर्शन ओषमं कह आये है वह यहाँ वन जाता है, इसलिये यह ओषके समान कहा है । देवोमं
विहारचत्त्वस्थानके समय और देवोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी
उद्योत और यश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिये इनके इस पदवाले जीवोंका
त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोमं
विहारदिके समय भी उच्चगात्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिये इसके इस पदवालोंका
स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदे-
शबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है । यह प्रहणणा अभव्य और
मिथ्यादृष्टि जीवोमं अविकल घटित हो जाती है, इसलिये इनमें मत्त्वज्ञानी और ध्रुनाज्ञानी जीवोंके
समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है ।

२३ विभङ्गज्ञानी जीवोमं पाँच ज्ञानाचरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह-
कपाय, सात नोकपाय, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, नीचगोत्र और पाँच अन्तगयका
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग-
प्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । खोवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान और पाँच
मंहनन का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कुछ कम आठ और
कुछ कम चारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और तीन जातिका
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, आतप
और उच्चगात्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कुछ कम आठ
वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगतिद्विकका भङ्ग ओषके समान है ।
तिर्यञ्चगति दण्डकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओषके समान है । तथा इनका
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कुछ कम
आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदे-
शबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन और त्रसका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

१ ना० प्रती 'आउ [श] व०' आ० प्रती 'आउव' इति पाठ ।

२ आ० प्रती 'तस० न्वेचमंगो ।' इति पाठः ।

वेउळ्वि०-वेउळ्वि०अंगो० उक्क० अणु० एक्कारहचोईस० । समचदु०-
पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदें० उक्क० पंचचो० । अणु० अडु-वारह० । उजो०-जस०
उक्क० अडु-णवचो० । अणु० अडु-तेरह० । आपसत्थ०-सुस्सर० उक्क० लुचोई० ।
अणु० अडु-वारह० । वादर० उक्क० खेंत्तमंगो । अणु० अडु-तेरहचो० । सुहुम-
अपज्ज०-साधार० उक्क० अणु० लो० असंखें० सन्वलो० ।

करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेश-
बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । ममचतुरस्रस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुम्बर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेश-
बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ
कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यश कीर्तिका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ
कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रशान्त विहायो-
गति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाली-
का कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादर
प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इसका अनुकृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपयोप्त और माधारणका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असल्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—देवांसं विहारवत्त्वस्थानके समय और मर्केन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके
समय भी पाँच ज्ञानावरणादिके दोनो पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनो पदोंकी अपेक्षा त्रस-
नालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंमें विहार-
वत्त्वस्थानके समय तथा नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुछ कम बारह राजूके भीतर
मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी त्रिवेद आदिके दोनो प्रकारका प्रदेशबन्ध सम्भव है,
इसलिए इनके दोनो पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह
भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकायु, देवायु और तीन जातिका दोनो प्रकारका प्रदेशबन्ध
तिर्यञ्च और मनुष्य ही करते हैं । तथा दो आयुका मारणान्तिक समुद्रातके समय बन्ध नहीं
होता और तीन जातियोंका केवल विकलेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी बन्ध ही
सकता है, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असल्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके
समान कहा है । इन प्रकृतियोंके विषयमें यह अर्थपद आगे व पीछे सर्वत्र लगाकर वहाँ-वहाँका
स्पर्शन जान लेना चाहिए । दो आयु आदि चार प्रकृतियोंका दोनो प्रकारका प्रदेशबन्ध देवोंके
विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका दोनो पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ
कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकगतिद्विकका जो आँधमें स्पर्शन वतलाया

है, वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है। तिर्यञ्जगतिपण्डिकके उक्तप्रदेशोका बन्ध करनेवाले जीवोंका ओघसे लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन बतला आये है। वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थान और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उक्तप्रदेशबन्ध मंडी तिर्यञ्ज और मनुष्य करते हैं। तथा इनके मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी यह सम्भव है। पर इम प्रकारके जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें देवोंके विहारवत्त्वस्थानकी मुख्यता है, इसलिए इनके इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देव और नारकी मारणान्तिक समुद्रातके समय यद्यपि इन दो प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं, पर इस प्रकार प्राप्त होनेवाला स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, अतः विहारवत्त्वस्थानसे प्राप्त होनेवाला स्पर्शन ही यहाँ मुख्यरूपसे विवक्षित किया गया है। ऊपर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी देवगतिद्विकके दोनो पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। यद्यपि मत्त्वज्ञान, श्रुताज्ञान और विभङ्गज्ञान नीचे श्रेयकतक सम्भव हैं, इसलिए यह प्रश्न ही सकता है कि देवगतिद्विकका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच राजूके स्थानमें कुछ कम छह राजू होने चाहिए। पर इसका समाधान यह है कि सहस्रार कल्पके ऊपर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्ज ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उक्त स्पर्शनमें विशेष अन्तर नहीं पडता। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका उक्तप्रदेशबन्ध मंडी तिर्यञ्ज और मनुष्य करते है। तथा द्वीन्द्रियादिकमें यथायोग्य मारणान्तिक समुद्रातके समय भी इनका उक्तप्रदेशबन्ध सम्भव है, पर ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक न होनेके कारण इस प्रकृपाका क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। तथा इनका देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और यथायोग्य नीचे व ऊपर छह-छह राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इन पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नारकियोंमें और ऊपरके सहस्रार कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी वैकिकद्विकके दोनो पदोंका बन्ध सम्भव है, इसलिए इन दोनो पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवगतिद्विककी अपेक्षा जो शंकरामाधान किया गया है, वह यहाँ भी जान लेना चाहिए। सहस्रारकल्पतकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय समचतुरस्रस्थान आदिका उक्तप्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है, सो इसका खुलासा पञ्चेन्द्रियजातिका स्पर्शन बतलाते समय कर आये है, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी उद्योत और यशकीर्तिका उक्तप्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और नीचे छह व ऊपर सात नस प्रकार कुछ कम तेरह राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्रातके समय भी उक्त दो प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इम पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ व

२६. आमिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुगिस०-
जस०-वित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० खैत्तमंगो । अणु० अड्डुचो० । णिटा-पयला-
असादा०-अपच्चक्खणाण०४-छण्णोक्क०-मणुसाउ०-मणुसगदिपंचग० उक्क० अणु०
अड्डुचो० । पच्चक्खणाण०४ उक्क० छच्चो० । अणु० अड्डुचो० । देवाउ०-आहारदुगं
खैत्तमंगो । देवग०४ उक्क० अणु० छच्चो० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-
वण्ण०४-अणु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-गुभामुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-
णिमि० उक्क० छच्चो० । अणु० अड्डुचो० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खड्ग०-

कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अप्रशान्त विहाश्रोगति और दुःस्वप्नका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और नीचे छह राजू और ऊपर छह राजू इस प्रकार कुछ कम वारह राजूके भीतर यथायोग्य पदके रहते हुए भी इनका अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । वादरका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है । तथा इसका अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है सो इनका स्पष्टीकरण उद्योतके अनुल्कष्टके समान कर लेना चाहिए । मूत्सामादिका स्वस्थानमें और प्केन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी दो प्रकारका प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातत्र भाग और सर्वे लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

२६. आभिनियोगिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातवेदनीय, चार संज्वलन पुद्गलवेद, यशःकीर्ति, नीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अमातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, छह नोकधाय, मनुष्यायु और मनुष्यगतिपञ्चकका उल्कष्ट और अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्रिकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगतिचतुष्कका उल्कष्ट और अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चैन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्षचतुष्क, अणुहलचतुष्क, प्रशान्त विहाश्रोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुचर, आदेश, अवश कीर्ति और निर्माणका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि

उवसम० । णवरि खइग० देवगदि०४ खैत्तभंगो ।

३०. संजदासंजदेसु देवाउ०-तित्थ० खैत्तभंगो । सेसाणं उक्क० अणु० छच्चो० ।

३१. असंजदेसु मदि०भंगो । णवरि छदंस०-वारसक०-सत्तणोक्क० उक्क० अट्ठच्चो० । अणु० सन्वलो० । वेउच्चियल्लक्क-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुत्सर-आदो० ओवभंगो । अचक्खु० औघं ।

और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध यथायोग्य दसवें, नौवें और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य करते हैं । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट, अनुकृष्ट या दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है, वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय संयतासंयत जीवोंके प्रत्यात्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे पञ्चेन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र यहाँ संयतासंयत ऐसा नहीं करना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है । यहाँ अवधिदर्शनी आदिमें इसी प्रकार जाननेकी सूचना कर जो ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें विशेषता कही है, उसका कारण यह है कि ज्ञायिकसम्यग्दर्शन मनुष्य ही उत्पन्न करते हैं, अतः ऐसे मनुष्य और ये यदि भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं तो वहाँ उत्पन्न हुए ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य देवगतिचतुष्कका बन्ध करते हैं । ऐसे जीवोंका यदि देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन लिया जाता है तो वह भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें देवगतिचतुष्कका दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

३०. संयतासंयतोमे देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सयतासंयतोके देवायुके सिवा सब प्रकृतियोंका देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा देवायुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता और तीर्थङ्कर प्रकृतिका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध होकर भी मनुष्य ही इसका बन्ध करते हैं, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है ।

३१. असंयतोमे मत्त्वान्नी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकवट्क, समचतुगुससस्थान,

३२. तिणिले० पंचणा०-धीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-
णयुंस०-तिरिक्ख०-एइंदियसंजुत्ताणं णीचा०-पंचंतरा० उक्क० लोग० असंखें०
सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । छइंस०-शरसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ०-
मणुस०-चदुजादि०-समचदु०-ओरालि०अंगो-असंपत्त०-मणुसाणु०-आदाव-पसत्थ०-
[तस०-वादर-] सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० खेंत्तभंगो । अणु० सव्वलो० ।
इत्थि०-चदुसंठा०-पंचसंध-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० छच्चत्तारि-त्रेच्चोइस० । अणु०
सव्वलो० । दोआउ० खेंत्तभंगो । मणुसाउ० उक्क० खेंत्तभंगो । अणु० लोगस्स असंखें०
सव्वलो० । णिरयगदिदुगं वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो० उक्क० अणु० छच्चत्तारि-त्रे

प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुत्वर और आदेयका भङ्ग ओषके समान है । अचजुदर्शनवाले जीवामे ओषके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—असंयतोमं एकेन्द्रियोसे लेकर चतुर्थगुणस्थान तकके जीव नभित हो जाते हैं इसलिए जिन प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे उच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध होता है और जिनका एकेन्द्रियादि जीव भी बन्ध करते हैं, उनकी अपेक्षा यहाँ मत्यजानी जीवोंके समान भङ्ग वन जाता है । मात्र जिन प्रकृतियोंके स्पर्शनमे विशेषता है उनका अलगसे निर्देश किया है । यथा—असंयतोमे छह दर्शनावरण आदिका उच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध असंतसन्धदृष्टि जीव करते हैं और इनका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण है । इसलिए इन प्रकृतियोंका उक्त पदकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा । तथा इनका एकेन्द्रिय जीवोंके भी बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अनुच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । उन्मी प्रकार वैक्रियिकपट्टक आदिका अपनी-अपनी विगोपता जानकर ओषके समान यहाँ स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

३३. तीन लेश्याओमं पाँच ज्ञानावरण. स्त्यानगुद्वित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु-
बन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद और तिर्यञ्चरगति आदि एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियाँ तथा नीचगोत्र और पाँच
अन्तरायका उच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, चारह कपाय, ज्ञात नोकपाय, तिर्यञ्चायु. मनुष्यगति, चार
जाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रामात्पट्टिका संहनन, मनुष्य-
गत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, सुभग, सुत्वर, आदेय और उच्चगोत्रका
उच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । त्रीवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन,
अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने क्रमसे त्रसनालीका
कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
तथा इनका अनुच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
दो आयुओंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका उच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे
भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगतिद्विक, वैक्रियिकशरीर
और वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्गका उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका
कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया

चौदस^० । देवगादिदुर्गं तित्थ^० खैत्तमंगो । पर०-उस्ता०-पञ्ज०-थिर-मुभ० ओधं ।
उज्जो०-जस० उक्क० सत्तचौं० । अणु० सन्वलो० ।

३३. तेउए पंचणा०-थीणसि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-
तिरिक्ख०-एइंदियसंजुत्ताणं णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट-णव० । छदंस०-

देवगतिद्विक तीर्थङ्कर प्रकृतिका भद्र क्षेत्रके समान है । परघात, उच्छ्वाप, पर्याप्त, स्थिर और शुभका भद्र ओषके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात घटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—तीन लेख्यावाले मंडी पञ्चेन्द्रिय जीव स्वस्थानमें और एकैन्द्रियमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध एकैन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है, वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । यहाँ छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते समय लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही स्पर्शन देखा जाता है । कारणका विचार अलग-अलग स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए । कृष्णादि लेख्याओंका स्पर्शन क्रमसे त्रसनालीका कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो घटे चौदह भागप्रमाण उपलब्ध होता है । मारणान्तिक समुद्रातके समय इतने क्षेत्रका स्पर्शन करते समय इनमें स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंका उक्त पदकी अपेक्षा उक्त-प्रमाण स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार नरकगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके दोनों पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । दो आयुओंका दोनों पदोंकी अपेक्षा और मनुष्यायुका उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका स्वस्थानमें ही बन्ध होता है और नरकायु व देवायुका चतुरिन्द्रिय तकके जीव बन्ध नहीं करते । मनुष्यायुका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध एकैन्द्रियादि जीव भी करते हैं पर ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है । यहाँ देवगतिद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भद्र क्षेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि देवगति द्विकका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भवनत्रिकमें यदि मारणान्तिक समुद्रातके समय भी करें तो यह स्पर्शन लोकके अर्धसंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । तथा इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक तो मनुष्य करते हैं । दूसरे नरकमें वद्यपि इसका बन्ध होता है और मारणान्तिक समुद्रातके समय भी इसका बन्ध सम्भव है, फिर भी ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता । यहाँ परघात आदिके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ओषके समान बन जानेसे वह ओषके समान कहा है । यहाँ ऊपर एकैन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम सात घटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

३३. पीतलेख्यामें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुच्छित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ताणु-बन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकैन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियों, नीचगोत्र और पाँच

अपचक्रखाण०४-छण्णोक० उक्क० [अड्ड । अणुक्क०] अड्ड-णव० । पचक्रखाण०४ उक्क० दिवड्डुच्चो० । अणु० अड्ड-णव० । चदुसंज० उक्क० खैत्तभंगो । अणु० अड्ड-णव० । इत्थि०-पुरिस०-चदुसंठा०-ओरा०अंगो-छत्संथ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर०-[उच्चा०] उक्क० अणु० अड्डुच्चो० । एवं मणुसगदिदुगं । दोआउ० उक्क० अणु० अड्डुच्चो० । देवाउ०-आहारदुगं उक्क० अणु० खैत्तभंगो । देवगदि०४ उक्क० अणु० दिवड्डुच्चो० । पंचिदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभगादितिण्णि० उक्क० दिवड्डुच्चो० । अणु० अड्डुच्चो० । नित्थ० उक्क० खैत्तभंगो । अणु० अड्डुच्चो० । एवं पम्माए । णवरि सगफोसणं णादूण णोदव्वं । एवं सुक्काए वि । णवरि पंचणाणावरणादिपढमदंडओ उक्क० खैत्तभंगो । अणु० छच्चोदं । सेसाणं अप्पप्पणो फोसणं णोदव्वं । भवसि० ओवो ।

अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार संव्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुःखर और उखगोत्रका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार मनुष्यगतिदिककी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए । दो आयुका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चैन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस और सुभग आदि तीनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पञ्चलेख्यार्ये भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना स्पर्शन जानकर ले जाना चाहिए । तथा इसी प्रकार शुक्ल-लेख्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथमदण्डकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया

३४. सासणो० पंचणा०—खवदंसणा०—दोवेदो०—सोलसको०^१—अड्डणोको०—
तिरिक्खो०—चदुसंठा०—पंचसंधं०—तिरिक्खाणु०—उजो०—अप्पसत्थं०—दुम्मग-दुस्सर-अणादें०—
णीचा०—पंचंत० उक्क० अणु० अड्ड-वारह० । खवरि दोवेदो० संठाणं संबडणं अप्पसत्थं०
उक्क० अणु० अड्ड०—एँकारह० । दोआउ० मणुसगदिदुगं उच्चा० उक्क० अणु० अड्डचो० ।
देवाउ० खेंचभंगो । देवगदि०४ दोपदा पंचचो० । पंचिदियादिअट्टावीसं० उ०

है । शेष प्रकृतियोंका अपना-अपना स्पर्शन जानना चाहिए । तथा भव्य जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंका देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी उल्कष्ट या अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, उनका उस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण स्पर्शन कहा है । जिनका देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और देवोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी उल्कष्ट या अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, उनका उस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा जिनका मनुष्य और तीर्थञ्च या केवल मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी उल्कष्ट या अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं उनका उस पदकी अपेक्षा कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । यहाँ चार संज्वलनका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवायुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता और आहारकद्रिकका अप्रमत्तादि जीव बन्ध करते हैं, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तीर्थञ्च प्रकृतिका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध मनुष्य करते हैं, इसलिए इसका भी उक्त पदकी अपेक्षा क्षेत्रके समान स्पर्शन कहा है । पीतलेश्यामें यह जो स्पर्शन कहा है वह पद्मलेश्यामें भी वन जाता है । मात्र यहाँ कुछ कम डेढ़ राजूके स्थानमें कुछ कम पाँच राजू स्पर्शन कहना चाहिए । तथा त्रसनालीका कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहना चाहिए । शुक्ललेश्यामें भी इसी प्रकार अपना स्पर्शन जान कर घटित कर लेना चाहिए । मात्र इसमें पाँच ज्ञानावरणादिके उल्कष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ओषके समान होनेसे इनका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान और अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण वन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । भव्योंमें ओषके समान भङ्ग है, यह स्पष्ट ही है ।

३४ सासादनसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, सोलह कपाय, तीर्थञ्चगति, चार संस्थान, पाँच संहनन, तीर्थञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उल्कष्ट और अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि दो वेद, संस्थान, संहनन, और अप्रशस्त विहायोगतिका उल्कष्ट और अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगतिद्रिक और उच्चगोत्रका उल्कष्ट और अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और उच्चगोत्रका उल्कष्ट और अनुल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगति चतुष्पके दो पदवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चोन्द्रियजाति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका उल्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने

१ आ० प्रती 'दोवेदो० सादा० अड्डणोको०' इति पाठः ।

पंचचौं । अणु० अङ्ग-वारह० । णवरि पंचिदि०—[समचदु०] पसत्थ०—तस-सुभग-
सुस्सर-आदें० [उ०] पंचचौं । अणु० अङ्ग-एँकारह० ।

३५. सम्मामि० पंचणाणावरखादिभुवियाणं पदमदंडओ दोवेद०-चउणो-
कणाय० उक्क० अणु० अङ्गचौं । देवगदि०४ खेंत्तमंगो । पंचिदियादिअट्टावीसं
उक्क० खेंत्तमंगो । अणु० अङ्गचौं ।

त्रसनालीके कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सासादनसम्यक्त्वका स्वस्थानविहारकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है । मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है । यहाँ प्रथम दण्डककी अपेक्षा दोनों पदोंका यह स्पर्शन वन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । मात्र दो वेद, चार संस्थान, पाँच महनन और अप्रशस्त विहायोगिका बन्ध एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय नहीं होता, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवोंके विहागवत्सवस्थानके समय भी दो आयु आदिके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है । देवगति चतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं जो कि देवोंमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, अत इन प्रकृतियोंका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ पाँच वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । पञ्चेन्द्रियजाति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके स्वस्थानमे तथा एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ व कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । मात्र पञ्चेन्द्रियजाति आदि निर्दिष्ट कुछ प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रातके समय नहीं होता, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

३५ सम्यगिभय्यादृष्टि जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डककी भुवबन्धवाली प्रकृतियोंका तथा दो वेदनीय और चार नोकपायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति-चतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ देवोंमे विहागवत्सवस्थानके समय भी पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पद

१ ता० आ० प्रत्या 'पदमदंडओ एणुणतीसाए उक्क०' इति पाठः ।

३६. सण्णि० पंचिदियभंगो । असण्णीसु' पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खगदि-एइंदि०संजुत्ताणं याव पीचा०-पंचंत० उक्क० लोगस्स असंखें० सन्वलो० । [अणु० सन्वलो० ।] सेसाणं उक्क० अणु० खैंतभंगो । णवरि उज्जो०-जस० उक्क० सत्तचों । अणु० सन्वलो० ।

३७. आहार० ओघं । अणाहारगेसु पंचणा०-धीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-पर०-उस्सा०-पज्जत्त०-थिर-सुभ-णीचा०-पंचंत० उ० बारह०^३ ।

और पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अनुकृष्ट पद सम्भव है, इसलिए इनका उक्त पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष भद्र क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ प्रथम दण्डककी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बाह्य कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगतिपञ्चक, उद्योग और पाँच अन्तराय। तथा इनमें दों वेदनीय और चार नोकषाय भी सम्मिलित कर लेना चाहिए, क्योंकि इन सब प्रकृतियोंका उकृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके भी सम्भव है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि प्रकृतियाँ ये हैं—पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशीरीर, कामणशीरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अशुक्लधुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, सुभय, सुखर, आश्रय और निर्माण।

३६. संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भद्र है। असंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यङ्गगति और एकेन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियोंमें लेकर नीचगोत्र और और पाँच अन्तरायतककी प्रकृतियोंका उकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंमें लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंमें सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि उद्योत और यशःकीर्तिका उकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंमें त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंमें सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—स्पर्शन रूपाणामे जो पञ्चेन्द्रियोंमें स्पर्शन कह आये है वह संज्ञियोंमें अविकल बन जाता है, इसलिए संज्ञियोंमें पञ्चेन्द्रिय जीव ही पाँच ज्ञानावरणादिका उकृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं और उनका स्वस्थान स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है तथा एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका उकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका एकेन्द्रियादि सब जीव बन्ध करते हैं, इसलिए इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनके सिवा शेष जितनी प्रकृतियाँ हैं, इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है, ऐसा कहनेका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकृतिका दोनों पदोंकी अपेक्षा जो क्षेत्र वतलाया है वह यहाँ स्पर्शन जानना चाहिए। मात्र उद्योत व यशःकीर्तिके स्पर्शनमें क्षेत्रसे विशेषता है, इसलिए इसका उल्लेख अलगसे किया है।

३७. आहारक जीवोंमें ओघके समान भद्र है। अनाहारक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुद्धिद्विक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अमन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, परधात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंमें त्रसनालीका

१. ता० प्रती 'सण्णि [यास... ..य भग। अ] सण्णीसु' इति पाठः ।

२. आ० प्रती 'पचत्त० बारह०' इति पाठः ।

अणु० सव्वलोगो । छदंस०-वारसक०-सत्तणोक०-[उच्चा०] । उक्क० छच्चो० । अणु०^१
सव्वलो० । सैसाणं उ० खेंत्तमंगो । अणु० सव्वलो० । णवरि इत्थि०-चदुसंठा०-
पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० ँकारह० । अणु० सव्वलो० । उज्जो०-जस०
उक्क० छच्चो० । अणु० सव्वलो० । देवगदिपंच० उक्क० अणु० खेंत्तमंगो ।

३८. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० दोआउ०-आहार०२ जह०

कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, बारह कपाय, मात नोकपाय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विरोपता है कि स्त्रीवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिपञ्चका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध चारों गतिके सब्बी जीव करते हैं, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । इस स्पर्शनमें हमे कर्मणकाययोगी जीवोंमें कहे गये स्पर्शनमें दो विरोपताएँ दिखलाई दे रही हैं—एक तो वहाँ 'णवरि' कहकर मिथ्यात्वसम्बन्धी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो यहाँ नहीं कहा है । दूसरे वहाँ परघात, पर्याप्त, स्थिर और शुभ इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो यहाँ त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । इन दो विरोपताओंका क्या कारण हो सकता है, वही यहाँ देखना है । यहाँ ऐसा मालूम पड़ता है कि कर्मणकाययोगमें स्पर्शन कहते समय मिथ्यात्व आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका ऊपर कुछ कम पाँच राजू स्पर्शन विवक्षित रहता है और यहाँ वह कुछ कम छह राजू विवक्षित कर लिया गया है । तथा स्वामित्व प्ररूपणामे परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तीन गतिका सब्बी जीव करता है, इस अभिप्रायको ध्यानमें रखकर कर्मणकाययोगमें इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है, यह कहा है और यहाँपर इनके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी चारों गतिका जीव होता है, ऐसा मानकर स्पर्शन कहा है । इन पाँच ज्ञानावरणादिका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । शेष स्पर्शनका स्पष्टीकरण जैसे कर्मणकाययोगके समय किया है, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । तथा समचतुरस्र संस्थान आदिके सम्बन्धमें जो विरोपता कही है, उसे भी जान लेना चाहिए ।

३८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे दो

१. ता० प्रती 'सत्तणोक० उ० छच्चो० अणु०' आ० प्रती 'सत्तणोक० अणु०' इति पाठः ।

२. आ० प्रती 'सैसाणं खेतमंगो' इति पाठः ।

अजह० केवडियं खैंत्तं फोसिदं ? खैंत्तभंगो । मणुसाउ० जह० लोगसस असखैं०
 सव्वलो० । अजह० अडुचौं० सव्वलो० । दोगदि-दोआणु० जह० खैंत्तभंगो ।
 अजह० छुचौं० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० जह० खैंत्तभंगो । अजह०
 वाग्गह० । तित्थ० जह० खैंत्तभंगो । अजह० अडुचौं० । सेसाणं सव्वपगदीणं जह०
 अजह० सव्वलो० । एवं ओवभंगो कायजोगि-णयुंस०-क्रीधादि०४-मदि-मुद०-
 असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छा०-आहाग्ग ति णेदव्वं । णवरि णयुंस० तित्थ०
 खैंत्तभंगो । मदि-मुद० वेउव्वियल्ल० जह० खैंत्तभंगो । अजह० पगदिभंगो । एवं
 अभवसि०-मिच्छा० ।

आयु और आहारक द्विकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका
 स्पर्शन किया है । उनका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने
 लोकके असंख्यातवै भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेश-
 वन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण
 क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ढो गति और ढो आनुपूर्विका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका
 स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम
 छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैकिकियवत्सर्गिर और वैकिकियवत्सर्गिर
 आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य
 प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम वाग्ग बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका
 स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान
 है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग
 प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले
 जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार ओवके समान काययोगी, नपुसक-
 वेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यजानी, श्रुताजानी, असयत, अचलुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि
 और आहारक जीवोंसे ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नपुसकवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर
 प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा मत्यजानी और श्रुताजानी जीवोंमें वैकिकियवत्सर्गिका
 जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले
 जीवोंका भङ्ग प्रकृतिवन्धके समान है । इसी प्रकार अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना
 चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकायु और देवायुका वन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय नहीं होता । तथा
 आहारकद्विकका वन्ध अप्रमत्तसंयत आदि जीव करते हैं, इसलिए उनका दोनो पदोंकी अपेक्षा
 लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवों-
 का वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण वन
 जानसे यह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवोंके विहारवत्संस्थानके
 समय और गणकेन्द्रियोंके भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम
 आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका
 जघन्य प्रदेशवन्ध क्रमसे अस्ती जीव और प्रथम समयवर्ती तदवस्थ मनुष्य योग्य सामग्रीके
 सद्भावसे करते हैं । यत इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण प्राप्त होता है, अत
 क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध क्रमसे नरकमें ओग देवोंमें मारणान्तिक
 समुद्रातके समय भी सम्भव है, अत इनका इत पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे

३६. गेरइएसु दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-तित्थ०-उच्चा० जह० अजह० खेंत्तमंगो । सेसाणं जह० खेंत्तमंगो । अजह० छ्चोदिं । एवं सच्चणेरइगाणं अप्पप्पणो फोसणं गेदव्वं ।

४०. तिरिक्खेसु ओघं । पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिण्णिसरोर-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरि-क्खणाणु०-अगु०४-थावर-सुदुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूमग-अणादे०-अजस०-णिमि०पीचा०-पंचंत० जह० खेंत्तमंगो । अजह० लोग० असंखें०

चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । वैकिक्रियकदिकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी देवगतिदिकके समान है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध नारकियो और देवोंमे मारणान्तिक समुद्गातके समय भी होता है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देव और नारकी जीव करते हैं, पर पेसे जीव सत्यात ही होते हैं, अतः इसका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । इस ओघपरुवणाके समान काययोगी आदि अन्य मार्गणाओंमें भी स्पर्शन बन जाता है, इसलिए इनमे ओघके समान परुवणा जाननेकी सूचना की है । मात्र देव नपुंसक नहीं होते, इसलिए नपुंसकवेदी जीवोंमे तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे उसकी सूचना अलगसे की है । तथा मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमे वैकिक्रियकपट्टका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवालोंका स्पर्शन भी ओघके समान नहीं बनता, इसलिए उसे प्रकृतिबन्धके समान जाननेकी सूचना की है । तथा अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमे भी मत्यज्ञानीके समान ही स्पर्शन प्राप्त होता है, इसलिए इनमे भी मत्यज्ञानियोके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है ।

३६ नारकियोमे दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब नारकियोमे अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ दो आयु आदिके दोनो पदोंकी अपेक्षा और शेष प्रकृतियोंके जघन्य पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहने का कारण स्पष्ट है । तथा शेष प्रकृतियोंका अजघन्य पद मारणान्तिक समुद्गातके समय भी सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार प्रथमादि सब नरकोंमें अपना-अपना स्पर्शन जानकर वह घटित कर लेना चाहिए ।

४० तिरिक्खोमे ओघके समान भङ्ग है । पञ्चन्द्रियतिरिक्खत्रिकमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिरिक्खगति, एकेन्द्रितजाति, तीन शरीर, हुंडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिरिक्खगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

सञ्जलो० । इत्थि० जह० खैत्तं । अजह० दिवड्डुचो० । पुरिस०-दोगदि-सम०-दोआणु०-
दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उचा० ज० खैत्तं । अज० छचो० । चदुआउ०-मणुस०-
तिण्णिजादिणाम-चदुत्तं०-ओरा०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव० ज० अज०
खैत्तंभंगो । पंचि०-वेउ०-वेउ०अंगो०-तस० ज० खैत्तंभंगो । अज० वारह० । उजो०-
जस० जह० खैत्तंभं० । अजह० सत्तचो० । चादर० जह० खैत्तंभंगो । अजह० तेरह० ।

तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है । खीवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, दो गति, समचतुरन्धसंस्थान, दो आनुपूर्वा, दो विहायंगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदागिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा और आतपका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्ग और त्रसका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमें अपनी सब प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व ओघके समान है । तथा इन प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका ओघसे जो स्पर्शन कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्याणुका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो ओघसे त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है सो यहाँ यह स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण ही जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमे सब प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व यथायोग्य असङ्गी पञ्चेन्द्रिय जीवके होता है और ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । यतः इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोमें क्षेत्र भी इतना ही होता है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । अब रहा सब प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंके स्पर्शनका स्पष्टीकरण सो वह इस प्रकार है—इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोका स्वस्थान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है । इनके इन दोनों अवस्थाओमें पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले उक्त तिर्यञ्चोका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । इनके देवियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय खीवेदका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । ऊपर कुछ कम छह राज्ञ क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय यथायोग्य पुरुषवेद आदि प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

४१. पंचिदि०तिरिक्खअपज्ज० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-भिच्छ०-
सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिणिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-
अगु०४-थावर-सुहुभ-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूमग-
अणादें०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० खेंत्तभंगो । अजह० लोगसस असंखें०
सन्वलो० । उज्जो०-बादर-जस० जह० खेंत्तभंगो । अज० सत्तचों । सेसाणं
सन्वपगदीणं जह० अजह० खेंत्तभंगो । एवं सन्वअपज्जत्तयाणं सन्वविगल्लिंदियाणं
वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वादरवण्णफदिपत्तेय०पज्जत्तयाणं च ।

चार आयु आदिका बन्ध करनेवाले उक्त तिर्यञ्च लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्शन करते हैं, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव मारणान्तिक समुद्घातके समय ऊपर कुछ कम छह और नीचे कुछ कम छह राज्जप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन कर सकते हैं, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । ऊपर वादर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय उद्योत और यश कीर्तिका बन्ध सम्भव है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । नीचे कुछ कम छह राज्ज और ऊपर कुछ कम सात राज्ज क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय वादर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है, अतः इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

४१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयश-कीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यश कीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, वादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकामें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जो स्वामी बतलाया है, उसे देखते हुए इस अपेक्षासे स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्घात आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । उद्योत आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध ऊपर वादर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा पूर्वोक्त सब प्रकृतियोंके सिवा जो स्त्रीवेद, पुत्रवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआहोपाह्न और छह संहनन आदि प्रकृतियों शेष रहती हैं, इनका

४२. मणुस०३ पढमदंडओ पंचिदियतिरिक्खभंगो । सेसाणं पि पंचिदिय-
तिरिक्खभंगो । णवरि केसिं चि वि रज्जू णत्थि । णवरि उज्जो०-वादर०-जसणि०
अजह० सत्तचोद० ।

४३. देवेसु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-
तिरिक्ख०-एइदि०-तिण्णिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-वादर-
पज्जत्त-पत्ते०-थिरादितिण्णियुग०-दूभग-अणादें०-णिमि०-णीचा०-पंचत्त० जह० खेंत्त-
भंगो । अजह० अट्ट-णव० । सेसाणं जह० खेंत्तभंगो । अजह० अट्ट० । दोआउ०
जह० अजह० अट्टचो० । एवं सच्चदेवाणं अप्प्यणो फोसणं षोदच्चं ।

बन्ध यथासम्भव स्वस्थानमें और नारकियो व देवोंके सिवा शेष त्रसोंमें भारणान्तिक समुद्घात
आदि के समय ही सम्भव है । यतः इस प्रकार प्राप्त होनेवाला स्पर्शन लोकके असंख्यातवें
भागसे अधिक नहीं होता, अतः इन प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन
भी क्षेत्रके समान कहा है ।

४२. मनुष्यत्रिकमें प्रथम दण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । शेष प्रकृतियोंका
भङ्ग भी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि किन्हीं भी प्रकृतियोंका स्पर्शन
रज्जुओंमें नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उद्योत, वादर और यशःकीर्तिका अजघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है ।

विशेषार्थ—लब्धपर्याप्तक मनुष्य देवों और नारकियोंमें जाते नहीं और गर्भज मनुष्य
संख्यात होते हैं, इसलिए मनुष्योंमें स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार आयु, तीन गति, चार जाति, चार शरीर,
समचतुरस्रसंस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आयुपूर्वी, दो विहायोगति, आतप, सुभग,
दो स्वर, त्रस, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन
राजुओंमें प्राप्त न होनेसे उसका निषेध किया है । मात्र उद्योत, वादर और यशःकीर्तिका अजघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाले एक मनुष्योंका स्पर्शन राजुओंमें प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसका अलगसे
विधान किया है । शेष कथन सुगम है ।

४३. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात
नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,
अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय, निर्माण,
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन
क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओं का जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार
सब देवोंका अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें दो आयुओंको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध भवके
प्रथम समयसे अपनी-अपनी योग्य सामग्रीके सद्भावमें होता है, इसलिए इनका उक्त पदकी
अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध विहारवत्स्वस्थान और
एकेन्द्रियोंमें भारणान्तिक समुद्घात आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य

४४. एहंदि०-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणफदि-णियोद-सव्ववादराणं च सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो० । णवरि वादरएहंदिण-पज्जात्तापज्ज० जह० लोगस्स संखेंज्ज० । अजह० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं जह० अजह० लोगस्स संखेंज्ज० । मणुसाउ० सव्ववाणं जह० ओघं । अजह० लोगस्स असंखें० सव्वलो० । मणुसगदि-तिगं च जह० अजह० लोगस्स असंखें० । एवं वादरवाउणं वादरवाउ०-अपज्जत्तयाणं च । णवरि मणुसगदिचदुक्कं वज्ज । एवं वादरपुढविकाइगदीणं एहंदिणसंजुत्ताणं जह० लोगस्स असंखें० । अजह० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं जह० अजह० खेंत्तमंगो । सव्ववादराणं उज्जो-वादर०-जस० जह० खेंत्तमंगो । अजह० सत्तचो० । सव्वसुहुमाणं सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो० । णवरि मणुसाउ० जह० अजह० लोगस्स असंखें० सव्वलो० ।

प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम मौवटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रियोंमें भारणान्तिक समुद्रात आदिके समय सम्भव नहीं है, इसलिये उनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका तथा दो आयुओंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । शेष देवोंमें इसीप्रकार अपना-अपना स्पर्शन जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । विशेषता न होनेसे इसका अलग-अलग निर्देश नहीं किया है ।

४४. एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद और सब वादर जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि वादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त व अथर्थात् जीवोंमें जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुका सब जीवोंमें जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतिचतुष्कको जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार वादर वायुकायिक और वादर वायुकायिक अथर्थात् जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर कहना चाहिए । इसीप्रकार वादर प्रथिवीकायिक आदि जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सब वादर जीवोंमें उद्योद, वादर और यश.कौर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब सुद्ध जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४५. पंचिदि०-तस०२ सव्वपगदीणं जह० खँतभंगो । अजह० पगदिफोसणं कादच्चं ।

४६. पंचमण०-तिण्णवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सचणोक० - तिरिक्ख०-एइदि०-ओरा०सरीरं-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-पज्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादें०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० अट्ट० । अजह० लोगस्स असंखें० अट्टचो० सव्वलोगो वा । इत्थि०-पुरिस०- [पंचिदि०-] पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छरसंघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदें० जह० अट्ट० । अजह० अट्ट-वारह० । दोआउ०-तिण्णजादि-आहार०२ जह० अज० खँतभंगो । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव-तित्थि०-उच्चा० जह० अजह०

विशेषार्थ—यहाँ एकैद्रियादि उक्त मार्गणाओमे सब प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व और अपना-अपना स्पर्शन आदि जानकर सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन मूलमे कहे अनुसार घटित कर लेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ उसका अलग-अलग स्पष्टीकरण नहीं किया है ।

४५. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमे सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन प्रकृतिबन्धके समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—चार आयुओंका बन्ध मारणान्तिक समुद्रात आदिके समय सम्भव नहीं और शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध भवके प्रथम समयमें अपनी-अपनी योग्य सामाग्रीके सद्भावमें होता है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा सब प्रकृतियोंका प्रकृतिबन्धके समय जो स्पर्शन प्राप्त होता है, वह यहाँ उनका अजघन्य प्रदेशबन्धकी अपेक्षा बत जाता है, इसलिए उसे प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान जाननेकी सूचना की है ।

४६. पाँचो मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकैन्द्रियजाति, औदारिक-शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश.कीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विद्यायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदियका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम वारहबटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति और आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उन्नगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका

अद्भुचौ० । दोगदि-दोआणु० जह० खैत्तभंगो । अजह० छच्चौ० । वेउच्चि०-वेउच्चि०-
अंगो० जह० खैत्तभंगो । अजह० वारह० । तेजा०-क० जह० खैत्तभंगो । अजह० लोगस्स
असंखै० अद्भु० सव्वलो० । उज्जो०-वादर०-जस० जह० अद्भु । अजह० अद्भु-तेरह० ।
सुहुम-अपञ्ज०साधार० जह० खैत्तभंगो । अजह० लोगस्स असंखै० सव्वलो० ।

स्पर्शन किया है। दो गति और दो आनुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर अद्भोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तैजसशरीर और कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, वादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—उक्त योगोमें पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध देवोंमें विहारवत्त्व-स्थानके समय भी सम्भव है, अतः इस अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग-प्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा स्वस्थान, विहारवत्त्वस्थान और मारणान्तिक समुद्घातके समय इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनका लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। विहारवत्त्व-स्थानके समय स्त्रीवेद आदिका भी जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। आगे जिन प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह स्पर्शन कहा है, वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा विहारवत्त्वस्थानके समय तो इन स्त्रीवेद आदिका अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है ही। साथ ही नारकियों और देवोंके तिर्यञ्चा और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। दो आयु आदिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय भी तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु आदि प्रकृतियोंके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका क्रमसे नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। वैक्रियिकद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें

४७. वचि०-असच्च०वचि० पंचाणावरणादिपदमदंडओ मणजोगिभंगो ।
 णवरि तेजा०-क० सह तेण जहणं खैंत्तभंगो । अजह० अडु० सव्वलो० । विदिय-
 दंडओ मणजोगिभंगो । जह० खैंत्तभंगो । अजह० अडु-वारह० । तदियदंडओ चउत्थ-
 दंडओ मणजोगिभंगो । जह० खैंत्तभंगो । अजह० अडुचौं । [पंचम-छडुदंडओ
 मणजोगिभंगो] । उजो०-वादर-जस० जह० खैंत्तभंगो । अजह० अडु-तेरह० । सुहुम-
 अपज्ज०-साधार० जह० खैंत्तभंगो । अजह० लोगस्स असंखैं० सव्वलो० । तित्थ०

भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवोमे और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदको अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तैजसशरीर और कर्मण शरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते है, इसलिए इनके जघन्य पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा स्वस्थान, विहारवत्त्वस्थान और एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय उद्योत आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवोमे विहारवत्त्वस्थानके समय और नारकियोंमें व एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । सूक्ष्म आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुवन्धके समय ही सम्भव है, इसलिए ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है ।

४७. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानाचरण आदि प्रथम दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डकको तैजस-शरीर और कर्मणशरीरके साथ कहना चाहिए, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाली-का कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । द्वितीय दण्डक भी मनोयोगी जीवोंके समान लेना चाहिए । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तृतीय दण्डक और चतुर्थदण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । मात्र जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चम दण्डक और षष्ठ दण्डक मनोयोगी जीवोंके समान है । उद्योत, वादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाली-का कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

जह० अजह० अड्डुचौं० ।

४८. ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारग ति ओघं । वेउ-
व्वियका० सव्वपगदीणं० जह० खेंत्तभंगो । अजह० अप्पणो पगदिफोसणं
पेदव्वं । दोआउ० जह० अजह० अड्डुचौं० । वेउव्वि०मि०-आहार०-आहारमि०-
अवगद०-मणपज्ज०-संजद-सामाई०-खेदो०-परिहार०-सुहुमसं० खेंत्तभंगो । इत्थि०-पुरिस०
जह० खेंत्तभंगो । अजह० अप्पणो पगदिफोसणं कादव्वं ।

४९. विभंगे पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-
तिरिक्ख०-एहंदि०-तिणिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-पज्जत्त-
पत्ते०-थिरादिदोयुग०-दूभग-अणादं०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० अड्डु० ।
अजह० अड्डु० सव्वलो० । इत्थि०-पुगिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-

तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—इन दोनों योगोंमें पाँच ज्ञानावरणादि जिन प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व द्वीन्द्रिय जीवोंके होता है उन सब प्रकृतियोंका जघन्य पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । शेष स्पर्शन मनोयोगी जीवोंके समान ही है ।

४८. औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें स्व प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान ले जाना चाहिए । दो आयुओंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, खेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि संयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें जघन्यका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणाओमें जहाँ जिसके समान स्पर्शन कहा है उसे देख कर वह घटित कर लेना चाहिए ।

४९. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकैन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि दो युगल, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चैन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर

छस्संधं-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदं० जह० अट्ट० । अजह० अट्ट-वारह० । दोआउ०-तिण्णिजादि० जह० अज० खेंत्तंभंगो । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव-उच्चागोदं० जह० अज० अट्टचो० । गिरय०-गिरयाणु० जह० खेंत्तंभंगो । अजह० छचोदं० । देवगदि-देवाणु० जह० खेंत्तंभंगो । अजह० पंचचो० । वेउन्वि०-वेउन्वि०-अंगो० जह० खेंत्तंभंगो । अजह० ऐंकारह० । उजो०-वादर-जस० जह० अट्ट० । अजह० अट्ट-तेरह० । सुहुम-अपज्ज०-साधार० जह० खेंत्तंभंगो । अजह० लोगस्स असखें० सन्वलो० ।

५०. आभिणि०-सुद०-ओधि० मणुसाउ०' जह० अजह० अट्टचो० । सेसाणं

आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और तीन जातिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति और नरक-गत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यश.कीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूद्धम, अपयीत और साधारणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—मनोयोगी जीवोंमें पहले स्पर्शनका स्पष्टीकरण कर आये है । उसीके प्रकाशमें यहाँ भी स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । मात्र देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका बन्ध करनेवाले जीव यहाँ ऊपर पाँच राजुके भीतर स्पर्शन करते हैं, इसलिए यहाँ देवगतिद्विकका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है और वैक्रियिकद्विकका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

५०. आभिनिबोधिकज्जानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका

जह० खैत्तभंगो । अजह० अप्पण्णो पगदिफोसणं कादव्वं । एवं ओधिदं-सम्मा०-खइग०-वेदग० ।

५१. संजदासंजदेसु असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० अजह० छच्चो० । देवाउ०-तित्थ० ज० अजह० खैत्तभंगो । सेसाणं जह० खैत्तभंगो । अजह० छच्चो० ।

५२. चक्खुदं तसपज्जत्तभंगो । किण्ण०-णील०-काउ० तिरिक्खोधं । णवरि वेउन्वियच्छक्कं तित्थ० जह० खैत्तभंगो । अजह० पगदिफोसणं कादव्वं । तेउ-पम्म-सुक्काए सव्वपगदीणं आउगवजाणं च खैत्तभंगो । अजह० अप्पण्णो पगदिफोसणं कादव्वं । दोआउ० जह० अजह० अट्ट० सुक्काए छच्चो० ।

स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियों का जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदक-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय भी मनुष्यायुका दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ मनुष्यायुका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५१. संयत्तासंयत जीवोंमें असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशः-कीर्तिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—असातावेदनीय आदिका देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनका जघन्य प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इनका जघन्य पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है ।

५२. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । कृष्णलेस्या, नीललेस्या और कपोतलेस्यामें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकपट्टक और तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । पीतलेस्या, पद्मलेस्या और शुक्ललेस्यामें आयुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । दो आयुओंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने पीत और पद्मलेस्यामें त्रसनालीका कुछ कम

५३. उवसम० देवगतिपंचगं आहारदुगं जह० अजह० खैत्तभंगो । सेसाणं जह खैत्तभंगो । अजह० अड्ड० । सासणं सव्वपगदीणं जह० खैत्तभंगो । अजह० अप्पणो पगदिफोसणं कादच्चं । दोआउ० देवभंगो । सम्मामि० देवगदि०४ जह० अजह० खैत्तभंगो । सेसाणं जह० अजह० अड्डुच्चो० ।

५४. सण्णीसु सव्वपगदीणं जह० खैत्तभंगो । अजह० अप्पणो पगदिफोसणं कादच्चं । असण्णीसु सव्वपगदीणं जह० खैत्तभंगो । अजह० पगदिफोसणं षोदच्चं ।

एवं फोसणं समत्तं ।

आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका तथा शुक्ललेख्यामे त्रसनालीका कुल्ल कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र अपने-अपने स्पर्शनको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । जहाँ जो विशेषता कहीं है, उसे स्वामित्व देखकर जान लेनी चाहिए ।

५३. उपशमसम्यक्त्वमे देवगतिपञ्चक और आहारकट्टिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शोप प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुल्ल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सासादनसम्यक्त्वमे सव प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । जो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमे देवगति चतुष्कका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शोप प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुल्ल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्वमे देवगति चतुष्कका प्रदेशबन्ध भी मनुष्य ही करते हैं, इसलिये देवगतिपञ्चक और आहारकट्टिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमे देवगतिचतुष्कके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहनेका यही कारण है । शोप स्पर्शन स्पष्ट ही है ।

५४ संज्ञी जीवोंमे सव प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । अमंज्ञी जीवोंमे सव प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—संज्ञी और असंज्ञी इन दोनों मार्गाणाओंमे सव प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जो स्वामित्व बतलाया है उसे देखते हुए इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा सव प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन उनके प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रकृतिबन्ध जघन्य या अजघन्य प्रदेशबन्धको छोड़कर नहीं हो सकता । उसमे भी जघन्य प्रदेशबन्ध नियत सामग्रीके सङ्घातमे ही होता है, अन्यत्र तो अजघन्य प्रदेशबन्ध अधिक सम्भव होनेसे दोनोंका स्पर्शन एक समान जाननेकी सूचना की है ।

इम प्रकार स्पर्शन ममाप्त हुआ ।

कालपरुवणा

५५. कालं दुविहं-जहं उक्कं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओधे०आदे० । ओधे० पंचणा०-चदुदंसं-सादा०-चदुसंज०-पुरिसं-आहारदुग-जसं-तित्थं-उच्चा०-पंचंतं उक्कस्सपदेसबंधकालो केव०? जहं एगं, उक्कं संखेंजसमं । अणु० पदे० वं० केव०? सव्वद्धा । सेसाणं सव्वपगदीणं उक्कं पदे० वं० केव०? जहं एगं, उक्कं आवलिं असंखें । अणु० सव्वद्धा । तिण्णिआउं उक्कं जहं एगं, उक्कं आवलिं असंखें । अणु० पदे० वं० ज० ए०, उक्कं पलिं असंखें । एवं ओषभंगो पंचिदि०-तसं०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-इत्थि०-पुरिसं-णडुंसं-कोधादि०४-आभिणि०-सुद०-ओधि०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-भवसिं०-सम्मा०-खड्गं-उवसमं-सण्णि-आहारग ति । णवरि विसेसो जाणिय वत्तव्वं । तेसि ओषभंगो चेव । णवरि इत्थि०-पुरिसं चदुदंसं-चदुसंज०-पुरिसं-आहारदुग-जसं-तित्थं उक्कं जहं एगं, उक्कं संखेंजसं । अणु० सव्वदा । सेसाणं उक्कं जहं एगं, उक्कं आवलिं असंखें । अणु० सव्वदा । एवं णडुंसं-कोधादि०३ ।

कालपरुपणा

५५ काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, आहारकद्रिक, यशःकीर्ति, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । तीन आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार ओषके समान पञ्चेन्द्रियद्रिक, त्रसद्रिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अबधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, भन्य, सन्यगृष्टि, चायिकसम्यगृष्टि, उपशमसम्यगृष्टि, सङ्गी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिस मार्गणामे जो विशेषता हो उसे जानकर कहना चाहिए । यद्यपि उनमें ओषके समान ही भङ्ग है, फिर भी स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, आहारकद्रिक, यशःकीर्ति और तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी और क्रोधादि तीन कपायवाले जीवोंमें जानना चाहिए ।

५६. गिरएसु सञ्चारणं उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें० । अणु०
सन्वदा । तिरिक्खाउ० उक्क० गाणावरणमंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो०
असंखें० । मणुसाउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेंजसम० । अणु० जह० एग०,
उक्क० अंतोमु० । एवं सत्तसु पुदवीसु ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध श्रेणिप्रतिपन्न जीव अपनी-अपनी योग्य सामग्रीके सद्भावमे करते हैं और श्रेणि आरोहणका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, इसलिए यहाँ इन पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है, तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि सब जीव करते हैं । यद्यपि आहारकद्रिक और तीर्थङ्करका एकेन्द्रियादि जीवोंके बन्ध नहीं होता, फिर भी इनका भी बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते हैं, अतः इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है । तीन आयुओंको छोड़कर अब रहीं शेष प्रकृतियों सो उनका कम-से-कम एक समय तक और अधिक-से-अधिक असंख्यात समय तक उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आत्रलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । तीन आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आत्रलिके असंख्यातवे भागप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र तीन आयुओंका निरन्तर सर्वदा बन्ध सम्भव नहीं है । हाँ, इनका एक जीवकी अपेक्षा अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण वन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है और शेष प्रकृतियोंका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सर्वदा सम्भव होनेसे वह सर्वदा कहा है । यह ओघप्ररूपणा पञ्चेन्द्रिय आदि मार्गणाओंमे वन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र तीनों वेदवाले और क्रोधादि तीन कपायवाले जीवोंमें सूक्ष्मसाम्परायणुत्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए इनमे पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व बदल जाता है, इसलिए इनमे इन दस प्रकृतियोंको शेष प्रकृतियोंके साथ गिना है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५६. नारकियोमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आत्रलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । तिरिञ्चायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल ज्ञानावरणके समान है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब पृथिवियोंमे जानना जाहिए ।

विशेषार्थ—नारकी असंख्यात होते हैं । उनमे यह सम्भव है कि सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समय तक हो और द्वितीयादि समयोंमे उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला एक भी जीव न हो । तथा यह भी सम्भव है कि लगातार नाना जीव सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते रहें तो असंख्यात समय तक ही कर सकते हैं, इसलिए यहाँ मनुष्यायुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट

५७. तिरिक्खेसु सत्तणं कम्माणं उक्कं जहं एगं, उक्कं आवल्लिं असंखें । अणुं सव्वद्धा । चटुण्णमाउगाणं ओघं । एवं सव्व्याणं अणंतरासीणं । एसि असंखेंजरसी तेसि णिरयभंगो । एसि संखेंजरसी तेसि आहारसररीरभंगो । णवरि एइंदिएसु सव्वविगप्पा सत्तणं कं उक्कं अणुं सव्वदा । दोआउं ओघं । एवं वणप्फदि-णिगोद-सव्वसुहुमाणं वादरपुढविं-आउं-तेउं-वाउं-वादरवणप्फदि-पत्तेअपज्जत्तयाणं च । पुढविं-आउं-तेउं-वाउं तेसीए वादरा तिरिक्खओघं । तेसि वादरपज्जत्तयाणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

काल आवल्लिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। तथा इनमे मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले अधिकसे अधिक संख्यात जीव ही हो सकते हैं, इसलिए इनमे मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। अब रहा अनुत्कृष्टका विचार सो तिर्यञ्चायुका बन्ध एक साथ और लगातार असंख्यात जीव कर सकते हैं और एक जीवकी अपेक्षा इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः यहाँ इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले नाना जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि असंख्यात अन्तर्मुहूर्तके कालका योग पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होता है। तथा मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले संख्यात जीव ही हो सकते हैं, इसलिए इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इन दो प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। सातों पृथिवियोंमे इसी प्रकार काल वन जानेसे उनमे सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है।

५७. तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवल्लिके असंख्यातवे भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार सव अनन्त राशियोंमें जानना चाहिए। जिन मार्गाओंकी असंख्यात राशि है उनमे नारकियोंके समान भङ्ग है। तथा जिन मार्गोंकी संख्यात राशि है उनमे आहारकशरीरके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंके सब भेदोंमे सात कर्मोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार वनस्पति, निगोद और सब सूक्ष्म जीवोंमे तथा वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोंमे जानना चाहिए। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और उनके वादरोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। तथा उनके वादर पर्याप्तकोंमें पञ्चैन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके जो जीव स्वामी वतलाये हैं वे क्रमसे क्रम एक समय तक उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करे, यह भी सम्भव है और लगातार अनेक जीव क्रमसे यदि उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करे, तो असंख्यात समय तक ही कर सकते हैं। इसके बाद नियमसे अन्तर काल आ जाता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवल्लिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। चार आयुओंका उत्कृष्ट

५८. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० दोआउ० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अजह० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । मणुसाउ० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अजह० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । गिरयगदि-गिरयाणु० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अजह० सच्चदा । देवगदि०४-आहार०२-तित्थ० जह० जह० एग०, उक्क० संखेअस० । अजह० सच्चदा । सेसाणं सच्चपगदीणं जह० अजह० सच्चदा । एवं ओघमंगो कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णुसुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अ भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । णवरि मदि-सुद०-अ भवसि०-मिच्छा०-असण्णि० देवगदि०४ शिरयगदिमंगो ।

और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो काल ओघसे घटित करके बतला पाये हैं वह तिर्यञ्चोमै भी बन जाता है, इसलिए यहाँ उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। आगे अनन्त संख्यावाली अन्य जितनी मार्गाणाएँ हैं, जिनमें ओघ प्ररूपणा नहीं बनती, उनमें तिर्यञ्चोके समान प्ररूपणा बन जानेसे उसे इनके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र एकेन्द्रियोंमें और उनके सब भेदोंमें सात कर्मोंके दोनों पदवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए उनमें इनका काल सर्वदा कहा है। वनस्पति आदि आगे और जितनी मार्गाणाएँ गिनाई हैं उनमें भी एकेन्द्रियोंके समान काल बन जाता है, इसलिए एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। तथा असंख्यात संख्यावाली मार्गाणाओं और वादर पृथिवी कायिक पर्याप्त आदि चारोंमें नारकीयोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ यद्यपि पृथिवीकायिक आदिमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है, पर उसका श्रुभिप्राय पूर्वोक्त ही है। शेष कथन सुगम है।

५८ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे दो आयुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तसुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। देवगतिचतुष्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्करका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, कामर्णकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें देवगतिचतुष्क का भङ्ग नरकगतिके समान है।

५६. सेसाणं उक्कस्सभंगो । णवंगि परिमाणे यम्हि असंखेज्जा रासी तम्हि आवलि० असंखेज्जदिमागो । यम्हि संखेज्जरासी तम्हि संखेज्जसमयं । यम्हि अणंतरासी तम्हि सच्चदा । वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपत्तेयपज्जत्तयाणं च उक्कस्सभंगो । सेसा विगप्पा सच्चदा ।

एवं कालं समत्तं ।

अंतरपरूवणा

६०. अंतरं दुविहं-जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सच्चपदीणं उक्कस्सपदेसबंधतरं केवचिरं०? जह० एग०, उक्क० सेदीए असंखे० । अणु० पगदिअंतरं कादच्चं । एस भंगो याव अणाहारा गत्ति । रावरी सच्चएहंदिद्याणं मणुसाउ० ओघं । सेसाणं उक्क० अणु० पत्थि अंतरं । एवं वणफ्फदि-णियोदाणं

*विशेषार्थ—*नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुबन्धके मध्यमें भी हो सकता है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह एक समय कहा है । पर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध त्रिभागके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष काल जैसा उत्कृष्टके समय घटित करके बतला आये है, उसी प्रकार अपने-अपने स्वामित्वको देखकर यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए । मृत्युजानी आदि चार मार्गणाओंमें देवगतिचतुष्क का भङ्ग नरकगतिके समान कहनेका कारण यह है कि इनमें इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले लगातार असंख्यात जीव सम्भव हैं, इसलिए इनमें इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण नरकगतिके समान बन जाता है ।

५६. शेष मार्गणाओंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जिनमें परिमाण असंख्यात है, उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है और जिनका परिमाण संख्यात है, उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है तथा जिनका परिमाण अनन्त है, उनमें सर्वदा काल है । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तेशरीर पर्याप्त जीवोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । शेष विकल्पोंमें सर्वदा काल है ।

*विशेषार्थ—*यहाँ स्वामित्व को देखकर मूलमें कहे अनुसार काल घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तरपरूवणा

६० अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना अन्तर है? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगत्त्रैणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तके समान करना चाहिए । यह भङ्ग अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सब एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका

सञ्चसुहुमाणं । पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं वादरणं पत्तेग० ओघं ।
तेसिं च वादरअपज्ज०-पत्तेगअपज्ज० एइंदियमंगो ।

६१. जहणणए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०-वेउळ्विय-
ळक्क-आहारदुग-तित्थ० जह० अजह० उक्कस्समंगो । सेसाणं जह० अजह० णत्थि
अंतरं । एवं ओघमंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि०-कम्मइ०-
णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-
मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । सेसाणं अप्पणो उक्कस्संतरं कादव्वं ।

एवं अंतरं समचं ।

अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद और सब सूक्ष्म जीवोंमें जानना चाहिए । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इन चारोंके बाहर तथा प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इनके वाहर अपर्याप्त और प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध जिस योगसे होता है, वह एक समयके अन्तर से भी हो सकता है और सब योगस्थानोंके क्रमसे हो जाने पर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर जिस प्रकृतिबन्ध का जो अन्तर है उतना है यह स्पष्ट ही है । इस प्रकार यह अन्तर कथन अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । किन्तु एकेन्द्रियादि कुछ मार्गणाओंमें फरक है जो अलगसे कहा है ।

६१ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिकपट्टक, आहारकद्विक और तीर्थद्वार प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तीर्थञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें अपने अपने उत्कृष्टके समान अन्तर करना चाहिए ।

विशेषार्थ—तीन आयु आदिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य असंख्यात और संख्यात जीव ही करते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्टके समान भङ्ग बन जाता है । पर शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध अनन्त जीव करते हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंका अन्तर काल नहीं बननेसे उसका निषेध किया है । यहाँ सामान्य तीर्थञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । इनके सिवा शेष जितनी मार्गणाएँ हैं उनमें अपने-अपने उत्कृष्टके समान प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उसे उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ ।

भावपरूवणा

६२. भावं दुविहं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओषे० आदे० । ओषे० सन्वपगदीणं उक्कस्साणुक्कस्सपदेसवंधग ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं यावं अणाहारग ति षेदव्वं ।

६३. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओषे० आदे० । ओषे०—सन्वपगदीणं जह० अजह० पदेसवंधग ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग ति षेदव्वं ।
एवं भावो समचो ।

अप्पावहुगपरूवणा

६४. अप्पावहुगं दुविहं—सत्थाणप्पावहुगं चेव परत्थाणप्पावहुगं चेव । सत्थाण-
प्पावहुगं दुविहं—जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओषे० आदे० । ओषे०
सन्वत्थोवा केवलणाणावरणीयस्स यं पदेसगं । मणपज्ज० उक्क० पदे० अणंतगुणं ।
ओधिणाणा० उक्क० पदे० विसे० । सुद० उक्क० पदे० विसे० । आभिणि० उक्क०
पदे० विसे० ।

६५. सन्वत्थोवा पयला० उक्क० पदे० । णिद्दाए' उक्क० पदे० विसे० ।

भावप्ररूपणा

६२. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कौन भाव है ? औदयिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

६३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कौन भाव है ? औदयिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्वप्ररूपणा

६४ अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थानअल्पबहुत्व और परस्थानअल्पबहुत्व । स्वस्थान अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे केवलज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न सबसे स्तोक है । उससे मन.पर्ययज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न अनन्तगुणा है । उससे अवधिज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष अधिक है । उससे आभिनवोधिकज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष अधिक है ।

६५. प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न सबसे स्तोक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्न विशेष

१ आ० प्रती 'पदे० विसे० । णिद्दाए' इति पाठः ।

पयलापयला उक्क० पदे० विसे० । गिद्दाणिद्दाए' उक्क० पदे विसे० । थीणगिद्धि० उक्क० पदे० विसे० । केवलदं० उक्क० पदे० विसे० । ओधिदं० उक्क० पदे० अणंतगुणं । अचक्खुदं० उक्क० पदे० विसे० । चक्खुदं० उक्क० पदे० विसे० ।

६६. सच्चत्थोवा असाद० उक्क० पदे० । साद० उक्क० पदे० विसे० ।

६७. सच्चत्थोवा अपच्चक्खाणमाणे उक्क० पदे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० । पच्चक्खाणमाणे उक्क० पदे० विसे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० । अणंताणु०माणे० उक्क० पदे० विसे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० । मिच्छ० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं० उक्क० पदे० अणंतगु० । भय० उक्क० पदे० विसे० । हस्स-सोणे उक्क० पदे० विसे० । रदि०-अरदि उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णत्तंस० उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० संख्वेज्जगुणं० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० संख्वेज्जगु० ।

अधिक है । उससे प्रचलाप्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे स्त्यानगृद्धिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र अनन्तरगुणा है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

६६. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

६७. अप्रत्याख्यानावरणमानका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरणक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरणमायाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरणमानका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरणमायाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरणलोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अनन्तानुबन्धी मानका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अनन्तानुबन्धी मायाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अनन्तानुबन्धी लोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे जुगु'साका उत्कृष्ट प्रदेशात्र अनन्तरगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे रति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे स्त्रोवेद-नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंख्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र संख्यातरगुणा है । उससे मान-संख्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

६८. चतुर्णां आउगाणं उक्त्स्सपदेसग्गं सरिसं० ।

६९. सव्वत्थोवा णिरयगदि—देवगदि० उक्क० पदे० । मणुस० उक्क० पदे०
विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा चतुर्णां जादिणामाणं उक्क०
पदे० । एइदि० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा आहार० उक्क० पदे० । वेउव्वि०
उक्क० पदे० विसे० । ओरा० उक्क० पदे० विसे० । तेजा० उक्क० पदे० विसे० ।
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । आहार०-तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । आहार०-
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । आहार-तेजा०-क० उक्क० पदे० विसे० । वेउव्वि०-
तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । वेउव्वि०-कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । वेउव्विय०-
तेजा०-क० उक्क० पदे० विसे० । ओरालि०-तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । ओरालिय०-
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । ओरालिय०-तेजा०-क० उक्क० पदे० विसे० । तेजा०-
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा चदुसंठा० उक्क० पदे० । समचदु०
उक्क० पदे० विसे० । हुंड० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा आहारंगो० उक्क० पदे० ।
वेउअंगो० उक्क० पदे० विसे० । ओराअंगो० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा

है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय संख्यातगुणा है ।

६८. चार आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशाय परस्परमे समान है ।

६९. नरकगति-देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । चार जातियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे एकेन्द्रियं जातिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे वैक्रियकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे आहारक-तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे आहारक-कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे आहारक-तैजस-कामेण शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे वैक्रियक-तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे वैक्रियक-कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे वैक्रियक-तैजस-कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे औदारिक-तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे औदारिक-कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे औदारिक-तैजस-कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे हुण्डसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे वैक्रियकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । पाँच संहननका उत्कृष्ट

१ ता० प्रती णिरयग० । देवगदि० उ० प० मणुस० उ० प० मणुस० उ० प० (?) विसे० । सव्वत्थोवा इति पाठः ।

पंचसंघ० उक्क० पदे० । असंप० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा णील० उक्क० पदे० ।
 क्रिण्ण० उक्क० पदे० विसे० । रुहिर० उक्क० पदे० विसे० । हाल्लि० उक्क० पदे०
 विसे० । सुक्किलणामा० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा दुगंधणामाए उक्क० पदे० ।
 सुगंधणामाए उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा कडुक० उक्क० पदे० । तित्थणामा०
 उक्क० पदे० विसे० । कसियं० उक्क० पदे० विसे० । अंबिल० उक्क० पदे० विसे० ।
 मधुर० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा मउग-लहुगणामाए उक्क० पदे० । कक्कड-
 गरुणामाए उक्क० पदे० विसे० । सीद-लुक्खणा० उक्क० पदे० विसे० । णिद्ध-उसुणणा०
 उक्क० पदे० विसे० । यथा गदी तथा आणुपुच्ची । सन्वत्थोवा परघाडुस्सा० उक्क०
 पदे० । अगुरुगलहुग-उवघाद० उक्क० पदे० विसे० । आदाउज्जो० उक्क० पदे०
 सरिसं । दोविहा० उक्क० पदे० सरिसं । सन्वत्थोवा तस-पज्जत्त० उक्क० पदे० ।
 धावर०-अपज्ज० उक्क० पदे० विसे० । वादर-सुहुम-पत्ते०-साधार० उक्क० पदे०
 सरिसं । सन्वत्थोवा थिर-सुभ-सुभग-आदे० उक्क० पदे० । अथिर-असुभ-दुभग-अणादे०
 उक्क० पदे० विसे० । सुस्सर-दुस्सर० उक्क० पदे० सरिसं । सन्वत्थोवा अजस० उक्क०

प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे असम्प्राप्तपाटिका संहननका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । नील नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे कृष्णनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रुधिरवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हारिद्रवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे शुक्लवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । दुर्गन्धनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे सुगन्धनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । कटुकरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तिक्तरस नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कषायरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अस्लरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मधुस्लनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । मृदु-लघुस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे कर्कश-गुरुस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे शीत-रूक्षस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे स्निग्धउष्णस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । जिस प्रकार गतियोंका अल्पबहुत्व है, उसी प्रकार आनुपूर्वियोंका अल्पबहुत्व है । परघात और उच्छ्वासका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । अगुरुलघु और उपघातका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । आतप और उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है । दो विद्यायोगतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है । त्रस और पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । स्थावर और अपर्याप्त का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वादर, सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है । स्थिर, शुभ, सुभग, और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । अस्थिर, अशुभ, दुर्भग और अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । सुस्वर

१. ता० आ० प्रत्येः 'सन्वत्थोवा णिमि० उक्क०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'विसे० विसे० (?) । सन्वत्थोवा' इति पाठः । ३. ता० प्रती 'उक्क० [विसे०] । कसियं' इति पाठः । ४. ता० प्रती 'कक्कडगुरुणा० णामाए उक्कवी (उक्क० विसे०) । सीदल्लुक्खणा०' इति पाठः । ५. ता० प्रती 'णिध (द) उमुणा णा०' आ० प्रती णीउमुणणा०' इति पाठः ।

पदे० । जस० उक्क० पदे० संखेज्जगु० ।

७०. सन्वत्थोवा णीचा० उक्क० पदे० । उच्चा० उक्क० पदे० विसे० ।

७१. सन्वत्थोवा दाणंत० उक्क० पदे० । लाभंत० उक्क० पदे० विसे० । भोगंत० उक्क० पदे० विसे० । परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० । विरियंत० उक्क० पदे० विसे० ।

७२. णिरएसु पंचणा०—णवदंस०—पंचंत० ओधं । सन्वत्थोवा अपच्चक्खाण-माणे उक्क० पदे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० । एवं पच्चक्खाण०४—अणंताणु०४ । मिच्छं^१ उक्क० पदे० विसे० । भय० उक्क० पदे० अणंतगु० । दुगुं उक्क० पदे० विसे० । हस्स-सोगे उक्क० पदे० विसे० । रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णउंस० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माणसंजं^२ उक्क० पदे० विसे० । कोधसंजं उ० पदे० विसे० । मायाए उक्क० पदे० विसे० । लोभसंजं उक्क० प० विसे० ।

७३. दोग्गी तुल्ला । सन्वत्थोवा ओरा० उक्क० प० । तेजाक० उक्क० पदे०

और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाय परस्परमें समान है । अयश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाय संख्यातगुणा है ।

७०. नीच गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है ।

७१. दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है ।

७२. नारकियोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है । अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । आगे प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका इसी प्रकार अल्पबहुत्व जानना चाहिए । अनन्तानुबन्धी लोभके उत्कृष्ट प्रदेशायसे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाय अनन्तगुणा है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे रति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे स्त्रीवेद-नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे पुरुष-वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे मान संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे लोभ संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है ।

७३. दो गतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाय परस्परमें तुल्य है । औदारिक शरीरका उत्कृष्ट

१. ता० प्रती 'एवं पच्चक्खाण०४ अणंताणु०४ मिच्छं' इति पाठः । २. ता० प्रती 'उक्क० [विसे०] । माणसंजं' इति पाठः ।

विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । संठाण-संघडण-वण्ण०४-दोआणु०^१-दोविहा०-थिरादिछयुग० तुल्ला । दोआउ०-दोगोदाणं उक्क० पदे० विसे० । एवं सत्तसु पुटवीसु ।

७४. तिरिक्खेसु सत्तणं कम्माणं गिरयभंगो । णामाणं ओधभंगो । णवरि सव्वत्थोवा जस० उक्क० । अज० उक्क० विसे० । एवं सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेषु सत्तणं क० गिरयभंगो । णवरि मोहे० अण्णदरवेदे उ० प० विसे० । सव्वत्थोवा मणुसग० । तिरि० उ० विसे० । एवं णामाणं ओधं । णवरि सव्वत्थोवा जस० । अज० उ० विसे० । एवं सव्वअपज्जत्तयाणं सव्वएइंदि० पंचकायाणं । मणुसाणं ओधं ।

७५. देवेसु सत्तणं कम्माणं गिरयभंगो । णामाणं ओघो । णवरि देवगदि-^२ पाओंग्गाओ णादव्वाओ । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति गिरयभंगो । आणद याव उवरिमगेवज्जा त्ति^३ गिरयभंगो । णामाणं वण्ण-गंध-रस-फासाणं ओधं । सरीरं णारग-

प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । छह संस्थान, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वा, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका अलग-अलग उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्परमे तुल्य है । दो आयु और दो गोत्रोका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार सातां पृथिवियोमे जानना चाहिए ।

७४. तिर्यञ्चोमे सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अयश-कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान है । इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्ममे अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इस प्रकार नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यश-कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अयश-कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चाहिए । मनुष्योमे ओघके समान भङ्ग है ।

७५. देवोमे सात कर्मोका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिमे बन्धको प्राप्त होने योग्य प्रकृतियों जाननी चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोमे नारकियोके समान भङ्ग है । आनत कल्पसे लेकर उपरिम त्रैवेयकतकके देवोमे नारकियोके समान भङ्ग है । नामकर्मकी प्रकृतियोंमे वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इन प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शरीरका भङ्ग

१ ता० प्रती 'वण्ण० दोआणु०' इति पाठः । २ आ० प्रती 'एव सत्तसु पुटवीसु । तिरिक्खेसु सत्तणं कम्माणं गिरयभंगो । णामाणं ओघो । णवरि देवगदि' इति पाठः । ३ ता० प्रती 'उवरिम केवेज्जात्ति' इति पाठः ।

भंगो । सेसाणं तुल्ला । अणुदिस याव सव्वट्ट ति णेरइगभंगो । णवरि णामाणं वण्ण-
गंध-रस-फासाणं ओघं । सेसाणं तुल्ला ।

७६. पंचिदि०-तस०-२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-चक्खु०-
अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति ओघभंगो । ओरालि०मि० सत्तण्णं कम्मणां
णिरयभंगो । णामाणं ओघं । णवरि सव्वत्थोवा जस० उक्क० पदे० । अजस० उक्क०
पदे० विसे० । वेउच्चि०-वेउच्चि०मि० देवोघं ।

७७. आहार-आहारमि० पंचणा०-छदंसणा०-दोवेद०-पंचंत० ओघं । सव्व-
त्थोवा दुगुं० उक्क० पदे० । भय० उक्क० पदे० विसे०^१ । हस्स-सोगे उक्क० पदे०
विसे० । रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माणसंज०
उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० विसे० । मायासंज० उक्क० पदे० विसे० ।
लोभसंज० उ० पदे० विसे० । वण्ण-गंध-रस-फासाणं तुल्ला० । कम्मइग० सत्तण्णं क०
णिरयभंगो । णामाणं ओघभंगो ।

७८. इत्थि-पुरिस-णवुंसगवेदेसु छण्णं कम्मणां णिरयभंगो । मोहो ओघो

नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र तुल्य है । अतुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नामकर्मकी वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र ओघके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र तुल्य है ।

७६ पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है ।

७७. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, दो वेदनीय और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है । जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे रति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे-पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मानसंवलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंवलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे माया-संवलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंवलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र परस्परमें तुल्य है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

७८. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें छह कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके

१. ता० प्रती 'भय० [उ०] विसे०' इति पाठ. ।

याव इत्थि० । णवुंस० उक्क० पदे० विसे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । कोध-
संज० उक्क० पदे० विसे० । मायासं०—लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क०
पदे० संखेंज्जगु० । णामाणं ओघं ।

७६. अवगदवेदेसु पंचणा०—पंचंत० ओघं । सन्वत्थोवा केवलदं० उक्क० पदे० ।
ओधिदं० उक्क० पदे० अणंतगु० । अचक्खु० उक्क० पदे० विसे० । चमखु० उक्क०
पदे० विसे० । सन्वत्थोवा कोधमंज० उक्क० पदे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० ।
मायासंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० ।

८०. क्रोधकसाइसु ओघं । णवरि मोहे जाव इत्थि० । णवुंस० उक्क० पदे०
विसे० । माणसं० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । कोधसंज० उक्क० पदे० विसे० । मायासंज०
उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० ।

८१. माणकसाइसु ओघं । णवरि मोहे याव इत्थि० । णवुंस० उक्क० पदे०
विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० ।

समान है। मोहनीय कर्मका भङ्ग स्त्रीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक ओघके समान है। स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। नामकर्मको प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

७६. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है। केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है। उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है।

८०. क्रोधकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्ममें स्त्रीवेदका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भङ्ग जानना चाहिये। स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

८१. मानकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्ममें स्त्रीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भङ्ग जानना चाहिए। आगे स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

१. ता० प्रती 'मायसज० उ० विसे । * मायसज० उ० विसे० * [चिन्तान्तर्गतपाठः पुनरक्तः]
लोभसज०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'मोहे जोग [याव] इत्थि० णवुंस० उक्क०' इति पाठः ।

मायासंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उ० पदे० विसे० ।

८२. मायाए ओषो । णवरि मोहे याव इत्थि० । णउंस० उक्क० पदे० विसे० । कोषसंज० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । भाणसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । मायाए उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभक० ओषं ।

८३. मदि सुद-विभंग०-अब्भच०-मिच्छा०-असण्णि० तिरिक्खोषं । णवरि अण्णदरवेदे० विसे० ।

८४. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं क० ओषभंगो । सव्वत्थोवा मणुसग० उक्क० पदे० । देवग० उक्क० पदे० विसे० । एवं आणु० । सव्वत्थोवा आहार० उक्क० पदे० । ओरा० उक्क० पदे० विसे० । वेउण्वि० उक्क० प० विसे० । तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० प० विसे० । सव्वत्थोवा आहारंगो० उक्क० पदे० । ओरा०अंगो० उक्क० पदे० विसे० । वेउ०अंगो० उक्क० पदे० विसे० । वण्ण-गंध-रस-

उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है ।

८२. मायाकपायवाले जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मोहनीय-कर्ममें स्त्रीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक ही ओषके समान भङ्ग जानना चाहिए । आगे स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाम्से नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेशाम् संख्यातगुणा है । उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । लोभकपायवाले जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

८३. मत्पज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञो जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है ।

८४. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अविज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम् सबसे स्तोके है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्विका अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए । आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम् सबसे स्तोके है । उससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाम् सबसे स्तोके है । उससे औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । वर्ण,

१ आ० प्रतौ 'विसे०' । मदि' इति पाठ' । २ ता० प्रतौ 'वेउ०अंगो०-उक्क० विसे०' । वेउ०अंगो० उक्क० [?] वण्ण' इति पाठ' ।

फासाणं ओषो । सेसाणं सरिसं पदेसगं । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-उवसम० । मणपज्ज० सत्तणं क० ओषं । णामाणं आहारकायजोगिभंगो । एवं संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार० । संजदासंजदं० आहारकायजोगिभंगो सुहुमसंप० चोदसणं ओषं ।

२५. असंजद०-तिणिले० सत्तणं कम्माणं णिरयभंगो । णामाणं तिरिक्खोषं । तेउ-पम्माणं सत्तणं क० देवभंगो । णामाणं ओषं । णवरि तेऊए सव्वत्थोवा अप्पसत्थ-विहायगदि०-दुस्सर उक्कस्सं० । पसत्थविहायगदि-सुस्सर० उक्कस्स० पदे० विसेसाहियं । पम्माए सव्वत्थोवा दोगदि० । देवगदि० उक्क० पदे० विसे० । एवं आणु० । सव्वत्थोवा आहार० उक्क० पदे० । ओरालि० उक्क० पदे० विसे० । वेउच्चि० उक्क० पदे० विसे० । तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा पंचसंठा० उक्क० पदे० । समचदु० उक्क० प० विसे० । अंगोवं० सरिरभंगो । सव्वत्थोवा अप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-अणादं० उक्क० पदे० । तप्पडिपक्खणं उक्क० पदे० विसे० । सुक्काए ओषं । णवरि सव्वत्थोवा मणुसग० उक्क० पदे० । देवग० उक्क० पदे० विसे० । एवं आणु० ।

गन्ध, रस और स्पर्शका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंका समान प्रदेशाप्र है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोमे जानना चाहिए । मन-पर्ययज्ञानी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग ओषके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग आहारककाययोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोमे जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोमे आहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोमे चोदह प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है ।

२५. असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि पीतलेश्यामे अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे प्रशस्त विहायोगति और सुस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । पद्मलेश्यामे दो गतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वैक्यिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कामेणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । पाँच संस्थानोंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे समचतुरस्रसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । आज्ञोपाज्ञोका भङ्ग शरीरोके समान है । अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुम्बर और अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे उनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । शुक्ललेश्यामे ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

१. ता० प्रती० 'ओष' इति पाठः । २. 'परिहार० सजदासंजद०' इति पाठः । ३. ता० प्रती० 'अप्पसत्थवि [हा] यगदि' इति पाठः ।

८६. वेदगस० सव्वट्ट० भंगो । णवरि सव्वत्थोवा मणुसगदि० उक्कस्सओ पदे-
सवंधो । देवगदि० उक्क० पदे० विसे० । एवं आणु० ।

८७. सासणसम्मादिट्ठीसु सत्तण्णं कम्मणं मदि० भंगो । णवरि मिच्छ०-
णत्तुंस० वज्ज । णामाणं सव्वत्थोवा तिरिक्खग०-मणुसग० उ० पदे० । देवगदि०
उक्क० पदे० विसे० । वण्ण०४ ओघं । सेसं सरिसं ।

८८. सम्मामि० सत्तण्णं क० सव्वट्ट० भंगो । सव्वत्थोवा मणुसग० उक्क० पदे० ।
[देवगदि० उक्क० विसे०] । एवं आणु० । वण्ण०४ ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सं समत्तं ।

८९. जहण्णए पगदं । दुव्वि०-ओघे० आदे० । ओघे० णाणावरणीयाणं [दंस-
णावरणीयाणं] यथा उक्कस्सं सत्थाणअप्पावहुगं तथा जहण्णं पि कादव्वं । सादासादाणं
दोण्णं पि जहण्णयं पदेसगं तुल्लं ।

९०. सव्वत्थोवा अपच्चक्खणमाणे जह० पदे० । कोघे० जह० पदे०
विसे० । माया० जह० पदे० विसे० । लोभ० जह० पदे० विसे० । एवं पच्च-

८६. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोमे सर्वार्थसिद्धिके देवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि
मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष
अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्विकोके उत्कृष्ट प्रदेशायका अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए ।

८७. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है । इतनी
विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेद इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर अल्पबहुत्व जानना
चाहिए । नामकर्ममे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे
देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । वर्णचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । शेष
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशायका अल्पबहुत्व समान है ।

८८. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग सर्वार्थसिद्धिके देवोके समान है । मनुष्य-
गतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है ।
इसी प्रकार दो आनुपूर्विकोके उत्कृष्ट प्रदेशायका अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए । वर्णचतुष्कका
भङ्ग ओघके समान है । अनाहारक जीवोमे कर्मणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

८९. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीयका जिस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार
जघन्य भी करना चाहिए । सातावेदनीय और असातावेदनीय दोनोका ही जघन्य प्रदेशाय
तुल्य है ।

९०. अप्रत्याख्यानावरणमानका जघन्य प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्याना-
वर्ण क्रोधका जघन्य प्रदेशाय विगेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य

१ ता० प्रतो 'एवं' । आणु० वण्ण०४ ओघं' इति पाठ । २ ता० प्रतो 'माणं ज० पदे० ।
[कोषे०] ज० प० विसे० । माया०' आ० प्रता 'माणे ज० पदे० । माया०' इति पाठ ।

क्खाण०४ । एवं चेव अणंताणु०४ । मिच्छ जह० पदे० विसे० । दुगुं० जह० पदे० अणंतगु० । भय० जह० प० विसे० । हस्स-सोगे जह० पदे० विसे० । रदि-अरदि० जह० पदे० विसे० । अण्णदरवेदे जह० पदे० विसे० । माणसंज० जह० पदे० विसे० । कोधसंज० जह० पदे० विसे० । मायासंज० जह० पदे० विसे० । लोभसंज० जह० पदे० विसे० ।

६१. सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसाऊणं जह० पदे० । गिरय-देवाऊणं जह० पदे० असंखेंजगु० ।

६२. सव्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० । मणुस० जह० पदे० विसे० । देव-गदि० जह० पदे० असंखेंजगु० । गिरय० जह० पदे० असं०गु० । सव्वत्थोवा चटुण्णं जादीणं जह० पदे० । एइंदि० जह० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा ओरा० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० । वेउच्चि० जह० पदे० असं०गु० । आहार० जह० पदे० असं०गु० । छण्णं संठाणाणं जह० पदे० तुल्लं । सव्वत्थोवा ओरा०अंगो० जह० पदे० । वेउच्चि०अंगो० जह० पदे० असं०गु० । आहार०अंगो० जह० पदे० असं०गु० । छण्णं संघट्टणाणं जह० पदे० तुल्लं । वण्ण-

प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार अनन्तालु-बन्धीचतुष्कका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । अनन्तालुबन्धी लोभके जघन्य प्रदेशात्रसे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशात्र अनन्तगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे रति-अरतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

६१. तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है ।

६२. तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे नरक-गतिका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । चार जातियोंका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । औदारिक शरीरका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । छह संस्थानोंका जघन्य प्रदेशात्र तुल्य है । औदारिकशरीर आज्ञोपाज्ञका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाज्ञका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीर आज्ञोपाज्ञका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । छह सहननोंका जघन्य प्रदेशात्र परस्परमे तुल्य है । वर्ण, गन्ध,

गंध-रस-फासाणं पंचअंतराङ्गाणं च उक्कस्सभंगो । यथा गदी तथा आणुपुब्बी । सव्व-
त्थोवा तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेगाणं जह० पदे० । थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० जह०
पदे० विसे० । सेसाणं पगदीणं जहण्णयं पदेसग्गं तुल्लं० । णीसुच्चाभोद० जह०
पदे० तुल्लं० ।

६३. गिरयेसु सत्तण्णं क० ओघभंगो । सव्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० ।
मणुस० जह० पदे० विसे० । एवं आणु० । वण्ण०४ उक्कस्सभंगो । सेसाणं गामाणं
जहण्णयं पदेसग्गं तुल्लं० । एवं सत्तसु पुढवीसु । गवरि सत्तमाए सव्वत्थोवा
तिरिक्ख० । मणुस० जह० पदे० असं०गु० । एवं आणु०-दोगोद० ।

६४. तिरिक्खेसु ओघभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खाणं पंचिदियतिरिक्ख-
पज्जत्त-पंचिदियजोणिणीसु । [गवरि जोणिणीसु] सव्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० ।
मणुस० जह० पदे० विसे० । गिरय-देवगदि० जह० पदे० असं०गु० । सव्वत्थोवा
चदुण्णं जादीणं [जह० पदे०] एहंदि० जह० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा ओरालि०
जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० । वेउच्चि०
जह० पदे० असं०गु० । सव्वत्थो० ओरालि०अंगो० जह० पदे० । वेउ०अंगो० जह०

रस, स्पर्श और पाँच अन्तरायोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । जिस प्रकार चार गतियोंके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार चार आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशाप्र तुल्य है । तथा नीचगोत्र और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र परस्परमें तुल्य है ।

६३ नारकियोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार दोनों आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । वर्णचतुष्कका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । नामकर्मकी शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशाप्र तुल्य है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातरुणा है । इसी प्रकार दो आनुपूर्वी और दोनों गोत्रोंके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

६४. तिर्यञ्चमें ओघके समान भङ्ग है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे नरकगति और देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातरुणा है । चार जातियोंका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे एकैन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कामगशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वैश्रिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातरुणा है । औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक

१ आ० प्रती 'सक्ख्वा निरिद्ध' इति पाठ । २ आ० प्रती 'पदे० । सव्वयांया जह०'
इति पाठ ।

पदे० असं०गु० । सेसाणं ओधभंगो । पंचिदि०तिरिक्खअपज्ज० सव्वपगदीणं ओधं । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वएहंदिय-विगालिदिय-पंचकायाणं च ।

६५. मणुसेसु ओधभंगो । देवाणं गिरयभंगो । एवं भवण-वाणवेंतर-जोदिसिय० । सोधम्मीसाण याव सहस्सार त्ति एवं चेव । णवरि दोगदि० सरिसं पदेसगं । एवं सव्वदेवाणं ।

६६. पंचिदि०-तस०२-काययोगि०-ओरा०-ओरा०मिस्स०-कम्मइ०-णघुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-छल्लेस्सा०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-सण्णि०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति ओधभंगो । णवरि मदि-सुद०-अभव०-मिच्छा०-असण्णि० वेउच्चियछन्नकं पंचिदियतिरिक्खजोणिणभंगो ।

६७. पंचमण०-तिण्णिवचि० सत्तणं क० गिरयभंगो । सव्वत्थोवा तिरिक्ख०-मणुस० जह० पदे० । देवग० जह० पदे० विसे० । गिरयगं० जह० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा वेउ० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० । आहार० जह० पदे० विसे० । ओरा० जह० पदे० विसे० । एवं अंगो० ।

है । उससे वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशात्प्र असंख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषधके समान है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओषधके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चाहिए ।

६५. मनुष्योंमें ओषधके समान भङ्ग है । देवोमे नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे जानना चाहिए । सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो गतियोंका सदृश प्रदेशात्प्र करना चाहिए । इसी प्रकार सब देवोमे जानना चाहिए ।

६६. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, काययोगी, औदारिककाययोगी औदारिकर्मशकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंघत, चक्षु-दर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छह लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोमें ओषधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोमें वैक्रियिकपट्टकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनिर्वाके समान है ।

६७. पाँचो मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोमें सात कर्मोका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशात्प्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्प्र विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्प्र विशेष अधिक है । वैक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशात्प्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्प्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशात्प्र विशेष अधिक है । उससे आहारक शरीरका जघन्य प्रदेशात्प्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्प्र विशेष अधिक है । इसी

सेसाणं ओषो । दोवचिजोगीसुं एवं चेव । णवरि वीईंदिया सामिं । वेउं०-वेउं०मिं देवोर्धं ।

६८. आहार०-आहार०मिं पंचणा०-छदंस०-पंचंत० ओर्धं । सव्वत्थोवा साद० जह० पदे० । असाद० जह० पदे० विसें । सव्वत्थोवा दुगुं जह० पदे० । भयं जह० पदे० विसें । हस्सं जह० पदे० विसें । रदिं जह० पदे० विसें । पुरिसं जह० पदे० विसें । सोगं जह० पदे० विसें । अरदिं जह० पदे० विसें । माणसंजं जह० प० विसें । कोधसंजं जह० पदे० विसें । मायासंजं जह० प० विसें । लोभसंजं जह० पदे० विसें । वण्णं४ ओघभंगो । सव्वत्थोवा थिर-सुभ-जसं जह० पदे० । अथिर-असुभ अजसं० जह० पदे० विसें । एवं मण-पज्जं-संजद-सामाहं-छेदो-परिहार-संजदासंजद० ।

६९. इत्थिवे० पंचिदियतिरिक्खजोणिणिभंगो । पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्ख-भंगो । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० उक्खस्सभंगो । सव्वत्थोवा माणसंजं जह०

प्रकार अज्ञोपाज्ञोके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । दो वचनयोगी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि द्वीन्द्रिय जीव स्वामी हैं । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है ।

६८. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है । सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अरतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोध-संज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वर्णवत्तुष्कका भङ्ग ओघके समान है । स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार मन-पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें जानना चाहिए ।

६९. स्त्रीवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंके समान भङ्ग है । पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग उक्कष्टके समान है । मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक

१. ता० प्रती 'से [साण ओषो] । दोवचिजोगीसुं' इति पाठः । २. ता० प्रती 'सामिं (१) वेउं' इति पाठः । ३. ता० प्रती 'जं प० [.. [अथिरअसुभजं] जसं' इति पाठः ।

पदे० । कोधसंज० जह० पदे० विसे० । मायासंज० जह० पदे० विसे० । लोभ-
संज० जह० पदे० विसे० ।

१०१. विभंगे सत्तणं कम्माणं ओघभंगो । सव्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० ।
मणुस० जह० पदे० विसे० । गिरयगदि-देवगदि० जह० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा
ओरालि० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० ।
वेउ० जह० पदे० विसे० । एवं [विउ०] अंगोवंग० । आणुपु० गदिभंगो । एवं सेसाणं
ओघभंगो ।

१०२. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तणं कम्माणं ओघभंगो । सव्वत्थोवा
मणुसग० जह० पदे० । देवगदि० जह० पदे० विसे० । एवं आणु० । वण्ण०४
ओघभंगो । एवं ओधिदं-सम्मा-खइग०-वेदग०-उवसभ० । सासणे सव्वत्थोवा
तिरिक्ख० जह० पदे० । मणुस० जह० पदे० विसे० । देवगदि० जह० असं०गु० ।
एवं आणु० । सव्वत्थोवा ओरा० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म०
जह० पदे० विसे० । वेउ० जह० पदे० असं०गु० । सम्मामि० सत्तणं कम्माणं

है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

१०१. विभङ्गज्ञानमे सात कर्मोंका भङ्ग ओघके नमान है । तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र
सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकति और
देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक
है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी
प्रकार दो आङ्गोपाङ्गोंके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । आनुपूर्वियोंका भङ्ग चारो
गतियोंके समान है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

१०२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके
समान है । मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र
विशेष अधिक है । इसी प्रकार दो आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ।
वर्णचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञाधिकसम्यग्दृष्टि,
वेदकल्पसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमे जानना चाहिए । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमे
तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष
अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातरुणा है । इसी प्रकार तीन आनुपूर्वियोंके
जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पवहुत्व जानना चाहिए । औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक
है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातरुणा है ।

१. ता० प्रतौ 'कम्म० [जह० पदे० विसे०] । . [विउञ्चि०] उ० ज०' आ० प्रतौ कम्म० जह०
पदे० विसे० । उ० जह० इति पाठ० ।

णिरयभंगो । सव्वत्थोवा मणुसं जहं पदे० । देवगं जहं पदे० विसे० ।

एवं सत्थाणअप्याबहुगं समत्तं ।

१०३. परत्थाणअप्याबहुगं दुविधं-जहं उक्कं च । उक्कंपगदं । दुवि०-ओषे० आदे० । ओषे० सव्वत्थोवा अपच्चक्खाणमाणे उक्कं पदेसग्गं । कोषे० उक्कं पदे० विसे० । माया० उक्कं पदे० विसे० । लोभे० उक्कं पदे० विसे० । एवं पच्चक्खाण०४-अणंताणु०४ । मिच्छं^१ उक्कं पदे० विसे० । केवलणा० उक्कं पदे० विसे० । पयला० उक्कं पदे० विसे० । णिदा० उक्कं पदे० विसे० । पयलापयला० उक्कं पदे० विसे० । णिदाणिदा० उक्कं पदे० विसे० । थीणगिद्धिं उक्कं पदे० विसे० । केवलदं० उ० पदे० विसे० । आहारं उक्कं पदे० अणंतगुं । वेउ उक्कं पदे० विसे० । ओरा० उक्कं पदे० विसे० । तेजा० उक्कं पदे० विसे० । कम्म उक्कं पदे० विसे० । णिरयगं उक्कं संखेंज्जगुं । [देवगं उक्कं विसे०] । मणुसं उक्कं पदे० विसे० । तिरिक्खं उक्कं पदे० विसे० । अजं उक्कं पदे० विसे० । दुगुं उक्कं पदे० संगुं । भयं उक्कं पदे० विसे० । हस्स-सोगं उक्कं पदे० विसे० ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवामे सात कर्मोका भङ्ग नारकियोके समान है । मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है ।

इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

१०३. परमथान अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशायका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । आगे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे प्रचलाप्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे स्थानगृद्धिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय अनन्तगुणा है । उससे वैकिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट-प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे तिर्यश्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे अयश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाय संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक

१ ता-प्रतौ 'पच्चक्खाण०४ । अणताणु०४ मिच्छं० उ०' इति पाठः । २ ता० प्रतौ 'विसे० । पयला०' इति पाठः ।

रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णखुंस० उक्क० पदे० विसे० । दाणंत० उक्क० पदे० संखें० गु० । लाभंत० उक्क० पदे० विसे० । भोगंत० उक्क० पदे० विसे० । परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० । विग्रियंत० उक्क० पदे० विसे० । क्रोधसंज० उक्क० पदे० विसे० । मणपज्ज० उक्क० पदे० विसे० । ओधिणा० उक्क० पदे० विसे० । सुदणा० उक्क० पदे० विसे० । आभिणि० उक्क० पदे० विसे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । ओधिदं० उक्क० पदे० विसे० । अचक्खु० उक्क० पदे० विसे० । चक्खुदं० उ० विसे० । पुरिसं० उक्क० पदे० विसे० । मायासंज० उ० पदे० विसे० । अण्णदरे आउगे उक्क० पदे० विसे० । णीचा० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । असादा० उ० पदे० विसे० । जस०-उच्चा० उक्क० पदे० विसे० । सादा० उ० पदे० विसे० ।

१०४. आदंसेण षोरइएमु सव्वत्थोवा अपच्चक्खणमाणे उक्क० पदे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उ० प० विसे० । लोभ० उ० प० विसे० । एवं मूलोपं याव केवलदंसणावरणीयस्स उक्कस्सपदेसग्गं । ओरा० उक्क० पदे० अणंतगु० । तेजा०

है । उससे रति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे स्त्रीवेद-नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मन पर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे लोभ-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे यश कीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

१०४. आदेशसे नारकियोमे अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । इस प्रकार केवलदर्शनावरणायका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोपके समान भङ्ग है । आगे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात्र

उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्खग०-मणुसग० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । जस०-अजस० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । भय० उक्क० पदे० विसे० । हस्स-सोगे उक्क० पदे० विसे० । रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णत्तंस० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माण-संज० उक्क० पदे० विसे० । कोघसंज० उक्क० पदे० विसे० । मायासंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । दाणंत० उक्क० पदे० विसे० । लाभंत० उक्क० पदे० विसे० । भोगंत० उक्क० पदे० विसे० । परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० । विरियंत० उक्क० पदे० विसे० । मणपज्जे० उक्क० पदे० विसे० । ओधिणा० उक्क० पदे० विसे० । सुद० उक्क० पदे० विसे० । आभिणि० उक्क० पदे० विसे० । ओधिदं० उक्क० पदे० विसे० । अचक्खु० उक्क० पदे० विसे० । चक्खुदं० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदरे आउगे० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । अण्णदरे गोदे० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदरे वेदणीए० उक्क० पदे० विसे० । एवं सत्तसु पुटवीसु ।

१०५. तिरिक्खेसु मूलोपं याव केवलदंशनावरणीयस्स उक्क० पदे० विसे० ।

अनन्तगुणा है। उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यात-गुणा है। उससे यशःकीर्ति और अवशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मानसज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे माया-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मन पर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अचक्षु-दर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार सातो पृथिवियामे जानना चाहिए।

१०५. तिर्यञ्चामिं केवलदर्शनावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इस स्थानके

१. आ० प्रती 'परिभोगत० उक्क० पदे० विसे० । मणपज्जे०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'अचक्खु० उ० विसे० । अचक्खु० उ० विसे० (१) चक्खुदं०' इति पाठः ।

वेउ० उक्क० पदे० अर्णतगु० । ओरा० उक्क० पदे० विसे० । तेजा० उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । णिरयगदि-देवग० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । मणुस० उक्क० पदे० विसे० । जस० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । अजस० उक्क० पदे० विसे० । सेसाणं पगदीणं णिरयभंगो । एवं पंचिदि०-तिरिक्ख०३ । पंचिदि०तिरिक्खअपज्जत्त० णिरयभंगो याव कम्मइयसरीर त्ति । मणुस० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । जस० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । अजस० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं० उक्क० संखेंज्जगु० । भय० उक्क० विसे० । हस्स-सोगे० उक्क० पदे० वि० । रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदर-वेदे० उक्क० पदे० विसे० । सेसाणं पगदीणं णिरयभंगो । एवं सन्वअपज्जत्तयाणं तसाणं थावरारणं च सन्वएइंदिय-विगलंदिय-पंचकायाणं । णवरि मणुसाउ०-मणुस०-मणुसाणु०- उच्चा० चत्तारि एदाणि तेउ०-त्राऊणं वज्ज ।

१०६. मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि० मूलोधं । देवसु णिरयभंगो याव कम्मइयसरीर त्ति । तदो मणुस० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । जस०-अजस० दो वि तुल्ला उक्क०

प्राप्त होने तक मूलोधके समान भङ्ग है । आगे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकान्त और देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे कर्मणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक नारकियोंके समान भङ्ग है । आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हाम्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोमे मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र इन चार प्रकृतियोंको छोड़कर अल्पबहुत्व कहना चाहिए ।

१०६. मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांच मनोयोगी, पाच वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोमे मूलोधके समान भङ्ग है । वेवोमे कर्मणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक नारकियोंके समान भङ्ग है । उसके आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र दोनोंका परस्पर तुल्य होते हुए भी विशाेष अधिक है ।

पदे० विसे० । दुगुं० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । सेसाणं गिरयभंगो । एवं भवण०—
वाण०-जोदिसि० सोधम्मीसाणेसु । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति शिरयभंगो । एवं
चेव आणद याव णवगेवज्जा त्ति । णवरि विसेसो त्तिरिक्खगदिचट्टुणं कफ ।

१०७. अणुदिस याव सच्चट्टु त्ति सच्चत्थोवाअपच्चक्खानामाणे० उक्क० पदे० ।
कोपे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे०
विसे० । एवं पच्चक्खाना०४ । केवलणा० उक्क० प० विसे० । पयला० उ० प० विसे० ।
णिहा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । ओरा० उ० प० अणंतगु० ।
तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । मणुस० उ० प० संखेंज्जगु० ।
जस०-अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । भय० उक्क० पदे०
विसे० । हस्स-सोगे० उक्क० पदे० विसे० । रदि-अरदि० उ० पदे० विसे० । पुरिस०
उक्क० पदे० विसे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उक्क०
पदे० विसे० । मायासं० उक्क० पदे० विसे० । लोभसं० उ० प० विसे० ।
दाणंत० उ० प० विसे० । लाभंत० उ० प० विसे० । भोगंत० उ० प०
विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत उ० प० विसे० । मणपज्ज० उ०

उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।
इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सौधर्म और ऐशान कल्पतकके देवोमे जानना चाहिए ।
सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोमे नारकियोंके समान भङ्ग है । आनत कल्पसे
लेकर नौ प्रवैयकतकके देवोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति-
चतुष्कको छोड़कर अल्पबहुत्व कहना चाहिए ।

१०७. अनुदिरासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट
प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।
उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण
लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अल्पबहुत्व
जानना चाहिए । आगे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका
उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे
केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र
अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कामेण-
शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है ।
उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका
उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे
हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र
विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका
उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।
उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र
विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका
उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।
उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र

प० विसे० । ओधिणा० उ० प० विसे० । मुद० उ० प० विसे० । आभिणि० उ० प० विसे० । ओधिदं० उ० प० विसे० । अचकमु० उ० प० विसे० । चकमुदं० उ० प० विसे० । मणुसाउ० उ० पदे० संखेज्जगु० । उचा० उ० पदे० विसे० । साद्रासाद० उ० पदे० विसे० ।

१०८. ओरालिपमि० ओघं याव केवलदंसणावरणीय ति उ० प० विसे० । दो आउ० अणंतगु० । वेउव्वि० उ० प० असं०गु० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजाक० उ० प० विसे० । क० उ० पदे० विसे० । देवगदिं० उ० संखेज्जगु० । मणुस० उ० प० विसे० । जस० उ० प० विसे० । तिरिक्ख० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेज्जगु० । भय० उ० प० विसे० । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

१०९. वेउव्वियका० देवोघं । एवं वेउव्वियमिस्सगे वि । णवरि आउ० णत्थि । आहार०-आहारमि० सव्वत्थोवा केवलणा० उ० पदे० । पयला० उ० प० विसे० । णिहा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । वेउव्वि० उ० प० अणंतगु० ।

विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययघानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे अवाधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे आभिनिवोधिक घानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे अवाधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशात् संख्यातगुणा है । उससे उष्णोष्णका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे सातावेदनीय और असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है ।

१०८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे केवलदर्शनावरणोयका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है—इस स्थानके प्राप्त हीनतक ओषके समान भद्र है । आगे दो आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशात् अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् असंख्यातगुणा है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् संख्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशात् संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भद्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान है ।

१०९. वैक्रियिककाययोगी जीवोमे सामान्य देवोके समान भद्र है । इसी प्रकार वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोमे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुर्कर्मका चन्ध नहीं होता । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् सबसे स्तोक है । उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है ।

१. आ० प्रती 'मणुसाणु० उ०' इति पाठः । २. आ० प्रती 'तेजाक० उ० प० विसे० । देवगदिं०' इति पाठः ।

तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० पदे० विसे० । देवग० उ० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेज्जगु० । सेसाणं यथा अणुदिस-देवाणं । णवरि यम्हि मणुसाउ० तम्हि देवाउ० भणिदव्वं

११०. कम्मइयकायजोगीसु याव केवलदंसणावरणीयं ताव मूलोघो । वेउ० उ० पदे० अणंतगु० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । देवगदि० उ० प० संखेज्जगु० । मणुस उ० प० विसे० । जस० उ० प० विसे० । तिरिक्ख० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेज्जगु० । सेसाणं यथा पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु तथा णेदव्वं ।

१११. इत्थि-पुरिस-णवुंसगेसु मूलोघं याव इत्थि०-णवुंस० उ० प० विसे० । माणसंज० उ० प० विसे० । कोधसंज० उ० प० विसे० । मायासंज० उ० प० विसे० । लोभसं० उ० प० विसे० । दाणंत० उ० प० विसे० । लामंत० उ० प० विसे० । भोगंत० उ० प० विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत० उ० प० विसे० । मणपज्ज० उ० प० विसे० । ओधिणा० उ० प० विसे० । सुद० उ० प०

उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् संख्यातगुणा है । उससे यश कीर्ति और अयश-कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशात् संख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग जिस प्रकार अनुदिशके देवोंके वतलाया है, उस प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँपर मनुष्यायु कही है, वहाँपर देवायु कहनी चाहिए ।

११०. कार्मणकाययोगी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है—इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । आगे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् अनन्तगुणा है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे तैजस-शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् संख्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे यश-कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्च-गतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे अयश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशात् संख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोंका जिस प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व कहा है, उस प्रकार यहाँ जानना चाहिए ।

१११. स्त्रीवेदत्राले, पुरुषवेदत्राले और नपुंसकवेदत्राले जीवोंमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है—इस स्थानके प्राप्त होनेतक मूलोघके समान भङ्ग है । आगे मानसंस्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंस्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे मायासंस्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे लोभसंस्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे मन पर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट

विसे० । आभिणि० उ० प० विसे० । ओधिदं० उ० प० विसे० । अचक्वु० उ० प० विसे० । चक्वुदं०-पुगिस० उ० प० विसे० । अण्णदरे आउगे० उ० प० विसे० । अण्णदग्गेदे जस० उ० प० विसे० । अण्णदग्गेदणीम् उ० प० विसे० ।

११२. अवगद्वेदेमु सन्धन्थोवा केवलणा० उ० पदे० । केवलदं० उक्क० पदे० विसे० । दाणंत० उ० प० अणंतु० । सेसाणं यथासंरं उक्क० पदे० विसे० । कोधसं० उ० प० विसे० । मणपज्ज० उ० प० विसे० । ओधिणा० उ० प० विसे० । सुदं० उ० प० विसे० । आभिणि० उ० प० विसे० । माणसं० उ० प० विसे० । ओधिदं० उ० प० विसे० । अचक्वुदं० उ० प० विसे० । चक्वुदं० उ० प० विसे० । मायासं० उ० प० विसे० । लोभसं० उ० प० संखेज्जगु० । जस०-उचा० उक्क० प० विसे० । सादा० उ० प० विसे० ।

११३. क्रोधकसाइसु मूलोघं याव इन्थि० उ० प० विसे० । दाणंत० उ० प० विसे० । लाभंत० उ० प० विसे० । भोगंत० उ० प० विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत० उ० प० विसे० । मणपज्ज० उ० प० विसे० । ओधिणा०

प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उसमे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उसमे चक्षुदर्शनावरण और पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आवुका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे अन्यतर गोत्र और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है ।

११२. अपगतवेदवाले जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् सबसे स्तोक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम् अनन्तगुणा है । शेष अन्तरायकी प्रकृतियोंका क्रमसे उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । आगे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है ।

११३. क्रोधकपायवाले जीवोंमें खीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है—इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष

उ० प० वि० । सुद० उ० वि० । आभिणि० उ० वि० । माणसं० उ० वि० ।
 क्रोधसं० उ० वि० । मायसं० उ० वि० । लोभसं० उ० वि० । ओधिदं० उ० वि० ।
 अचक्खुदं० उ० वि० । चक्खुदं० उ० वि० । पुरिं उ० वि० । अण्णदरआउ०
 उ० वि० । अण्णदरे गोदे जसं० उ० वि० । अण्णदरे वेदणी० उ० वि० । माण-
 कसाइसु क्रोधकसाइभंगो याव आभिणि० उ० वि० । क्रोधसंज० उ० वि० । ओधिदं०
 उ० वि० । अचक्खु० उ० वि० । चक्खु० उ० वि० । माणसंज० उ० विसे० । माय-
 संज० उ० विसे० । लोभसंज० उ० वि० । पुरिं उ० वि० । णवरि क्रोधकसाइभंगो ।
 मायकसाइ० माणकसाइभंगो याव माणसंजल० उ० वि० । पुरिं उ० वि० ।
 मायसंजल० उ० वि० । लोभसंज० उ० वि० । अण्णदरे आउगे उ० विसे० । णवरि
 क्रोधकसाइभंगो । लोभे मूलोघं ।

११४. मदि-सुद-विभंग० पंचि०तिरि०पज्जत्तभंगो याव अण्णदरवेदणी० उ०

अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञाना-
 वरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र
 विशेष अधिक है। उससे मान संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोध-
 संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष
 अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अर्वाधदर्शनावरणका
 उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक
 है। उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट
 प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे
 अन्यतर गोत्र और यशःकार्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका
 उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। मानकपायवाले जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट
 प्रदेशाप्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक क्रोध कपायवाले जीवोंके समान भङ्ग
 है। आगे क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अर्वाधदर्शनावरणका
 उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक
 है। उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका
 उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक
 है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट
 प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इतनी विशेषता है कि क्रोधकपायवाले जीवोंके समान
 भङ्ग है। मायाकपायवाले जीवोंमें मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है
 इस स्थानके प्राप्त होने तक मानकपायवाले जीवोंके समान भङ्ग है। आगे पुरुषवेदका उत्कृष्ट
 प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे
 लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष
 अधिक है। इतनी विशेषता है कि आगे क्रोधकपायवाले जीवोंके समान भङ्ग है। लोभकपाय-
 वाले जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है।

११४. मत्तज्जानो, श्रुताज्जानो और विभङ्गज्जानो जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र
 विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक पञ्चन्द्रिय तिरिच्च पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

वि० । आभिणि-सुद-ओधि० अणुत्तरविमाणवासियदेवभंगो याव केवलदंसणावरणीयं
 त्ति । तदो आहार० उ० अणंतगु० । ओरा० उ० प० विसे० । वेउ० उ० प०
 विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । मणुस० उ० प०
 संखेंज्जगु० । देवगदि० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प०
 संखेंज्जगु० । भय० उ० प० विसे० । हस्स-सोगे० उ० प० विसे० । रदि-अरदि०
 उ० प० विसे० । दाणंत० उ० प० संखेंज्जगु० । लाभंत० उ० प० विसे० । भोगंत०
 उ० प० विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत उ० प० विसे० । उवरि
 ओधं । णवरि णिरयाउगं तिरिक्खाउगं णीचा० णत्थि ।

११५. मणपज्ज० सव्वत्थोवा केवलणा० उ० प० । पयला० उ० प०
 विसे० । णिद्दा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । आहार० उ० प०
 अणंतगु० । वेउ० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । देवगदि० उ० प०
 संखेंज्जगु० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेंज्जगु० । उवरि ओधि-
 णाणिभंगो । णवरि मणुसाउ० णत्थि । एवं संजदा० । सामाई०-छेदो० मणपज्जव-

आभिनिबोधकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक अनुत्तरविमानवासी देवोंके समान भङ्ग है । उससे आगे आहारकरारीका उत्कृष्ट प्रदेशाम अनन्तगुणा है । उससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे अयश-कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे वानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे, लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे अयोगेका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ नरकायु, तिर्यञ्चायु और नीचगोत्रका बन्ध नहीं होता ।

११५. मन्:पर्यथज्ञानी जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है । उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे आहारकरारीका उत्कृष्ट प्रदेशाम अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे अयश-कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे आगे अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु नहीं है । इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिए । सामायिकसंयत और

भंगो याव रदि-अरदि० उ० प० विसे० । दाणंत० उ० प० विसे० । उवर्णि माणक़साइ-
भंगो याव माणसंज० उ० प० विसे० । पुरिस० उ० प० विसे० । मायासंज० उ०
प० विसे० । देवाउ० उ० प० विसे० । उच्चा०-जस० उ० प० विसे० । लोभसं०
उ० प० विसे० । अण्णदरवेदणी० उ० प० विसे० ।

११६. परिहारे० सव्वत्थोवा केवलणा० उ० पदे० । पयला० उ० प० विसे० ।
णिहा० उ० प० विसे० । केवलदं उ० प० विसे० । आहार० उ० प० अणंतगु० ।
वेउ० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । उवरि
आहारकायजोगिभंगो ।

११७. सुहुमसंप० सव्वत्थोवा केवलणा० उ० पदे० । केवलदं० उ० प०
विसे० । दाणंत० उ० प० अणंतगु० । लाभंत० उ० प० विसे० । भोगंत० उ० प०
विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत० उ० प० विसे० । मणपज्जव०
उ० प० विसे० । ओधिणा० उ० प० विसे० । सुद० उ० प० विसे० । आभिणि०
उ० प० विसे० । ओधिदं उ० प० विसे० । अचबन्नु० उ० प० विसे० । चबन्नु० उ०

छेदोपस्थापनासयत जीवोमे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है—इस
स्थानके प्राप्त होनेतक मनःपर्यवज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है। आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट
प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे आगे मानसज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है—
इस स्थानके प्राप्त होनेतक मानकपायवाले जीवोके समान भङ्ग है। आगे पुद्गलवेदका उत्कृष्ट
प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है।
उससे देवायुका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे उच्चोत्र और यश कीर्तिका उत्कृष्ट
प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे
अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है।

११६. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोमे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोका है।
उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष
अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे आहारकशरीरका
उत्कृष्ट प्रदेशाय अनन्तरगुणा है। उससे वैकृतिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है।
उससे तजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय
विशेष अधिक है। उसके आगे आहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग है।

११७. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोमे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोका है।
उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट
प्रदेशाय अनन्तरगुणा है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे भोगा-
न्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष
अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मनःपर्यवज्ञाना-
वरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष
अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे आभिनि-
वोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट
प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अचलुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे

१ ता० प्रती 'मणपज्जवंगो । याव' इति पाठ । २ ता० प्रती 'भंगो । याव' इति पाठः ।

प० विसे० । जस०-उच्चा० उ० प० संखेंजगु० । सादा० उक० प० विसे० ।

११८. संजदासंजदेसु सव्वत्थोवा पच्चखाणामाणे० उ० पदे० । कोधे० उ० प० विसे० । माया० उ० प० विसे० । लोभे० उ० प० विसे० । केवलणा० उ० प० विसे० । पयला० उ० प० विसे० । णिहा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । वेउ० उ० प० अणंतगु० । उवरिं आहारकायजोगिभंगो ।

११९. असंजदेसु पंचिदियतिरिक्खपज्जचभंगो । चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओघो । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काऊणं असंजदभंगो । तेऊए ओधं याव केवलदंसणावरणीयं त्ति । तदो आहार० उ० प० अणंतगु० । वेउ० उ० प० विसे० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । मणुस० उ० प० संखेंजगु० । देवग० उ० प० विसे० । तिरिक्ख० उ० प० विसे० । जस०-अजस० उ० प० विसे० । उवरिं आहारकायजोगिभंगो । णवरि तिरिक्खाउ०-मणुसाउ० अत्थि ।

चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट-प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशात् सख्यातगुणा है । उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है ।

११८. संयतास्थित जीवोमे प्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशात् सबसे स्तोक है । उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे वैकिक्यिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् अनन्तगुणा है । उससे आगे आहारकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है ।

११९ असंयत जीवोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान भङ्ग है । चक्षुदर्शनावले और अचक्षुदर्शनावले जीवोमे ओघके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनावले जीवोमे अवधिज्ञानो जीवोके समान भङ्ग है । कृण्वलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोमे असयत्तिके समान भङ्ग है । पीतलेश्यावाले जीवोमे केवलदर्शनावरणायका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक ओघके समान भङ्ग है । उससे आगे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् अनन्तगुणा है । उससे वैकिक्यिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् सख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे आगे आहारकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँपर तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु हैं । अर्थात् आहारक काययोगमे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका बन्ध नहीं था, किन्तु पीतलेश्यामं इन दोनों आयुओका बन्ध होता है ।

१ ता०आ०प्रत्योः 'केवलणाणावरणीय' इति पाठः । २ ता०आ०प्रत्योः 'णवरि गिरयाउ तिरिक्खाउ० णत्थि' इति पाठः ।

१२०. पम्माए तेउ०भंगो । णवरि आहारसरीरादो ओरा० उ० प० विसे० । वेउ० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसगदि० दो वि सरिसा संखेंज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । एवं सुक्काए याव कम्मइगसरीर ति । तदो मणुसग० उक्क० पदे० संखेंज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । उवरि ओवो ।

१२१. सासणे ओषं याव केवलदंस० । णवरि मिच्छ० णत्थि । तदो ओरा० उ० प० अणंतगु० । वेउ० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसग० उ० प० संखेंज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । जस०-अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेंज्जगु० । उवरि मदि०भंगो । णवरि णवुंस० णत्थि ।

१२२. सम्मामि० वेदगभंगो । णवरि आउ० आहार० णत्थि । मिच्छा०-असण्णि० मदि०भंगो । सण्णि०-आहार० मूलोषं । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्सपरत्थाणअप्पात्रहुगं समत्तं ।

१२०. पद्मलेश्यामे पीतलेश्याके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीरसे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कामणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगति इन दोनोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र आपसमे समान होकर संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शुक्ललेश्यामे कामणशरीरका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक इसीप्रकार जानना चाहिए । उससे आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आगे ओषके समान भङ्ग है ।

१२१ सासादनसम्यक्त्वमे केवलदर्शनावरणका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वप्रकृति नहीं है । आगे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कामणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यश कीर्ति और अयश कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आगे मत्यज्ञानी जीवके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद नहीं है ।

१२२ सन्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयु और आहारकशरीर नहीं है । मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोमे मत्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । संज्ञी और आहारक जीवोमे मूलोषके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोमे कामणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

१२३. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सच्चत्थोवा अपच्च-
 क्खाणमाणे जहण्णयं पदेसग्गं । कोध० जं० प० विसे० । माया ज० प० विसे० ।
 लोभे० जह० प० विसे० । एवं पच्चक्खाण०४-अणंताणु०४ । मिच्छं० ज० प०
 विसे० । केवलणा० ज० प० विसे० । पयला० ज० प० विसे० । णिद्दा० ज० प०
 विसे० । पयलापयला० जह० प० विसे० । णिद्दाणिद्दा० ज० प० विसे० । थीणमि० ज०
 प० विसे० । केवलदं० ज० प० विसे० । ओरा० ज० प० अणंतणु० । तेजा० ज० प०
 विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । तिरिक्ख० ज० प० संखेज्जगु० । जस-अजस० ज०
 प० विसे० । मणुस० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । भय० ज० प०
 विसे० । हस्स-सोम० ज० प० विसे० । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । अण्णदरवेद०
 ज० प० विसे० । माणसंज० ज० प० विसे० । कोधसं० ज० प० विसे० । मायासं०
 ज० प० विसे० । लोभसं० ज० प० विसे० । दाणंत० ज० प० विसे० । लाभंत० ज०
 प० विसे० । भोगंत० ज० प० विसे० । परिभोगंत० ज० प० विसे० । विरियंत० ज०

१२३ जत्रन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अपत्या-
 ख्यानावरण मानका जत्रन्य प्रदेशाम सबसे र्तोक है । उससे अपत्याख्यानावरण क्रोधाका जत्रन्य
 प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे अपत्याख्यानावरण मायाका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक
 है । उससे अपत्याख्यानावरण लोभका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । इसी प्रकार
 प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका मुख्यतासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।
 आगे मिथ्यात्वका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका जत्रन्य प्रदेशाम
 विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे निद्राका
 जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे प्रचलाप्रचलाका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है ।
 उससे निद्रानिद्राका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे स्थानगुटिका जत्रन्य प्रदेशाम
 विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे
 औद्धारिकशरीरका जत्रन्य प्रदेशाम अनन्तगुणा है । उससे तेजसशरीरका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष
 अधिक है । उससे कामशरीरका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्जगतिका
 जत्रन्य प्रदेशाम सख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष
 अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जत्रन्य
 प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे भयका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे हान्य और
 शोकका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे रति और अगतिका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष
 अधिक है । उससे अन्यतर वेदका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे मानसंवलनका
 जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंवलनका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है ।
 उससे मायासंवलनका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे लोभसंवलनका जत्रन्य
 प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे
 लाभान्तरायका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका जत्रन्य प्रदेशाम विशेष

५० विसे० । मणपञ्ज० ज० ५० विसे० । ओधिणा० ज० ५० विसे० । सुदणा० ज० ५० विसे० । आभिणि० ज० ५० विसे० । ओधिदं० ज० ५० विसे० । अचक्खुदं० ज० ५० वि० । चक्खुदं० ज० ५० विसे० । अण्णदरगोदे ज० ५० संखेंज्जगु० । अण्णदरवेदणी० ज० ५० विसे० । वेळब्धि० ज० ५० असंखेंज्जगु० । देवगदि० ज० ५० संखेंज्जगु० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० ५० असंखेंज्जगु० । गिरयगदि० ज० ५० असंखेंज्जगु० । गिरय-देवाऊणं ज० ५० संखेंज्जगु० । आहार० जह० पदे० असंखेंज्जगुणं ।

१२४. आदेसेण गिरयगदीए णेरइएसु मूलोधं याव अण्णदरवेदणी० ज० ५० विसे० । तदो तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० ५० असंखेंज्जगु० । एवं छसु पुढवीसु । सत्तमाए मूलोधो याव कम्मइ० ज० ५० विसे० । तदो तिरिक्ख० ज० ५० संखेंज्जगु० । जस-अजस० ज० ५० विसे० । उवरि ओधो । णवरि याव चक्खुदं० ज० ५० विसे० । णीचा० ज० ५० संखेंज्जगु० । अण्णदरवेदणी० ज० ५० विसे० । मणुसग० ज० ५० असंखेंज्जगु० । तिरिक्खाउ० ज० ५० संखेंज्जगु० । उच्चा ज० ५० विसे० ।

१२५. तिरिक्खेसु मूलोधो । णवरि आहार० णत्थि । एवं पंचिदियतिरिक्ख० ।

अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारक शरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है ।

१२४. आदेशसे नरकगतिको अपेक्षा नारकियोंमें अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है-इस स्थानके प्राप् होने तक मूलोधके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें जानना चाहिए । सातवींमें कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है-इस स्थानके प्राप् होने तक मूलोधके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । आगे ओधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वह अल्पबहुत्व चक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है-इस स्थानके प्राप् होने तक ओधके समान जानना चाहिए । उससे आगे नीच गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चायुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे उषगोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।

१२५ तिर्यञ्चोंमें मूलोधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीर नहीं

पंचिदियतिरिक्खपज्जं मूलोबंधं^१ याव देवगदिं जं पं संखेंज्जुं । गिरयगं जं पं असंंगुं । अण्णदरे आउं जं पं संखेंज्जुं । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मूलोबंधं याव वेउं जं पं असंंगुं । तदो गिरयगं-देवगं जं पं संखेंज्जुं । अण्णदरे आउं जं पं संखेंज्जुं । सच्चअपज्जत्तयाणं च सच्चएइंदिय-विगल्लिदिय-पंचकायाणं गिरयभंगो । गचरि तेउ-वाऊणं मणुसगटिच्चदुक्कं वज्ज ।

१२६. मणुसेसु ओवो याव तिरिक्ख-मणुसाऊणं जं पं असंंगुं । तदो आहारं जं पं असंंगुं । गिरयगदिं जं पं संखेंज्जुं । गिरय-देवाऊणं जं पं संखेंज्जुं । मणुसपज्जत्तेसु एसेव भंगो याव देवगदिं जं पं । तदो आहारं जं पं असंंगुं । गिरयं जहं पं संखेंज्जुं । अण्णदरे आउं जं पदे संखेंज्जुं । मणुसिणीसु एसेव भंगो याव सादासादादीणं^२ जं पं विसें । तदो वेउं जं पं असंखेंज्जुं । आहारं जं पं विसें । देवगदिं जं पं संखेंज्जुं । गिरयगदिं जं पं विसें । अण्णदरे आउणे जं पं संखेंज्जुं ।

है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोमे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्त गंध्यातगुणा है-इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोबंधके समान भङ्ग है । उससे आगे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमे वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है-इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोबंधके समान भंग है । उससे आगे नरकगति और देवगतिका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है । सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोमे नारकियोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोमे मनुष्यगति चतुष्कको छोड़कर अल्पवहुत्व कहना चाहिए ।

१२६. मनुष्योमे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है-इस स्थानके प्राप्त होने तक ओषके समान भङ्ग है । उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है । उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है । मनुष्यपर्याप्तकोमे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्त सम्बन्धी अल्पवहुत्वके प्राप्त होने तक यहाँ भङ्ग है । उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है । मनुष्यिनियोमे सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशात्त विशेष अधिक है-इस स्थानके प्राप्त होने तक यहाँ भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्त विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्त विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशात्त संख्यातगुणा है ।

१. ता० प्रती 'एव पंचिदिय-तिरिक्ख-पञ्चं तिरिक्ख-पज्जं मूलोबंधं' इति पाठः । २. ता० प्रती 'गिरयं जं पं संखेंज्जुं । म [णु] सिणीसु' इति पाठः । ३. ता० प्रती 'याव स [सा] दास [सा] दादीणं' इति पाठः ।

१२७. देवसु भवण०-वाण०-जोदिसि० पढमपुढविभंगो । सोधम्मीसाणादि याव सहस्तर ति गेरइगभंगो याव कम्मइगसरीर ति । तदो तिरिक्ख-मणुसगदि० जह० प० संखेंज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । सेसाणं गिरयभंगो । आणद याव उवरिभगेवज्जा ति एसेव भंगो । णवरि तिरिक्खाउत्तदुक्कं पत्थि ।

१२८. अणुदिस याव सव्वट्ट ति सव्वत्थोवा अपच्चक्खणमाणे ज० पदे० । कोथे० ज० प० विसे० । माया० ज० प० विसे० । लोभे० ज० प० विसे० । एवं पच्चक्खण०४ । केवल्लणा० ज० प० वि० । पयला० ज० प० विसे० । णिहा० ज० प० विसे० । केवल्लदं० ज० प० विसे० । ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेंज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेंज्जगु० । भय० ज० प० विसे० । हस्स-सोगे० ज० प० विसे० । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । पुरिस० ज० प० विसे० । सेसाणं गेरइगभंगो ।

१२९. पंचिदियसु मूलोघो । पंचिदियपज्जत्तगेसु वि मूलोघो याव सादा-सादा ति । तदो वेउ० ज० प० असं०गु० । देवगदि० ज० प० संखेंज्जगु० । गिरय-

१२७. सामान्य देव, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें पहली पुथिवीके समान भङ्ग है । सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें कार्मणशरीरसम्बन्धी अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक नारकियोंके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चगति और मनुष्य-गतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । आनत कल्पसे लेकर उपरिस-प्रवैयक तकके देवोंमें यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँ तिर्यञ्चगतिचतुष्क नहीं है ।

१२८. अनुदिशिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अपेक्षा अल्प-बहुत्व जानना चाहिए । उससे आगे केवल्लानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे केवल्लदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे हास्य और शोकका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । आगे शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

१२९. पञ्चन्द्रियोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । पञ्चन्द्रिय पर्याप्तकोंमें भी सातावेदनीय और असातावेदनीयकी अपेक्षा अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे

गादि० ज० प० असंखेज्जगु० । अण्णदरे आउ० ज० प० संखेज्जगु० । आहार० ज० प० असंगु० ।

१३०. तस-तसयज्जत्तयाणं मूलोधो । पंचमण०-तिण्णवचि० मूलोधं याव केवल दंसणावरणीयं चि । तदो वेउ० ज० प० अणंतगु० । आहार० ज० प० विसे० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० पदे० विसे० । ओरालि० ज० प० विसे० । तिरिक्ख०- [मणुस०] ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । देघा० ज० प० विसे० । गिरय० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । भय० ज० प० विसे० । हस्त-सोगे० ज० प० विसे० । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । अण्णदरवेद० ज० प० विसे० । माणसं० ज० प० विसे० । कोधसं० ज० प० विसे० । मायासं० ज० प० विसे० । लोभसं० ज० प० विसे० । दाणंत० ज० प० विसे० । लाभंत० ज० प० विसे० । भोगंत० ज० प० विसे० । परिभोगंत० ज० प० विसे० । विरियंत० ज० प० विसे० । मणपज्ज० ज० प० विसे० । ओधिणा० ज० प० विसे० । सुदणा० ज० प० विसे० । आभिणि० ज० प० विसे० । ओधिदं० ज० प० विसे० ।

वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है ।

१३०. त्रस और त्रस पर्याप्तकामें मूलोधके समान भङ्ग है । पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयकी अपेक्षा अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक मूलोधके समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्जगति और मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशा-कीर्ति और अयशा-कीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे हास्य और शोकका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अन्वतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य-प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे परियोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अचधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।

अचक्रुदं ज० प० वि० । चक्रुदं ज० प० विसे० । अण्णदरे आउ० ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरगोदं ज० प० विसे० । अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० ।

१३१. वचि०-असम्भोसवचिजोगीसु ओधो याव चक्रुदं ज० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरे गोदे० ज० प० विसे० । अण्णदरे वेदणी० ज० प० विसे० । वेउव्वि० ज० प० [असंखेज्जगु० । देवगादि० ज० प०] असंखेज्जगु० । गिरयगादि० ज० प० संखेज्जगुणं । गिरय-देवाऊणं ज० प० संखेज्जगुणं । आहार० ज० प० असं०गु० । एवं ओगलि० । कायजोगि० ओधं ।

१३२. ओरालियमिस्से मूलोधो याव अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० । तदो वेउ० ज० प० असं०गु० । देवगादि ज० प० संखेज्जगु० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असं०गु० । वेउव्वियकायजो० सोधम्मभंगो याव चक्रुदं ज० प० विसे० । तदो तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरे गोदं ज० प० विसे० । अण्णदर-वेदणी० ज० प० विसे० । वेउव्वियमिस्स० एवं चेव । आउ० णत्थि ।

उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अचक्रुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे चक्रुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।

१३१. वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें चक्रुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है-इस स्थानके प्राप्त होने तक ओधके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । काययोगी जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है ।

१३२. औदारिकमित्रकाययोगी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है-इस स्थानके प्राप्त होनेतक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चक्रुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है-इस स्थानके प्राप्त होने तक सौधर्मकल्पके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । वैक्रियिकमित्रकाययोगी जीवोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयुकर्म नहीं है ।

१. आ०प्रती वेउव्वि० ङ० प० एवं चेव । आउ० असंखेज्जगु० । इति पाठः ।

१३३. आहार०-आहारमि० सव्वत्थोवा केवलणा० ज० प० । पयला० ज० प० विसे० । णिदा० ज० प० विसे० । केवलदं० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । देवग० ज० प० संखेअगु० । जस० ज० प० विसे० । अजस० ज० प० विसे० । दुशुं० ज० पदे० संखेअगु० । भय० ज० प० विसे० । हस्स० ज० प० विसे० । रदि० ज० प० विसे० । पुरिस० ज० प० विसे० । सोग० ज० प० विसे० । अरदि० ज० प० विसे० । माणसं० ज० प० विसे० । कोधसंज० ज० प० विसे० । मायासं० ज० प० विसे० । लोभसं० ज० प० विसे० । उवरि सव्वडुभंगो याव साद त्ति । तदो असाद० ज० प० विसे० । कम्मइग० ओरा० मि० भंगो । णवरि आउ० णत्थि ।

१३४. इत्थिवेदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणिभंगो । णवरि अवसाणे आहार० ज० प० असंगु० भाणिदव्वं । पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । णवरि अवसाणे आहार० ज० प० असंगु० । णवुंसगे मूलोघो याव अण्णदरवेदणीय० ज० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असंगु० । वेउ० ज० प० असंगु० ।

१३३. आहारकक्राययोगी और आहारकमिश्रक्राययोगी जीवोंमें केवलहानावरणका जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तोक है । उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे निद्राका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे वैकियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे यश.कीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे अयश.कीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे रतिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे शोकका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे अरतिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । आगे सातावेदनीयका अल्पचहुत्व प्राप्त होनेतक सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रक्राययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयुर्कर्म नहीं है ।

१३४. स्त्रीवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अन्तमें आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा कहना चाहिए । पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अन्त में आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है । नपुंसकवेदी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है-इस स्थान के प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चायु और मन्त्र्यायुका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है । उससे वैकियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम

गिरय-देवग० ज० प० संखेंज्जगु० । गिरय-देवाउ० ज० प० संखेंज्जगु० । आहार०
ज० प० असंगु० ।

१३५. अवगदवे० सव्वत्थोवा केवलणा० ज० प० । केवलदं० ज० पदे० विसे० ।
दाणंतं० ज० प० अणंतगु० । लाभंतं० ज० प० विसे० । भोगंतं० ज० प० विसे० ।
परिभोगंतं० ज० प० विसे० । विरियंतं० ज० प० विसे० । मणपज्जं० ज० प०
विसे० । ओधिणा० ज० प० विसे० । सुदणा० ज० प० विसे० । आभिणिं० ज० प०
विसे० । माणसंजं० ज० प० विसे० । कोधसंजं० ज० प० विसे० । मायासंजं० ज०
प० विसे० । लोभसंजं० ज० प० विसे० । ओधिदं० ज० प० विसे० । अचक्खुदं०
ज० प० विसे० । चक्खुदं० ज० प० विसे० । जस०-उच्चा० ज० प० संखेंज्जगु० ।
सादा० ज० प० विसे० ।

१३६. कोधादि०४ ओषं । मदि-सुदं० णडुंसगभंगो० । णवरि आहारसं० णत्थि ।
विभंगे मूलोयो याव केवलदंसणावरणीय त्ति । तदो ओरा० ज० प० अणंतगु० ।
तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० विसे० । तिरिक्ख०

असंख्यातगुणा है । उससे नरकगत और देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे
नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र
असंख्यातगुणा है ।

40983

१३५. अणतवेदी जीवोंमें केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे थोड़ा है ।
उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य
प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।
उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य
प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।
उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका
जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।
उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका
जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष
अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका
जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक
है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका
जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यात-
गुणा है । उससे सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।

१३६. क्रोधादि चार कषायबाले जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी
जीवोंमें नपुंसकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें आहारकशरीर नहीं है ।
विभङ्गज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणकी अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक मूलोषके समान भङ्ग है ।
उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे वैजसशरीरका जघन्य
प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे
वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यङ्गगतिका जघन्य प्रदेशाप्र

ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० वि० । मणुस० ज० प० वि० । गिरय-
देवग० ज० प० वि० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरिमणजोगिभंगो ।

१३७. आभिणि-सुद-ओधि० उक्कस्सभंगो याव केवलदंसणावरणीय त्ति । तदो
ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा ज० प० विसे० । कम्मइ० ज० प० विसे० । वेउ०
ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० ।
दोगदि० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरि याव अणुदिस
विमाणवासियदेवभंगो याव सादासादा० त्ति । तदो आहार० ज० प० असंगु० । दो
आउ० ज० प० संखेज्जगु० ।

१३८. मणपज्जवणाणीसु उक्कस्सभंगो याव केवलदंसणावरणीयं त्ति । तदो वेउ०
ज० प० अणंतगु० । आहार० ज० प० विसे० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज०
प० विसे० । देवगदि ज० प० संखेज्जगु० । जस०-ज० प० वि० । अजस० ज० प०
विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरिं आहारकायजोगिभंगो । एवं संजद-

संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।
उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे नरकगति और देवगतिका जघन्य
प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे आगे
मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

१३७. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका
अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र
अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका
जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।
उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका
जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे दो गतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।
उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे आगे सातावेदनीय और असाता-
वेदनीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अनुदिशविमानवासी देवोंके समान भङ्ग है । उससे
आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे दो आयुका जघन्य प्रदेशात्र
संख्यातगुणा है ।

१३८. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक उत्कृष्टके
समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र अनन्तगुणा है । उससे आहारक-
शरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक
है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र
संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका
जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे
आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार संयत, सामाथिकसंयत, द्वेदो-

१ ता०प्रती 'उवरिम जोगिभंगो' आ०प्रती 'उवरिमजोगिभंगो' इति पाठः । २ ता०आ०प्रयोः
'केवलणावरणीय' इति पाठः ।

सामाह-ञ्जेदो-परिहार० मणपञ्जवभंगो । सुहुमसं० उक्तस्सभंगो ।

१३६. संजदासंजदेसु उक्तस्सभंगो याव देवगदि० ज० प० संखेंजगु० । जस० ज० प० वि० । अजस० ज० प० विसे० । उवरिं आहारकायजोगिभंगो । असंजदेसु मूलोषं । णवरि आहार० णत्थि ।

१४०. चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओधं । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काऊणं असंजदभंगो । तेउ-पम्मार्णं मूलोषं याव केवलदंसणावरणं चि । तदो ओरालि० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसगदि० ज० प० संखेंजगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । देवगदि० ज० प० वि० । दुगुं० ज० प० संखेंजगु० । उवरिं ओधं याव सादासादा० चि ज० प० वि० । तदो आहार० ज० प० असं०गु० । तिरिक्ख-मणुस-देवाऊणं ज० प० संखेंजगु० । सुक्कलेस्सिगेषु एवं चेव । णवरि तिरिक्खगदि०४ वज ।

१४१. भवसि० औषं । अभवसि० मदि०भंगो । सम्मा०-सुवह०-वेदग० आभिणि०भंगो । उवसमसम्मा० ओधि०भंगो याव केवलदंसणावरणीय चि । तदो

पत्यापनासंयत और परिहायविद्युद्विसंयत जीवोंमें मनःपर्ययजानी जीवोंके समान भङ्ग है । सूक्ष्मसान्द्ररायसंयत जीवोंमें उच्छुद्धके समान भङ्ग है ।

१३६. संयतासंयत जीवोंमें देवगतिका जयन्त्य प्रदेशात्प रख्यात्तगुणा हैं-इस स्थानके प्राप्त होने तक उच्छुद्धके समान भङ्ग है । उससे आगे यशःकौर्तिकी जयन्त्य प्रदेशात्प विशेष अधिक है । उससे अयशःकौर्तिकी जयन्त्य प्रदेशात्प विशेष अधिक है । उससे आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । अंतयत जीवोंमें मूलोषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीर नहीं है ।

१४०. चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनी जीवों में अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । कृष्णलेखावाले नीललेखावाले और कापीतलेखावाले जीवोंमें अंतयत जीवोंके समान भङ्ग है । पीतलेखावाले और पद्मलेखावाले जीवोंमें केवलदर्शना-वरणका अत्यवहृतत्व प्राप्त होने तक मूलोषके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जयन्त्य प्रदेशात्प अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जयन्त्य प्रदेशात्प विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जयन्त्य प्रदेशात्प विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जयन्त्य प्रदेशात्प विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्जगति और मनुष्यगतिका जयन्त्य प्रदेशात्प संख्यातगुणा है । उससे यशःकौर्ति और अयशःकौर्तिकी जयन्त्य प्रदेशात्प विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जयन्त्य प्रदेशात्प विशेष अधिक है । उससे लुगुप्साका जयन्त्य प्रदेशात्प संख्यातगुणा है । उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका जयन्त्य प्रदेशात्प विशेष अधिक है-इस स्थानके प्राप्त होने तक ओषके समान भङ्ग है । उससे आगे आहारकशरीरका जयन्त्य प्रदेशात्प अरंख्यातगुणा है । उससे तिर्यंबायु, मनुष्यायु और देवायुका जयन्त्य प्रदेशात्प संख्यातगुणा है । शुक्ललेखावाले जीवोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्जगतिकप्लुक्को ह्यङ्कुर कहना चाहिए ।

१४१. भव्य जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । अभव्य जीवोंमें मत्यजानी जीवोंके समान भङ्ग है । सन्यदृष्टि, चापिकसन्यदृष्टि और वेदकसन्यदृष्टि जीवोंमें आभिनिवाधिकजानी जीवोंके समान भङ्ग है । उपशमसन्यदृष्टि जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अत्यवहृतत्व प्राप्त होने तक अवधि-

ओरा० ज० प० अणंतगुणं । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । मणुसग० ज० प० संखेंजगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । उवरिं ओधि०भंगो याव सादासादा० त्ति । तदो वेउ० ज० प० असं०गु० । आहार० ज० प० विसे० । देवग० ज० प० संखेंजगु० ।

१४२. सासणे उकस्सभंगो याव केवलदं० । तदो ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । तिरिक्ख० ज० प० संखेंजगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेंजगु० । उवरिं उकस्सभंगो याव चहुदंसणावरणीय त्ति । तदो अण्णदरगोदं० ज० प० संखेंजगु० । अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० असं०गु० । देवगदिं० ज० प० संखेंजगु० । तिण्णिआउ० ज० प० संखेंजगु० ।

१४३. सम्मामि० ओधिणाणिभंगो याव केवलदंसणावरणीय त्ति । तदो ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेंजगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । देवग० ज०

ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है ।

१४२. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोमे केवलदर्शनावरणका भङ्ग प्राप्त होनेतक उत्कृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे आगे चारों दर्शनावरणीयका भङ्ग प्राप्त होने तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे तीन आयुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है ।

१४३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे केवलदर्शनावरणीयका भङ्ग प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष

प० त्रिसे० । दुगुं० ज० प० संखेंजगु० । उवरिं आउगवजा याव मणपञ्चवणाणावरणीय
त्ति । मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो । सण्णीसु मणुसभंगो । असण्णीसु मदिअण्णाणिभंगो ।
आहारय०ओघभंगो । अणाहारय०कम्मइयभंगो ।

एवं जहणपरत्थाणअप्पावहुगं समत्तं ।

एवं चटुवीसमणियोगद्दारं समत्तं ।

भुजगारबंधो अट्टपदं

१४४. एत्तो भुजगारबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि एहिं पदेसग्गं बंधदि अणंत-
रोसक्काविदविदिकंते समए अप्पदरादो बहुदरं बंधदि त्ति एसो भुजगारबंधो णाम ।
अप्पदरबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि एहिं पदेसग्गं बंधदि अणंतरुस्सक्काविद-
विदिकंते समए बहुदरादो अप्पदरं बंधदि त्ति एसो अप्पदरबंधो णाम । अवट्ठिदबंधे
त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि एहिं पदेसग्गं बंधदि अणंतरोसक्काविद-उस्सक्काविदविदिकंते
समए तत्तिर्यं तत्तिर्यं चैव बंधदि त्ति एसो अवट्ठिदबंधो णाम । अवंधादो बंधो एसो अवत्तव्व-
बंधो णाम । एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्दाराणि—समुक्कित्तणा याव
अप्पावहुगे त्ति ॥ १३ ॥

अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे जुगुसाका जघन्य-
प्रदेशाप्र संत्यातरुणा है । इससे आगे आयुर्कर्मको छोड़कर मन-पर्ययज्ञानी जीवोंके समान अल्प-
बहुत्व जानना चाहिए । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । संज्ञी जीवोंमें मनुष्यों
के समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । आहारक जीवोंमें ओघके
समान भङ्ग है तथा अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार जघन्य परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।

भुजगारबन्ध—अर्थपद

१४४. यहाँ से आगे भुजगारबन्धका प्रकरण है । उसके विषयमें यह अर्थपद है—इस
समयमें जिन प्रदेशोंका बन्ध करता है, उन्हें अनन्तर पिछले व्यतीत हुए समयमें घटाकर
बोंबे गये अल्पतरसे बहुतर बोंधता है, इसलिए यह भुजगारबन्ध कहलाता है । अल्पतर-
बन्धके विषयमें यह अर्थपद है—इस समय जिन प्रदेशोंको बोंधता है उन्हें अनन्तर पिछले
व्यतीत हुए समयमें बढ़ाकर बोंबे गये बहुतरसे अल्पतर बोंधता है, इसलिए यह अल्पतरबन्ध
कहलाता है । अवस्थित बन्ध के विषयमें यह अर्थपद है—इस समय जिन प्रदेशोंको बोंधता
है उन्हें अनन्तर पिछले समयमें घटाकर या बढ़ाकर बोंबे गये प्रदेशोंके अनुसार उतने ही
बोंधता है, इसलिए यह अवस्थितबन्ध कहलाता है । तथा अबन्धके वाद् बन्ध होना यह
अवक्तव्यबन्ध कहलाता है । इस अर्थपदके अनुसार ये तेरह अनुयोगद्वार हैं—समुक्कीर्तनासे
लेकर अल्पबहुत्व तक १३ ।

१ ता०प्रती 'इमं याणि' इति पाठः । २ ता०प्रती 'बंधदि । अणंतरुस्सक्काविदविदिकंते' इति पाठः ।
१४

समुक्कित्तणाणुगमो

१४५. समुक्कित्तणाए दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सन्वपगदीणं अत्थि भुजगारबंधगा अप्पदरबंधगा अवट्टिदबंधगा अवत्तवबंधगा य । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-फायजोगि०-ओरालियका०-आभिणि-सुदं-ओधि०-मणपज्ज०-संज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग ति ।

१४६. गिरएसु धुवियाणं अत्थि भुज०-अप्पदर०-अवट्टिद० । सेसाणं ओघभंगो । एवं सन्वणेरइएसु । णवरि पढमाए तित्थयरं धुवियाणंभंगो । विदियाए तदियाए साद०भंगो । एदंण वीजेण याव अणाहारग ति षेदध्वं । णवरि वेउच्चियमि०-आहारमि० धुवियाणं अत्थि भुज० । सेसाणं परियत्तमाणियाणि अत्थि भुजगार०-अवत्तव० ।

विशेषार्थ—जिन तेरह अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर भुजगारबन्धका कथन किया जा रहा है, उनके नाम ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व ।

समुत्कीर्तनाणुगम

१४५. समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक, अल्पतरबन्धक, अवस्थितबन्धक और अवक्तव्यबन्धक जीव हैं । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभित्तिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन-पर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले, शुक्लेदरयावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिक-सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्ध तो सन्भव है ही, क्योंकि योगकी घटा-बढ़ी होनेसे और एक समान योगके रहनेसे ये पद सब प्रकृतियोंके बन जाते हैं । साथ ही जो अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, उनका अवक्तव्यबन्ध भी सर्वत्र सन्भव है और जो ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, उनको यथायोग्य स्थानमें बन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः पूर्वस्थान प्राप्त होनेपर उनका बन्ध होने लगता है, इसलिए ओघसे इनका भी अवक्तव्यबन्ध बन जाता है । यहाँ मनुष्यत्रिक आदि जितनी मार्गणार्थ गिनाई हैं, उनमें जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, उनमें ओघके अनुसार भुजगार आदि चारों पद बन जाते हैं, इसलिए इन मार्गणाओंमें ओघके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है ।

१४६. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक, अल्पतरबन्धक और अवस्थितबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवीमें तीर्थेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । तथा दूसरी और तीसरी पृथिवीमें तीर्थेङ्करप्रकृतिका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इस वीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली

कम्मइ०-अणहार० धुवियाणं देवगदिपंचगस्स य अत्थि भुज० । सेसाणं अत्थि भुज०-
अवत्तव्व०^१ ।

एवं समुक्त्तिगा समत्ता^१ ।

प्रकृतियोंके भुजगारवन्धक जीव है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगारवन्धक और अवक्तव्य-
वन्धक जीव हैं । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके और
देवगतिपञ्चकके भुजगारवन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंके भुजगारवन्धक और अवक्तव्य-
वन्धक जीव हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ नारकियोंमें जो ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों हैं, उनका निरन्तर बन्ध होता
रहता है, इसलिए उनका अवक्तव्यवन्ध सम्भव न होनेसे तीन ही बन्ध कहे । अध्रुववन्धिनी
प्रकृतियोंका अवक्तव्यवन्ध भी सम्भव है, इसलिए उनका ओषके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की
है । सब नारकियोंमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनका निरूपण सामान्य नारकियोंके
समान जाननेकी सूचना की है । मात्र पहली पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला
ऐसा ही मनुष्य मर कर उत्पन्न होता है जो सम्यग्दृष्टि होता है, अतः वहाँ यह प्रकृति भी
ध्रुववन्धिनी होती है, इसलिए वहाँ इसका अवक्तव्यवन्ध सम्भव न होनेसे ध्रुववन्धवाली
प्रकृतियोंके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की है । तथा दूसरी और तीसरी पृथिवीमें तीर्थङ्कर
प्रकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर उत्पन्न होता है, इसलिए वहाँ इसका
मिथ्यात्वके कालमें बन्ध नहीं होता । बादमें जब वह सम्यग्दृष्टि हो जाता है, तब पुनः बन्ध प्रारम्भ
होता है, इसलिए वहाँ इसका सातावेदनीयके समान अवक्तव्यवन्ध घटित हो जानेसे साता-
वेदनीयके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की है । यह पूर्वोक्त प्ररूपणा वीजपद है ।
आगे अनाहारक मार्गणातक इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । अर्थात् जिस मार्गणामें
जो ध्रुववन्धिनी प्रकृतियों हैं, उनके तीन पद और अध्रुववन्धिनी प्रकृतियोंके चार पद जानने
चाहिए । मात्र जिन मार्गणोंमें कुछ विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है । खुलासा
इस प्रकार है—त्रैक्रियकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें एकान्तानुबुद्धियोग होता
है, इसलिए इन दो मार्गणोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका केवल भुजगारवन्ध ही सम्भव है,
क्योंकि इनमें प्रति समय उत्तरोत्तर योगकी वृद्धि होनेसे इन प्रकृतियों का उत्तरोत्तर प्रदेशबन्ध
भी अधिक-अधिक होता है । तथा जो अध्रुववन्धवाली प्रकृतियों हैं, उनके भुजगारवन्ध और
अवक्तव्यवन्ध ही सम्भव हैं, क्योंकि इन प्रकृतियोंका बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें अवक्तव्य-
वन्ध होता है और द्वितीयादि समयमें भुजगारवन्ध होता है । कर्मणकाययोग और अनाहारक-
मार्गणोंमें भी इसी प्रकार घटितकर लेना चाहिए । इन दोनों मार्गणोंमें जिन जीवोंके
देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है, उनके उन प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए
इनमें इन पाँच प्रकृतियोंकी परिगणना ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके साथ की है ।

इस प्रकार समुक्तीर्तना समाप्त हुई ।

१ ता०प्रती अत्थि भुज० अवत्तं (त०) इति पाठः । २ ता० प्रती 'एवं समुक्त्तिगा समत्ता' इति
पाठो नास्ति ।

सामित्ताणुगमो

१४७. सामित्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दुगु-तैजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अपद०-अवट्ठि०-बंधगो को होदि ? अण्णदरो । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० उवसामयस्स परि-वदमाणयस्स मणुसस्स वा मणुसिए वा पढमसमयदेवस्स वा । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अण्णताणु०४ तिण्णि पदा कस्स० ? अण्णद० । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिवदमाणयस्स पढमसमयमिच्छादिट्ठिस्स वा सासणसम्मादिट्ठिस्स वा । णवरि मिच्छ० अवत्त० [सम्मामिच्छत्तादो] सासण-सम्मत्तादो वा परिवदमाणय० मिच्छादिट्ठिस्स । सादादीणं सच्चपगदीणं परियत्तमाणीणं तिण्णि पदा कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ! अण्ण० परियत्तमाणयस्स पढमसमय-बंधयस्स । अपच्चक्खाण०४ तिण्णि पदा कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा० संजमासंजमादो वा परिवदमा० पढमसमयमिच्छा० वा सासण० वा [सम्मामि० वा] असंजदसम्मा० वा । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि संजमादो परिवद-माणयस्स पढमसमयमिच्छादिट्ठिस्स वा सासण० वा सम्मामि० वा असंजदसम्मादि०

स्वामित्वाणुगम

१४७. स्वामित्वाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संस्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनो और इनको बन्धव्युच्छित्तिके वाद मर कर उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्ती देव इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । त्यानगृह्णिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धोचतुष्कके तीन पदोका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोका स्वामी है । इनके अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? संयमसे, संयमासंयमसे और सम्यक्त्वसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । इतनी विपेक्षा है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्वामी सम्यग्मिथ्यात्व और सासादनसम्यक्त्वसे भी गिरनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव ही होता है । परावर्तमान सातावेदनीय आदि सब प्रकृतियोंके तीन पदोका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोका स्वामी है । इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? परावर्तन करके प्रथम समयसे बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोका स्वामी है । इनके अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? संयमसे और संयमासंयमसे गिर कर जो मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि हुआ है, प्रथम समयवर्ती उक्त गुणस्थानोवाला वह जीव उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका स्वामी है । इसी प्रकार अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके समान प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके चार पदोका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो संयमसे गिर कर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या

वा संजदासंजदस्स वा । चट्टुणं आउगाणं तिणिण पदा कस्स० ! अण्णद० । अवत्त० कस्स० ! अण्ण० पढमसमयआउगवंधमाणयस्स । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदि०- तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-आभिणि-सुद-ओधि०- मणपज०-संजद- चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मा०-खइग०-उवसम०-सणिण०- आहारग ति । णवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०-संजद० अवत्तव्वं देवो०त्ति ण भाणिदव्वं । एवं एदेण वीजेण याव अणाहारग ति णेदव्वं ।

एवं सामिचं समत्तं ।

संयतासंयत होता है वह प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका स्वामी है । चार आयुओके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव चार आयुओके तीन पदोंका स्वामी है । इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? प्रथम समयमे आयुवन्धका प्रारम्भ करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, प्रसद्विक, पाँचो मनोयोगी, पाँचो वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनिबोधिक- ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन-पर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, पाँचो मनोयोगी, पाँचो वचनयोगी, औदारिककाययोगी और संयत जीवोंमे पाँच ज्ञानावरणादिके प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका स्वामी देवको नहीं कहना चाहिए । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार अनाहरक मार्गणा तक लेजाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ किस प्रकृतिके किस पदका कौन जीव स्वामी है इस बातका विचार किया गया है । प्रथम दण्डकमे कही गई पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियों अपनी अपनी बन्ध- व्युच्छित्तिके स्थानके पूर्व ध्रुवबन्धवालों हैं, इसलिए इस बीच कोई भी जीव इनके भुजगार आदि तीन पदोंमेंसे किसी भी पदका स्वामी हो सकता है, अतः इनके तीन पदोंका अन्यतर जीव स्वामी कहा है । पर इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणीसे गिरनेवाले या तो मनुष्यके होता है या मनुष्यनीके होता है और यदि ऐसा मनुष्य या मनुष्यनी इनका पुन' बन्ध होनेके पूर्व मर कर देव हो जाता है तो वह भी प्रथम समयमे इनके अवक्तव्यपदका स्वामी होता है, इसलिए ऐसे जीवोंको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है । दूसरे दण्डकमें कही गई स्थानगृद्धित्रिक आदि भी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके पूर्वतक ध्रुवबन्धिनी हैं, इसलिए इस बीच कोई भी जीव यथायोग्य योगके अनुसार इनके तीन पदोंका बन्ध कर सकता है, अतः इनके भी तीन पदोंका अन्यतर जीव स्वामी कहा है । पर इनमेंसे मिथ्यात्वके सिवा शेष प्रकृतियों का अवक्तव्यपद संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यादृष्टि हुए जीवके प्रथम समयमे होता है और मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व और सासादन- सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम समयमे होता है, क्योंकि अपनी अपनी व्युच्छित्तिके वाद ऊपरके गुणस्थानोंमें इनका बन्ध नहीं होता है । लौट कर पुनः बन्धयोग्य गुणस्थानोंके प्राप्त होने पर इनका बन्ध होने लगता है, इसलिए ऐसे जीवको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है । यहाँ सम्यग्मिथ्यात्वसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि होता है वह भी

कालाणुगमो

१४८. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सञ्चपगदीणं भुजगार०-
अप्पद० जह० एगसभयं, उक्क० अंतोमुहुत्तं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० पवाइज्जतेण
उचदेसेण ँकारससमयं । अण्णेण पुण उचदेसेण पण्णारससमयं । चहुण्णं आसुगाणं भुज०-
अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सत्तसम० । अवत्त०

स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके अवक्तव्यपदका स्वामी होता है, इतना विशेष जानना चाहिए। यद्यपि यह बात मूलमें नहीं कही गई है, फिर भी यह सम्भव है, इसलिए इसका अलगसे निर्देश किया है। सातावेदनीय आदि अध्रुववन्धिनी प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम समयमें अवक्तव्यपद और द्वितीयादि समयोंमें शेष तीन पद सम्भव हैं, यह स्पष्ट ही है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क चतुर्थ गुणस्थान तक ध्रुववन्धिनी है। इस बीच कोई भी जीव इनके तीन पदों का स्वामी हो सकता है। आगेके गुणस्थानों में इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए संयम या सयमासंयमसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि होता है, वह इनके अवक्तव्य पदका स्वामी होता है, यह कहा है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका सयमासंयम गुणस्थान तक बन्ध होता है, इसलिए यहाँ तक ये ध्रुवबन्धवाली होनेसे इस बीच किसी भी जीवको इनके तीन पदों का स्वामी कहा है। मात्र इनका अवक्तव्य पद संयमसे गिरकर नीचेके गुणस्थानों को प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमें होता है। यही देखकर संयमसे गिर कर मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत-सम्यग्दृष्टि और संयतासंयत हुए प्रथम समयवर्ती जीवको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है। चार आयुका अपने बन्धके योग्य सामग्रीके मिलने पर ही बन्ध होता है, इसलिए इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम समयमें इनका अवक्तव्य पद और द्वितीयादि समयोंमें शेष तीन पद कहे हैं। यह ओघ प्ररूपणा है। मूलमें कही गई मनुष्यात्रिक आदि मार्गणाओं में अपनी-अपनी वन्ध प्रकृतियों के अनुसार यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र मूलमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों के अवक्तव्य पदका स्वामी ऐसा जीव भी कहा है जो उपरामश्रेणिमें इन प्रकृतियों की बन्धव्युत्पत्तिके बाद मर कर प्रथम समयवर्ती देव होता है। पर स्वामित्वका यह विकल्प मनुष्यात्रिक आदि कुल मार्गणाओं में घटित नहीं होता, अतः उनमें उसका निषेध किया है। इनके सिवा अनाहारक तक अन्य जितनी मार्गणाएँ हैं, उनमें उक्त व्यवस्थाको देखकर स्वामित्व साध लेना चाहिए। उक्त प्ररूपणा उन मार्गणाओंमें स्वामित्वके लिए साधनेके लिए बीजपद है।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

कालानुगम

१४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार न्यारह समय है। परन्तु अन्य उपदेश के अनुसार पन्द्रह समय है। चार आयुओं के भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। अवक्तव्यपदका जघन्य और

जह० उक्क० ग० । एवं याव अणाहारग ति णेढव्वं । णवरि ओरालियमि० देवगदि-
पंचगस्त भुज० जह० उक्क० अंतो० । दोआउ० ओवं । सेसाणं गदिभंगो । एवं
वेडव्वियमि० । आहारमि० धुवियाणं भुज० ज० उक्क० अंतो० । परियत्तमाणीणं भुज०-
अवत्त० ओवं । कम्मइ०-अणाहार० भुज० जह० एगं०, उक्क०वेसम० । अवत्त०
जह० उक्क० एग० । सुद्धमसंप०-उव्वसमसम्मा० अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं ।
एवं कालं समत्तं ।

उक्कृष्ट काल सत्रका एक समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गगानक ले जाना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार पदका जयन्य और उक्कृष्ट
काल अन्तर्मुहूर्त है । दो आयुओंका भङ्ग ओषके समान है । शय प्रकृतियोंका भङ्ग गतिके समान है ।
इसी प्रकार वैश्विकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें
ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदका जयन्य और उक्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । परावर्तमान
प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदका काल ओषके समान है । कर्मणकाययोगी और
अनाहारक जीवोंमें भुजगार पदका जयन्य काल एक समय है और उक्कृष्ट काल दो समय है ।
अवक्तव्यपदका जयन्य और उक्कृष्ट काल एक समय है । सुद्धमसम्परायसंयत और उपशम-
सन्त्यग्रष्टि जीवोंमें अवस्थित पदका जयन्य काल एक समय है और उक्कृष्ट काल सात समय है ।

विशेषार्थ—योगके अनुसार भुजगार और अत्यंतरपद् गुरु समय तक भी हो सकते
हैं और अन्तर्मुहूर्त काल तक भी हो सकते हैं । यही कारण है कि यहाँ पर सत्र प्रकृतियोंके
इन दो पदोंका जयन्य काल एक समय और उक्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । अवस्थितपदका
जयन्य काल तो एक समय ही है, क्योंकि एक समयके लिए अवस्थितपद होकर दूसरे समयमें
अन्य पद हो, यह सम्भव है । पर इसके उक्कृष्ट कालके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं—प्रथम
प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार उक्कृष्ट कालका निर्देश और दूसरा अप्रवर्तमान उपदेशके अनुसार
उक्कृष्ट कालका निर्देश । प्रथम उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उक्कृष्ट काल ग्यारह समय
बतलाया है और दूसरे उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उक्कृष्ट काल पन्द्रह समय बतलाया
है, इसलिए यहाँ सत्र प्रकृतियोंके अवस्थितपदका जयन्य काल एक समय और उक्कृष्ट काल
ग्यारह या पन्द्रह समय कहा है । चारों आयुओंके तीनों पदोंका यह काल इसी प्रकार है ।
मात्र अवस्थितपदका उक्कृष्ट काल ग्यारह समय या पन्द्रह समय न प्राप्त होकर केवल सात
समय ही प्राप्त होता है, इसलिए इनके तीनों पदोंके कालका अलगसे निर्देश किया है । अब
रहा सत्र प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका काल तो यह पद बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें
होता है, इसलिए इसका जयन्य और उक्कृष्ट काल एक समय कहा है । अनाहारक तक जितनी
मार्गगणें हैं, उनमें यह काल प्रस्थापना षडित हो जाती है, इसलिए उनमें ओषके समान जानने
की सूचना की है । मात्र उद्ध मार्गगणें इसकी अपवाद हैं, इसलिए उनमें अलगसे कालका
विचार किया है । उनमेंसे पहली आहारकमिश्रकाययोग मार्गगा है । इसमें सन्त्यग्रष्टि अपयोगी
जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीवोंके इनका नियमसे
भुजगारजन्म होता रहता है, इसलिए इस मार्गगामें उक्त पाँच प्रकृतियोंके भुजगारपदका
जयन्य और उक्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इस मार्गगामें दो आयुओंका भङ्ग ओषके समान
है, यह स्पष्ट ही है । तथा इसमें शेष प्रकृतियोंके चारों पदोंका काल गति मार्गगा के अनुसार
वन जाता है, इसलिए वह गतिके अनुसार जाननेकी सूचना की है । आहारकमिश्रकाययोगमें

१. अ०पृ० १११ 'देवगदिचक्रात्स च इह' इति पाठः । २. ता०पृ० १११ 'अनाहार० भुज० ए०' इति पाठः ।

अंतराणुगमो

१४६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुर्गु०-तेजा०क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्पद० वंधंतरं० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेढीए अमंखे० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्दपोग्गल० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेखावट्ठि० देह्ल० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेज्ज० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्दपोग्गल० । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० णाणावरणभंगो । अवत्त०

एकान्तानुवृद्धि योग होता है, इसलिये इसमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियों का एक भुजगारपद होनेसे उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा शेष प्रकृतियों परावर्तमान होती हैं। उनका जघन्य बन्धकाल एक समय है और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिये यहां ओघके अनुसार इन प्रकृतियों के भुजगारबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र यहां भुजगारका जघन्य काल एक समय प्राप्त करनेके लिये दो समय तक इन प्रकृतियोंका बन्ध अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि इन दो समयोंमें प्रथम समय अवक्तव्यका और दूसरा समय भुजगारका होनेसे भुजगारका जघन्य काल एक समय प्राप्त होगा। यहां सब परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका ओघके अनुसार जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक मार्गणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। पर इनमें प्रथम समय अवक्तव्यका है, इसलिये यहां भुजगारका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। अवक्तव्यका उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। सूक्ष्मसाम्पराय आदि दो मार्गणाओंमें मात्र अवस्थितपदके कालमें विशेषता है, इसलिये उसका अलगसे निर्देश किया है।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तर

१४६. अन्तरानुवकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है। अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। स्थान-गुद्धिन्निक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धो चतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्धासठ सागर प्रमाण है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रत्ति, अरत्ति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः-

जह० एग०, उक० अंतो० । अट्टक० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक० पुच्चकोडी
 देख० । अवट्टि०-अवत्त० णाणावरणभंगो । इत्थि० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० मिच्छ०-
 भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक० वेळावट्टि० देख० । पुरिस० भुज०-अप्पद०-
 अवट्टि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक० वेळावट्टि० सादि० । णवुंस०
 पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक०
 वेळावट्टिसाग० सादि० तिण्णिपलि० देख० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज०
 अंतो०, उक० वेळावट्टि० सादि० तिण्णिपलिदो० देख० । तिण्णिआउ०-वेउन्विद्यल्लक०
 तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक० अणंतका० । तिरिक्खाउ०
 भुज०-अप्पद० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक० सागरोवमसदपुधत्तं । अवट्टि०
 णाणा०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक०
 तेवट्टिसागरोवमसदं० । अवत्त० जह० अंतो०, उक० असंखेंजा लोभा । णवरि उज्जो०
 अवत्त० [जह०] अंतो०, [उक०] तेवट्टिसागरोवमसदं । अवट्टि० णाणा०भंगो ।
 मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० जह० एग०, उक० असंखेंजा

कीर्ति और अयशःकीर्तिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आठ कथायोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। खीवेदके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण है। पुरुषवेदके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरण के समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है। तीन आयु और त्रैकिकिकपट्टके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सवका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागरप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागरप्रमाण है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण

लोगा । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेंज्जा लोगा । चहुजादि-आदाव-
थावर-सुहुम-अपज्जत्त^१-साधारण० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पंचासीदि-
सागरोवमसदं० । एवं अवत्त० । जह० अंतो० । अवट्टि० णाणा०भंगो । पंचिदि०-
पर०-उस्सा०-त्तस०-वादर०-पज्ज०-पत्ते० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० णाणा०भंगो ।
अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं० । ओरा० भुज०-अप्पद० जह०
एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादि० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सेदीए असंखें ।
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमं० । एवं ओरालि०अंगो-वज्जरिं० । णवरि
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेंचीसं० सादि० । आहारदुगं तिण्णिपदा जह० एग०,
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्दपोंगल० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदें०
भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सेदीए
असंखें । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेळावट्टि० सादि० तिण्णिपलि० देह्वं ।
तित्थ० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० तेंचीसं० सादि० । णीचा० णसुंसगभंगो । णवरि अवत्त० जह०

है । चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागरप्रमाण है । इसी प्रकार अवक्तव्यपदकी अपेक्षा अन्तरकाल है । मात्र इस पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित-पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है । औदारिक-शरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण है । इसी प्रकार औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और वज्रपभनाराच संहननका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारोका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । समचतुरन्त्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छ्वासठ सागरप्रमाण है । तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदके समान

१ आ०प्रतौ 'सुहुमस अपज्जत्त' इति पाठः । २ आ०प्रतौ 'उक्क०सेदीए अणतकालम०' इति पाठः ।
३ ता०आ०प्रत्योः 'ओरालि०भंगो वज्जरि' इति पाठः । ४ आ०प्रतौ 'जह० एग० उ० अंतो० अवत्त०'
इति पाठः ।

अंतो०, उक्त० असंखेज्जा लोगा । एवं ओघभंगो अचक्षुर्दंभवसि० ।

है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंमें जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिका भुजगार और अल्पतरपद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्तके अन्तरसे सम्भव है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके इन पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त पहले कह आये हैं, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त दोनों पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त कहा है । इन प्रकृतियोंके अवस्थित पदके योग्य योग एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है और जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी हो सकता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । कुल योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । उनमें से एक-एक पदके योग्य योगस्थान भी जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होते हैं । इसलिए यदि अन्य पदोंके योग्य उक्त योगस्थान लगातार होते रहें और अवस्थित-पदके योग्य योगस्थान न हो, तब अवस्थित पदका यह उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है । इन प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ाकर दूसरी बारमें उतरते समय मरण कराके देवोंमें उत्पन्न कराने पर प्राप्त होता है और अर्ध-पुद्गल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें उपशमश्रेणि पर चढ़ाकर उतारने पर इनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है । स्थानागृद्धिक आदि आठ प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय तो पाँच ज्ञानावरण आदिके समान ही घटित कर लेना चाहिए । तथा इनका बन्ध, जो जीव बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ रह कर कुछ कम दो छथासठ सागरकाल तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहा है, उसके नहीं होता । इसके पूर्व और बादमें मिथ्यादृष्टि रहने पर अवश्य ही होता है और वह यथायोग्य भुजगार और अल्पतर दोनों प्रकारका हो सकता है, अतः इन आठ प्रकृतियोंके उक्त दो पदों का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर प्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भाग-प्रमाण जिस प्रकार पाँच ज्ञानावरण आदिके अवस्थित पदकी अपेक्षा घटित करके बतला आये हैं, उसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र वहाँ उपशमश्रेणिकी अपेक्षासे यह अन्तरकाल घटित होता है और यहाँ यह अन्तरकाल सम्यक्त्वकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए । सातावेदनीय आदिके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका संयतासंयत आदिके और प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका संयतके बन्ध नहीं होता और इन दोनों संयमासंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए यहाँ इन आठ कषायोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । यहाँ जघन्य अन्तर एक समय पहले घटित करके बतला आये हैं, इसलिए उसका फिरसे खुलासा नहीं किया । आगे भी जो अन्तरकाल पुनरुक्त होगा,

उसका अलगसे खुलासा नहीं करेगे। इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट है। मात्र यहाँ पर अवक्तव्य पदका अन्तरकाल क्रमसे संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके घटित कर लेना चाहिए। स्त्रीवेदके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है, यह स्पष्ट ही है। तथा इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है, क्योंकि यह सप्रतिपत्त प्रकृति होने से अन्तमुहूर्तके भीतर इसका दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर है, क्योंकि इतने काल तक जीवके बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ सम्यग्दृष्टि रहनेसे इसका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमसे उक्त कालप्रमाण कहा है। पुरुषवेदके प्रारम्भके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। तथा यह सप्रतिपक्ष प्रकृति होनेसे अन्तमुहूर्तके भीतर एक तो इसका दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है, दूसरे एक बार इसका बन्ध प्रारम्भ करके कोई जीव सबसे उत्कृष्ट काल तक बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ सम्यग्दृष्टि रहा और वहाँ इसका बन्ध करता रहा। पुनः मिथ्यात्वमे आकर और इसका अबन्धक होकर अन्तमुहूर्तमें पुनः इसका बन्ध करने लगा। यह काल साधिक दो छथासठ सागर प्रमाण होता है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण कहा है। नृपुंसकवेद आदिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, यह तो स्पष्ट ही है। तथा भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर इनका बन्ध नहीं होता और वहाँसे निकलनेके पूर्व जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण काल तक सम्यक्त्वके साथ यापन करता है, उस जीवके भी इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। उसके बाद मिथ्यात्वमे जाने पर उक्त दो पदों के साथ बन्ध होने लगता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण कहा है। इनके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागर जैसा भुजगार आदि दो पदोंका घटित करके बतलाया है, उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तीन आयु आदि नौ प्रकृतियोंके तीन पद तो एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं तथा अवक्तव्यपद कमसे कम अन्तमुहूर्तके अन्तरसे ही होगा, क्योंकि प्रथम बार बन्धका प्रारम्भ और अन्त होकर पुनः बन्धका प्रारम्भ होनेमे लगनेवाला काल अन्तमुहूर्तसे कम नहीं हो सकता, इसलिए आदिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा लगातार अनन्त काल तक एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्यायमें जीवके रहते हुए इनका बन्ध नहीं होता। तथा बन्धके अभावमें भुजगार आदि पद तो सम्भव ही नहीं हैं, अतः इन प्रकृतियोंके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चायुके भुजगार आदि दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त पूर्वमें कहे गये तीन आयु आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा कहे गये जघन्य अन्तरकालके समान ही घटित कर लेना चाहिए। तथा कोई जीव यदि अधिकसे अधिक काल तक तिर्यञ्च न हो तो वह सौ पृथक्त्व सागर काल तक ही नहीं होता, इसलिए तिर्यञ्चायुके उक्त तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इसके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होता है, यह स्पष्ट ही है। जो सम्यक्त्व और बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ १३२ सागर बिताकर अन्तमें नौवें अंशकमे उत्पन्न होता है, उसके इतने काल तक तिर्यञ्चगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, इसलिए तिर्यञ्चगतिद्विकके भुजगार और अल्पतर पदका तथा उद्योतके प्रारम्भके

तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रैसठ सागर कहा है। मात्र तिर्यञ्चगतिद्विकके और उद्योतके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त होता है, क्योंकि इनका एक बार बन्ध प्रारम्भ होकर और बीचमे कमसे कम अन्तर पड़कर पुनः दूसरी बार इनके बन्धका प्रारम्भ अन्तर्मुहूर्तसे पहले नहीं हो सकता। और तिर्यञ्चगतिद्विकका निरन्तर बन्ध तैजसायिक और वायुकायिक जीवोमे असंख्यात लोकप्रमाण काल तक होता रहता है, इसलिए इन दोनोके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इन तीनों प्रकृतियोंके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। मनुष्यगति आदि तीनका बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव नहीं करते, इसलिए इनके चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा इनके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त अन्य प्रकृतियोंका पूर्वमे अनेक बार घटित करके बतला आये है, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। चार जाति आदिका बन्ध निरन्तर एक सौ पचासी सागर तक नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके इन तीन पदोके जघन्य अन्तर कालका विचार तथा अवस्थितपदके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कालका विचार सुगम है। पञ्चन्द्रियजाति आदिका एक सौ पचासी सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनका शेष विचार सुगम है। जो मनुष्य प्रथम त्रिभागमें मनुष्यायुका बन्ध कर और त्नायिकसम्यग्दृष्टि होकर उत्तम भोगभूमिमे जन्म लेता है, उसके साधिक तीन पत्य तक औदारिकशरीरका बन्ध नहीं होता, इसलिये इसके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इसके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागका स्पष्टीकरण ज्ञानावरणके समान कर लेना चाहिए। तथा इसका कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे बन्ध सम्भव है और एकेन्द्रियोमें इसका अनन्त काल तक निरन्तर बन्ध होनेसे इतने कालके अन्तरसे भी इसका उक्त पद सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कहा है। औदारिक शरीर अङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके अन्य पदोका अन्तर काल औदारिकशरीरके समान बन जानेसे उस प्रकार जाननेकी सूचना की है। मात्र इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है। उत्कृष्ट अन्तरकाल अलग-अलग प्रकृतिका विचार कर घटित कर लेना चाहिए। आहारकद्विकका बन्ध अर्धपुद्गलपरावर्तनके प्रारम्भमे और अन्तमे करनेसे इनके चारों पदोका उक्त कालप्रमाण अन्तर प्राप्त हो जाता है। शेष विचार सुगम है। समचतुरस्रसंस्थान आदिके प्रारम्भके तीन पदोका जो अन्तरकाळ कहा है वह ज्ञानावरणके ही समान है, इसलिए ज्ञानावरणके प्रसंगसे जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है और कुछ कम तीन पत्य अधिक दो बार छथासठ सागरके अन्तरसे भी दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण कहा है। यहाँ जो उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है सो इतने काल तक तो इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, किन्तु इसके प्रारम्भमें इनका बन्ध प्रारम्भ करावे और सम्यक्त्वके कालके पूर्ण होनेपर सिध्यात्वमे ले जाकर तथा अन्य सप्रतिपत्त प्रकृतियोंका बन्ध कराकर पुन इनके बन्धका प्रारम्भ करावे और इस प्रकार यह उत्कृष्ट अन्तर काल ले आवे। अन्यत्र भी जहाँ विशेष खुलासा नहीं किया हो, वहाँ इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिए।

१५०. गिरएसु ध्रुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० तैत्तीसं० देख्ठ० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णसुंसुं० दोगदि-पंचसंठा०-पंचसंधं०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थं०-दूभग-दुस्सर-अणादं०-दोगोद० भुज०-अप्पद०-अवड्ढि० जह० एग०, अवत्तं० जह० अंतो०, उक्क० तैत्तीसं० देख्ठ० । दोवेद०-चदुणोको०-थिरादितिणियुग० भुज०-अप्प०-अवड्ढि० णाणा०भंगो । अवत्तं० जह० उक्क० अंतो० । पुरिस०-समचदु०-वज्जरी०-पसत्थं०-सुभग-सुस्सर-आदं० भुज०-अप्पद०-अवड्ढि० णाणा०भंगो । अवत्तं० जह० अंतो०, उक्क० तैत्तीसं० देख्ठ० । दोआउ० भुज०-अप्पद०-अवड्ढि० जह० एग०, अवत्तं० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं०

तीर्थङ्कर प्रकृतिका और अन्तरकाल सुगम है । केवल अवस्थित और अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालका विचार करना है । इस प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्ध काल साधिक तेतीस सागर है । यह सम्भव है कि बन्धकालके प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थित पद हो और मध्यमें न हो, इसलिए तो इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तथा किसीने तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भमें अवक्तव्यपद किया और साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध करनेके बाद मनुष्य पर्यायमें उपशमश्रेणिपर चढ़कर और इसका अवन्धक होकर उतरते समय पुन बन्ध प्रारम्भ किया । इस प्रकार अवक्तव्यपदका साधिक तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जानेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है । इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त इसके बन्धका प्रारम्भ कराके और अन्तर्मुहूर्तके भीतर उपशमश्रेणि पर चढ़ा कर और मरण कराकर देवोमें उत्पन्न कराकर पुन बन्धका प्रारम्भ करानेसे प्राप्त हो जाता है । नीचगोत्रका अन्य सब भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । मात्र इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे वह अलगसे कहा है । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोमें इतने काल तक इसका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अत इसके प्रारम्भमें और बादमें नीचगोत्रके बन्धका प्रारम्भ कराकर अवक्तव्यपदका यह अन्तर काल ले आना चाहिए । अचलदृशानी और भव्य जीवोमें यह ओषप्ररूपणा अधिकल घटित हो जानेसे उनमें ओषके समान जाननेकी सूचना की है ।

१५०. नारकियोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्थानगुच्छिन्निक, मिथ्यात्व अनन्तावन्धीचतुष्क, स्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायो-गति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और दो गोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो वेदनीय, चार लोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायो-गति, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना

देह० । तित्थ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क०
तिण्णि सागरो० सादि० । अवच० णत्थि अंतरं । एवं सच्चणेरइयाणं अप्पप्पणो अंतरं
णेद्वं । णवरि पढमाए पुढवीए तित्थ० अवच० णत्थि अंतरं ।

हैं। तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कट्र अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कट्र अन्तर साधिक तीन सागर हैं। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें अपना-अपना अन्तरकाल ले आना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—नारकियोंमें जो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों हैं, उनका अवस्थित पद भवके प्रारम्भमें और अन्तमें हो मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदका उक्कट्र अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहाँ इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए उसकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं कहा है। स्थानगुद्धि तीन आदिके चारो पदोंका जो उक्कट्र अन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है, उसका खुलासा इस प्रकार है—कोई जीव नरकमें जाकर और सम्यक्त्वको प्राप्त कर इनका अवन्धक हुआ। पुनः कुछ कम तेतीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः इनका बन्ध करने लगा। इसप्रकार तो भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उक्कट्र अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है। तथा नारकी होकर प्रारम्भमें अवस्थित पद किया और अन्तमें अवस्थितपद किया, इसलिए इसका भी उक्त कालप्रमाण उक्कट्र अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं उनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त तो सुगम है, पर स्थानगुद्धि आदि आठ प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त दो बार सम्यक्त्व कराकर और मिथ्यात्वमें ले जाकर प्राप्त कर लेना चाहिए। दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, पर अवस्थितपदका जो उक्कट्र अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है, वह कैसे बनता है यह विचारणीय है। बात यह है कि यहाँ अवस्थितपद प्रत्येक जीवके होना ही चाहिए—ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अवस्थितपदके कारणभूत जो योगस्थान हैं वे अधिकसे अधिक जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी होते हैं और एक समयके अन्तरसे भी होते हैं; पर नारकी जीवका नरकमें उक्कट्र अवस्थानकाल तेतीस सागरसे अधिक नहीं होता और इस कालके भीतर अवस्थितपदका उक्कट्र अन्तर काल दिखाना आवश्यक था, इसलिए जिस जीवने इन प्रकृतियोंका नरकभवके प्रारम्भमें अवस्थित पद किया और नरकभवके अन्तमें अवस्थित पद किया, मध्यमें नहीं किया उसको लक्ष्यमें रखकर अवस्थितपदका यहाँ उक्कट्र अन्तरकाल कहा है। अन्यत्र जहाँ भी भवस्थिति और कायस्थितिमें फरक नहीं है या कायस्थिति जगश्रेणिके असंख्यातवें भागसे न्यून है, वहाँ इसी वीजपदके अनुसार अवस्थितपदका उक्कट्र अन्तरकाल ले आना चाहिए। तथा इन दो वेदनीय आदिके दो बार बन्धके प्रारम्भमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उक्कट्र अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। पुरुषवेद आदि सप्रतिपक्ष प्रकृतियों तो हैं, पर सम्यग्दृष्टिके ये निरन्तरबन्धनी हैं, इसलिए यहाँ इनके प्रारम्भके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जाता है। अब रहा अवक्तव्यपद तो इनका मिथ्यादृष्टिके

१५१. तिरिक्खेसु धुवियाणं भुज०-अप्पद०-अवट्टि० ओषं । धीणगि० ३-सिन्नु०-
अणंताणु०४ भुज०-अप्पद० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपल्लिदो० देख्ठ० । अवट्टि०-
अवत्त० ओषं । दोवेदणी०-चदुणोको०-थिरादितिण्णियु० चत्तारि पदा ओषं । [अपक्क-
क्ख्वाण०४ ओषभंगो] । इत्थि० भुज०-अप्पद० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०,
उक्क० तिण्णि पल्लिदो० देख्ठ० । अवट्टि० ओषं । पुरिस० भुज०-अप्पद०-अवट्टि०
णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपल्लिदो० देख्ठ० । गणुंस०-चदुजादि-
[ओरा०-] पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-ऊस्संघ०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-
दूभग-दुस्सर-अणादं० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडि० देख्ठं० । अवट्टि०
णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देख्ठ० । तिण्णिआउ० भुज०-

अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार बन्ध होना सम्भव है और नरकभवके प्रारम्भमे इनका बन्ध प्रारम्भ करे । तथा सम्यक्त्वके साथ रह कर भवके अन्तमे मिथ्यादृष्टि होकर अन्य सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंसे अन्तरित कर पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करे, यह भी सम्भव है । यही कारण है कि यहाँ इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तैतीस सागर कहा है । दो आयुओंके भुजगार आदि तीन पद एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए दोनों आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय कहा है, पर दूसरी बार आयुबन्धका प्रारम्भ कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल गये बिना नहीं हो सकता, इसलिए इधका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा नरकमे प्रथम त्रिभागमे आयु बन्ध हो और उसके बाद कुछ कम छह महीनाका अन्तर देकर आयुबन्ध हो, यह सम्भव है/यही देखकर यहाँ इनके चारो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जीव यदि नरकमे उत्पन्न होता है तो उसको आयु साधिक तीन सागरसे अधिक नहीं होती, यह देखकर यहाँ इसके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । सामान्यसे नरकमें और प्रथम नरकमे तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है, यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

१५१. तिर्यञ्चोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ओषके समान है। स्थानगृह्णिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओषके समान है । दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके चार पदोंका भङ्ग ओषके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओषके समान है । त्रैवेदके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तथा अवस्थितपदका भङ्ग ओषके समान है । पुरुषवेदके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । नपुं-कवेद, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्योत, अग्रशस्त विद्यायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । तीन आयुओंके

१ ता०प्रती 'ओष । थि (थी) गणि०, इति पाठः । २ आ०प्रती 'अवत्त० जह० उक्क०' इति पाठः ।

अप्यद०-अवद्वि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देख्णं० ।
तिरिक्खत्ताउ० भुज०-अप्यद० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । अवद्वि० गाणा०-
भंगो । अवत्त० ज० अंतो, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । वेउव्वियल्लं मणुसगादितिगं
ओधं । तिरिक्खगदितिगं णलुंसगभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो, उक्क० असंखेज्जा
लोगा । पंचिदि०-समच्चदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-
अप्यद०-अवद्वि० गाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो, उक्क० पुव्वकोडी० देख्ण० ।

भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सवका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है । तिर्यञ्चायुके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण है । वैक्रियिकपदक और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग ओषके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसत्तुष्क, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ व आगे सव प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोका जो जघन्य अन्तरकाल कहा है वह सुगम है, क्योंकि उसका ओषप्ररूपणाके समय अलग-अलग स्पष्टीकरण कर आये हैं, अतः उसे वहाँ देखकर सर्वत्र घटित कर लेना चाहिए । जहाँ कुछ वक्तव्य होगा, वहाँ उसका निर्देश करेंगे ही । मात्र सर्वत्र यथासम्भव पदोके उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझ कर उसपर अवश्य ही विचार करेंगे । उसमे भी भुजगार और अल्पतरपदके विषयमे जहाँ विशेष वक्तव्य होगा, वहाँ उसका निर्देश करेंगे । यहाँ तिर्यञ्चाकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल होनेसे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओषके समान घन जानेसे वह ओषके समान कहा है । आगे अन्य जिन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका अन्तरकाल ओषके समान कहा है, वह भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए । स्थानगुद्वित्रिक आदिके भुजगार और अल्पतरपद उत्तम भोगभूमिके प्रारम्भमे हों, उसके बाद सम्यग्दृष्टि होकर इनका बन्ध न होनेसे मध्यमे न हों और अन्तमे मिथ्यादृष्टि होनेपर पुन बन्ध होने लगनेसे पुन हों, यह सम्भव है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । यहाँ आगे अन्य जिन प्रकृतियोंके जिन पदोका यह अन्तरकाल कहा है, वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । ओषसे इन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है, वह यहाँ भी बन जाता है, क्योंकि तिर्यञ्चकी कायस्थिति इन दोनो अन्तरकालोसे बहुत अधिक बतलाई है, अतः किसी भी जीवके इत्ने कालतक तिर्यञ्च पर्यायमे बने रहना सम्भव है । दो वेदनीय आदिके चारो पदोका भङ्ग ओषके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए उसे

१. ता०प्रतौ 'पुव्वकोडिति० सादि०' आ०प्रतौ 'पुव्वकोडितिभागं सादि०' इति पाठः ।
२. आ०प्रतौ 'पुव्वकोडितिभागं सादि०' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'लोगा । सम० पर०' इति पाठः ।

१५२. पंचिदि०तिरि०पञ्जत्त-जोगिणीसु धुवियाणं मुज०-अप्प० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोट्टिपुधत्तेण-
व्वहियाणि । थीणगि०३-मिच्छ०-अर्णताणु०४-इत्थि० मुज०-अप्पद० जह० एग०,

ओघके समान कहा है । भोगभूमिमें नपुंसकवेद आदिका बन्ध अपर्याप्त अवस्थामें होता है; इस-
लिए यहाँ इन प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कर्मभूमिकी अपेक्षा
प्राप्त किया गया है, क्योंकि कर्मभूमिमें एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जीवके भवके प्रारम्भमें मिथ्या-
दृष्टि होनेसे ये पद हों, पुनः सम्यग्दृष्टि हो जानेसे मध्यमें बन्ध न होने से ये पद न हों और
भवके अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें चला जानेके कारण बन्ध होनेसे पुनः ये पद होने लगे, यह सम्भव
है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंके इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है ।
आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका यह अन्तरकाल कहा हो, वह इसीप्रकार घटित कर लेना
चाहिए । जो पूर्वकोटिकी आयुवाला तिर्यञ्च प्रथम त्रिभागमें तीन आयुओंमें से किसी एकका
बन्ध करके चारों पद करता है और फिर भवके अन्तमें इनका बन्ध करके चारों पद करता है,
उसके उक्त तीनों आयुओंके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण
प्राप्त होनेसे वह उक्तकाल प्रमाण कहा है । तिर्यञ्चायुके अवस्थित पदके सिवा शेष तीन पदोंका
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण जानना चाहिए, क्योंकि तिर्यञ्चायुके तीन पदोंका
यह अन्तरकाल दो भवोंके आश्रयसे प्राप्त करनेपर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण प्राप्त होता है ।
मात्र इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे
उसका भद्र ज्ञानावरणके समान कहा है । वैकृतिकपदक और मनुष्यगतित्रिकका भद्र ओघमें
तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।
तिर्यञ्चगतित्रिकका शेष भद्र तो नपुंसकवेदके समान बन जाता है, क्योंकि इनके दो पदोंका
उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिमें पूर्वकोटिकी आयुवाले तिर्यञ्चके ही प्राप्त हो सकता है और अवस्थित-
पदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण यहाँ भी बन जाता
है । मात्र इनके अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालमें फरक है । वात यह है कि अग्निकायिक
और वायुकायिक जीव इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए उनके इनके
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है और उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण
होती है, अतः इस कायस्थितिके पूर्वमें और बादमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होनेसे इनके
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा
है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका भोगभूमिमें बन्ध प्रारम्भ होनेपर वह निरन्तर होता है, इसलिए
वहाँ इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है । हों, कर्मभूमिमें जो पूर्वकोटिकी आयुवाला
जीव प्रारम्भमें इनका अवक्तव्य पद करके और सम्यग्दृष्टि होकर इनका निरन्तर बन्ध करे । तथा
अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर और अन्य प्रकृतियोंके बन्धका अन्तर देकर पुनः इनका बन्ध करे, उसके
इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा
है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१५२ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें
ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि
पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और लोबेदके
भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है; अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देस्स० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । अपच्चक्खण०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी० दे० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोट्टिपुध० । साददंडओ अवट्ठि० णाणा०भंगो । सेसाणि पदाणि तिरिक्खोघं । पुरिस० तिण्णिपदा० सादभंगो । अवत्त० तिरिक्खोघं । णञ्जुसं०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरा०-पंचसंठा०-ओरा०अंगोव०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-धावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादें०-णीचा० भुज०-अप्प० तिरिक्खोघ-णञ्जुसंगभंगो । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोट्टिपुध० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोटी देस्स० । तिण्णिआउ० तिरिक्खोघं । तिरिक्खाउ० तिण्णि पदा तिरिक्खोघं । अवट्ठि० णञ्जु०भंगो । देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-समचदु०-वेउ०अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदें०-उच्चा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोटी दे० ।

अन्तमुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है । तथा इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके भुजगार और अल्पतर-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । सातावेदनीयदण्डकके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है तथा शेष पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है और अवक्तव्यपदका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आयुपूर्वा, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके कहे गये नपुंसकवेदके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्व कोटि पृथक्त्वप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । तीन आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । तिर्यञ्चायुके तीन पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । अवस्थितपदका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैकियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, देव-गत्यानुपूर्वा, परघात, चच्छास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और च्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण होनेसे यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है । कारणका निर्देश पहले कर आये हैं । यहाँ स्थानगृह्णित आदिका उत्कृष्ट बन्धान्तर उचम भोगभूमिमें ही सम्भव है, अत इनके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें उक्त पद कराकर यह

१. ता०प्रती पदाणि 'तिरिक्खोघं णञ्जुं' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'अप्प० णञ्जुसंगभंगो' इति पाठः । ३. ता०प्रती देस्स० । तिरिक्खाउ०, इति पाठः ।

१५३. पंचिदि०तिरि०अपज० ध्रुवियाणं भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० अन्तरकाल ले आना चाहिए । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । अपत्याख्यानारणचतुष्कका उत्कृष्ट बन्धान्तर पूर्वकोटिकी आयुवाले उक्त तिर्यञ्चोमे ही सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कहा है । तथा पूर्वकोटिपृथक्त्व कालके प्रारम्भमे और अन्तमे संयमासंयम होकर पुनः असंयममें जाना सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनके अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय-दण्डके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान और शेष तीन पदोका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है, यह भी स्पष्ट है । विशेष खुलासाके लिए उक्त स्थानोको देखकर अन्तर-कालकी संगति विठला लेनी चाहिए । यहाँ सातावेदनीयके तीन पदोका जो अन्तरकाल कहा है वह पुरुषवेदके तीन पदोका भी बन जाता है, अतः इसे सातावेदनीयके समान जाननेकी सूचना की है । तथा सामान्य तिर्यञ्चोमे पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका जो अन्तर काल घटित करके बतला आये है, वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जाननेकी सूचना की है । सामान्य तिर्यञ्चोमे नपुंसकवेदके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण पहले घटित करके बतला आये हैं, वह इन तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे ही सम्भव है । इसलिए यहाँ नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंके उक्त दो पदोका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोमे कहे गये नपुंसकवेदके उक्त दो पदोके अन्तरकालके समान कहा है । इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा इनके इन प्रकृतियोंका अवस्थितपद पूर्वकोटिपृथक्त्वके प्रारम्भमे और अन्तमे हो और मध्यमे न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । सामान्य तिर्यञ्चोमे तीन आयुओंके सब पदोका अन्तरकाल उक्त तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे ही कहा है, इस लिए यहाँ तीन आयुओंके सब पदोके अन्तरकालको सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जाननेकी सूचना की है । तिर्यञ्चायुके तीन पदोका भङ्ग तो सामान्य तिर्यञ्चोंके समान बन ही जाता है, क्योंकि वहाँ इन्हीं तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे इन पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है । पर इसके अवस्थित पदके उत्कृष्ट अन्तरकालमे फरक है । वात यह है कि इन तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थित पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्यप्रमाण है और यहाँ नपुंसकवेदके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल इतना ही बतला आये है, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके अवस्थित पदके अन्तरकालको नपुंसकवेदके समान जाननेकी सूचना की है । देवगति आदिके भुजगार आदि पदोका अन्तर ज्ञानावरणके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए इसे ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुर्हृत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण प्राप्त होनेसे वह अलगसे कहा है । उक्त तिर्यञ्चोंमेंसे कोई एक तिर्यञ्च इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रारम्भ करनेके सम्यग्दृष्टि हो जाता है । फिर भवके अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर और इनका अन्य प्रकृतियों द्वारा बन्धान्तर करके पुनः बन्ध प्रारम्भ करता है, तो उसके इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है ।

१५३ पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-

जह० उक्क० अंतो० । एवं सन्वअपज्जत्तयाणं तसाणं थावराणं सन्वसुहुमपज्जत्तयाणं च ।

१५४. मणुस०३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि धुवियाणं उवसम० परिवद-
माणयाणं अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । पच्चक्खणाण०४ अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्त० । आहारं०-आहार०अंगो० तिण्णि पदा जह०
एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । तित्थं० भुज०-अप्प० णाण०भंगो ।
अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देस० ।

मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उक्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार त्रस और
स्वात्रर सब अपर्याप्तकोमे तथा सब सूक्ष्म पर्याप्तकोमे जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ सब प्रकृतियों दो भागोंमे विभक्त हो गई है—ध्रुवबन्धवाली और
शेष। इन सबके भुजगार आदि तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि अपर्याप्त जीवोकी भवस्थिति और कायस्थिति अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं
होती। तथा जो शेष प्रकृतियाँ हैं, उनका अवक्तव्यपद भी यहाँ सम्भव है। पर एक बार बन्ध
होकर पुन उस प्रकृतिके बन्ध होनेमे अन्तर्मुहूर्त कालका अन्तर पड़ता है, इसलिए इनके इस
पदका जघन्य और उक्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यहाँ अन्य जितनी मार्गाणाँ गिनाई है,
उन सबकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होनेसे उनमे यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमे
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान जाननेकी सूचना की है।

१५४ मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्ध-
वाली प्रकृतियोंके उपशमश्रेणिके गिरनेवाले जीवोमे अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त
है और उक्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रुथक्त्वप्रमाण है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रुथक्त्वप्रमाण है। आहारकशरीर और
आहारकआङ्गोपाङ्गके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है और उक्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रुथक्त्वप्रमाण है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और
अल्पतरपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है,
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनोका उक्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम एक पूर्वकोटि-
प्रमाण है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोकी और उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंकी कायस्थिति पूर्वकोटि-
प्रुथक्त्व अधिक तीन पल्य होनेसे तीन प्रकारके मनुष्योंमे अन्य सब प्रकृतियोंके सब पदोका
अन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान बन जाता है। मात्र मनुष्योंमे प्रमत्तसंयत आदि
गुणस्थानोकी प्राप्ति सम्भव है और इनमे आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध भी सम्भव
है, इसलिए इस दृष्टिसे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोकी अपेक्षा अन्तरकालमे जो विशेषता आती है, उसका
अलगसे निर्देश किया है। उदाहरणार्थ—इन तीन प्रकारके मनुष्योंमे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति
सम्भव है, इसलिए इनमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संवलन, भय, लुगुप्सा, तैजस-
शरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इन इकतीस
प्रकृतियोंका उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अवक्तव्यपद भी सम्भव है, इसलिए उसका जघन्य और
उक्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। इसी प्रकार यहाँ संयम ग्रहण सम्भव होनेसे प्रत्याख्याना-

१ ता०प्रती 'सन्वसुहुमअपज्जत्तयाणं' इति पाठः । २ ता०प्रती 'परिपदया (मा) ण' इति पाठः ।

३ आ०प्रती 'जह० अंतो०, आहार०' इति पाठः ।

१५५. देवेसु ध्रुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० ए०, उक्क० तैत्तीसं० देसू० । एवं तित्थि० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णत्तंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादें०-णीचा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० ऐक्कत्तीसं० देसू० । दोवेदणी०-चदुणोक०-थिरादितिणियुग० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंतो० । पुरिस०-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थि०-सुभग-सुस्सर-आदें०-उच्चागो० तिण्णि पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० ऐक्कत्तीसं० देसू० । दोआउ० णिरयभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० तिण्णि पदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्टारससाग० सादि० । मणुस०-मणुसाणु० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्टारससाग० सादि० । एहंदि०-आदाव०-धावर० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि० । पंचिदि०-ओरा०अंगो०-त्स०

वरणचतुष्कका भी अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए उनके इस पदका जघन्य और उक्कट अन्तरकाल अलगसे कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१५५. देवोमे ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । इसीप्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षासे जानना चाहिए । स्थानगृह्णितिक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अमरास्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उक्कट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्कट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुष-वेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्ररास्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्कट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । दो आयुओका भङ्ग नारकियोंके समान है । तीर्थञ्चगति, तीर्थञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उक्कट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्कट अन्तर साधिक अठारह सागर है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उक्कट अन्तर साधिक दो सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर आह्नोपाह्न और त्रसके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान

१. आ०प्रतो 'अप्प० जह० एग०, उक्क० तेत्तीस०' इति पाठः । २ आ०प्रतौ 'णीचा० अप्प०' इति पाठः ।

तिष्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि० । एवं सच्च-
देवाणं अप्पप्पणो अंतरं षोदच्चं ।

है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्त अन्तर साधिक दो सागर
है । इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना अन्तरकाल ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंकी उक्त आयु तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके
अवस्थितपदका उक्त अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों ये
हैं—पौंच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अत्रयाख्यानावरण आदि बारह कषाय, भय, जुगुप्सा,
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और पौंच अन्तराय । स्थानगृद्धि
आदिका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके चारों पदोंका उक्त अन्तर कुछ कम
इकतीस सागरप्रमाण कहा है । यहाँ भवके प्रारम्भमें चारो पदोंको करावे । बादमें सम्यग्दृष्टि होकर
कुछ कम इकतीस सागर हो जाने पर अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें ले जाकर चार पद कराकर यह
अन्तरकाल ले आवे । दो वेदनीय आदिके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान
है, यह स्पष्ट ही है । ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और
उक्त अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है । पुरुषवेद आदिका सम्यग्दृष्टिके
भी बन्ध होता है, इसलिए इनके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जानेसे
वैसा कहा है । पर सम्यग्दृष्टिके ये निरन्तर बन्धिनी प्रकृतियों हैं, इसलिए उसके इनका अवक्तव्य-
पद सम्भव नहीं है । हाँ, जिस मिथ्यादृष्टिने इनके बन्धका प्रारम्भ किया और मध्यमें सम्यग्दृष्टि
रह कर अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर तथा इन्हें सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे अन्तरित करके पुनः
बन्ध प्रारम्भ किया, उसके इनका अवक्तव्य बन्ध और उसका अन्तरकाल दोनों बन जाते हैं । इस
तरह अवक्तव्य पदका उक्त अन्तर काल कुछ कम इकतीस सागर होनेसे वह उक्त काल प्रमाण
कहा है । देवों और नारकियोंमें आयुबन्धके नियम एक समान हैं, इसलिए यहाँ दो आयुओंका
भङ्ग नारकियोंके समान कहा है । त्रिषञ्जगतित्रिकका बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए
इनके चारों पदोंका उक्त अन्तरकाल साधिक अठारह सागर कहा है । चारो पदोंका अन्तरकाल
विचारकर धटित कर लेना चाहिए । मनुष्यगतित्रिकका बन्ध सब देवोंके सम्भव है, पर इनकी
सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उक्त
अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । यहाँ भी प्रारम्भमें और अन्तमें मिथ्यादृष्टि रखकर इनका
अवक्तव्यबन्ध कराकर यह अन्तरकाल ले आवे । आगे इन दोनों प्रकृतियोंके प्रारम्भके तीन पद
होते हैं, अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए यहाँ अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे
उसके समान कहा है । एकैन्द्रियजाति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध ऐशान कल्प तक ही होता
है, इसलिए इनके चारों पदोंका उक्त अन्तर साधिक दो सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त काल
प्रमाण कहा है । यहाँ भी मध्यमें साधिक दो सागर तक सम्यग्दृष्टि रखकर और प्रारम्भमें व
अन्तमें मिथ्यात्वमें इनके चारो पद कराकर यह अन्तर काल ले आवे । इतनी विशेषता है कि
अवस्थितपदका उक्त अन्तर काल लानेके लिए सम्यग्दृष्टि होनेकी आवश्यकता नहीं है ।
अन्यत्र भी यह विशेषता जान लेनी चाहिए । पञ्चेन्द्रियजाति आदि सानकुमार कल्पसे निरन्तर-
बन्धिनी प्रकृतियों हैं । किन्तु वहाँ इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवक्तव्य-
पदका उक्त अन्तर साधिक दो सागर कहा है । इनके शेष पद ज्ञानावरणके समान सम्भव
हैं, यह स्पष्ट ही है । देवोंके अवान्तर भेदोंमें अपना-अपना अन्तरकाल जानकर वह धटित कर
लेना चाहिए ।

१५६. एइंदिएसु ध्रुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असखेंजदिभागो, बादरेसु अंगुल० असखें०, वादरपञ्जत्तगोसु संखेंजाणि वाससहस्साणि । एवं मणुसगदिदिगस्स वि ओषं । बादरेसु कम्मदिट्ठी०, पञ्जत्तएसु संखेंजाणि वाससह० । तिरिक्खागदिदिगं भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असखेंजा लोगा कम्मदिट्ठी संखेंजाणि वाससह० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । तिरिक्खाउ० दोण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० वावीसं वाससह० सादि० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असखें० अंगुल० असखें० संखेंजाणि वाससह० । मणुसाउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो० उ० सव्वपदाणं सत्तवाससह० सादि० । सुहुमेइंदि० एइंदियभंगो । णवरि दो-आउ० पंचिदि०तिरि०अपञ्जत्तभंगो । णवरि तिरिक्खाउ० अवट्टि० ओषं । एदेण कमेण विगलंदिद्य-पंचकायाणं अंतरं षोडन्वं ।

१५६. एकेन्द्रियोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । वाद्रोमे अङ्गुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है और वादर पर्याप्तकोमे संख्यात हजार वर्ष है । इसी प्रकार मनुष्यगतित्रिकका भी भङ्ग ओषके समान है । वाद्रोमे कर्मस्थितिप्रमाण है और वादर पर्याप्तकोमे संख्यात हजार वर्ष है । तिर्यश्चगतित्रिकके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है, वाद्रोमे कर्मस्थितिप्रमाण है और वादर पर्याप्तकोमे संख्यात हजार वर्ष है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तिर्यश्चायुके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकेन्द्रियोमे जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण, वाद्रोमें अङ्गुलके असंख्यातवे भागप्रमाण और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमे संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है । मनुष्यायुके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोमे एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें दो आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी और विशेषता है कि इनमें तिर्यश्चायुके अवस्थितपदका भङ्ग ओषके समान है । इस क्रमसे विकलेन्द्रिय और पौंच स्थावरकायिक जीवोंमें अन्तरकाल ले जाना चाहिए ।

१ ता०-आ०प्रत्योः 'असखेज्जु० । बादरेसु' इति पाठः । २ आ०प्रतौ 'सखेजाणि एव' इति पाठः । ३ ता०प्रतौ 'अगो (तो) तिरिक्खाउ० तिण्णिपदा०' आ०प्रतौ 'अतो० । तिरिक्खाउ० तिण्णिपदा' इति पाठः । ४ आ०प्रतौ 'जह० एग०, उक्क० अंगुल० असखे० सेटीए असखे० सखेजाणि' इति पाठः । ५ ता० आ०प्रत्योः 'जह० एग० उ० अवत्त०' इति पाठः । ६ आ० प्रतौ 'उ० सत्तवाससह०' इति पाठः ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अतमुहूर्त तथा अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भाग प्रमाण जैसा ओषधे ज्ञानावरणादिका घटित करके बतला आये है, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। वादर एकेन्द्रियोंमें और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमें इन पदोंका और सब अन्तर काल तो इसी प्रकार है, पर इनके अवस्थित पदके उत्कृष्ट अन्तरमें फरक है, क्योंकि इन जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति क्रमसे कर्मस्थितिप्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण है, अतः इन दो प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंमें इन प्रकृतियोंके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। मनुष्यगतित्रिकके एकेन्द्रियोंमें चार पद सम्भव हैं और ओषधे इनके चारों पदोंका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिए यहाँ उसे ओषधे समान जाननेकी सूचना की है। इन पदोंके अन्तरकालका स्पष्टीकरण ओषधरूपणके समय किया ही है, इसलिए इसे यहाँसे जान लेना चाहिए। मात्र वादर एकेन्द्रियों और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमें इन प्रकृतियोंके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कर्मस्थिति प्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण ही प्राप्त होगा। कारणका निर्देश पूर्वमें किया ही है। एकेन्द्रिय और उनके अवान्तर भेदोंमें जिस प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, वह स्थिति तिर्यञ्चगतित्रिकके विषयमें नहीं है, इसलिए उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ही बन जाता है, इसलिए वह ज्ञानावरणके समान कहा है। साथ ही उनका यहाँ अवक्तव्यपद भी सम्भव है। उसमें भी एक तो ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं और दूसरे अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः यहाँ इनके अवक्तव्यपदका उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंमें जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे असंख्यात लोक प्रमाण, कर्मस्थितिप्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष जितनी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, उनका भुजगार अदि तीन पदोंकी अपेक्षा भङ्ग ज्ञानावरणकेसमान कहनेका कारण स्पष्ट है। पर इनका यहाँ अवक्तव्यपद भी सम्भव है। यतः अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तसे कम नहीं होता और ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर भी अन्तमुहूर्त ही प्राप्त होगा, अतः इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। अब रही तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु सौ तिर्यञ्चायुके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक भवकी अपेक्षा भी प्राप्त हो जाता है, पर उत्कृष्ट अन्तर दो भवकी अपेक्षा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इनमेंसे आदिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष कहा है। यहाँ वाईस हजार वर्षकी आयुवाले उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंके प्रथम त्रिभागमें तीन पद करावे। उसके वादर मरकर इतनी ही आयु प्राप्त कराकर जीवनमें अन्तमुहूर्त काल शेष रहने पर आयुबन्ध कराकर ये तीन पद करावे और इस प्रकार इन तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आवे। तथा इनमें तिर्यञ्च होते रहनेसे एकेन्द्रियोंमें जगश्रेणिके असंख्यातवे भागके अन्तरसे वादर एकेन्द्रियोंमें कर्मस्थितिप्रमाण कालके अन्तरसे और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्षके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके इस पदका उक्त कालप्रमाण अन्तर कहा है। मात्र इनमें मनुष्यायुके चारों पदोंका अन्तर एक भवके आश्रयसे ही सम्भव है, इसलिए इनमें इसके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा

१५७. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-छर्दस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-त्रण०४-
 अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्य० जह० एग०, उक० अंतो० । अवट्टि०
 जह० एग०, अवत्त^१० जह० अंतो०, उक० कायट्टिदी० । धीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-
 भुज०-अप्य० ओघं । अवट्टि०-अवत्त० णाणा०भंगो । दोवेदणी०-चदुणोक्क०-
 धिरादितिणियुग० अवट्टि० णाणा०भंगो । सेसाणं पदाणं ओघं । अट्टक० दोणिणपदां
 ओघं । अवट्टि०-अवत्त० णाणा०भंगो । इत्थि० भुज०-अप्य०-अवत्त० ओघं । अवट्टि०
 णाणा०भंगो । पुरिस० तिण्णि पदा णाणा०भंगो । अवत्त० ओघं । णसुंस०-पंचसंठा०-
 पंचसंघ०-अप्यसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादें०-णीचा० भुज० अप्यं^३० जह० एग०, अवत्त०
 जह० अंतो०, उक० वेळावट्टि० सादि० तिण्णिपलिदो० देदु० । अवट्टि० णाणा०भंगो ।
 तिण्णिआउगारणं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उकस्सेण सागरोवम-
 सदपुधत्तं । णवरि अवट्टि० सगट्टिदी० । मणुसाउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त०

है । सूत्रम एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण होनेसे इनमे सब अन्य प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान वन जाता है, यह तो स्पष्ट ही है, पर इनमे दोनों आयुओंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तसे अधिक सम्भव नहीं है, इसलिए इनके चारो पदोंका अन्तरकाल अपर्याप्तकोके समान जाननेको सूचना की है । यहाँ विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें इसी क्रमसे जाननेकी सूचना की है सो अपनी-अपनी कायस्थिति तथा ध्रुवबन्धवाली और परावर्तमान प्रकृतियोंको समझकर यह अन्तर काल ले आना चाहिए, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

१५७. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्व-
 लन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच
 अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त
 है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है
 और दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्ता-
 नुबन्धी चतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओषके समान है । अवस्थित और अवक्तव्य-
 पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके
 अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । शेष पदोंका भङ्ग ओषके समान है । आठ
 कषायोंके दो पदोंका भङ्ग ओषके समान है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके
 समान है । स्त्रीवेदके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओषके समान है । अवस्थित-
 पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।
 तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग ओषके समान है । नपुंसकवेद, पाँच सस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त
 विहायोगति, दुर्मग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य
 अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट
 अन्तर कुछ कम तीन पल्य तथा कुछ अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । अवस्थित
 पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तीन आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है,
 अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व

१ ता०-आ०प्रत्योः 'ज० ए० उ० अवत्त० इति पाठः । २ ता०-आ०प्रत्योः 'अट्टक० तिण्णिपदां'
 इति पाठः । ३ ता०-आ०प्रत्योः 'णीचा० अप्यं' इति पाठः ।

जह० अंतो०, उक्क० कायड्ढिदी०। गिरयगदि-चदुजादि-गिरयाणु०-आदाव-धावरादि०४
 भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं०।
 अवड्ढि० गाणा०भंगो। तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क०
 तेवड्ढिसागरोवमसदं। अवड्ढि० गाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवड्ढिसाग०
 सद०। दोगदि-वेउ०-वेउ०अंगो०-दोआणु० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० तेचीसं० सादि०। अवड्ढि० गाणा०भंगो। पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४
 तिण्णि पदा१ गाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसद०।
 आहार०२ तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायड्ढिदी०।
 ओरा०-ओरा०अंगो०-वज्जरि० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो०
 सादिरे०। अवड्ढि० गाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेचीसं० सादि०। सम-
 चदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-अप्प०-अवड्ढि० गाणा०भंगो। अवत्त०
 जह० अंतो०, उक्क० वेछावड्ढि० सादि० तिण्णिपलि० देसु०। तित्थ० ओघं। उच्चा०

प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण है।
 मनुष्यायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त
 है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वा,
 कावप और त्यावर आदि चारके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है,
 अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी
 सागर है। तथा इनके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च-
 गत्यानुपूर्वा और उद्योतके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और
 उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा
 अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। दो
 गति, वैक्रियिक्रशरीर, वैक्रियिक्रशरीर आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वके भुजगार और अल्पतरपदका
 जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका
 उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। तथा इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान
 है। पञ्चेन्द्रियजाति, परधात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान
 है। तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी
 सागर है। आहारकृदिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य
 अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। औदारिकशरीर, औदारिक-
 शरीर आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक
 समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान
 है। तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर
 है। मनचतुस्संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुत्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर
 और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर
 अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण

१ आ०प्रतौ-सागरोवमसदपुवचं०। अवड्ढिं इति पाठः। २ आ०प्रतौ 'तेवड्ढिसागरोसदपुवच।
 अवड्ढिं' इति पाठः। ३ ता० आ०प्रत्यौ 'तत्तं २ तिग्गिनदं' इति पाठः।

भुज०-अप्य० जह० एग०, उक० तैत्तीसं० सादि० । अवष्टि० पाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक० वेखावष्टि० सादि० तिणिण पलि० देसू० ।

है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । उच्चगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्प अधिक दो झ्यासठ सागर प्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ सब प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पदोका जघन्य अन्तर काल सुगम है । साथ ही भुजगार और अल्पतर पदका जहाँ उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है वह भी सुगम है, इसलिए इन अन्तरकालोको छोड़कर शेष अन्तरकालका ही विचार करेंगे । पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विककी जो कायस्थिति कही है, उसके प्रारम्भमे और अन्तमे पाँच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपद हो यह भी सम्भव है और इस कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति हो यह भी सम्भव है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । मिथ्यात्व आदिके भुजगार और अल्पतर पद कुछ कम दो बार झ्यासठ सागर काल तक न हो, यह सम्भव है, क्योंकि जीवका इतने काल तक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके साथ रहना सम्भव है, इसलिए यहाँ इन पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्ववत् ज्ञानावरणके समान बन जाता है, इसलिए इन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । आगे भी जिन प्रकृतियोंके उक्त दो पदोका या सब पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है, वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । दो वेदनीय आदिके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे यह ओघके समान कहा है । स्पष्टीकरण ओघ प्ररूपणके समय कर ही आये हैं । आठ कपायोके भुजगार और अल्पतर पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है, क्योंकि इनका इतने काल तक बन्ध न होनेसे इन पदोका उक्त काल तक अन्तर बन जाता है । ओघसे भी इन पदोका इतना ही अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है । स्त्रीवेदके भुजगार अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो झ्यासठ सागरप्रमाण ओघमें घटित करके बतला आये हैं । यहाँ भी यह अन्तर इतना ही प्राप्त होता है, इसलिये यह अन्तर ओघके समान कहा है । पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघ प्ररूपणके समय साधिक दो झ्यासठ सागरप्रमाण घटित करके बतला आये हैं । यहाँ भी यह अन्तर इतना ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान कहा है । नपुंसकवेद आदिका कुछ कम तीन पल्प अधिक दो झ्यासठ सागर काल तक बन्ध न हो, यह सम्भव है । इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । नरकायु, तीर्थञ्चायु और देवायुका यहाँ सौ सागर प्रथक्त्व काल तक बन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । यहाँ इन तीनों आयुओका किसी एक जीवके एक साथ उक्त काल तक बन्ध नहीं होता, ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए । किन्तु कभी नरकायुका, कभी मनुष्यायुका और कभी देवायुका उत्कृष्टरूपसे इतने काल तक बन्ध नहीं होता, ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर काल अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि किसी भी प्रकृतिका बन्ध होते समय भुजगार और अल्पतरपदके समान अवस्थितपद होना ही चाहिए—ऐसा

१५८. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्-

एकान्त नियम नहीं है। सामान्यसे एकैन्द्रियोंमें वैद्यनेवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। पर यहाँ कायस्थिति इस कालसे न्यून है। इसलिए कायस्थितिके भीतर प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थित पद कराकर यह अन्तर काल कहा है। सर्वत्र अवस्थितपदके विषयमें यह नियम समझ लेना चाहिए। हाँ, जिन प्रकृतियों का एकैन्द्रियोंमें या अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें बन्ध नहीं होता, उनके अवस्थितपदका अन्तर काल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागसे अधिक भी बन जाता है। मनुष्यायुका इनकी उत्कृष्ट कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध हो तथा मध्यमें बन्ध न हो, यह सम्भव है, और बन्ध होते समय भुजगार आदि चारों पद भी सम्भव हैं, इसलिए यहाँ इसके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है। नरकगति आदिका अधिकसे अधिक एक सौ पचासी सागर काल तक बन्ध नहीं होता—ऐसा नियम है। उसके बाद नौवें अवैयकसे आकर मनुष्य होने पर इनका बन्ध होने लगता है, इसलिए इतने काल तक इनके भुजगार, अल्पतर और अवचक्ष्यपदके न प्राप्त होनेसे यहाँ इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। उक्त मार्गणाओंमें त्रिविधगति आदिका एकसौ त्रैसठ सागर काल तक बन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवचक्ष्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होना है, यह स्पष्ट ही है। आगे भी जिन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है, यह इसी प्रकार धटित कर लेना चाहिए। दो गति आदिके भुजगार, अल्पतर और अवचक्ष्यपद साधिक तैतीस सागर काल तक न हों, यह सम्भव है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर कहा है। यहाँ साधिकसे दौ मुहूर्त लेने चाहिए। मात्र मनुष्यगतिद्विकका सातवें नरकमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए और शेषका दशमश्रेणिके सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए। पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जैसा ज्ञानावरणकी अपेक्षा धटित करके बतला आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी धटित कर लेना चाहिए। तथा इन प्रकृतियोंका एक सौ पचासी सागर प्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवचक्ष्यपदका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर कहा है। औदारिकशरीर आदिका भोगभूमिमें और उसके पहले सन्यहृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है। तथा सातवें नरकमें औदारिकद्विकका और वहीं पर सन्यहृष्टिके वरुषर्भनाराचसंहननका निरन्तर बन्ध सम्भव है। और वहाँसे निकलने पर भी इनका अवचक्ष्यपद प्राप्त होनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लग सकता है। यतः यह काल साधिक तैतीस सागर होता है, अतः यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदिके भुजगार आदि तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर काल ज्ञानावरणके समान धटित कर लेना चाहिए। तथा इनका इन्द्र कन तीन पल्य अधिक दो द्वायाद्युत सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवचक्ष्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग जोबने समान है, यह स्पष्ट ही है। उच्चगोत्रका सातवें नरकमें मिथ्याहृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर कहा है। तथा इसका इन्द्र कन तीन पल्य अधिक दो द्वायाद्युत सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अवचक्ष्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है।

१५८. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,

आहारदुग्-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत०-चत्तारिआउ०
भुज०-अप्प०-अवट्ठि० ज० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० [णत्थि अंतरं] । सेसाणं कम्माणं
भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० ।

१५६. कायजोगीसु धुवियाणं एइंदियभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं ।
तिरिक्खगदितिगं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । णवरि अवट्ठि० जह०
एग०, उक्क० सेटीए असंखे० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजां लोगा । मणुसगदि-
तिगं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० ओषं । सेसाणं भुज०-अप्पद०-
अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवरि दोआउ०-विउच्चियल्ल०-
आहारदुग्-तित्थ० मणुजोगिभंगो । मणुसाउ० ओषं । तिरिक्खाउ० एइंदियभंगो ।

मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, आहारकद्विक, तेजसशरीर, कार्यणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर, पाँच अन्तराय और चार आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त है । तथा इनके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त है ।

विशेषार्थ—इन योगोमे सब प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तमुं हूर्तके अन्तरसे हो यह सम्भव है इसलिए सब प्रकृतियोंके इन पदोंका यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुं हूर्त है, इसलिए सब प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुं हूर्तके भीतर प्राप्त किया गया है । मात्र पाँच ज्ञानावरणादि ये ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं और जो ध्रुवबन्धिनी नहीं हैं उनका इन योगोंके कालमे दो बार घन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए उनके अवक्तव्यपदके अन्तर कालका निषेध किया है । तथा शेष प्रकृतियाँ परावर्तमान होनेसे उनका इन योगोंके कालमे अन्तमुं हूर्तका अन्तर देकर दो बार घन्धका प्रारम्भ होना सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त कहा है ।

१५६. काययोगी जीवोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चगतित्रिकके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुं हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । मनुष्यगतित्रिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुं हूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त है । इतनी विशेषता है कि दो आयु, वैक्रियिकपदक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग ओषके समान है । तथा तिर्यञ्चायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है ।

१ ता०प्रती 'अवत्त० [एव] । सेसाणं आ०प्रती 'अवत्त०सेसाणं' इति पाठः । २ ता०आ०प्रत्योः 'ध्रुवियाण सादमगो' इति पाठः । ३ ता०आ०प्रत्योः 'उक्क० सखेजा' इति पाठः ।

१६०. ओरालि०का०जोगि० पढमदंडओ मणुजोगिभंगो । णवरि अवट्टि० जह० एग०, उक्क० वावीसं चाससह०, देह० । दोआउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सत्तवाससह० सादि० । दोआउ०—वेउब्बियल्लक्क-आहारदुग-तित्थ० मणजोगिभंगो । सेसाणं णाणा०भंगो । [णवरि अवत्त० जह० उक्क०] अंतो० ।

विशेषार्थ—यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण. मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्षचतुष्क, अगुदलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय । एकेन्द्रियोंमें इन प्रकृतियोंके तीन पदोंका जो अन्तरकाल कहा है वह यहाँ भी वन जाता है, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें सामान्यरूपसे काययोग ही पाया जाता है, इसलिए काययोगियोंमें इन प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान कहा है । मात्र एकेन्द्रियोंमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद नहीं होता और काययोगियोंमें होता है, फिर यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदके अन्तरकालका निषेध किया है । काययोगियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका असंख्यात लोकप्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका अन्तरकाल सुगम है । मनुष्यगतित्रिकके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर ओषधमें कहे अनुसार यहाँ वन जाता है, इसलिए वह ओषधके समान कहा है । खुलासा ओषधप्ररूपणाको देखकर जान लेना चाहिए । पञ्चेन्द्रियोंमें काययोगका काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है । इसलिए काययोगियोंमें दो आयु, वैकिकिपदक आहारकदिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका अन्तरकाल मनोयोगी जीवोंके समान वन जानेसे वह उनके समान कहा है । मनुष्यायुका ओषधमें और तिर्यञ्चायुका एकेन्द्रियोंके चारों पदोंकी अपेक्षा जो अन्तरकाल कहा है वह यहाँ भी वन जाता है, इसलिए मनुष्यायुके चारों पदोंके अन्तरकालको ओषधके समान और तिर्यञ्चायुके चारों पदोंके अन्तरकालको एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है । अब रहीं शेष ये प्रकृतियों—सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप उद्योत, दो विहायोगति और त्रस-स्थावर ओदि दस युगल । ये सब प्रकृतियों परावर्तमान हैं, इसलिए इनके सब पदोंका मूलमें कहे अनुसार अन्तरकाल वन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है ।

१६०. औदारिककाययोगी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वर्ष है । दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है । दो आयु, वैकिकिपदक, आहारकदिक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष होनेसे औदारिककाययोगवाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ

१६१. ओरा०मि० धुवियाणं भुज०अप्पद०-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
देवगदिपंचग० भुज० णत्थि अंतरं । सेसाणं भुज०-अप्पद०- अवट्टि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवरि मिच्छ० अवत्त० णत्थि अंतरं ।

१६२. वेउव्वियका०-आहारका० मणजोगिभंगो । वेउव्वियमि० पंचणा०-

कम वाईस हजार वर्ष प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदांका अन्तर मनोयोगी जीवोंके समान है, यह स्पष्ट है। यहाँ प्रथम दण्डकमे वे ही प्रकृतियों ली गई हैं जो काययोगीके प्रथम दण्डकमे गिना आये हैं। यहाँ मूलमे 'मणजोगिभंगो' के स्थानमे 'कायजोगिभंगो' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि काययोगीके प्रथम दण्डककी प्रकृतियों ही यहाँ पर ली गई है। वैसे तीन पदांकी अपेक्षा अन्तरकालका विचार दोनोंमे एक समान है, इसलिए कोई भी पाठ वन जाता है। औदारिककाययोगमे प्रथम त्रिभागमे और अन्तमे आयुबन्ध होने पर आयुबन्धमें साधिक सात हजार वर्षका अन्तर काल प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ त्रियञ्चायु और मनुष्यायुके चारो पदांका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। दो आयु आदि प्रकृतियोंके सब पदांका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है, यह स्पष्ट ही है। शेष सब प्रकृतियों यद्यपि परावर्तमान हैं, फिर भी उनके तीन पदांका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान कहा है। मात्र यहाँ इनका अवक्तव्यपद भी सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। शेष प्रकृतियों ये हैं—साताद्विक, सात नोकपाय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल और दो गोत्र ।

१६१. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। देवगतिपञ्चकके भुजगार पदका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त होनेसे इसमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पदांका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तमुहूर्त कहा है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका निर्देश काययोगी मार्गणाका कथन करते समय किया ही है। औदारिकमिश्रकाययोगमें देवगतिपञ्चकका एक मात्र भुजगार पद ही सम्भव है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष सब प्रकृतियों परावर्तमान हैं और उनके चारो पद सम्भव हैं, इसलिए उनके चारो पदांका अन्तरकाल कहा है। मात्र इस योगमे सासादनसे मिथ्यात्वमें जाना सम्भव है और इसलिए मिथ्यात्व प्रकृतिका अवक्तव्य पद भी सम्भव है, पर इससे मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति और उसके बाद पतन सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व प्रकृतिके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है।

१६२. वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह

णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-
णिमि०-तित्थ०-पंचंत० भु० गत्थि अंतरं । सेसाणं भुज० गत्थि अंतरं । अवत्त०
जह० उक्क० अंतो । मिच्छत्त० अवत्त० गत्थि० अंतरं । आहारमि० वेउन्वियमिस्स०-
भंगो । णवरि आउ० भुज०-अवत्त० गत्थि अंतरं ।

१६३. कम्मइग० धुवियाणं देवगदिपंच० भुज० गत्थि अंतरं । सेसाणं भुज०-
अवत्त० गत्थि अंतरं ।

कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुदलधुचतुष्क, त्रसत्तुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पांच अन्तरायके भुजगार पदका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भुजगारपदका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि यहाँ मिथ्यात्वप्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव है पर उसका अन्तरकाल नहीं है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमे आयुके भुजगार और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोग और आहारककाययोगमे बंधनेवाली प्रकृतियोंकी व्यवस्था मनोयोगी जीवोके समान बन जाती है, इसलिए इनमे मनोयोगी जीवोके समान जाननेकी सूचना की है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमे पांच ज्ञानावरणादिका एक भुजगारपद होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र इनमेसे मिथ्यात्व प्रकृतिका यहाँ अवक्तव्यपद भी सम्भव है, क्योंकि जो सासादनसम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वमे जाता है उसके मिथ्यात्वप्रकृतिका यह पद होता है । पर दूसरी वार इस प्रकार यहाँ इसके अवक्तव्यपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए अन्तमे इस प्रकृतिके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष जितनी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनका यहाँ पर भुजगारपद तो एक वार ही प्राप्त होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है । हाँ अवक्तव्यपदकी प्राप्ति दो वार अवश्य सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । आहारकमिश्रकाययोगमे अपनी बन्धको प्राप्त होनेवाली अन्य सब प्रकृतियोंका भङ्ग तो वैक्रियिकमिश्रकाययोगके समान बन जाता है पर यहाँ आयुकर्मका भी बन्ध सम्भव है और उसके दो पद भी सम्भव हैं, इसलिए इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया है । यहाँ देवायुके दोनों पदोंका अन्तरकाल नहीं होता, क्योंकि इस योगके कालमे दो वार आयु बन्धका प्रारम्भ सम्भव नहीं है, इसलिए आयुके दोनों पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है ।

१६३ कर्मणकाययोगी जीवोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और देवगतिपञ्चके भुजगार-
पदका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका और देवगतिपञ्चका बन्ध होता है उनका एक मात्र भुजगार पद होता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है । इनके सिवा शेष सब प्रकृतिया परावर्तमान हैं, अतः उनके भुजगार और अवक्तव्य ये दो पद तो सम्भव हैं, पर उनका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, इसलिए उनके अन्तरकालका निषेध किया है । कारण स्पष्ट है ।

१ ता० अ०प्रत्यो 'अतो । अवत्त०' इति पाठ ।

१६४. इत्थिवेदेसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पणवणं पलि० देसू० । अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । पिहा-पयला-भय-दुगुं-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० गत्थि० अंतरं । दोवेदणी०-चदुणोक्क०-थिरादितिणियुग० भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अट्टकसा० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । इत्थि० मिच्छत्तभंगो । गवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवणं पलिदो० देसू० । एवं इत्थिवेदभंगो णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउजो०-अप्पसत्थ०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० । पुरिस०-पंचिदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिणियुग० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवणं पलिदो० देसू० । णिरयाउ० तिणियुग० जह० एग०,

१६४. स्त्रीवेदी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार सव्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्थानगृह्णितिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुघन्धीचतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनोका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलबु, उपघात और निर्माणके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यपदका अन्तरकाल नहीं है । दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कपायोके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । इमो प्रकार स्त्रीवेदके समान नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, द्रु स्वर, अनादेय और नीचगोत्रका भङ्ग जानना चाहिए । पुरुषवेद, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, वस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । नरकायुके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और सवका उत्कृष्ट

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पगदिअंतरं। दो आउ० तिण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी०। देवाउ० अवट्टि० जह० ए०, उक्क० पलिदोवमसद०। भुज०-अप्प० जह० ए०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्टावण्णं१ पलिदो० पुच्चकोडि-पुध०। णिरयगदि-देवगदि-तिण्णिजादि-वेउवि०-वेउन्वि०-अंगो०-णिरय०-देवाणुपु०-सुहुम०-अपञ्ज०-साधार० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि०। अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी०। मणुस०-ओरा०-अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० देसु०। अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसु०। ओरा० भुज०-अप्प० ज० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसु०। अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि०। पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्ते० भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०-भंगो०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि०। आहारदुगं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी०। तित्थ० दो पदा जह० एग०,

अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य पृथक्त्वप्रमाण है। भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनोका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्टावन पत्य है। नरकगति, देवगति, तीन जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। मनुष्यगति औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ तीन पत्य है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है। औदारिकशरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है। परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है। आहारकट्टिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य

१ ता०प्रतौ 'देवाउ० तिण्णिपदा० ज० ए० अवत्त० ज० अतो० उ०-कायट्टिदि०। देवाउ० अवट्टि० ज० ए० उ० परिदोवमसदपुध०। भुज अप्प० ज० ए० अवत्त० ज० अतो० उ० अट्टावण्णं' आ०प्रतौ दोआउ० तिण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अतो०, उक्क० अट्टावण्ण, इति पाठ ।

उक्त० अंतो० । अवष्टि० ज० एग०, उक्त० पुण्यकोटी देख० । अवच० णत्थि अंतरं ।

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूत है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । तथा अवक्तव्यपदका अन्तर-काल नहीं है ।

विशेषार्थ—पॉच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपद कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमें हो पर मन्वमे न हो यह सम्भव है, इसलिए स्त्रीवेदी जीवोंमें इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है स्त्यानगृद्धिन्निक आदिके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र स्त्यानगृद्धिन्निके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए प्रारम्भमे और अन्तमें सम्यक्त्व प्राप्त कराकर और वादमें मिथ्यात्वमें ले जाकर प्राप्त करना चाहिए । निद्रा आदिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । यद्यपि स्त्रीवेदमे निद्रादिककी आठवे गुणस्थानमे बन्धव्युच्छिन्निति सम्भव है पर ऐसा जीव नौवे गुणस्थानमे जाकर स्त्रीवेदी न रहकर अपगतवेदी हो जाता है, इसलिए स्त्रीवेदमें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियों है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूतप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । दशसंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कालप्रमाण है और इस कालमे क्रमसे अपत्याख्यानारण चतुष्क और प्रत्याख्याना वरण चतुष्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि रहा है । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । अवक्तव्यपद अन्तमुं हूतके अन्तरसे तथा कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमें हो यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुं हूत और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । स्त्रीवेदका अन्य सब भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । मात्र इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि स्त्रीवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है । तात्पर्य यह है कि किसी स्त्रीवेदी जीवने स्त्रीवेदका अवक्तव्यबन्ध करके वादमे सम्यक्त्व प्राप्त किया और अपने उत्कृष्ट काल तक उसके साथ रहकर वादमें मिथ्यात्वमें जाकर पुनः स्त्रीवेदका अवक्तव्यबन्ध किया तो इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण प्राप्त हो जाता है । नपुंसक-वेद आदिका भङ्ग स्त्रीवेदके समान घटित होनेसे उसके समान कहा है । स्त्रीवेदमे पुरुषवेद आदि का सम्यक्त्वके कालमे निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इस कालके आगे पीछे इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेसे इसका अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । नरकायुका पूर्वकोटिकी आयुवाले जीवके त्रिसागके प्रारम्भमे और अन्तमे बन्ध होकर चार पद हो और मध्यमे बन्ध न होनेसे न हों यह सम्भव है, इसके प्रकृतिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी इतना ही है, इसलिए यहाँ नरकायुके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुमेसे किसी एकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमे बन्ध किया और मध्यमे नहीं किया, इसलिए इनके चारो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । कोई स्त्रीवेदी जीव देवायुका बन्ध कर पचवन पल्यकी आयुवाली देवी हुआ । पुनः वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटि-पृथक्त्वकाल तक स्त्रीवेदके साथ परिभ्रमण कर तीन पल्यकी आयुके साथ मनुष्यनी या तिर्यञ्चनी

१६५. पुरिसेसु पदमदंडओ शीणगिद्धिदंडओ गिद्दादंडओ सादादंडओ अङ्कसायदंडओ इत्थिवेददंडओ पंचिदियपञ्जत्तभंगो । गवारि पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज० पंचंत० अवत्तव्वं गत्थि । गिद्दादंडओ अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायड्ढिदी० । पुरिस० तिण्णिपदा० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेळावड्ढि० दे० अंतोमुहुत्त० । णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादें०-णीचा० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेळावड्ढि०

हुआ और आयुके अन्तमें पुनः देवायुका बन्ध किया । इसप्रकार देवायुके दो बार बन्धके साथ चार पदोंके प्राप्त होनेमें पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्टाघ्न पत्यका उत्कृष्ट अन्तर आता है, अतः यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । देवीके नरकगति आदिका बन्ध नहीं होता । तथा वहाँसे आनेके बाद भी अन्तर्मुहूर्तकाल तक इनका बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य कहा है । देवगतिचतुष्को छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका देवी होनेके पूर्व भी अन्तर्मुहूर्तकाल तक बन्ध नहीं होता, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए । इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । उत्तम भोग-भूमिमें सम्यग्दृष्टि होनेपर मनुष्यगति आदिका बन्ध नहीं होता और वहाँ सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए यहाँ इनके दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्यप्रमाण कहा है । अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । तथा देवीके सम्यक्त्वके कालमें कुछ कम पचपन पत्य तक इनका निरन्तर बन्ध होते रहनेसे अवक्तव्य पद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । औदारिकशरीरके तीन पदोंका अन्तरकाल तो मनुष्यगतिके समान ही है । मात्र इसके अवक्तव्य पदके अन्तरकालमें फरक है । वात यह है कि देवीके निरन्तर औदारिकशरीरका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य घन जानेसे वह उक्त काल-प्रमाण कहा है । परधान आदिके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर औदारिकशरीरके समान ही धरित कर लेना चाहिए । इनके शेष तीन पदोंका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । आहारकद्विकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध हो, यह सम्भव है, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । मनुष्यनीके कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल-प्रमाण कहा है । यहाँ इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके धन्धका प्रारम्भ होनेपर ही एकमात्र इसका अवक्तव्यपद होता है, अन्यका नहीं । यद्यपि उपशमश्रेणीसे उतरनेपर खीवेदमें पुनः इसका अवक्तव्यपद सम्भव है, र उपशमश्रेणिमें मार्गणा बदल जाती है, अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

१६६. पुरुषवेदी जीवोंने प्रथमदण्डक, स्थानगृद्धिदण्डक, निद्रादण्डक सातावेदनीयदण्डक, आठ कषायदण्डक और खीवेददण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रियपर्याप्तक जीवोंके समान है । इतनी विनेपता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है । निद्रादण्डकके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त अधिक दो छयासठ सागर है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है

सादि० तिष्णि पलि० देह० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । गिरयाउ० इत्थि० भंगो । दोआउ० पंचिदियभंगो । देवाउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । अवट्टि० जह० एग० उक्क० कायट्टिदी० । गिरयग०-चट्टुजादि-गिरयाणु०-आदाव-थावरादि० ४ तिष्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवट्टिसागरोवमसदं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । आरणच्चुदि सम्भत्तं गहेदूण तदो वेखावट्टिसागरोवमाणि भमिदूण-सव्वएक्कत्तीसं गदो मिच्छत्तं गदो ताओ तं णादूण केइं पुणोबंधदि । तिस्खिग्गदित्तिं पंचिदियपज्जत्तभंगो । मणुयागदिपंचग० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिष्णिपलि० सादि० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । देवगदि० ४ भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-वादर-पजत्त०-पत्ते० तिष्णि पदा णाणा० भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेगट्टिसाग० सदं । आहारदुगं तिष्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो० उक्क० कायट्टिदी० । समचट्टु०-पसन्धवि०-सुभग-सुस्सर-आदें०-उच्चा० तिष्णि०

और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्तय अधिक दो द्वासाठ सागरप्रमाण है । अवस्थित-पत्रका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकायुका भङ्ग खाँवेदी जीवोंके समान है । दो आयुओंका भङ्ग पञ्चोन्द्रिय जीवोंके समान है । देवायुके भुजगार और अल्पतरपत्रका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपत्रका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपत्रका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वा, आतम और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपत्रका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रैसठ सागर है । अवस्थितपत्रका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । आरण-अच्युत कल्पमे सम्यक्त्वको ग्रहणकर उसके बाद दो द्वासाठ सागर काल तक भ्रमण करनेके बाद सम्पूर्ण इकतीस सागरको वित्ताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उसका अनुभव करता हुआ उक्त प्रकृतियोंमेसे किन्हीं प्रकृतियोंका वध करता है । तिर्यङ्गगतित्रिकका भङ्ग पञ्चोन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है । मनुष्य-गतिपत्रकके भुजगार और अल्पतर पत्रका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्तय है । अवस्थितपत्रका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्पके भुजगार और अल्पतरपत्रका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पत्रका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अव-स्थितपत्रका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । पञ्चोन्द्रियजाति, परधात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपत्रका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रैसठ सागर है । आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपत्रका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति,

पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछावट्ठि० सादि० तिण्णि० पलि० देम् । तित्थ० भुज०अप्प० जह० एग्ग०, उक्क अंतो० । अवट्ठि० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देस्स० ।

सुभग. सुस्वर. आद्य और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिकोमे प्रथमादि दण्डकोका जो अन्तरकाल कहा है, वह पुरुषवेदी जीवोंमे भी बन जाता है, इसलिए इसे यहाँ पञ्चेन्द्रियपर्याप्तिकोंके समान कहा है । विशेष लुलासा पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिकोमे इन दण्डकोके अन्तरकालको देखकर कर लेना चाहिए । मात्र पुरुषवेदियोंमे पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, अतः उसका निषेध किया है । किन्तु निद्रादिकके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल बन जाता है, इसलिए उसका अलगसे विधान किया है । तथा अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे अपूर्वकरणमे इनका वन्धक होकर और सवेद भागमे मरकर देव होनेपर इनका वन्धक होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कायस्थिति प्रमाण प्राप्त होता है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । तथा जो दो छयासठ सागर काल तक गुणम्यान प्रतिपन्न रहता है, उसके इतने काल तक पुरुषवेदका ही वन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । इसी प्रकार नपुंसकवेद आदिका भी उक्त काल तक वन्ध नहीं हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर कहा है । तथा इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । नरकायुका स्त्रीवेदी जीवोंमे और दो आयुका पञ्चेन्द्रिय जीवोंमे जो अन्तरकाल घटित करके बतलाया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए । कोई मनुष्य पूर्व कोटिकी आयुके प्रथम त्रिभागमे देवायुके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य ये तीन पद करे, उसके बाद देव होकर और च्युत होकर पुन पूर्वकोटि आयुके अन्तमे देवायुके उक्त तीन पद करे तो यहाँ इस आयुके उक्त तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे वह साधिक तेतीस सागर कहा है । इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । नरकगति आदिका पुरुषवेदीके एक सौ त्रैसठ सागर तक वन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह सुगम है । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिकोमे तीर्थञ्चरगतित्रिकके सब पदोंका जो अन्तर काल कहा है, वह यहाँ अविकल बन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । साधिक तीन पत्य तक मनुष्य-गतिपञ्चकका वन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनके दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल-प्रमाण कहा है । इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । किसी जीवने मनुष्यगतिपञ्चकका विजयादिकमे अवक्तव्यपदकिया । पुन मर कर वह पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । तथा पुन मरकर वह विजयादिकमे उत्पन्न हुआ और मनुष्य-गतिपञ्चकका वन्ध करने लगा । इस प्रकार इसके इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर-काल साधिक तेतीस सागर देखा जाता है, इसलिए वह उक्त कालप्रमाण कहा है । उपशमश्रेणिके

१६६. णवुंसगे पढमदंडओ इत्थि०भंगो । णवरि अवट्ठि० ओघं । षीणगिद्धि-
तिगदंडओ दोपदा जह० एग०, उक्क० तेंचीसं० देख्ठो । अवट्ठि० ओघं । अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० अंदुपोंगाल० । णिहा-पयलदंडओ ओघं । णवरि अवत्त० णत्थि ।
असाददंडओ अडुकसायदंडओ ओघो । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-उज्जो-
अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादेँ० भुज्ज०-अप्प० मिच्छत्तभंगो । अवत्त० जह० अंतो०,
उक्क० तेंचीसं० देख्ठो । अवट्ठि० ओघं । पुरिस०-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुम्सर-आदेँ०
तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेंचीसं० देख्ठो । तिण्णिआउ०
वेउळ्वि०छळं मणुसगदिदिगं आहारदुगं सव्वपदा ओघं । देवाउ० मणुसि०भंगो ।

अपूर्वकरण गुणस्थानमें देवगतिचतुष्ककी बन्धत्र्युच्छित्ति कर और इस गुणस्थानकी प्राप्त होनेके पूर्व मरकर जो तेतीस सागरकी आयुके साथ देवोमें उत्पन्न होता है, उसके इतने काल तक इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तेतीस सागर कहा है। मात्र पहले और बादमें इन प्रकृतियोंके यथास्थान भुजगार आदि पद प्राप्तकर यह अन्तरकाल लाना चाहिए। इनके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है सो उसे देखकर घटित कर लेना चाहिए। तथा पुरुषवेदके इनका एक सौ त्रैसठ सागर तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। आहारकद्विकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। समचतुरस्र-संस्थान आदिके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। तथा इनका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिके अन्य पदोका अन्तरकाल तो स्पष्ट है। मात्र अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है सो वह जिस भवमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ होता है, उस भवकी अपेक्षासे जानना चाहिए। कारण कि जिस भवमें तीर्थङ्करका उदय होता है, उसमें उसका उपशमश्रेणियर आरोहण नहीं होता, यह बात इसी अन्तरकालसे ज्ञात होती है।

१६६ नपुंसकवेदी जीवोमें प्रथम दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदवाले जीवोके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। स्थानगुद्वित्रिक दण्डकके दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। निद्रा-श्रचलादण्डकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विगेषता है कि इनके श्रवक्तन्यपदका अन्तरकाल नहीं है। असातावेदनीयदण्डक और आठ कपायदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःखर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। पुरुषवेद, समचतुरस्रस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर और आदेयके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीन आयु, वैकियिकपदक, मनुष्यगतितिक और आहारकद्विकके सब पदोका भङ्ग ओघके समान है। देवायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है।

तिरिक्खगदितिगं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तैत्तीसं० देसू० । सेसपदा ओघं । चदुजादि-आदाव-धावरादि०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । अवड्ढि० ओघं । अवत्त० जह० अंतो, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । पंचिदि०-पर०-उत्सा०-तस०४ भुज०-अप्प०-अवड्ढि० णाणा०-मंगो । अवत्त० जह० अंतो, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । ओरा० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी० देसू० । अवड्ढि०-अवत्त० ओघं । एवं ओरालि०-अंगो०-वज्जरी० । णवरि अवत्त० जह० अंतो, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । वज्जरीसभ० तैत्तीसं० देसू० । तित्थ० भुज०-अप्प० जह० ए०, उक्क० अंतो । अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि साग० सादि० । अवत्त० जह० अंतो, उक्क० पुव्वकोडि-तिभागं देसू० ।

तिर्यञ्चगतित्रिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । शेष पदका भङ्ग ओघके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्के भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिकशरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसहननका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तथा वज्रर्षभनाराचसहननके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्यङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व कोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संखलन और पाँच अन्तराय इस प्रथम दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान वन जानेसे वह उनके समान कहा है । मात्र नपुंसकवेदी जीवोंकी कायस्थिति अनन्तकालप्रमाण होनेसे इनमे इस दण्डकके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण वन जानेसे वह ओघके समान कहा है । स्थानगृह्णित्रिक दण्डकसे स्थानगृह्णित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क ये आठ प्रकृतियों ली गई है । नपुंसकवेदी जीवोंमे इनका कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतर पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है, यह स्पष्ट ही है । तथा नपुंसकवेदी जीवोंके अर्धपुद्गल परावर्तनकालके प्रारम्भमे और अन्तमे इनका अवक्तव्यपद हो और मध्यमे न हो, यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । निद्रा-प्रचलादण्डकसे निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, वर्णाचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात

और निर्माण ये प्रकृतियों ली गई हैं सो इन प्रकृतियोंका भङ्ग ओघप्ररूपणामें जिसप्रकार कहा है वह यहाँ भी वन जाता है, इसलिए ओघके समान जाननेकी सूचना फी है। यद्यपि यहाँ इनका अवक्तव्यपद तो सम्भव है पर उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इस मार्गणामे इनका अवक्तव्यपद होकर पुनः अवक्तव्यपद होनेके पूर्व नियमसे मार्गणा बदल जाती है, इसलिए इस मार्गणामे इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके अन्तर्कालका निषेध किया है। सातावेदनीयदण्डकमें ये प्रकृतियों ली गई हैं—सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यश कीर्ति और अयश-कीर्ति। आठ कपायदण्डककी प्रकृतियों स्पष्ट ही हैं। इन दोनों दण्डकोंके चारों पदोंका अन्तरकाल ओघके समान यहाँ घटित हो जानेसे वह ओघके समान कहा है। खीवेद आदि सत्रह प्रकृतियोंका बन्ध यहाँ कुछ कम तेतीस सागर तक न हो, यह सम्भव है। मिथ्यात्वप्रकृतिके विषयमें भी यही बात है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका अन्तर्काल मिथ्यात्वके समान घटित हो जानेसे वह उसके समान कहा है। इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर इसी कारण घटित कर लेना चाहिए। तथा इनके अवस्थित पदका अन्तर ओघके समान है, यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेद आदि छह प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे वह उसके समान कहा है। तथा नपुंसकवेदोंके कुछ कम तेतीस सागर तक इनका निरन्तर बन्ध सम्भव है और इनका अवक्तव्यपद इस कालके आगे-पीछे ही सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तीन आयु आदि चौदह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान और देवायुका भङ्ग मनुष्यनीके समान है, यह स्पष्ट ही है। अलग-अलग स्पष्टीकरण देखकर कर लेना चाहिए। यहाँ तिर्यञ्जगतित्रिकका बन्ध कुछ कम तेतीस सागर तक हो, यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष दो पदोंका भङ्ग ओघके समान है, यह ओघ प्ररूपणको देखकर घटित कर लेना चाहिए। चार जाति आदि नौ प्रकृतियोंका बन्ध नरकमें नहीं होता और वहाँ प्रवेश करनेके पूर्व और वहाँसे निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है, यह स्पष्ट ही है। पञ्चेन्द्रिय-जाति आदि सात प्रकृतियोंका बन्ध नरकमें और वहाँ प्रवेश करनेके पूर्व व निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक नियमसे हाता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ सन्यस्रदृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्जके कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक आँदारिकशरीरका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष पदोंका भङ्ग ओघके समान है, इसलिए वहाँसे देखकर घटित कर लेना चाहिए। आँदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग और वज्रपभनागचसंहननका अन्य भङ्ग औदारिकशरीरके समान है। केवल इनके अवक्तव्यपदके अन्तरकालमें फरक है। बात यह है कि इस मार्गणामे औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग का साधिक तेतीस सागर काल तक और वज्रपभनागचसंहननका कुछ कम तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। नपुंसकवेदमें साधिक तीन सागर तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इस प्रकृतिके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थित-पद क्रमकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। तथा नरकायुके बन्धवाले नपुंसकवेदों मनुष्यमें एक पूर्वकोटिके कुछ कम त्रिभागप्रमाण काल तक ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। ऐसे मनुष्यने तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धके प्रारम्भमें अवक्तव्यपद किया और द्वितीय व तृतीय नरकमें उत्पन्न

१६७. अवगदवे० सच्चपगदीणं भुज०-अप्प०-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
अवत्त० णत्थि अंतरं ।

१६८. कोधकसाइसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवड्ढि०
जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं मणजोगिभंगो । एवं माण-मायाणं । णवरि तिण्णि-
संज०-दोसंज० । लोभे० पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० भुज-अप्प०-अवड्ढि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । सेसाणं मणजोगिभंगो ।

१६९. मदि-सुदे धुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अचड्ढि०
जह० एग०, उक्क० सेदीए असंखेंजदि० । दोवेद०-छण्णोक्क०-थिरादितिण्णयु० भुज०-

होकर व अन्तर्मुहूर्तमें सम्यग्दृष्टि होकर तीर्थकर प्रकृतिका पुन. वन्धका प्रारम्भ कर अवक्तव्यपद
क्रिया । इस प्रकार इस प्रकृतिके अवक्तव्यपदके दो बार वन्ध होनेमें उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त काल
प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उतना कहा है ।

१६७. अपगतवेदी जीवोमे सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल
नहीं है ।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदी नौवे और दसवे गुणस्थानका काल और
उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदका काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है; इसलिए इसमें सब
प्रकृतियोंके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा
क्षपकश्रेणिमें तो इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होता ही नहीं । हों उपशमश्रेणिमें इनका
अवक्तव्यपद होता है, पर वह उत्तरते समय एक बार ही होता है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य-
पदके अन्तरकालका निषेध किया है ।

१६८. क्रोध कषायवाले जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संञ्चलन और
पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार मान
और माया कषायवाले जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें क्रमसे तीन संञ्चलन
और दो संञ्चलन लेने चाहिए । लोभकषायवाले जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और
पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ चारों कषायवाले जीवोमे सब प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोका अन्तर-
काल मनोयोगी जीवोके समान वन जाता है । मात्र श्रेणिमें क्रोध कषायमें चार संञ्चलनोका,
मानकषायमें तीन संञ्चलनोका और मायाकषायमें दो संञ्चलनोका वन्ध सम्भव है । तथा लोभ
कषायमें एक भी संञ्चलनका वन्ध न हो यह भी सम्भव है; इसलिए इस फरकका बोध करानेके
लिए विशेषरूपसे उल्लेख किया है ।

१६९. मत्वज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोमे ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्प-
तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । दो वेदनीय,
द्वह नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञाना-

अप्य०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवुंस०-पंचसंठा०-
 छस्संध०-अप्यसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्य० जह० एग०, अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० तिण्णि पलि० देसू० । अवट्टि० णाणा०भंगो । चदुआउ० वेउच्चियच्चकं
 मणुसगदिदिगं भुज०-अप्य०-अवट्टि०-अवत्त० ओघं । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०
 भुज०-अप्य० जह० एग०, उक्क० ऐक्कीसं० सादि० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । णवरि
 उज्जो० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० ऐक्कीसं० सादि० । [चदुजादि-आदाव-थावर४
 भुज०-अप्य० जह० ए०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेंचीसं० सादि० । अवट्टि० ओघं ।]
 पंचिदि०-पर०-उस्सा०-त्तसं०४ भुज०-अप्य०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० तेंचीसं० सादि० । ओरालि० भुज०-अप्य० जह० एग०, उक्क० [तिण्णि
 पलिदो० देसू० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । समचदु०-पसत्थ०-सुमग-सुस्सर-आदे०
 तिण्णिप० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० ।
 ओरालि०अंगो० भुज०-अप्य० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । अवट्टि०
 ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेंचीसं० सादि० । णीचा० तिण्णिपदा० णवुंसग-

वरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेद, पाँच
 संस्थान, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनात्रेयके भुजगार और
 अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सवका
 उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । तथा अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । चार
 आयु, वैक्रियिकपट्टक और मनुष्यगतित्रिकके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदका
 भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा और उद्योतके भुजगार और अल्पतर-
 पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । अवस्थित
 और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विगेपता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदका
 जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । चार जाति,
 आतप और स्थावर आदि चागके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है,
 अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर
 है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रस-
 चतुष्पके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका
 जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिकशरीरके
 भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन
 पत्य है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त
 विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य-
 पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । औदारिक-
 शरीर आङ्गोफङ्गके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
 कुछ कम तीन पत्य है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर
 अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग

भागाभागाणुगमो

१७०. 'मिस्स' भंगो । एवं एदेण वीजपदेण यावं अणाहारग ति षेदव्वं ।

परिमाणुगमो

१७१. परिमाणं दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० कैंत्तिया ? अणंता । अवत्त० कैंत्तिया ? संखैंजा । धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरालि० तिण्णि पदा कैंत्तिया ? अणंता । अवत्त० कैंत्तिया ? असंखैंजा । तिण्णिआउ०

कालतक और आगे-पीछे अन्तर्मुहूर्त कालतक इनका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । औदारिकशरीरका उत्तम भोग-भूमिमें कुछ कम तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघमें जो कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । समचतुरस्रसंस्थान आदि पाँच प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान घटित हो जाता है, यह स्पष्ट ही है । तथा उत्तम भोगभूमिमें कुछ कम तीन पल्यतक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । औदारिकशरीर अङ्गोपाङ्गका अन्य सब विकल्प औदारिक शरीरके समान घटित हो जाता है । मात्र अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालमें फरक है । वात यह है कि इसका सातवें नरकमें तो निरन्तर बन्ध होता ही है । तथा वहाँ जानेके पूर्व और निकलनेके बाद भी अन्तर्मुहूर्त कालतक बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान बन जानेसे वह उसके समान कहा है और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान बन जानेसे उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

भागाभागाणुगम

१७०. मिश्रके समान भङ्ग है । इसप्रकार इस वीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

परिमाणुगम

१७१. परिमाण दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदवाले जीव कितने हैं ? सख्यात हैं । स्थानशुद्धिक, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं अनन्त हैं । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असख्यात है । तीन आयु और वैक्रियिकपदके भुजगार, अल्पतर अव-

१ ता०प्रती 'ओरालि' भुज०अप्प०ज० ए० उ० ति० [अत्र ताडपत्रद्वयं विनष्टम् । एक क्रमाकरहित ताडपत्र विद्यते] मिस्सभगो । एव एदेण वीजेण याव' आ०प्रती 'ओरालि' भुज०अप्प० जह० एग०, उवक० .. मिस्सभगो । एदेण वीजपदेण याव' इति पाठः । अत्र आ०प्रती 'यहाँसे २०८ ताडपत्र नहीं है ।' इत्यपि सूचना विद्यते ।

वेज्विव्यल्लकं भुज०-अप्य०-अवट्टि०-अवच० कौत्तिया० ? असंखेज्जा । आहारदुगं चचारि पदा कौत्तिया ? संखेज्जा । तित्थ० तिण्णि पदा कौत्तिया ? असंखेज्जा । अवच० कौत्तिया ? संखेज्जा । सेसाणं सादादीणं चचारि पदा कौत्तिया ? अणंत । एवं ओधमंगो कायजोगि-ओरा०-णवुंस०-क्रोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

स्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । आहारकद्विकके चारों पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात है । शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ? इसीप्रकार ओषके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नधुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि पैंतीस प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रियोंके भी वन जाते हैं, इसलिए इनका परिमाण अनन्त कहा है । तथा इनका अवक्तव्य पद या तो सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनीके सम्भव है या ऐसे यथासम्भव मनुष्योंके मरकर देव होनेपर उनके प्रथम समयमें सम्भव है । ये जीव यतः संख्यातसे अधिक नहीं होते, अतः इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । स्थानगृह्णिक आदि तेरह प्रकृतियोंके तीन पद एकेन्द्रियोंके भी वन जाते हैं, इसलिए इनका परिमाण अनन्त कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद संजी पञ्चेन्द्रियोंमें प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । नरकायु, मनुष्यायु और देवायु इन तीन आयुओंके और वैक्रियिकपदकके बन्धक जीव ही असंख्यात हैं, इसलिए इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । आहारकद्विकके चार पद तो अग्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणमें ही होते हैं, इसलिए इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पद नरक, मनुष्य और देव इन तीनों गतियोंमें सम्भव हैं, इसलिए इसके भुजगार आदि तीन पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । यद्यपि इसका अवक्तव्यपद भी उक्त तीन गतियोंमें होता है, पर वह तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध करनेवाले सब जीवोंके सर्वदा नहीं होता । एक तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं । उनके पुनः इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । दूसरे मनुष्य-गतियोंमें जो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ करता है उसके होता है । या उपशमश्रेणिसे गिरकर आठवे गुणस्थानमें इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । तीसरे तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जो मनुष्य उपशमश्रेणिसमें इसकी बन्धव्युच्छिति करनेके वाद मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है, उसके होता है । यतः ऐसे जीवोंका जोड़ एक समयमें संख्यातसे अधिक नहीं होता । अतः इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शेष रहीं दो वेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आहोपाह्न, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उच्चोत, दो विहायोगति, त्रसादि हस युगल और दो गोत्र सो इन साठ प्रकृतियोंके चारों पद एकेन्द्रियोंके भी सम्भव हैं, अतः इनका परिमाण अनन्त कहा है । यहाँ काययोगी आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें ओष प्ररूपणाकी अपेक्षा यह परिमाण अविकल घटित हो जाता है, अतः उनमें ओषके समान जाननेकी सूचना की है ।

१७२. ओरालि०मि० ओघं । कम्मइग०-अणाहार० धुवियाणं भुज० कैंत्तिया ? अणंता । परियत्तमाणियाणं भुज०-अवत्त० कैंत्तिया ? अणंता । एदेसिं तिण्णि पदा देवगदिपंचग० भुज० कैंत्तिया ? संखेंजा । वेउ०मि० धुवियाणं भुजगारं कैंत्तिया ? असंखें० । सेसाणं भुज० अवत्त० कैं० ? असंखेंजा । णवरि कम्म०-अणाहार० मिच्छं० अवत्त० कैंत्तिया ? असंखें० । एवं एदेण वीजपदेण अणाहारगै त्ति जेदव्वं ।

एवं परिमाणं समत्तं ।

१७२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, पदवाले जीव कितने हैं^१ अनन्त हैं। परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। मात्र इन तीन मार्गणाओमें देवगतिपञ्चकके भुजगार पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विरोपार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंका परिमाण अनन्त है, इसलिए उनमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका भङ्ग ओघके समान बन जानेसे वह उसके समान कहा है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंका भी परिमाण अनन्त है, अतः इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका और परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त कहा है। मात्र पूर्वोक्त तीन मार्गणाओमें देवगतिपञ्चकके बन्धक जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि जो देव और नारकी सम्यक्त्वके साथ मरते हैं वे संख्यात ही होते हैं और जो मनुष्य सम्यक्त्वके साथ मरकर तिर्यञ्चो और मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं, वे भी संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें उक्त पाँच प्रकृतियोंके भुजगार पदवालोंका परिमाण संख्यात कहा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवालोंका और परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदवालोंका परिमाण असंख्यात कहा है। यहाँ कार्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले असंख्यात होते हैं—यह जो कहा है सो उसका कारण यह है कि जो सासादनसम्यग्दृष्टि इन मार्गणाओमें मिथ्यात्वको प्राप्त होते हैं वे असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका परिमाण ही असंख्यात है। इस प्रकार यहाँ तक जो परिमाण कहा है, उसे वीजपद मानकर उसके अनुसार अन्य सब मार्गणाओमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके यथासम्भव भुजगार आदि पदवाले जीवोंका परिमाण ले आना चाहिए।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

१ आ०प्रती 'आहार०' इति पाठः । २ ता०प्रती 'णवरि कम्म० अणाहार० । मिच्छं०' इति पाठः ।
३ ता०प्रती 'एदेण वीजेण' इति पाठः ।

खैत्ताणुगमो

१७३. खैत्ताणुगमेण दुवि०—ओधे० आदे० । ओधे० तिण्णिआउ० वेउन्वि०छक्कं
आहारदुगं तित्थं० चत्तारि पदा धुवियाणं ओरालियसरीरस्स य अवत्तवग्गाणं केवडि
खैत्ते ? लोगस्स असंखैज्जदिभागे । सेसाणं सन्वपदा केवडि खैत्ते ? सन्वलोगे । एवं
अणंतद्वाणेषु षेद्व्वं । सेसाणं सन्वेसिं सन्वे भंगा ओधं देवगदिभंगो । णवरि एइंदिय-
पंचकायाणं ओघादो साधेद्व्वो ।

फोसणाणुगमो

१७४. फोसणाणुगमेण दुवि०-ओधे० आदे० । ओधे० पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-

क्षेत्रानुगम

१७३ क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश । ओधसे तीन आयु, वैक्यिकपट्टक, आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके चार पदोंके बन्धक जीवोंका तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र कितना है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र कितना है ? सर्व लोक है । इसी प्रकार सब अनन्त संख्यावाली मार्गाणामें जानना चाहिए । शेष मार्गाणामें सब प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग ओधसे देवगतिके समान जानना चाहिए । इतनी विरोधता है कि एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें ओधके अनुसार साध लेना चाहिए ।

विशेषार्थ—तीन आयु, वैक्यिकपट्टक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात हैं तथा आहारकट्टिकके बन्धक जीव संख्यात हैं । तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं और त्यानगुद्वित्रिक आदिके और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंमेंसे तीन आयु, वैक्यिकपट्टक, आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदवालोंका तथा शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । इनके सिवा जो शेष प्रकृतियों रहती हैं अर्थात् ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों तो अवक्तव्यपदके सिवा शेष पदोंकी अपेक्षा यहाँ शेष पदके ली गई है और इनके सिवा परावर्तमान सब प्रकृतियों यहाँ सब पदोंकी अपेक्षा ली गई हैं सो उन सबके सब पदवालोंका क्षेत्र सर्व लोक है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके वे पद एकेन्द्रियोंमें भी पाये जाते हैं । यह ओधग्रहणना अनन्त संख्यावाली सब मार्गाणामें अपनी-अपनी देवनेवाली प्रकृतियोंके अनुसार घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओधके अनुसार जाननेकी सूचना की है । शेष मार्गाणामेंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए उनमें ओधसे देवगतिके भङ्गके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र एकेन्द्रियके अवान्तर भेद और पाँच स्थावरकायिकोंमें विशेषता है, इसलिए उनमें ओधको लक्ष्यकर क्षेत्रके घटित करनेकी सूचना की है ।

स्पर्शानुगम

१७४. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश । ओधसे पाँच ज्ञानावरण द्रष्ट दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क,

भय-दुर्गुं-तेजा-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवट्टि० केवडि०
 खेंत्तं फोसिदं? सव्वलोगो। अवत्त० केव० फोसिदं? लोम० असंखें।
 थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ तिण्णिपदा सव्वलो०। अवत्त० अट्टुचोहें०। णवरि
 मिच्छ० अट्टु-वारह०। अपच्चक्खणाण०४ तिण्णिपदा सव्वलो०। अवत्त० छच्चो०।
 सादादीणं चत्तारिपदा सव्वलो०। दोआउ० आहारदुग्गुं सव्वपदा खेंत्तंभंगो। मणुसाउ०
 सव्वपदा अट्टुचो० सव्वलो०। दोगदि-दोआणु० तिण्णिपदा छच्चोहें०। अवत्त० खेंत्त-
 भंगो। ओरालि० तिण्णिपदा सव्वलो०। अवत्त० वारहचो०। वेउच्चि०-वेउच्चि०-
 अंगो० तिण्णिपदा वारहचो०। अवत्त० खेंत्तंभंगो। तित्थ० तिण्णिपदा अट्टुचो०।
 अवत्त० खेंत्तंभंगो।

अगुरुलघुचतुष्क, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? सब लोकका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असत्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्थान-गुद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? सब लोकका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और आहारकदिकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोकका स्पर्शन किया है। दो गति और दो आनुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—ओधसे पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोक स्पर्शन कहा है। तथा उनका अवक्तव्यपद उपशमभ्रणसे गिरनेवाले मनुष्यों और मनुष्यिनियोंके तथा इनकी बन्धव्युच्छित्तिवाले ऐसे जीवोंके भरकर देव होनेपर प्रथम समयसे

होता है. इसलिए इनके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। न्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पदोंका स्वामित्व विद्यावरणके समान है. इसलिए इनके उक्त तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोक कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद उपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमें होता है। ऐसे जीवोंका स्पर्शन देवोंके विहारवत्वस्थानकी मुख्यतासे त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण है. अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका यह स्पर्शन तो है ही पर नीचे कुछ कम पाँच राजू और उपर कुछ कम सात राजू प्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी इसका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्के भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके इन तीन पदोंके बन्धक जीवोंको सर्व लोक स्पर्शन कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद उपर कुछ कम छह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके भी होता है, अतः इनके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदिके सब पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके चारो पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदिसे सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकप्राय. तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गी-पाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परधात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति. त्रसादि दस गुणल और नो गौत्र वे प्रकृतियों ली गई हैं। नरकायु और देवायुका बन्ध अन्तरी जीव करते हैं। पर मारणान्तिक समुद्रात और उपपादपदके समय इनका बन्ध नहीं होता। तथा आहारकद्रिकका बन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, अतः इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है। मनुष्यायुके चारों पद देवोंके विहारवत्वस्थानके समय भी सम्भव है और एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी सम्भव है, अतः इसके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोक कहा है। तिर्यञ्चों और मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी क्रमसे नरकगतिद्रिकके और देवगतिद्रिकके भुजगार आदि तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। परन्तु मारणान्तिक समुद्रातके समय इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, अतः इनके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। औदारिकशरीरके तीन पदोंका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते हैं, अतः इसके इन तीन पदोंका अपेक्षा स्पर्शन सर्व लोक कहा है। तथा नाक्री और देव चल्पन होनेके प्रथम समयमें औदारिकशरीरका अवक्तव्य बन्ध नियमसे करते हैं. अतः इसके इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्यञ्चों और मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी वैक्रियिकद्रिकके तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर ऐसे तिर्यञ्चों और मनुष्योंके इनका अवक्तव्य-पद नहीं होता. इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंके विहारवत्वस्थानके समय भी तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पद सम्भव है, इसलिए इनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद मनुष्योंके तो सम्भव है ही और उपशमश्रेणिमें इसकी बन्ध-व्युच्छित्तिके बाद मरकर जो देव होते हैं उनके भी प्रथम समयमें सम्भव है। तथा इसका बन्ध

१७५. णिरयेसु ध्रुवियाणं तिणिण पदा छच्चो० । सादादीणं तेरहपगदीणं सच्चपदा छच्चो० । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-तित्थ०-उच्चा० सच्चपदा खेंचभंगो । सेसाणं तिणिणपदा छच्चो० । अवत्त० खेंचभंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० पंचचो० । एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदच्चं ।

करनेवाले जो मनुष्य द्वितीय और तृतीय नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके भी सम्भव है । इन सबका स्पर्शन विचार करनेपर लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होना है. अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।

१७५. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ काम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इस प्रकार अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद ही होते हैं और नारकियोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुत्लधुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भी यही स्पर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि इनके चारों पद नारकियोंके मारणान्तिक और उपपादके समय भी सम्भव हैं । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियों के हैं—सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, उद्योत, और स्थिर आदि तीन युगल । मूलमें शेष पद द्वारा आगे कहीं गईं स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तीन वेद, तिर्यञ्जगति, छह संस्थान, छह संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके तीन युगल और नीचगोत्रके भुजगार आदि तीन पदोंके बन्धक जीवोंका इसी प्रकार स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । तथा इनका अवक्तव्यपद स्वस्थानमें ही होता है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद छठे नरक तकके नारकियोंके मारणान्तिक समुद्भातके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अलगसे त्रसनालीके कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । अब रहीं दो आयु आदि प्रकृतियों सो इनमेंसे दो आयुका बन्ध तो मारणान्तिक समुद्भात और उपपादपदके समय होता ही नहीं । शेष चार प्रकृतियोंके तीन पदोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्भातके समय भी हो सकता है, पर वह मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्भातके समय ही सम्भव है । तथा इनके अवक्तव्य पदका बन्ध ऐसे समय भी सम्भव नहीं है, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । प्रथमादि सब नरकोंमें अपना-अपना स्पर्शन जानकर वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए ।

१७६. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिपदा सच्चलोगो । थीणगि०३-मिच्छ०-
अट्टक०-ओरालि० तिण्णिपदा सच्चलो० । अवत्त० खँत्तभंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त०
सच्चोई० । सेसाणं पगदीणं ओघं ।

१७७. पंचिदि०तिरिक्ख०३ धुवियाणं भुज०-अप्प०-अवट्ठि० लोगस्स असंखँ०
सच्चलो०। थीणगि०३-अट्टक०-णवंस०-तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-
पर०-उस्सा०-धावर-सुहुम-पज्जचापजत्त - पत्तेय-साधारण-दूमग - अणादँज्ज - पीचा०
तिण्णिपदा लोग० असंखँ० सच्चलो० । अवत्त० खँत्तभंगो । सादामाद०-चटुणोक्क०-

१७६ तिर्थञ्चामे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सर्व लोकका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कपाय और औदारिक शरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विरोधता है कि मिथ्यात्वके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका भद्र ओघके समान है ।

विशेषार्थ—तिर्थञ्चामे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी होते हैं और वे सब लोकमे पाये जाते हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका सर्व लोक स्पर्शन कहा है । स्थानगृद्धि तीन आदिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनका अवक्तन्यपद इनके अवन्धक होकर पुनः बन्ध करते समय होता है, ऐसे तिर्थञ्चोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है और क्षेत्र भी इतना ही है, इसलिए वह क्षेत्रके समान कहा है । मात्र मिथ्यात्वका अवक्तन्यपद ऐसे तिर्थञ्चोंके भी सम्भव है जो ऊपर एकेन्द्रियोंमें भारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, इसलिए इसके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । अब रहीं शेष प्रकृतियों से उनके सम्भव पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघमे जिस प्रकार कहा है, उस प्रकार यहाँ पर भी घटित हो जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । वे प्रकृतियों ये हैं— दो वेदनीय, सात नोकपाय, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वैक्रियिकशरीर, छह सस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहसन, चार आयुपूर्वा, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि दस युगल और दो गोत्र ।

१७७ पञ्चेन्द्रियतिर्थञ्चत्रिकमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, आठ कपाय, नपुंसकवेद, तिर्थञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुण्ड-संस्थान, तिर्थञ्चगत्यानुपूर्वा, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भंग, अनाद्येय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ

धिराधिर-सुभासुभ० सञ्चपदा लोगस्त असंखे० सञ्चलो० । मिच्छ० तिण्णिपदा णवुंसग-
 भंगो । अवत्त० सत्तचो० । इत्थि० तिण्णिपदा दिवडुचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । पुरिस०-
 दोगदि०-समचदु०-दोआणु०-दोविहा०-सुभग०-दोसर-आदें०-उच्चा० तिण्णिपदा छुचो० ।
 अवत्त० खेत्तभंगो । चदुआउ०-मणुसग०-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छससंघ०-
 मणुसाणु०-आदाव० सञ्चपदा खेत्तभंगो । पंचिदि०-वेउन्वि०-वेउन्वि०-अंगो०-तस०
 तिण्णिपदा चारह० । अवत्त० खेत्तभंगो । उज्जो०-जस० सञ्चपदा सत्तचो० । घादर०
 तिण्णिपदा तेरह० । अवत्त० खेत्तभंगो । अजस० तिण्णिपदा लोग० असंखे० सञ्चलो० ।
 अवत्त० सत्तचो० ।

के मत्र पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भद्र नपुंसकवेदके समान है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । श्रीवेदके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पुन्यवेद. दो गति, तमचतुरस्रसंस्थान, दो आनुपूर्वा, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आवेय और उगोत्रके तीन पदोंका बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा और आतपके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति वैदिक्रियकशरीर, वैक्रियकशरीर आङ्गोपाङ्ग और त्रसके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बाह्र बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चनिकका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण होनेसे इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों ये हैं—पौंच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अन्तर्का आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णच्युत्क, अगुरु लघु, उपधात, निर्माण और पौंच अन्तराय । स्थानगृद्धिनिक आदिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी उक्त प्रकारसे लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण घटित कर लेना चाहिए । इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद पदके समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । सातावेदनीय आदिके चारो पद मारणान्तिक समुद्घात और उपपादपदके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके चारो पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा इसका अवक्तव्यपद उपर कुछ कम सात राजभूषण

१७८. पंचिदि०तिरिक्खअप० ध्रुवियाणं सव्वपदा लोग० असंखें० सव्वलो० । सातासाददंडओ पंचिदि०तिरि०भंगो । णवुंस०- [तिरिक्ख-एइदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधा०-दुमग-अणादें०-णीचा०] तिण्णिपदा लोगस्स असंखें० सव्वलो० । अवत्त० खेंत्तमंगो । उज्जो०-जसगि० सव्वपदा सत्तचो० ।

क्षेत्रका स्पर्शन करते समय सम्भव होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है । आगे अचश कीर्तिके चारों पदोंकी अपेक्षा जो स्पर्शन कहा है वह मिथ्यात्वके समान ही है, अतः उसे भी इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । देवियोंमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी स्त्रीवेदके तीन पदोंका बन्ध होता है, इसलिए इसके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भाग-प्रमाण कहा है । पर ऐसी अवस्थामे इसका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । नारकियोंमे मारणान्तिक समुद्रानके समय नरकगति. नरकगत्यानुपूर्वा, अप्रशस्त विहायोगति और दु स्वरके तीन पद और देवोंमे मारणान्तिक समुद्रातके समय पुरुषवेद, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वा, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुम्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । पर ऐसी अवस्थामे इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः इनके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । चार आयुओंके सब पद और उस दण्डककी गेप प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समु-द्रातके समय नहीं होते । यद्यपि शेष प्रकृतियोंके तीन पद मारणान्तिक समुद्रातके समय भी होते हैं, पर जिन जीवोसम्बन्धी ये प्रकृतियाँ हैं, उनका स्पर्शन ही लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिये इन प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । नारकियों और देवोंमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदि चार प्रकृतियोंके तीन पदोंका बन्ध होता है, अतः इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । पर इनका अवक्तव्यपद ऐसे समयमे नहीं होता, अतः इनके अव-क्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । ऊपरके एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्रातके समय भी उद्योत और यश कीर्तिके सब पदोंका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । ऊपर सात और नीचे छह इसप्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पर्शन करते समय वादर प्रकृतिके तीन पदों का बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । पर मारणान्तिक समुद्रातके समय इसका अवक्तव्यपद नहीं होता. इसलिए इसकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।

१७८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकोमे ध्रुवबन्धवाली सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता-वेदनीय-असातावेदनीयदण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, परधात, उच्छ्रास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यश कीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादर प्रकृतिके तीन

वादर० तिण्णिपदा सत्तचोई० । अवत्त० खैत्तभंगो । [अजस० तिण्णिप० लो० असंखे० सव्वलो० । अवत्त० सत्तचो० ।] सेसाणं सव्वपदा खैत्तभंगो । एवं सव्वअपज्जत्ताणं विगल्लिंदिय-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०- वादरपत्तयपज्जत्ताणं च । [गवरि तेउ०- वाऊणं मणुसगदिचदुक्कं वज्ज । वाऊणं जम्हि लोग० असंखे० तम्हि लोग० संखे०]

पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अथवा कीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इस प्रकार सब अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय, वादरप्रथिवी-कायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर कहना चाहिए । तथा पूर्वमें जहाँ लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ वायुकायिक जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण वतलाया है । इस सब स्पर्शनके समय इनके ध्रुवबन्धनी प्रकृतियोंके तीन पद और सातावेदनीयदण्डके चार पद सम्भव होनेसे इस अपेक्षा यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । ध्रुवबन्धनी प्रकृतियों ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तराय । साता-असातावेदनीय दण्डककी प्रकृतियों ये हैं—दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ । अन्य जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंके बन्धक जीवोंका यह स्पर्शन कहा है, वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, अतः आगे इसे छोड़कर शेषका स्पष्टीकरण करते हैं । नपुंसकवेद आदिका अवक्तव्यबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इनके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय उद्योत और यश कीर्तिके सब पदोंका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । वादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भी यही स्पर्शन कहा है सो उसका कारण भी इसी प्रकार जानना चाहिए । तथा इसका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय अथवा कीर्तिका अवक्तव्यपद भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अब रहीं शेष खीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेश और उद्योगत्र सो एक तो आयुकर्मका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता, दूसरे शेष प्रकृतियोंका यद्यपि मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध होता है, फिर भी जिन जीवों सम्बन्धी ये प्रकृतियों हैं उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके मारणान्तिक समुद्घात करनेपर स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही

१७६. मणुसेसु पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि णिरयगदि-देवगदिसंजुत्ताणं रज्जू
ण लभदि ।

१८०. देवेसु धुवियाणं सच्चपदा अट्टणव० । श्रीणगि०३-अणंताणु०४-णहुंस०-
तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-धावर-दूभग-अणादे०-णीचा० तिण्णिपदा अट्ट-
णव० । अवच० अट्टचो० । सादादिदस०-उज्जो०-जस०-अजस०-मिच्छ० सच्चपदा
अट्टणव० । सेसाणं सच्चपदा अट्टचो० । एवं अप्पण्णो फोसणं णेदव्वं ।

प्राप्त होता है और इनका क्षेत्र भी इतना ही है, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । यहाँ सब अपर्याप्त आदि अन्य जितनी मार्गाणँ कही हैं उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान स्पर्शन बन जाता है, इसलिए उनमें इनके समान स्पर्शनके जाननेकी सूचना की है । मात्र अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतचतुष्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें इन चार प्रकृतियोंके बन्धका नियेध किया है । तथा वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें स्पर्शन लोकके संख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे इनमें लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शनके स्थानमें उक्त प्रमाण स्पर्शन करना चाहिए ।

१७८. तीन प्रकारके मनुष्योंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें नरकगति और देवगति संयुक्त प्रकृतियोंका स्पर्शन रज्जुओंमें नहीं प्राप्त होता ।

विशेषार्थ—पहले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें स्पर्शन बतला आये है । तीन प्रकारके मनुष्योंमें यह स्पर्शन अविकल बटित हो जाता है, इसलिए इनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है । पर मनुष्यत्रिकमें नरकगति और देवगतिसंयुक्त नामकर्मकी जितनी प्रकृतियों बंधती हैं उनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि इन तीन प्रकारके मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेपर भी उस समय प्राप्त हुआ सब स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होता है, इसलिए यहाँ नरकगति और देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोंका सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन राजुओंमें नहीं प्राप्त होता है, ऐसा कहा है ।

१८०. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानु-बन्धीचतुष्क, नपुमकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदि दस तथा उद्योत, वश कीर्ति, अयश कीर्ति और मिथ्यात्वके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना स्पर्शन जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण है । ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा, स्थानगृद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा और सातावेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन बन जाता है, अत यह उक्त

१८१. एङ्दिय-पंचकायाणं खैत्तभंगो ।

१८२. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-छदंसणा०-अट्टकसा०-भय-दुगु०-तेजा०-क०-
वण्ण०४-अगु०४-पजत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्टुच्चो० सच्चलो० ।

प्रमाण कहा है । मात्र स्थानगुट्टि आदिका अवक्तव्यपद एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । यहाँ सातावेदनीय आदि दस प्रकृतियों ये हैं—दो वेदनीय, चार नांकापाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ । अब शेष रहीं छीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआद्गोपाद्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायो-गति, त्रस, सुभंग, दो स्वर, आदेय, तीर्थद्वार और उच्चगोत्र सो इनका एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय बन्ध नहीं होता, पर देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अलग-अलग देवोंमें अपना-अपना स्पर्शन जानकर इस विधिसे सब प्रकृतियोंके यथा-सम्भव पदोंका स्पर्शन ले आना चाहिए ।

१८१. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिकोंमें क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । विशेष खुलासा इस प्रकार है—एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके वादर और वादर अपर्याप्त, वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक और इनके अपर्याप्त सब वनस्पतिकायिक और निगोत्र तथा सब सूक्ष्म इनमें सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन और क्षेत्रमें अन्तर नहीं है, इसलिए उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र कुछ प्रकृतियोंके स्पर्शनमें फरक है । उसे यहाँ यद्यपि मूलमें नहीं कहा है, फिर भी विशेष रूपसे जान लेना चाहिए । यथा—मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव थोड़े होते हैं, इसलिए इसके सब पदोंकी अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण जानना चाहिए । उद्योत और यश क्रांतिके सब पद तथा वादरके भुजगार आदि तीन पद ऊपर वादर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव हैं, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भाग-प्रमाण जानना चाहिए । किन्तु वादरका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें सम्भव नहीं है, इसलिए इसके इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण जानना चाहिए । अशर क्रांतिके तीन पद सब अवस्थाओंमें सम्भव हैं, इसलिए इसके इन पदोंकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन जानना चाहिए । पर इसके अवक्तव्यपदका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है । फिर भी ये जीव जब ऊपर वादर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, तब भी इसका अवक्तव्यपद होता है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका भी स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण जानना चाहिए ।

१८२. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके

अवत्त० खैंत्तभंगो । धीणगि०३-अणंताणु०४-णयुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरि-
क्खाणु०-धावर-दूभग-अणादे०-णीचा० भुज०-अप्य०-अवट्टि० अट्टुचो० सच्चलो० ।
अवत्त० अट्टुचो० । सादासाद०-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुम० सच्चपदा अट्टुचो०
सच्चलो० । मिच्छ० तिण्णिपदा अट्टुचो० सच्चलो०^१ । अवत्त० अट्टु-वारह० । अपच्च-
क्खाणु०४ तिण्णिपदा अट्टु० सच्चलो० । अवत्त० छच्चो० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-
पंचसंटा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संय०-दोविहा०-तस-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे०^२ तिण्णि-
पदा अट्टु-वारह० । अवत्त० अट्टुचो० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुगं सच्चपदा खैंत्त-
भंगो । दोआउ०-मणुस-मणुसाणु०-आदाव०-उच्चा० सच्चपदा अट्टुचो० । [गिरयगदि-
देवगदि-दोआणु० तिण्णिपदा छच्चो०] अवत्त० खैंत्त० । ओरालि० तिण्णिप०
अट्टुचो० सच्चलो० । अवत्त० वारह० । वेउच्चि०-वेउच्चि०-अंगो० तिण्णिपदा वारहचो० ।

अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । स्थानगुच्छित्रिक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता-वेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिन्वात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग-प्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । खीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस-सुभग, सुस्वर, दुस्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति और आहारकट्टिकके सब पदोंके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्विके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण

१ ता०प्रवौ 'तिण्णिपदा०' 'चो० सच्चलो०' इति पाठ । २ आ०प्रवौ 'दुस्सर-आदे०' इति पाठ ।

अवत्त० खैत्त० । वादर-उज्जो०-जस० सव्वपदा अट्ट-तेरह० । णवरि वादर० अवत्त० खैत्त०भंगो । सुहुम-अपज्जत्त-साधार० तिण्णिपदा लोग० असंखै० सव्वलो० । अवत्त० खैत्त०भंगो । [अजस० तिण्णिपदा अट्टचो० सव्वलो० । अवत्त० अट्ट-तेरह० ।] तिथ० तिण्णिपदा अट्टचो० । अवत्त० खैत्त०भंगो । एवं पंचिदियमंगो पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु०-सण्णि चि । कायजोगि-अचक्खु०-भवसि०-आहार० ओषं ।

क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैकियिकशरीर और वैकियिकशरीर आह्नोपाह्नके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । वादर, उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि वादरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सूत्रम, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदोके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयश कीर्तिके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इस प्रकार पञ्चेन्द्रियोंके समान पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, चन्द्रदर्शनवाले और संज्ञी जीवोमे जानना चाहिए । काययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोमे ओषके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियद्विक जीवोका स्पर्शन स्वस्थानविहार आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और मारणान्तिक पदकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमे पाँच ज्ञानावरणादिके भुजगर आदि तीन पदोकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है, क्योंकि इन जीवोमे उक्त प्रकृतियोंके ये तीन पद सब अवस्थाओमे सम्भव है । मात्र इनमे इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका स्वामित्व ओषके समान होनेसे इस पदवाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । स्थानगृद्धि आदिके तीन पदोकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर लेना चाहिए । तथा इनका अवक्तव्य पद देवोमे स्वस्थान विहार आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिके चारो पद विहारादिके समय और मारणान्तिक समुद्रातके समय सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । मिथ्यात्वके तीन पदोकी अपेक्षा उक्त स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा इसका अवक्तव्यपद देवोमे विहारादिके समय और नीचे कुछ कम पाँच और ऊपर कुछ कम सात राजूके स्पर्शनके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अपत्यास्थानावरणचतुष्के तीन पदोकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर लेना चाहिए । तथा आगे भी जिन प्रकृतियोंके उक्त पदोका यह स्पर्शन कहा है वह भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा जो संयतासंयत

आदि मर कर देवोंमें उत्पन्न होते हैं, उनके भी प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवक्तव्य पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोंमें विहार आदिके समय और नारकियों व देवोंके तिर्यञ्चो व मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय खीवेद आदि प्रकृतियोंके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। दो आयु आदिके सब पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, वह स्पष्ट ही है। शेष दो आयु और मनुष्यगति आदिके सब पद देवोंमें विहारादिके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके सब पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चो और मनुष्योंके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी नरकगतिद्विकके तीन पद और देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी देवगतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र ऐसे समयमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंमें विहारादिके समय और एकैन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय औदारिकशरीरके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इसके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तथा इसका अवक्तव्यपद नारकियों और देवोंके प्रथम समयमें भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मनुष्यों और तिर्यञ्चोके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी वैक्रियिकद्विकके तीन सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। वादर आदिके सब पदोंका स्पर्शन देवोंके विहारादिके समय और नीचे कुछ कम छह राजू व ऊपर कुछ कम सात राजूप्रमाण स्पर्शनके समय भी सम्भव होनेसे इनके सब पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ व कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र वादर प्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो मारणान्तिक समुद्रातके समय नहीं होता। दूसरे इसे करनेवाले जीव अल्प है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। सूक्ष्म आदिके तीन पदवालोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके अखंड्यातर्वे भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्रात आदिके समय नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। अथश-कीतिके तीन पदवालोंका स्पर्शन जो त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है तो इसे ज्ञानावरणके समान घटितकर लेना चाहिए। तथा इसके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण यश कीर्तिके समान घटित कर लेना चाहिए। तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पद देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा ऐसे समय इसका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ पाँच मनोयोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह नशर्शन अविकल बन जाता है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रियों के समान इसके जाननेकी सूचना की है। तथा काययोगी आदि मार्गणाओं में ओषधरूपा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओषधके समान जाननेकी सूचना की है।

१८३. ओरा०का० ओघं । णवरि थीण०३-अट्टक०-ओरालि० अवत्त०
खैत्तमंगो। मिच्छ० अवत्त० सत्तचो० । अपच्चक्खाण०४ अवत्त० मणुसाउ०' तित्थगरादीणं
रज्जू णत्थि ।

१८३. औदारिककाययोगी जीवों में ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्थानगुद्धित्रिक, आठ कपाय और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथाअत्रत्याल्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका तथा मनुष्यायु और तीर्थङ्कर आदिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन राजुओं में नहीं प्राप्त होता।

विशेषार्थ—यहाँ समान्यसे औदारिककाययोगी जीवों में सब प्रकृतियों का भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है और यह सम्भव भी है, क्योंकि यह योग एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी यथासम्भव पाया जाता है। मात्र कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनके विवक्षित पदवाले जीवोंका स्पर्शन ओघके अनुसार घटित नहीं होता, इसलिए उसे अलगसे सूचित किया है। यथा—ओघमें स्थानगुद्धित्रिक और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यपदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। जो देवोंके विहारादिके समय होता है। तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो नारकियों और देवोंके उपपादपदके समय होता है। किन्तु इस स्पर्शन कालमें औदारिककाययोग सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य-पदवाले जीवोंका स्पर्शन ओघसे भी क्षेत्रके समान है, इसलिए उससे इस विषयमें यहाँ कोई विशेषता नहीं है। हों यह स्पर्शन यहाँ उपपादपदके समय नहीं प्राप्त करना चाहिए, इतनी विशेषता अवश्य है। यहाँ कारण है कि इसका भी यहाँ विशेषरूपसे उल्लेख किया है। ओघसे मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु उसमेंसे यहाँ त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन ही प्राप्त होता है, क्योंकि औदारिककाययोगी जीव ऊपर कुछ कम सात राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते समय ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद कर सकते हैं, पूर्वोक्त अन्य स्पर्शनके समय नहीं। इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोंके स्पर्शनमें ओघसे फरक होनेके कारण यह भी अलगसे कहा है। ओघसे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण घटित करके घतलाया है, पर यह स्पर्शन भी यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि जो संयतासयत आदि मनुष्य और संयतासयत तिर्यञ्च असंयत होकर उसी पर्यायमें इनका अवक्तव्यपद करते हैं, उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन राजुओं में नहीं प्राप्त होता यह सूचना की है। ओघसे मनुष्यायुके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है। सो इसमेंसे सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन तो यहाँ भी बन जाता है, क्योंकि एकेन्द्रियोंके औदारिककाययोग भी होता है। पर दूसरा स्पर्शन यहाँ सम्भव नहीं है। हों, उसके स्थानमें यहाँ लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन अवश्य सम्भव है, इसलिए उक्त स्पर्शनका निषेध करनेके लिए मनुष्यायुके सब पदवालोंका

१८४. ओरालि०मि०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपञ्ज०-संजद-सामाह०-
छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० खेंत्तभंगो ।

१८५. वेउन्वियका० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-[णवुंस-]
तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-वादर-पञ्जत्त-पत्ते०-
दृभग-अणादें०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० तिण्णिपदा अट्ट-तेरह० । अवत्त० अट्टचो० ।
सादासाद०-चदुणोक०-उज्जो०-थिरादितिण्णियुग०-सन्वपदा अट्ट-तेरह० । मिच्छ० तिण्णिपदा
अट्ट-तेरह० । अवत्त० अट्ट-वारह०^१ । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-
छस्संध०-दोविहा०-त्स-सुभग-दौसर-आदें० तिण्णिपदा अट्ट-वारह० । अवत्त० अट्टचो० ।
दोआउ-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव०-उच्चा० सन्वपदा अट्टचो० । एहंदि०-थावर०

स्पर्शन राजुओ मे नहीं प्राप्त होता, यह कहा है। इसी प्रकार तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन भी यहाँ त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण सम्भव नहीं है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन राजुओमें नहीं प्राप्त होता, यह सूचना की है। इसी प्रकार अन्य जो विशेषता सम्भव हो वह घटित कर लेनी चाहिए।

१८४. औदारिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेद-
वाले, मन पर्ययज्ञानी, सयत्त, सामायिकसयत्त, छेदोपस्थापनासंयत्त, परिहारविशुद्धिसंयत्त और
सूक्ष्मसाम्परायसंयत्त जीवोंमे क्षेत्रके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—इन मार्गणाओंमे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंकी अपेक्षा जो क्षेत्र कहा है,
सामान्यसे वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इनमे क्षेत्रके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है।

१८५. वैकियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय,
जुगुप्सा, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चर्गात्, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्ण,
चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, चाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भंग, अनादेय, निर्माण, नीच-
गोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह
वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके
कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार
नोकषाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम
आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके
बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम
वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ऋग्वेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच
संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और
आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ
कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानु-
पूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति और स्थावरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने

१ ता०प्रती 'धिगदितिण्णउ (यु) सन्वपदा' इति पाठः । २ ता०प्रती 'अहतेर० अहत्तारह०' इति पाठः ।

तिष्णिपदा अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचो० । तित्थ० तिष्णिपदा अट्टचो० । अवत्त०
खैत्तभंगो ।

१८६. कम्मइ० धुविगारणं भुज० सन्वल्लो० । सेसाणं भुज०-अवत्त० सन्वल्लो० ।

त्रसनालीके कुल्ल कम आठ और कुल्ल कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्त्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुल्ल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुल्ल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है, तथा इसके अवक्त्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें दो प्रकारकी प्रकृतियों ली गई हैं । पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औद्योगिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्यक, निर्माण और पाँच अन्तराय ये तो ध्रुवबन्धनों प्रकृतियाँ हैं । इनके यहाँ केवल तीन ही पद होते हैं । शेष नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भंग, अनादेय और नीचगोत्र ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं । इनके यहाँ चारों पद सम्भव हैं । यहाँ तीन पदोंकी अपेक्षा तो पूर्वोक्त दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंका स्पर्शन कहा है और अवक्त्यपदकी अपेक्षा दूसरे प्रकारकी प्रकृतियोंका स्पर्शन कहा है । देवोंके विहारादिके समय भी स्थानगुद्वित्रिक आदिका अवक्त्यपद सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवालोंका त्रसनालीके कुल्ल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे स्त्रीवेद आदिके तथा एकेन्द्रियजाति और आतपके अवक्त्यपदकी अपेक्षा, दो आयु आदिके सब पदोंकी अपेक्षा और तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुल्ल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहनेका यही कारण है । प्रथम दण्डकमें कही गई इन सब प्रकृतियोंके तीन पद देवोंके विहार आदिके समय तो सम्भव हैं ही । साथ ही नीचे छह और ऊपर सात इस प्रकार कुल्ल कम तेरह राज्ञूका स्पर्शन करते समय भी सम्भव हैं, इसलिए इन सब प्रकृतियोंके तीन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुल्ल कम आठ और कुल्ल कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । साता-वेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेक्षा और मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन इसीप्रकार कहनेका यही कारण है । देवोंके विहारादिके समय तथा नीचे कुल्ल कम पाँच और ऊपर कुल्ल कम सात राज्ञू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्त्यपद सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुल्ल कम आठ और कुल्ल कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । स्त्रीवेद आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन इसी प्रकार प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है । मात्र यहाँ कुल्ल कम वारह राज्ञूसे नीचे कुल्ल कम छह और ऊपर कुल्ल कम छह राज्ञू लेने चाहिए । कारणका विचार कर लेना चाहिए । देवोंमें विहार आदिके समय एकेन्द्रियजाति और आतपके तीन पद तो सम्भव हैं ही । साथ ही एकेन्द्रियोंमें इनके मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी ये पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुल्ल कम आठ और कुल्ल कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । वैकियिककाययोगमें दूसरे और तीसरे नरकमें ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्त्यपद सम्भव है, इसलिए इसके अवक्त्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१८६. कर्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगारपदके बन्धक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्त्यपदके बन्धक

णवरि मिच्छ० अवत्त० ँकारस० । देवगदिपंचग० खैंत्तभंगो ।

१८७, इत्थिवेदेसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० तिणिणपदा अट्टुचो० सच्चलो० । शीणगिद्धि०-३-अर्णताणु४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरक्खाणु०-थावर-दूमग-अणादें०-अजस०-णीचा० तिणिणपदा अट्टुचो० सच्चलो० । अवत्त० अट्टुचो० । [णवरि अजस० अवत्त० अट्टुणवचो० ।] णिदा-पयला-अट्टक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि० तिणिणपदा अट्टुचो० सच्चलो० । अवत्त० खैंत्तभंगो । सादासाद०-चदुणोक्क०-थिराथिर-सुभासुभ० सच्चपदा अट्टुचो० सच्चलो० । मिच्छ० तिणिणपदा साद०भंगो । अवत्त० अट्टुणव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-

जीवो ने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि इनमे मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो ने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा देवगतिपञ्चकके बन्धक जीवो का स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगी जीवो का स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमे ध्रुवबन्धवालो प्रकृतियोंके भुजगारपदके बन्धक जीवो का और अन्य प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवो का स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । मात्र इस नियमको कुछ प्रकृतियों अपवाद हैं । यथा इस योगमे ऊपर ऊह और नीचे पाँच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजूप्रमाण क्षेत्रके भीतर ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव पाये जाते हैं, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भाग-प्रमाण कहा है । तथा जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्तम भोगभूमिके मनुष्यो और तिर्यञ्चोमे उत्पन्न होते हैं, उनके व जो नारकी और देव सम्यक्त्वके साथ मरकर मनुष्योमे उत्पन्न होते हैं, उनके इस योगमे देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है । ऐसे जीवोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः यह क्षेत्रके समान कहा है ।

१८७. स्त्रीवेदवाले जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंरथान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति और नीच-गोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि अयशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुद्वलधु-चतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोक्षाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके सब पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोके बन्धक जीवोका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे

१ ता०आ०प्रत्योः 'भयदुगुं ओरा० ते० क०' इति पाठः ।

पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदें०-
 उचा० सव्वपदा अट्टचो० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ० सव्वपदा खेंत्त-
 भंगो । दोगदि-दोआणु० तिण्णिपदा छचो० । अवत्त० खेंत्तभंगो । पंचिदि०-अप्पसत्थ०-
 तस-दुस्सर० तिण्णिपदा अट्ट-वारह० । अवत्त० अट्टचो० । ओरालि० तिण्णिपदा अट्टचो०
 सव्वलो० । अवत्त० दिवड्डुचो० । वेउ०-वेउ०-अंगो० तिण्णिपदा बारह० । अवत्त०
 खेंत्तभंगो । उज्जो०-जसगि० सव्वपदा अट्ट-णव० । वादर० तिण्णिपदा अट्ट-तेरह० । अवत्त०
 खेंत्तभंगो । सुहुम-अपज्ज०-साधार० तिण्णिपदा लोमस्स असंखें० सव्वलोगो वा ।
 अवत्त० खेंत्तभंगो । पुरिसेसु एसेव भंगो । णवरि तित्थ० ओषं । ओरा०-अपच्चस्साण०४
 अवत्त० छचो० ।

चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो गति और दो आयुपूर्विके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बादप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पुरुषवेदवाले जीवोंमें यही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है। तथा औदारिकशरीर और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—विहारवत्त्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम आठ राजु और मारणान्तिक समुद्गत की अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्त्रीवेदी जीवोंने स्पर्शन किया है। पाँच ज्ञानावरणादि, स्थानगृदि आदि सातावेदनीय आदि, मिथ्यात्व और औदारिकशरीरके तीन पदोंकी अपेक्षा तथा सातावेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेक्षा इन जीवोंने उक्त क्षेत्रका स्पर्शन किया है, अतः यह उक्त

प्रमाण कहा है। किन्तु स्थानगुद्धि आदिके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्शन सम्भव है, क्योंकि देवियोंके विहारादिके समय इन् प्रकृतियों का यह पद सम्भव है। यद्यपि अन्य गतियोंमें भी यह पद होता है पर इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातव भागप्रमाण होनेसे इसीके अन्तर्गत है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। स्त्रीवेद आदिके सब पदोंकी अपेक्षा तथा पञ्चेन्द्रियजाति आदिके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा भी यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ निद्रा-प्रचला आदिका अवक्तव्यपद जिस अवस्थामें होता है, उस अवस्था सहित उन जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातव भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसे क्षेत्रके समान कहा है। दो आयु आदिके सब पदोंकी अपेक्षा तथा दो गति आदि, वैक्रियिकशरीरद्विक और वादर प्रकृतिके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा भी स्पर्शन लोकके असंख्यातव भागप्रमाण प्राप्त होनेसे यह भी क्षेत्रके समान कहा है। कारणका विचार सर्वत्र कर लेना चाहिए। देवियोंके विहारादिके समय और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद सम्भव है, इसलिए इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। उद्योत और यश-कीर्तिके सब पदोंकी अपेक्षा भी यह स्पर्शन बन जाता है, इसलिए यह भी उक्तप्रमाण कहा है। नीचे कुछ कम छह राजूप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय नरकगतिद्विक के तीन पद और ऊपर कुछ कम छह राजूप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय देव-गतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन कहा है। तथा इन दोनों स्पर्शनोंको मिला देनेपर वैक्रियिकद्विकके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन प्राप्त होता है, इसलिए इनके उक्त पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंके विहारादिके समय तथा तिर्यञ्चो और मनुष्योंके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इसके इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंके विहारादिके समय तथा ऊपर सात और नीचे छह, इस प्रकार कुछ कम तेरह राजूका स्पर्शन करते समय भी वादर प्रकृतिके तीन पद सम्भव हैं, अतः इसके इन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। सूक्ष्मादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य ही करते हैं और स्त्रीवेदी इन जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातव भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनके इन तीन पदोंकी अपेक्षा उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है। पहले अयश-कीर्तिको भी स्थानगुद्धिकदण्डकके साथ गिना आये हैं। किन्तु उसके अवक्तव्यपदके स्पर्शनमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके स्पर्शनसे फरक है, क्योंकि ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी इसका अवक्तव्य पद होता है, देवियोंके विहारादिके समय तो सम्भव है ही, अतः इसके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन अलगसे कहा है। कुछ अपवादको छोड़कर पुरुषवेदवाले जीवोंमें यह स्पर्शन बन जाता है, अतः उनमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। पुरुषवेदियोंमें एक अपवाद तो तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षासे है। बात यह है कि ओषधमें इस प्रकृतिके तीन पदोंकी अपेक्षा जो कुछ कम आठ राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है वह पुरुषवेदी जीवोंमें ही सम्भव है, क्योंकि तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव देवियोंमें नहीं उत्पन्न होते—यह इस स्पर्शनसे स्पष्ट हो जाता है। दूसरा अपवाद अत्रत्याल्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके स्पर्शनकी अपेक्षा है।

१८८. णडुंसगे ओरा०कायजोगिभंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० वारहचौद० ।
 कोधादि०४ ओघं । मदि-सुद० ओघं । णवरि देवगदि-देवाणु० तिण्णिपदा पंचचौं० ।
 अवत्त० खेंत्तभंगो । वेउ०-वेउ०अंगो० तिण्णिपदा ँकारह० । अवत्त० खेंत्तभंगो ।
 ओरालि० अवत्त० ँकारह० । एवं अन्नभव०-मिच्छा० । विभंगे० पंचिदियभंगो । णवरि
 वेउविययच्छकं मदि०भंगो । ओरालि० अवत्त० खेंत्तभंगो ।

वात यह है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव ऊपर सर्वार्थसिद्धि तक उत्पन्न हो सकते हैं, अत यहाँ इनके इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे यह अलगसे कहा है ।

१८८. नपुंसकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । मत्त्वज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें देवगति और देवगत्यानुपूर्विकी तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । वैकिक्रियक शरीर और वैकिक्रियक शरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवों ने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार अर्थात् मत्त्वज्ञानी जीवोंके समान अभ्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें वैकिक्रियकपदका भङ्ग मत्त्वज्ञानी जीवोंके समान है । तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदी जीवोंमें मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नीचे कुछ कम पाँच और ऊपर कुछ कम सात इसप्रकार कुछ कम बारह राजूका स्पर्शन करते समय बन जाता है । किन्तु औदारिककाययोगी जीवोंमें कुछ कम सात राजूप्रमाण ही स्पर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि नारिकियोंके औदारिककाययोग सम्भव नहीं है । नपुंसकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगवालोंकी अपेक्षा इतनी मात्र विशेषता है । अन्य सब कथन एक समान होनेसे नपुंसकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है । क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है, यह स्पष्ट ही है । मत्त्वज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें कुछ अपवादोंको छोड़कर ओघ कथन ओघके समान बन जाता है । जहाँ फरक है, उसका खुलासा इसप्रकार है—साधारणतः ये दोनों अज्ञानवाले मनुष्य अन्तिम ग्रंथेयक तक उत्पन्न होते हैं पर ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ तिर्यञ्चकी मुख्यता है और ऐसे तिर्यञ्चका उत्पाद सहस्रार कल्प तक होनेसे वे सहस्रार कल्प तक ही देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर सकते हैं । यही कारण है कि यहाँ देवगतिद्विकके तीन पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु ओघसे यह त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि ओघसे देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीव लिये गये हैं । इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है । एक फरक तो यह है । दूसरा फरक इसी कारणसे वैकिक्रियकद्विकके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शनमें पड़ता है । वात यह है कि ओघसे वैकिक्रियकद्विकके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भाग-

१८६. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-पुरिस०-भय-दु०-
मणुस०-पंचिदि०- [ओरालि०-] तेजा०-क०-समचदु० - [ओरालि०-अंगो०-वज्रि०]
वण०-४- [मणुसाणु०-] अगु०-४-पसत्थवि०-तस०-४-सुभग-सुस्सर-आदो०-णिमि०-
तित्य०-उच्चा०-पंचंत० तिणिणपदा अट्टचो०। अवत्त० खेंत्तमंगो। सादासाद०-चदुणोक्क०-
थिरादितिणिणयुग० सच्चपदा अट्टचो०। अपच्चक्खाण०-४ तिणिण पदा अट्टचो०।
अवत्त० छचो०। मणुसाउ० साद०-मंगो। देवाल० आहारदुगं खेंत्तमंगो। मणुसगदि-

प्रमाण वतला आये हैं। पर यहाँ उसमेसे ऊपरका एक राजू स्पर्शन कम हो जाता है, अतः यहाँ इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। तीसरा फरक औदारिक-शरीरके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा है। ओषसे यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण वतला आये हैं, क्योंकि वहाँ सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिका भेद न होनेसे नीचेके छह और ऊपरके छह इसप्रकार कुछ कम बारह राजू लिए गये हैं। किन्तु यहाँ नीचेके छह और ऊपर के पाँच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजू ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि बारहवें कल्प तकके देवोमे ही तिर्यञ्च भरकर उत्पन्न होते हैं। अभव्य और मिथ्यादृष्टियोंमे मत्यज्ञानियोंके समान प्रकृषणा वन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। विभङ्गज्ञानी पञ्चेन्द्रिय ही होते हैं, इसलिए इनमे साधारणतः पञ्चेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। जो अन्तर है उसका अलगसे निर्देश किया है। बात यह है कि पञ्चेन्द्रियोंमे वैक्रियिकपटकका भङ्ग ओषके समान वन जाता है और विभङ्गज्ञानी मिथ्यादृष्टि होते हैं, अतः उनमे वह नहीं वनता। किन्तु मत्यज्ञानियों के जो स्पर्शन कहा है वह वनता है, अतः इनमे वैक्रियिकपटकका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान जाननेकी सूचना की है। दूसरे पञ्चेन्द्रियोंमें औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो नारकियों और देवोके उपपादपदके समय प्राप्त होता है। किन्तु देव और नारकी उपपादपदके समय विभङ्गज्ञानी नहीं होते, क्योंकि उनके वह अज्ञान पर्याप्त होनेपर प्राप्त होता है। अतः जो विभङ्गज्ञानी तिर्यञ्च और मनुष्य औदारिकशरीरका अवक्तव्य पद कर रहे हैं, उन्हींकी अपेक्षा यहाँपर औदारिकशरीरके अवक्तव्य-पदका स्पर्शन घटित किया जा सकता है और वह लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होता है। यही कारण है कि विभङ्गज्ञानमे औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदवालोक स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है।

१८६. आभिनित्रोधिकजानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुसा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वज्रपथभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलयुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुखर, आग्नेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। देवायु और आहारकट्टिकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। मनुष्यगतिपञ्चके अवक्तव्यपदके

पंचमस्त अवत्त० छत्राँ० । देवगादि०४ तिणि पदा छत्राँ० । अवत्त० खैत्तमंगो । एवं
ओषिर्दं०-सम्मा०-सइगा०-वेदा०-उवसम० । णवरि सइगा०-उवसम० देवगादि०४ खैत्त-
मंगो । उवसम० नित्य० खैत्तमंगो ।

बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवच्छेद्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनवाले, सन्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसन्यग्दृष्टि, वेदकसन्यग्दृष्टि और उपशमसन्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । उदनी विरोधता है कि ज्ञायिकसन्यग्दृष्टि और उपशमसन्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है तथा उपशमसन्यग्दृष्टि जीवोंने तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ देवोंमें विहारादिके समय भी पंच ज्ञानावरणादि और चार बन्धा-
ख्यानावरणके तीन पद तथा सातावेदनीय आदि न मनुष्यायुके सब पद कम जाते हैं, इसलिए
इनके उक्त पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा
जो संयत जीव इनकी बन्धव्युच्छिन्नि होनेके बाद नरकर देव होते हैं या लौटकर पुनः इनका
बन्ध करते हैं उनके इनका अवच्छेद्यपद होता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यावत्
भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः इनके अवच्छेद्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।
इतनी विरोधता है कि इनमेंसे तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवच्छेद्यपद दूसरे और तीसरे तरुणों भी बन
जाता है । तथा मनुष्यगतिपञ्चकका अवच्छेद्यपद जो सन्यग्दृष्टि तिथिश्च नरकर देव होते हैं, उनके भी
सम्भव है, इसलिए इनके अवच्छेद्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह
भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसका अलगसे निर्देश किया है । जो सन्यग्दृष्टि मनुष्य प्रथम तरुणों
उत्पन्न होते हैं, उनके भी इनका अवच्छेद्य पद होता है, पर इससे उक्त स्पर्शनमें कोई अन्तर नहीं
पड़ता । संयत और संयतार्थयत जीवोंके असंयतसन्यग्दृष्टि होने पर या ऐसे जीवोंके नरकर देव
होनेपर अत्र्याख्यानावरण चतुष्कका अवच्छेद्य पद होता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन भी
त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः यह उक्तप्रमाण कहा है । तिर्थङ्कर
और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्राव करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद करते हैं,
अतः इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण
कहा है । तथा जो देव नरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं, उनके इनका अवच्छेद्य पद होता है । यतः
ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यावत् भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः यह क्षेत्रके समान कहा
है । यहाँ अवधिदर्शनी आदि अन्य लितनी मार्गाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्रत्यगा कम जानी
है, अतः उनमें उक्त तीन प्रकारके ज्ञानवाले जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र
ज्ञायिकसन्यग्दृष्टि और उपशमसन्यग्दृष्टि जीवोंमें कुछ विरोधता है । अतः यह है कि जो ज्ञायिक-
सन्यग्दृष्टि तिथिश्च और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्राव करते हैं वे बहुत ही अल्प होते हैं और
उनका स्पर्शन क्षेत्र भी सीमित है, इसलिए तो ज्ञायिकसन्यग्दृष्टियोंमें देवगति चतुष्कके सब
पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा उपशमसन्यग्दृष्टि तिर्थङ्कर तो देवोंमें
मारणान्तिक समुद्राव ही नहीं करते । मनुष्य करते हैं सो जो उपशमश्रेणिकवाले ऐसे मनुष्य हैं वे
ही करते हैं, इसलिए इनमें भी देवगतिचतुष्कके सब पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।
उपशमसन्यग्दृष्टियोंमें यही बात तीर्थङ्कर प्रकृतिके विषयमें भी जाननी चाहिए ।

१६०. संजदासंजदेसु ध्रुविगाणं तिणिण पदा छचोदं० । सादादीणं सव्वपदां छचोँ० । देवाउ०-तित्थ० खँत्तमंगो । असंजद० ओघं ।

१६१. किण्ण-णील-काउ० ध्रुवियाणं तिणिण पदा सव्वलो० । गिरयगदि-गिरयाणु०-वेउ०-वेउ०अंगो० तिणिण पदा छ-चत्तारि-वेँ० । अवत्त० खँत्तमंगो । दोआउ०-देवगदि-देवाणु०-तित्थ० खँत्तमंगो । सेसाणं तिरिक्खोघं । णवरि ओरालि० अवत्त० छ-चत्तारि-वेचोँदँस० ।

१६०. संयतासंयतोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनोय आदि प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । असंयत जीवोंमे ओघके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—संयतासंयतोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है और यह ध्रुवबन्धवाली व इतर प्रकृतियोंके सब पदवालोंके वन जाता है, इसलिए यह उक्तप्रमाण कहा है । मात्र मारणान्तिक समुद्घातके समय आयुक्रमका बन्ध नहीं होता और सयतासंयतोमे तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य ही होते हैं । यत. ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है । अत. इन प्रकृतियोंके सम्भव सब पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । असंयत जीवोंमे ओघके समान भङ्ग है, यह स्पष्ट ही है ।

१६१. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वा, वैक्रियिक-शरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वा और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—कृष्णादि तीन लेश्यावाले जीव सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । कृष्णलेश्यामें सातवे नरक तकके, नील लेश्यामें पाँचवे नरकतकके और कापोत लेश्यामे तीसरे नरक तकके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी नरकगति आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ दो बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । आयुका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता । कृष्ण और नीललेश्यामे देवगतिद्विकका बन्ध भी मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहीं है, क्योंकि इन दो लेश्यावाले देवोंमे मारणान्तिक समुद्घात ही नहीं करते । कापोत लेश्यामे मारणान्तिक समुद्घातके समय भी देवगतिद्विकका बन्ध सम्भव है, पर

१. ता०प्रतौ 'सत्त [व्व] पदा' इति पाठ । २. आ०प्रतौ 'पदा चत्तारि वे' इति पाठः ।

१६२. नेत्रं पंचणा० छद्मना० चतुसंज्ञ० भय-दुर्गु० नैजा० क० वृष्ण० ४-अगु० ४-
 यादर-पञ्चन-पत्तय-णिमि० पंचत० सत्यपदा अद्भु-णव० । शीणगिद्विदंडओ साद०-
 दंडओ मोधम्मभंगो । अपचक्रखाण० ४-ओगलि० तिष्णि पदा अद्भु-णवचो० । अवत्त०
 दिवडुचो० । पचक्रखाण० ४ तिष्णिपदा अद्भु-णव० । अवत्त० खैत्तभंगो । तित्थ० ओवं ।
 देवजा०-आहारदुर्गं खैत्तभंगो । देवगदि० ४ तिष्णि पदा दिवडुचो० । अवत्त० खैत्तभंगो ।
 सेसाणं पगदीणं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि अपचक्रखाण० ४-ओरा०-
 ओरा०अंगो अवत्त० देवगदि० ४ तिष्णि पदा पंचचो० । सेसाणं सहस्सारभंगो ।

ऐसे जीव केवल भवनत्रिकमें ही मारणान्तिक समुदात करने हैं। ऐसी अवस्थामें इनका स्वर्गन
 लोकके अस्तंत्यानवें भागप्रभाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण और नील क्षेत्र्यामं नार्गक्रियामं
 नारणान्तिक समुदात करते समय तीर्थद्वार प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। कापोत क्षेत्र्यामं मारणा-
 न्तिक समुदात करते समय अवश्य ही इस प्रकृतिका बन्ध सम्भव है, पर ऐसे जीव या तो प्रथम
 तन्त्रमें या प्रथम नरककाले ननुष्यामं ही मारणान्तिक समुदात करते हैं। और इनका स्वर्गन भी
 लोकके अस्तंत्यानवें भागप्रभाग है। इसलिए इन दो आयु आदि सब प्रकृतियोंके सब पदवाले
 जीवोंका स्वर्गन क्षेत्रके समान कहा है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्षेत्रके समान है, वह
 नष्ट ही है। मात्र औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद नक्कमें उपपाद पदके समय भी सम्भव है,
 इसलिए हमने अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्वर्गन त्रसनालोकके कुछ कम छह- कुछ कम चार और
 कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रभाग कहा है।

१६२. पीतक्षेत्र्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय,
 जुगुप्सा, तेजसशरीर, कानेशरीर, वर्णचतुष्क, अगुण्णचतुष्क, वादन, पर्याम, प्रत्येक, निर्माण
 और पाँच अन्तरायके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालोकके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ
 बटे चौदह भागप्रभाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है। न्यानगुद्विदण्डक और सातावेदनायदण्डकका
 भङ्ग सौधर्मे कल्पके समान है। अपत्याख्यानावरण चतुष्क और औदारिकशरीरके तीन पदोंके
 बन्धक जीवोंने त्रसनालोकके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रभाग क्षेत्रका स्पर्शन
 किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालोकके कुछ कम छह भागप्रभाग क्षेत्रका स्पर्शन
 किया है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालोकके
 कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रभाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके
 अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्वर्गन क्षेत्रके समान है। तीर्थद्वार प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान
 है। देवायु और आहारकट्टिकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक
 जीवोंने त्रसनालोकके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रभाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके
 अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्वर्गन क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सौधर्मे कल्पके
 समान है। इसीप्रकार पञ्चक्षेत्र्यामं भी जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपत्या-
 ख्यानावरणचतुष्क, औदारिकशरीर और औदारिकशरीरवाङ्मोपाङ्गके अवक्तव्यपदके बन्धक
 जीवोंने तथा देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालोकके कुछ कम पाँच बटे चौदह
 भागप्रभाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्सार कल्पके समान है।

१. ता०अ०अ०ः गिनि०... अद्भुणव० इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अत्त० । देवगदि ४ तिष्णि
 पदा' इति पाठः ।

विशेषार्थ—पीतलेख्यामे देवोंके विहारके समय त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन पाया जाता है और ऊपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय त्रसनालीके कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन पाया जाता है और ऐसे समयमे पाँच ज्ञानावरणादिके तीन पद सम्भव हैं, अत इनके सब पदवाले जीवोंका उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है।

स्त्यानगृद्धिदण्डक और सातावेदनीयदण्डकके स्पर्शनको जो सौधर्म कल्पके समान जाननेकी सूचना को है सो उसका यही अभिप्राय है कि स्त्यानगृद्धिदण्डकके तीन पदवाले जीवोंका और सातावेदनीयदण्डकके चार पदवालोंका उक्त प्रकारसे ही स्पर्शन जानना चाहिए। तथा स्त्यानगृद्धिदण्डकका अवक्तव्यपद ऊपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन इसीका सौधर्म कल्पमे कहे गये स्पर्शनके समान त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। स्त्यानगृद्धिदण्डककी प्रकृतियों ये हैं—स्त्यानगृद्धिदण्डक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, ननुसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, स्वावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र। सातावेदनीयदण्डककी प्रकृतियों ये हैं—सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकपाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगल। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरके तीन पद भी देवोंके विहारके समय और ऊपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन भी त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद देवोंमें ऐशानकल्प तकके देवोंके उपपादपदके समय ही सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद भी यद्यपि उक्त देवोंमें सम्भव है, पर जो संयत मनुष्य भरकर इनमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके यह होता है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान तथा देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। सौधर्म-ऐशानकल्प तकके देवोंमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे समयमे इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए उसका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ शेष प्रकृतियों ये हैं—खीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्र। इनका ऊपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय बन्ध नहीं होता, अत इनके चारो पदवाले जीवोंका स्पर्शन सौधर्मकल्पके समान त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। यहाँ मूलमे इसीप्रकार पद्मलेख्यामे भी जानना चाहिए, ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार अलग-अलग प्रकृतियोंके सम्भव पदवालोंका स्पर्शन पीतलेख्यामे कहा है, उसीप्रकार पद्मलेख्यामें भी घटित कर लेना चाहिए। पर पद्मलेख्यामे त्रसनालीके कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन सम्भव नहीं है, इसलिए उसे सर्वत्र छोड़ देना चाहिए। मात्र इनमे अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद सहस्रारकल्प तकके देवोंमे उपपादपदके समय और देवगतिचतुष्कके तीन पद इन्हीं देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका विचार सहस्रारकल्पके समान कर लेना चाहिए, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

१६३. सुक्वाए आणदभंगो^१ । अपच्चक्खाण०४-मणुसगदिपंच० सच्चपदा छच्चो^० । देवगदि०४ तिण्णि पदा छच्चो^० । अवत्त० खेंत्तभंगो० । खविगाणं अवत्त० खेंत्तभंगो ।

१६४. सासणे धुवियाणं तिण्णि पदा अट्ट-चारह० । सादादीणं तेरसणं सच्चपदा अट्ट-चारह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-पंचसंघ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदें^० तिण्णि पदा अट्ट-एँकारह० । अवत्त० अट्टच्चो^० । णवरि ओरा०अंगो०

१६३ शुक्ल लेश्यामे आनतकल्पके समान भङ्ग है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और मनुष्यगति पञ्चकके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । क्षपकप्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—शुक्ललेश्यावाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण है । आनत कल्पके देवोंका भी उक्त प्रमाण स्पर्शन बन जाता है, अतः शुक्ललेश्यामे आनत कल्पके समान भङ्ग है, यह वचन कहा है । उसमे भी कुछ स्पष्ट करनेके लिए अलगसे निर्देश किया है । आरणकल्पसे लेकर ऊपरके देवोंमे उत्पानके समय भी अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके सत्र पद और मनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्यपद तथा इन देवोंके विहारादिके समय मनुष्यगतिपञ्चकके शेष तीन पद सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके सत्र पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तिर्यञ्चो और मनुष्योंके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद होते हैं, इसलिए इनके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु ऐसे समयमे इनका अवक्तव्य पद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है । अत्र वहीं पाँच ज्ञानावरणादि शेष क्षपक प्रकृतियों से इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमे या तो उतरते समय या इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद मरकर देव होनेके प्रथम समय प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका भङ्ग भी क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनके शेष तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन कितना है, इसका उत्तर 'आनत कल्पके समान है' इसमे ही हो जाता है । यहाँ ऐसी तीन प्रकृतियों और शेष रहती है, जिनके विषयमे अलगसे कुछ नहीं कहा है । वे हैं—देवायु और आहारकद्विक । सो देवायुका बन्ध तो स्वस्थानमे ही होता है और आहारकद्विकका बन्ध केवल अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणवाले मनुष्य करते है, इसलिए इनके चारो पदवाले जीवोंका स्पर्शन यहाँ क्षेत्रके समान प्राप्त होता है ।

१६४. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम चारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम चारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आज्ञापात्र, पाँच संहनन, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आवेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीर आज्ञापात्रके अवक्तव्य-

१ ता०प्रती 'सहस्सारं [गो आण] दभगो' आ०प्रती 'सहस्सारभगो । ' आणदभगो' इति पाठ । २. आ०प्रती 'देवगदि० ४ छच्चो' इति पाठः ।

अवत्त० पंचचो० । दोआउ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० सव्वपदा अट्टचो० । देवाउ०
खैत्तभंगो । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणुपु०-दूभग-अणादे० तिणिण पदा अट्ट-वारह० देसु० ।
अवत्त० [अट्ट] एगा०चो० । देवगदि०४ तिणिण पदा पंचचो० देसु० । अवत्तव्व०^१
खैत्तभंगो ।

पदके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके सब पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भग और अनादेयके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—सासादनसम्यग्दृष्टियोका स्पर्शन कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण बतलाया है । यह दोनो प्रकारका स्पर्शन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन और सातावेदनीय आदिके चार पदोके बन्धक जीवोके सम्भव होनेसे उक्तप्रमाण कहा है । स्त्रीवेद आदिके तीन पदोका बन्ध देवोके विहार आदिके समय तथा नारकियो और देवोके तिर्यञ्चो और मनुष्योमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । मात्र इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहीं है । तथा तिर्यञ्चो और मनुष्योके देवोमे उत्पन्न होनेपर उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए यहाँ स्त्रीवेद आवि सब प्रकृतियोके अवक्तव्य पदवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवोके विहार आदिके समय भी दो आयु आदिके सब पद सम्भव हैं, अतः इनके चारो पदवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है । देवोके विहारआदिके समय तथा नारकियो और देवोके तिर्यञ्चो और मनुष्योमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी तिर्यञ्चगति आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद देवोमे विहारआदिके समय और देवो व नारकियोके तिर्यञ्चोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे भी सम्भव है, इसलिए इस पदवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तिर्यञ्चो और मनुष्योके देवोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी देवगति चतुष्कके तीन पदोका बन्ध सम्भव है, अतः इनके उक्त पदवाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें नहीं होता, इसलिए इसका भङ्ग क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है ।

१६५. सम्मामि० देवगदि०४ तिणिण पदा खेंत्तभंगो । सेसाणं पगदीणं सव्व-
पदा अट्टुच्चो० । असण्णी० खेंत्तभंगो । अणाहार० कम्मइहाभंगो ।

एवं फोसणं समत्त^१ ।

कालपरूवणा

१६६. कालाणु०-दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छद्रंसणा०-अट्टक०-भय-
दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० तिणिण पदा केवचिरं ?
सव्वद्धा । अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेंजसम० । थीणगि०३-मिच्छ०-अट्टक०-
ओरालि० तिणिण पदा सव्वद्धा । अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें० ।
तिणिणआउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखें० । अवट्ठि०-अवत्त०
जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें० । वेउव्वियल्ल० दोपदा सव्वद्धा । अवट्ठि०-अवत्त०
जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें० । आहारदुगुं दोपदा सव्वद्धा । अवट्ठि०-अवत्त०

१६५. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवामे देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवांका स्पर्शन
क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवाने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंज्ञी जीवामे क्षेत्रके समान भङ्ग है और अनाहारक
जीवामे कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ देवगति चतुष्कका तिर्यञ्च और मनुष्य बन्ध करते हैं, इसलिए इनके
सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध देवोंके
विहारदिके समय भी सम्भव है, इसलिए उनके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ
कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । असंज्ञियोंमे क्षेत्रके समान और अनाहारक जीवोंमे
कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है, यह स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

कालपरूपणा

१६६. काल दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण,
आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण
और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवांका कितना काल है ? सर्वदा काल है ।
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सत्यात समय है ।
स्त्यानगुह्नित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सर्वदा
काल है । तथा इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल आवलिके असत्यातवे भागप्रमाण है । तीन आयुओंके भुजगार और अल्पतरपदके
बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असत्यातवे भागप्रमाण
है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
आवलिके असत्यातवे भागप्रमाण है । वैक्रियिकपट्टके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा
है । तथा अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल आवलिके असत्यातवे भागप्रमाण है । आहारकद्विकके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल

१. ता० प्रती 'एव फोसणं समत्त' इति पाठो नास्ति । २. ता० प्रती 'आहारदुगु [गं]' इति पाठ ।

जह० एग०, उक० संखेंजसम०^१ । तित्थ० देवगदिभंगो । णवरि अवत्त० जह० एग०,
उक० संखेंजसम० । सेसाणं चत्तारि पदा सब्बद्धा ।

सर्वदा है । तथा अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । ग्रेप प्रकृतियोंके चार पदोके बन्धक जीवोका काल सर्वदा है ।

विशेषार्थ—पौंच ज्ञानावरणादिके तीन पदोका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते है, अत इनके इन पदवाले जीवोका काल सर्वदा कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद या तो उपशमश्रेणिसे उत्तरते समय होता है या उपशमश्रेणिसे इनकी बन्ध-व्युच्छित्तिके बाद मरकर देव होतंपर होता है और उपशमश्रेणिपर निरन्तर चढ़नेका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । मात्र उक्त प्रकृतियोंमे प्रत्याख्यानावरणचतुष्क भी है सो इनके अवक्तव्य-पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल संयत जीवोको नीचे लाकर प्राप्त करना चाहिए । आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोका सर्वदा काल कहा है सो कहीं तो उसका पूर्वोक्त कारण है और कहीं उसका किसी-न-किसीके निरन्तर बन्ध होना कारण है । इसलिए यह उस प्रकृतिके बन्ध स्वामीका विचार कर ले आना चाहिए । जिन प्रकृतियोंके जिन पदोका काल उससे भिन्न है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—पहले स्थानगृष्टि आदिके अवक्तव्यपदका काल एक जीवकी अपेक्षा एक समय बतला आये है । यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य करे तो एक समय तक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सासादनसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानकी राशि पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । उसमेसे कुछ जीव यदि मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोमे आते है तो एक समय तक आकर अन्तर भी पड़ सकता है । इसलिए तो इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय कहा है और यदि पूर्वोक्त जीव निरन्तर मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोको प्राप्त हांवे तो आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक होंगे । इसलिए इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । प्रत्येक आयुका बन्धकाल अन्तमुहूर्त है । तथा नरकायु, मनुष्यायु और देवायुका बन्ध एक साथ यदि अधिकसे अधिक जीव करे तो असंख्यात ही कर सकते हैं । तथा भुजगार और अल्पतर पदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात समय है और अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । यह मव देखकर यहाँ उक्त तीन आयुओके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण तथा ग्रेप दो पदोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । वैकिकिकपदके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । आहारकविकका बन्ध संख्यात जीव ही करते हैं, इसलिए इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है, यह स्पष्ट ही है । किन्तु इसका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव संख्यात ही हो सकते हैं, अत इसके उक्तपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । यहाँ शेष पदसे ये प्रकृतियाँ ली गई हैं—दो वेदनीय, सात नोक्कापय,

१६७. गिरएसु ध्रुवियाणं दोपदा सव्वद्धा० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । एवं तित्थयरं । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जस० । पढमाए तित्थं अवत्त० णत्थि । सेसाणं पगदीणं भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । तिरिक्खाउ० ओघं गिरयाउभंगो । मणुसाउं० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । एवं षोरद्दगाणं षोदव्वं ।

१६८. तिरिक्खेसु ध्रुवियाणं तिणिण पदा सव्वद्धा । सेसाणं ओघं । पंचिदिय-

तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र ।

१६७. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदवाले जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार तीर्थङ्करप्रकृतिकी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । मात्र प्रथम पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इनके अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । तिर्यञ्चायुका ओघसे नरकायुके समान भङ्ग है । मनुष्यायुके भुजगार और अल्पतर-पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मनुष्यायुको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है । तथा नारकी जीव असंख्यात हैं, इसलिए यहाँ जिन प्रकृतियोंका अवस्थितपद सम्भव है और जिन प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य दोनों पद सम्भव हैं, उनके इन पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदवाले जीव और मनुष्यायुके अवस्थित और अवक्तव्यपदवाले जीव संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते । यही कारण है कि यहाँपर इन दो प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद प्रथम नरकमें नहीं होता, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए । एक वात और है और वह तिर्यञ्चायुके सम्बन्धमें है । वात यह है कि किसी भी आयुका बन्ध आयुबन्ध के कालमें अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक नहीं होता है और नारकी जीव असंख्यात हैं, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका सर्वदा काल नहीं बन सकता । यही कारण है कि यहाँ इसका भङ्ग ओघसे नरकायुके समान जाननेकी सूचना की है । सब नारकियोंमें इसीप्रकार अपनी-अपनी प्रकृतियोंका विचारकर काल घटित कर लेना चाहिए ।

१६८. तिर्यञ्चामे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंका काल सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार

१ ता०प्रती 'ज० ए० आवलि०' इति पाठः । १. ता०प्रती 'ओघ । गिरयाउभंगो मणुसाउ०' इति पाठः ।

तिरिक्ख०३ धुवियाणं भुज०-अप्प० सव्वद्दा । अवट्ठिं० जह० एग०- उक्क० आवलिं० असंखें० । चट्ठुणं आउगाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखें० । अवट्ठिं०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलिं० असंखें० । सेसाणं भुज०-अप्प० सव्वद्दा । अवट्ठिं०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलिं० असंखें० ।

१८६. पंचिदि०तिरि०अपज्ज० धुवियाणं भुज०-अप्प० सव्वद्दा । अवट्ठिं० जह० एग०, उक्क० आवलिं० असंखें० । दो आउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो-वम० असंखें० । अवट्ठिं०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलिं० असंखें० । सेसाणं भुज०-अप्प० सव्वद्दा । अवट्ठिं०-अवत्त०-जह० एग०, उक्क० आवलिं० असंखें० । एवं

और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । चार आयुओंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपवात, निर्माण और पाँच अन्तराय । सो इनके भुजगार आदि तीनों पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है । इनके सिवा यहाँ बँधनेवाली शेष जितनी प्रकृतियाँ हैं उनकी ओघप्ररूपणा यहाँ वन जाती है, इसलिए उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक प्रत्येक असंख्यात होते हैं, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवालोंका सब काल और जिनका अवस्थित पद है या जिनका अवस्थित और अवक्तव्य पद है, उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । मात्र चार आयुओंके भुजगार और अल्पतर पदवालोंका सर्वदा काल नहीं वन सकता, क्योंकि इनका त्रिभागमे अन्तर्मुहूर्त तक ही आयुबन्ध होता है, इसलिए इनके इन दो पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१८६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । दो आयुओंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय

१. ता०प्रती 'सन्वद्धा [द्वा] तन्वद्धा० । अवट्ठिं इति पाठ । २ आ०प्रती 'एग० आवलिं०' इति पाठः । ३ ता०प्रती 'चट्ठुगाणं' इति पाठ । ४. आप्रती 'अवट्ठिं० जह०' इति पाठ ।

मन्त्रविमलिदि० पंचिन्द्रिय-तम अपञ्जतमाणं पंचकायाणं पाटम्पञ्जतमाणं च ।

२००. मणुमेमु धृतियाणं अवट्टि जह० एग०, उक० आवलि० अमंगे० । सेमपदा ओषं । वेउत्रियल० आहारदमं निव्य० आहारमरीगभंगो । मेमाणं पंचिन्द्रियतिरिक्त्-भंगो । णवग्नि दोआउ० णिग्य-मणुमाउभंगो । पञ्जत-मणुमिणोमु मन्त्रपगदीणं आहार-मरीगभंगो । चदुआउ० णिग्य-मणुमाउभंगो । मणुमअपञ्जत० धृतियाणं भुज०-अप० जह० एग०, उक० पलिउ० अमंगे०उदिभा० । अवट्टि० जह० एग०, उक० आवलि० अमंगे० । एगं मन्त्रपगदीणं । णवग्नि अरत्त० अवट्टिदभंगो । दोआउ० पंचिन्द्रियतिरिक्त्-अपञ्जतभंगो ।

हे और उच्छ्र फाल आयल्लिडे असंख्यातरे भागप्रमाण हे । इसीप्रकार मन्त्रिच्छ्रिय, पन्त्रोन्द्रिय-अरवाय, प्रनअरवाय और पांच मन्त्राधिकारि पाटम पर्यायोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पन्त्रोन्द्रिय विप्रेन्द्र अर्थात् जीव असंख्यात होते हैं, इसलिये इनमें दोनो आयुओंको जोड़कर जोप मन्त्र प्रकृतियोंके अन्तर्गत और उच्छ्रियपरवाये जीवोंका फाल मन्त्र बन जाता है । पर मन्त्र प्रकृतियोंके जोप पराये फालका विचार और आयुमेंके चारों पर्यायोंके फालका विचार से इस मन्त्रमें उच्च परवाये विप्रेन्द्री असंख्यात संख्याते रहने हुए इस मन्त्रमें यह निश्चय जानना चाहिए कि जिन पद्यों एक जीवोंके अर्थात् जन्म काल एक समय और उच्छ्र फाल अन्वयुग्म है, उनका यहाँ जन्म काल एक समय और उच्छ्र फाल पन्त्रके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है । तथा जिन पद्यों एक जीवोंके अर्थात् जन्म काल एक समय और उच्छ्र फाल मात्र-आठ समय, मात्र समय या एक समय है उनका यहाँ जन्म काल एक समय और उच्छ्र फाल आयल्लिडे असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है । यही इसी नियमको ध्यानमें रखकर एक फाल कहा है । यही अन्य जिनकी नार्ग्यायों गिनती है, उनमें यह प्रकृत्या अव्यक्त पद्यों हो जानती है, इसलिये उनमें पन्त्रोन्द्रिय विप्रेन्द्र अर्थात् जोके समान जाननेको सूचना की है ।

२००. मन्त्राणोमे ध्रुववन्धवाग्नि प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जन्म काल एक समय है और उच्छ्र फाल आयल्लिडे असंख्यातवे भागप्रमाण है । जोप पद्योंके बन्धक जीवोंका भद्र ओषके समान है । वैकियिपदक, आहारदिक और नार्ग्यद्वार प्रकृतिका भद्र ओषमें आहारकनरीके समान है । जोप प्रकृतियोंका भद्र पन्त्रोन्द्रिय तिर्यङ्गोंके समान है । इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका भद्र नार्ग्यियोंमें मनुष्यायुके समान है । मनुष्य पर्याय और मनुष्यनियमोंमें सब प्रकृतियोंका भद्र आहारकनरीके समान है । पार आयुओंका भद्र नार्ग्यियोंमें मनुष्यायुके समान है । मनुष्य अर्थात्कोंमें ध्रुववन्धवाग्नि प्रकृतियोंके भुजगाय और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जन्म काल एक समय है और उच्छ्र फाल पदके असंख्यातवे भाग-प्रमाण है । अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जन्म काल एक समय है और उच्छ्र फाल आवल्लिडे असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवच्छ्र पदका भद्र अवस्थित पदके समान है । दो आयुओंका भद्र पन्त्रोन्द्रिय तिर्यङ्ग अर्थात्कोंके समान है ।

विशेषार्थ—मनुष्य असंख्यात होते हैं । इनमें अन्य सब प्रकृतियोंके पद्योंका फाल पन्त्रोन्द्रिय तिर्यङ्गोंके समान बन जाता है । मात्र इनमें ध्रुववन्धवाग्नि प्रकृतियोंका अवच्छ्रियपद

२०१. देवेसु गिरयभंगो । एवं सव्वदेवाणं । णवरि सव्वट्ठे मणुसिभंगो । धुविगाणं अवत्तं गत्थि ।

२०२. एइंदिय-पंचकायाणं मणुसाउ० ओघभंगो । सेसाणं सव्वद्धा^१ । कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-क्रोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ओघभंगो । ओरालिय-मि०-मदि-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अवभव०-मिच्छा०-असण्णि ति तिरिक्खोघं । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंच० भुज० जह० उक्क० अंतो^३ ।

भी सम्भव है, इसलिए इनमें इनके शेष पदवालोका काल ओषके समान कहा है । तथा वैकिकिक-पट्क, आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंका भङ्ग ओषसे आहारकरारीके समान जाननेकी सूचना की है । इसी प्रकार यहाँ नरकायु और देवायुका बन्ध करनेवाले मनुष्य भी संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनका भङ्ग नारकियोंमें मनुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनो ये तो संख्यात होते ही हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओषसे आहारकरारीके समान और चार आयुओंका भङ्ग नारकियोंमें मनुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है । मनुष्य अपर्याप्त सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें इस दृष्टिको ध्यानमें रखकर भ्रुवबन्धवाली और इतर प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका काल कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२०१. देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सब देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग है । किन्तु यहाँ भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है ।

विशेषार्थ—देवों और उनके अवान्तर भेदोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है, यह स्पष्ट ही है । मात्र सर्वार्थसिद्धिके देव संख्यात होते हैं, इसलिए उनमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग वन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । किन्तु मनुष्यिनियोंमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद होता है, पर यहाँ नहीं होता, इसलिए उसका निषेध किया है ।

२०२. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भ्रम्य और आहारक जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभ्रम्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय राशि तो अनन्त है । पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें वनस्पति-कायिक भी अनन्त है । शेष चार कायवाले असंख्यात हैं, फिर भी बहुत हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पदवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए उनके सब पदवालोंका सर्वदा काल कहा है । मात्र मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले थोड़े होते हैं, इसलिए इसका भङ्ग ओषके समान जाननेकी सूचना की है । काययोगी आदि मार्गणाओंमें ओषप्ररूपणा घटित हो जानेसे उनमें उसके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र जहाँ जो थोड़ी-बहुत विशेषता हो उसे जान

१. ता०प्रती 'सव्वद्धा (द्ध)' इति पाठः । २ आ०प्रती 'जह० एग०, उक्क० अतो०' इति पाठः ।

२०३. वेउ०मि० ध्रुवियाणं भुज० जह० अंतो०, उक० पलिदोव० असंखें० ।
सेसाणं भुज० ध्रुवभंगो । णवरि जह० ए० । अवत्त० जह० एग०, उक० आवलि०
असंखें० । णवरि तित्थ० ओरा०मिस्सभंगो ।

२०४. आहारमि० ध्रुविगाणं भुज० [जह०] उक० अंतो० । एवं सव्वाणं ।
णवरि अवत्त० जह० एग०, उक० संखेंजसभ० ।

लेना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी आदि सब अनन्त संख्यावाली मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान कालप्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवमतिपञ्चकके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है ।

२०३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके भुजगारपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है । तथा अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोग यह सान्तर मार्गणा है और इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसीसे यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीवोंका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है, इसलिए कहा है कि इनके भुजगार पदवाले जीवोंका उत्कृष्ट काल पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जाता है परंतु इनका अवक्तव्यपद भी होता है, इसलिए इनके भुजगार पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है, यह स्पष्ट ही है । तथा इनका प्रमाण असंख्यात है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । औदारिक-मिश्रकाययोगी जीवोंके समान वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें भी तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव अधिकसे अधिक संख्यात ही हो सकते हैं, इसलिए इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

२०४. आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

विशेषार्थ—आहारकमिश्रकाययोगका नाना जीवोंकी अपेक्षा भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । मात्र अन्य प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद भी होता है । किन्तु लगातार भी उसे संख्यात जीव ही कर सकते हैं, इसलिए इस पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है ।

२०५. कम्मइ० धुवियाणं भुज० सव्वद्धा । मिच्छ० अवत्त० ओघं । सेसाणं भुज०-अवत्त० सव्वद्धा । णवरि देवगदिपंचग० भुज० जह० एग०, उक्क० संखेंजसमं० । एवं अणाहार० ।

२०६. अवगदवे० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेंजसम० । एवं सुहुमसं० । एसिमसंखेंजरासीं तेसिं णिरयभंगो । एसिं संखेंजरासीं तेसिं मणुसि०भंगो । सासण०-सम्मामि० मणुसअपज्जतभंगो ।

एवं कालं समत्तं

२०५. कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल ओषके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदका काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चकके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उक्तकाल संख्यात समय है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—कार्मणकाययोगी जीव अनन्त होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके भुजगार पदका काल सर्वदा बन जाता है। मात्र यहाँ मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद ऐसे हीजीवप्राप्त करते हैं जो कार्मणकाययोगके कालमें ऊपरके गुणस्थानोंसे मिथ्यात्वको प्राप्त होते हैं। यह सम्भव है कि ऐसे जीव एक समय तक हो और द्वितीयादि समयोंमें नहींहों और यह भी सम्भव है कि वे लगातार असंख्यात समय तक होते रहें, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उक्तकाल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा यहाँ देवगतिपञ्चकके बन्धक जीव एक समयसे लेकर संख्यात समय तक ही हो सकते हैं, इसलिए इनके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय और उक्तकाल संख्यात समय कहा है। अनाहारक जीवोंमें यह प्ररूपणा बन जाती है, क्योंकि यहाँ संसार दशामे अनाहारकदश और कार्मणकाययोगका सहभावी सम्बन्ध है, इसलिए उनमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन सुगम है।

२०६. अपगतवेदी जीवोंमें भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उक्तकाल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय है और उक्तकाल संख्यात समय है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्प्रायिकसंयत जीवोंमें जानना चाहिए। तथा जिन मार्गणाओंमें जीवराशि असंख्यात है, उनमें नारकियोंके समान भङ्ग है और जिन मार्गणाओंमें जीवराशि संख्यात है, उनमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मनुष्यअपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—कर्मबन्ध करनेवाले अपगतवेदी जीवोंका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय और उक्तकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१. ता० प्रती 'ए० [उक्क०] संखेंजस०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'एवं (सि) असखेंजरासीं' इति पाठः । ३. ता० प्रती 'एवं (सि) सखेंजरासिं' इति पाठः । ४. ता० प्रती 'एवं कालं समत्तं' इति पाठो नास्ति ।

अंतरपरूवणा

२०७. अंतराशुगमेण दुवि०-ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-[उप०]-णिमि०-पंचंत० तिण्णि पदा णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । थीणणि०३-मिच्छ०-अगंतापु०४ तिण्णि पदा णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०^१, उक्क० सचरादिदियाणि । एवं अपच्चक्खाण०४ । [णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० चोईसरादिदियाणि । पच्चक्खाण०४ एवं चेव ।] णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० पण्णारसरादिदियाणि । दोवेदणी०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ०-दोगदि-पंचजादि-छस्संठा०-ओरा०-अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगोद^१० सच्चपदाणं णत्थि अंतरं । तिण्णि-आउगाणं भुज०-अप्प०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० चउवीसं मुहु० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेट्ठीए असंखेँ० । वेउब्बियल्लकं आहारहुगं दोपदा णत्थि अंतरं । अवट्ठि०

तथा अपगतवेदको लगातार संख्यात समय तक संख्यात मनुष्य ही प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए यहाँ अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। सासादन और सम्यग्मिथ्यात्व ये सान्तर मार्गणाएँ हैं और इनका काल मनुष्य अपर्याप्तकोके समान है, इसलिए इनमे मनुष्य अपर्याप्तकोके समान जाननेकी सूचना की है।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तरपरूवणा

२०७. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश हो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेणशरीर, धर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षष्टथक्त्वप्रमाण है । स्त्यानशुद्धिचिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदोका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । इसी प्रकार अपत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका इसी प्रकार भ्रम है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है । दो वेदनीय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रके सब पदोका अन्तरकाल नहीं है । तीन आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस सुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगभेणिके असंत्यातवें भागप्रमाण है । वैकिकियपदक और आहारकदिकके दो पदोका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित-

१. ता०प्रती 'अवत्त० [ज०] ए०' इति पाठः । २. ता०प्रतो-दसउ-(यु०) दोगोद०' इति पाठः ।

जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखें० । अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो० । ओरालि० तिणिण पदा गत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तित्थ भुज० अप्प० गत्थि अंतरं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखें० । अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । एवं ओधमंगो कायजोगि-ओरालि०-लोभ०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्त्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । औदारिकशरीरके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्त्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीर्थंकर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्त्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । इस प्रकार ओषके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकपायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादि और स्थानगृद्धित्रिक आदिके तीन पद एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होते हैं, इसलिए इन पदोंका अन्तरकाल नहीं कहा है । तथा उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व प्रमाण है, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्त्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा उपशमसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । तदनुसार सम्यक्त्वसे श्रुत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंका अन्तरकाल भी उतना ही है, इसलिए स्थानगृद्धित्रिक आदिके अवक्त्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके भुजगार आदि तीन पदोंका अन्तरकाल न होनेका वही कारण है जो पाँच ज्ञानावरणादिके समय कह आये हैं । तथा उपशमसम्यक्त्वके साथ संघतासंयतगुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है । और उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है । तदनुसार कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक चौदह और पन्द्रह दिन-रात तक जीव क्रमसे संघतासंयतसे अचिरत अवस्थाको और चिरतसे चिरताचिरत अवस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्त्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे चौदह व पन्द्रह दिन-रात कहा है । दो वेदनीय आदिके चारो पद एकेन्द्रियादि जीव करते हैं, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है, नरक, मनुष्य और देवगतियों यदि कोई भी जीव उत्पन्न न हो तो कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक चौबीस मुहूर्ततक नहीं उत्पन्न होता । इसके अनुसार इन आयुओंके वन्धमें भी इतना अन्तर पड़ता है, इसलिए इन तीन आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवक्त्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त कहा है । मात्र इनके अवस्थितपदका अन्तर योगस्थानोंके अनुसार होता है, इसलिए इस पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । वैकिकिषट्क और आहारकद्विकके अवस्थितपदका अन्तरकाल इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा इन छह प्रकृतियोंका नाना जीव निरन्तर वन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपद किसी न किसीके होते ही रहते हैं, अतः इनके अन्तरकालका निषेध

२०८. तिरिक्खेसु धुवियाणं तिण्णि पदा णत्थि अंतरं । सेसाणं ओघं । एवं णजुंसगं-क्रोध-माण-माय०-मदि-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि त्ति ।

२०९. पेरइएसु तित्थं ओघं । णवरि अवत्तं जह० एग०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० । सेसाणं एसि असंखे०जरासी तेसि० ओघं देवगदिमंगो । एसि संखे०जरासी तेसि० ओघं आहारसरीरभंगो । एइंदिय-पंचकायाणं सच्चवाणं णत्थि अंतरं । ओरालियमि० देव-गदि०४ भुज० जह० एग०, उक्क० मासपुध० । तित्थं० भुज० जह० एग०, उक्क० वास-

किया है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । औदारिकशरीरके तीन पद एकेन्द्रियादिके भी होते हैं, इसलिये इनके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा यह परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका नाना जीवोंके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदके अन्तर-कालका निषेध किया है । इसके अवस्थितपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर वैक्रियिकपदके समान घटित कर लेना चाहिए । कोई भी नया जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक वर्षप्रत्यक्त्व तक बन्धका प्रारम्भ न करे यह सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्वप्रमाण कहा है । यहाँ काययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं, उनमें यह ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए, उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

२०८. तीर्थञ्चामे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार नर्पुसकवेदी, क्रोधकपायवाले, मानकपायवाले, मायाकपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेखावाले, अभङ्ग्य, मिश्याद्यष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियादि जीव भी तीर्थञ्च हैं, इसलिए, इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके बन्धक जीव सर्वदा पाये जानेसे उनके अन्तरकालका निषेध किया है । तीर्थञ्चोंमें अपनी बन्ध-प्रकृतियोंको ध्यानमें रखकर शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है, यह स्पष्ट ही है । यहाँ गिनाई गई नर्पुसकवेदी आदि अन्य मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा बन् जानेसे उनमें तीर्थञ्चोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

२०९. नारकियामे तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष मार्गणाओंमें जिनकी राशि असंख्यात है, उनमें ओघसे देवगतिके समान भङ्ग है और जिनकी राशि संख्यात है, उनमें ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है । एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिचतुष्कके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासप्रत्यक्त्वप्रमाण है । तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्व-

१. ता०प्रतो 'सेसाणं [सि] असखेजरासी' तेसिं आ०प्रतो 'सेसाणं असखेजरासीणं तेसिं' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एघ (सि) सखेजगमी तेमि' आ०प्रतो 'एसि सखेजगसि तेमि' इति पाठः ।

पुधत्तं० । एवं कम्मइ०-अणाहार० । एवं एदेण वीजेण याव सण्णि त्ति षोदव्वं ।

एवं अंतरं समत्तं ।

भावपरूवणा

२१०. भावाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं भुज०-
अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त०-बंधगे त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग
त्ति षोदव्वं ।

एवं भावो समत्तो^१ ।

अप्पावहुअपरूवणा

२११. अप्पावहुगाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंणा०-णवदंसणा०-
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजौ०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०
सव्वत्थोवा अवत्तव्वबंधगा । अवट्ठिदबंधगा^२ अणंतगुणो । अप्प०व्वं असंखें०गु० । भुज०

प्रमाण है । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार इस
बीजपदके अनुसार संज्ञी मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ कुछ स्फुट सूचनाएँ मात्र दी हैं । नरकमें दूसरे व तीसरेमें जो मिथ्यादृष्टि
से सन्यगृष्टि होकर पुन. तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धकाप्रारम्भ करे,ऐसा जीव कमसे कम एक समयके
अन्तरसे और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न हो सकता
है, इसलिए यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इसीप्रकार अन्य मार्गणाओंमें इस प्रकृतिके अवक्तव्यपद
का जो अन्तर कहा है, वह यहाँ उतने अन्तरकालसे होता है, ऐसा जानना चाहिए । शेष परूपणा
विचारकर लगा लेना चाहिए । यहाँ बीजरूपसे कही गई सूचनानुसार विस्तार कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ ।

भाव

२१०. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब
प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कौन-सा भाव है ?
औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्व

२११. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस-
शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवक्तव्य-
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे

१. ता०प्रती 'एवं अंतर समत्त' इति पाठो नास्ति । २. ता०प्रती 'एव भावो समत्तो' इति पाठो
नास्ति । ३. आ०प्रती 'अवत्तव्वबंधगा य । अवट्ठिदबंधगा' इति पाठः ।

बंधं विसे० । सादासाद०-सत्तणोक्त०-चदुआउ०-चदुगदि-बंधजादि-वेउव्विय०-अस्संदा-
दोअंगो०-अस्सबंध०-चदुआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउओ०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-
दोगोद० सच्चत्थोवा अवट्टि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० ।
आहारदुगं सच्चत्थोवा अवट्टि० । अवत्त० संसैंजगु० । अप्प० संसैंगु० । भुज०
विसे० । तित्थं सच्चत्थोवा अवत्त० । अवट्टि० अगं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज०
विसे० । एवं ओघमंगो कायजोगि-ओग०-लोभक०-अचकत्तु०-भवसि०-आहारग ति ।

२१२. गिरिण्णु धुविगाणं सच्चत्थोवा अवट्टि० । अप्पद० असं०गु० । भुज०
विसे० । धीणगिद्वि०३-मिच्छ०-अणताणु०४-निन्थं सच्चत्थोवा अवत्त० । अवट्टि०
असंखैं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेमाणं ओघं साद०भंगो । मणुसाउ०
ओघं आहारसरीरभंगो । एवं सच्चणिरयाणं । णवरि सत्तमाए दोगदि-दोआणु०-
दोगोद० धीणगिद्विभंगो ।

२१३. तिरिक्खेसु धुविगाणं गिरयभंगो । सेसाणं ओघमंगो । सच्चपंचिदि०-
तिरि० गिरयभंगो । णवरि मणुमाउ० ओघं आहारसरीरभंगो ।

अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । मातावेदनीय, असातावेदनीय, सान नोकपाय, चार आयु, चार गति, पांच जाति, वैक्रियक-शरीर, छह मंस्थान, दो आद्गोपाद्ग, द्रह संहनन, चार आनुपूर्वी, परपात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दम युगल और दो गोत्रके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आहारकद्विके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातरगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातरगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, आहारिककाययोगी, लोभकपायवाले, अचलुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२१२. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । स्थानगृद्धिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुग्रहों चतुष्क और तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक असंख्यातरगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघसे सातावेदनीयके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी और दो गोत्रका भङ्ग स्थानगृद्धिके समान है ।

२१३. तिर्यञ्चामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका

२१४. मणुसेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओघं । णवरि संखेंजरासीणं आहारसरीरभंगो । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि संखेंजगुणं कादव्वं । सव्वअपज्जत्त-सव्वदेवाणं सव्वएइंदिय-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं च णिरयभंगो । णवरि सव्वहे संखेंजं कादव्वं ।

२१५. पंचिदि०-त्तस०२ पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । आहारदुगं ओघं ।

२१६. पंचमण०-तिणिवचि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-

भङ्ग ओघके समान है । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है ।

२१४. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें जिन प्रकृतियोंका संख्यात जीव बन्ध करते हैं, उनका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणा करना चाहिए । सब अपर्याप्त, सब देव, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है—सर्वार्थसिद्धिमें संख्यात करना चाहिए ।

२१५. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, वीर्यङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है ।

२१६. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर,

१ ता०प्रती 'ओघं' । मणुसेसु पंचणा०' आ०प्रती 'ओघं आहारसरीरमगो । पंचणा०' इति पाठ ।

२. आ०प्रती 'भयदु० तेजा०' इति पाठ ।

देवग०-ओरालि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-ओरालि०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-अगु०४-
वादर०-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंगु० ।
अप्प० असंगु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओषभंगो । ओरालियमि० णिरयभंगो । णवरि
मिच्छ० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० अणंतगु० । अप्प० असंगु० । भुज० विसे० ।
वेउव्वियका० देवभंगो । वेउव्वियमि० धुवियाणं एगपदं० । परियत्तमाणिगाणं सव्व-
त्थोवा अवत्त० । भुज० असंगु० । आहारकायजो० सव्वट्ठ०भंगो । आहारमिस्से परि-
यत्तमाणिगाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज० संखेंज्जगु० । कम्मह० सव्वत्थोवा मिच्छ०
अवत्त० । भुज० अणंतगु० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज० असंगु० ।

२१७. इत्थिवेदेसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।
अप्प० असंगु० । भुज० विसे० । पंचदंस०-मिच्छ०-वारसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-
क०-वण्ण०४-णिमि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंगु० । अप्प० असंगु० । भुज०
विसे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० असंगु० । अप्प० असंगु० । भुज०

कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्लु-
चतुष्क, वादर, पर्याप्त प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक
जीव सबसे स्तोके हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक
हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नारकियों
के समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव
सबसे स्तोके हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अल्पतर
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।
वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली
प्रकृतियोंका एक भुजगारपद है । परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे
स्तोके हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारककाययोगी जीवोंमें
सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । कार्मण-
काययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । उनसे भुजगारपदके
बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । उनसे
भुजगार पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

२१७. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानव्रण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच
अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । उनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । पाँच दर्शनावरण,
मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क
और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके
बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोके हैं ।

विसे० । आहारदुर्गं तित्थ० मणुसि०भंगो । एवं पुरिस० । णवरि तित्थ० ओषभंगो । णवुंसगेसु ध्रुविगाणं अट्टारसपगदीगं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्पद० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओषं ।

२१८. एवं कोषे० अट्टारस० माणे सत्तारस० मायाए सोलस० । अवगद्वे० सव्वपगदीगं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० संखेज्जगु० । अप्प० संखेज्जगु० । भुज० विसे० ।

२१९. मदि-सुद० ध्रुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० असंखेज्जगुं० । भुज० विसे० । सेसाणं ओषं । एवं असंजद-तिण्णिले०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि त्ति । विभगे ध्रुविगाणं मदि०भंगो । सेसाणं मणजोगिभंगो

२२०. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-दोगदि०-[पंचिदि०-] चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० ।

उनसे अवकल्पपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यनियोके समान है । इसी प्रकार पुद्गलवेदी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली अठारह प्रकृतियोंके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है ।

२१८ इसी प्रकार श्लोथकपायमें अठारह प्रकृतियोंके, मानकपायमें सत्रह प्रकृतियोंके और मायाकपायमें सोलह प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें सत्र प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवकल्पपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।

२१९. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार असंयत, तान छेद्यावाले, अभन्ध, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियों का भङ्ग ननोयोगी जीवोंके समान है ।

२२०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, सम-चतुरन्नसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, चरुर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु-चतुष्क प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवकल्पपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव

१. आ०प्रतौ 'अवत्त० अवट्ठि० असंखेज्जगु०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'सेसाण मोह० । एव अचंइदा' आ०प्रतौ 'सिंसाण मोह० । एवं स्वदा' इति पाठः ।

अवट्टि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सादासाद०-चटुणोक्क०-
दोआउ०-थिरादितिणियुग० आहारदुगं ओघभंगो । एवं ओधिदंस०-सम्मा०-खइग०-
वेदग०-उवसम० । णवरि मणुसाउ० णिरयभंगो । खइगे दोआउ० मणुसि०भंगो ।
मणपज्जवे आमिणि०भंगो । णवरि संखेँज्जं कादच्चं । एवं संजद०-सामाह०-छेदो०-
परिहार०-सुहुमसं० । संजदासंजदा० ओधि०भंगो । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।

२२१. तेउए पंचणा०-द्धदंसणा०-चटुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-
वाद्दर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवट्टि० । अप्प० असं०गु० । भुज०
विसे० । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-वारसक०-देवगदि०४-ओरालि०-तित्थ० सव्वत्थोवा
अवत्त० । अवट्टि० असं०गु० । अप्प० असं०गु । भुज० विसे० । सेसाणं सव्वत्थोवा
अवट्टि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु । भुज० विसे० । एवं पम्माए वि ।
णवरि देवगदि०४-ओरा०-ओरा०अंगो०-तित्थ० अट्टक०भंगो ।

असंख्यातरुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे है । उनसे भुजगारपदके
बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, ने आयु,
स्थिर आदि तीन युगल और आहारकट्टिकका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार
अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञाथिकसम्यग्दृष्टि वेदगसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग नारकियोंके समान है । तथा ज्ञाथिक
सम्पत्त्वमें दो आयुओंका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिक-
ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार संयत,
सामाथिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्पराथसंयत जीवोंमें
जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । चक्षुदर्शनी जीवोंमें
त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

२२१. पीतलेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संवलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-
शरीर, कामंशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वाद्दर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच
अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यात
रुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । त्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, चारह
कपाय, देवगतिचतुष्क, औदारिकशरीर और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे
स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव
असंख्यातरुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके अवस्थित
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे हैं । उनसे
अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक
है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भी जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्क,
औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आज्ञोपाज्ञ और तीर्थङ्कर प्रकृतिका आठ कपायोंके समान
भङ्ग है ।

१. आ०प्रती चटुसंज० तेजाक०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'अनत्० अत्त०गु० भुज० विसे०'

इति पाठः ।

२२२. सुक्काए पंचणाणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसकसा०-भय-दु०-दोगदि-
चदुसरर-दोअंगो०-वण्ण०-४-दोआणु०-अगु०-४-त्तस०-४-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सच्चत्थोवा
अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज्ज० विसे० । सेसाणं सादादीणं
एवं चैव । णवरि सच्चत्थोवा अवट्ठि० ।

२२३. सासणे धुवियाणं णिरयमंगो । देवगदि०-४-दोसरर० तेउ०भंगो । सेसाणं
ओधं । सम्मामि० धुविगाणं सासण०भंगो । सादादीणं ओधं । सण्णी० मणजोमिभंगो ।
अणाहार० कम्मइगमंगो ।

एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

एवं भुजगारबंधो समत्तो ।

पदणिक्खेवो समुक्कित्तणा

२२४. एत्तो पदणिक्खेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि णादब्बाणि
भवन्ति । तं जहा—समुक्कित्तणा सामित्तं अप्पावहुगे त्ति । समुक्कित्तणाए दुवि०—
जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सच्चपगदीणं
अत्थि उक्कस्सिया वड्ढी उक्कस्सिया हाणी उक्कस्सयमवट्ठाणं । एवं याव अणा-

२२२. शुक्ललेख्यामं पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय,
जुरगुप्सा, दो गति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क,
त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोत्र हैं ।
उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यात-
गुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष सातावेदनीय आदिका भङ्ग
इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे
स्तोत्र हैं ।

२२३. सासादनसम्यक्त्वमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।
देवगतिचतुष्क और दो शरीरोंका भङ्ग पीतलेख्याके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके
समान है । सम्यग्मिथ्यात्वमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सासादनसम्यक्त्वके समान है ।
सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान
भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ ।

पदनिक्षेप समुत्कीर्तना

२२४. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण है । वहाँ ये तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा—
समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व । समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट ।
उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट
वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

१ ता०प्रती 'उ०' । [उ०] पगट्' इति पाठ । २ ता०प्रती 'उक्कस्सिया (य) मवट्ठाण' इति पाठः ।

हारग त्ति षोदन्वं । णवरि वेउन्वि०मि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० सच्चपगदीणं अत्थि उक्क० चड्डी । ओरालि०मि० देवगदिपंचग० अत्थि उक्क० चड्डी ।

२२५ जह० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सच्चपगदीणं अत्थि जहण्णिगा चड्डी जहण्णिगा हाणी जह० अवट्ठाणं । एवं याव अणाहारमं त्ति षोदन्वं । णवरि वेउन्विमिस्स०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० सच्चपगदीणं अत्थि जह० चड्डी । ओरालियमि० देवगदिपंच० अत्थि जह० चड्डी ।

एवं समुक्कित्तणा समत्ता ।

सामित्तं

२२६. सामित्तं दुविधं—जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत० उक्कस्सिया चड्डी कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो तप्पाओंगजहण्णादादो जोगट्ठाणादादो उक्कस्सयं जोगट्ठाणं गदो तदो छ्विधबंधगो जादो तस्स उक्क० चड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? जो छ्विधबंधगो उक्कस्स-जोगी मदो देवो जादो तप्पाओंगजहण्णाए जोगट्ठाणे पदिदो तस्स उक्क० हाणी ।

इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति-पञ्चककी उत्कृष्ट वृद्धि है ।

२२५. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि है । औदारिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी जघन्य वृद्धि है ।

विशेषार्थ—यहाँ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी आदि चार कार्मणआंसे उत्तरोत्तर योगकी वृद्धि होनेसे मात्र वृद्धि सम्भव है । तथा यही बात औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति-पञ्चकके विषयमें जानना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

इसप्रकार समुक्कीर्तना समाप्त हुई ।

स्वामित्व

२२६. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यश कीर्ति, उच्चगौर और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो अनन्तर छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो उत्कृष्ट योगवाला जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

१ ता०प्रती 'एव अणाहारग' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एव समुक्कित्तणा समत्ता ।' इति पाठो नास्ति । ३. ता०प्रती 'कस्स ? सत्तविधबंधगो' इति पाठः । ४. ता०प्रती '—जहण्णा (ए) जोगट्ठाणे' इति पाठः ।

उक्क० अवट्टाणं कस्स ? जो छव्विधबंधगो उक्कस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओँग-
जहण्णगे पडिदो तदो सच्चविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्टाणं । उक्कस्सादो जो
जोगट्टाणादो पडिभग्गो यम्मि^१ जोगट्टाणे पडिदो तं जोगट्टाणं थोवं । जहण्णगादो जोग-
ट्टाणादो यम्मि उक्कसगं जोगट्टाणं गच्छदि तं जोगट्टाणमसंल्लेज्जगुणं । एवं उक्कस्सगस्स
अवट्टाणगस्स साधणं । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-असाद०-णवुंस०-णीचा० उक्क०
वड्डी कस्स० ? जो अट्टविधबंधगो तप्पाओँगजहण्णगो, तप्पाओँगजहण्णगादो जोग-
ट्टाणादो उक्कस्सजोगट्टाणं गदो सच्चविध० जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी
कस्स ? जो सच्चविधबंधगो उक्कस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपजत्तगेसु उववण्णो
तप्पाओँगजहण्णगे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? जो सच्चविध-
बंधगो उक्कस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओँगजह० जोगट्टाणे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो
तस्स उक्क० अवट्टाणं । णिहा-पयला-पच्चक्खाण०४-हस्सरदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं० उक्क०
वड्डी कस्स० ? जो सम्मा० अट्टविधबंधगो तप्पाओँगजहण्णगादो जोगट्टाणादो उक्कस्सं
जोगट्टाणं गदो सच्चविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो
सम्मा० सच्चविधबंधगो उक्कस्सजोगी मदो देवो जादो तप्पाओँगजहण्णजोगट्टाणे

उक्कष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो उक्कष्ट योगवाला
जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित हुआ और उसके बाद सात प्रकारके
कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उक्कष्ट अवस्थानका स्वामी है । उक्कष्ट योगस्थानसे प्रतिभग्न
होकर जिस योगस्थानमे पतित हुआ वह योगस्थान स्तोका है, जघन्य योगस्थानसे जिस
उक्कष्ट योगस्थानमे जाता है वह योगस्थान असंख्यातगुणा है । इस प्रकार यह उक्कष्ट अवस्थानका
साधनपद है । स्थानगुद्धिन्निक, भिष्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असातावेदनीय, नपुंसकवेद
और नीचगोत्रकी उक्कष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो
जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करने लगा वह उक्कष्ट वृद्धिका स्वामी है । उक्कष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करनेवाला उक्कष्ट योगवाला जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकार्मे उत्पन्न होकर
तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उक्कष्ट हानिका स्वामी है । उक्कष्ट अवस्थानका
स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो उक्कष्ट योगवाला जीव प्रतिभग्न
हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा
वह उक्कष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, हास्य, रति, अरति,
शोक, भय और जुगुप्साकी उक्कष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कष्ट योगस्थानको प्राप्त हो
सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उक्कष्ट वृद्धिका स्वामी है । उक्कष्ट हानिका स्वामी कौन
है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उक्कष्ट योगसे युक्त जो सम्यग्दृष्टि जीव मरा और
देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित हुआ वह उक्कष्ट हानिका स्वामी है । उक्कष्ट

१. ता०प्रती 'पडिभग्गो (ग्गो) यम्मि' इति पाठ । २. आ०प्रती 'जोगट्टाणे पडिदो त जोगट्टाणम-
संल्लेज्जगुणं' इति पाठ. ।

पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओंग्गजह०जोगट्ठाणे पडिदो अट्ठविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्ठाणं । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि संजदासंजदादो कादब्बं । कोधसंजलणाए उक्क० वड्डी कस्स० ? जो मोहणीयपंचविधबंधगो तप्पाओंग्गजहण्णजोगट्ठाणादो उक्कस्सयं जोगट्ठाणं गदो तदो मोहणीयस्स चट्ठविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो मोहणीयस्स चट्ठविधबंधगो मदो देवो जादो तप्पाओंग्गजहण्णजोगट्ठाणे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? मोहणीयस्स चट्ठविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंग्गजह०जोगट्ठाणे पडिदो मोहणीयस्स पंचविधबंधगो जादो तस्स उक्कस्सयं अवट्ठाणं । माणसं०-मायासं०-लोभसं० उक्क० वड्डी कस्स० ? मोहणीयस्स चट्ठविधबंधगो तिविधबंधगो दुविधबंधगो तप्पाओंग्गजह० जोगट्ठाणादो उक्क० जोगट्ठाणं गदो तदो मोहणीयस्स तिविध० दुविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो मोहणीयस्स तिविध० दुविध० एयविधबंधगो मदो देवो जादो तप्पा-ओंग्गजह०जोगट्ठाणे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स ? यो मोहणीय० तिविध० दुविध० एकविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंग्ग-

अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगमे पतित हुआ और अनन्तर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि आदिका स्वामी कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संयतासंयतका अवलम्बन लेकर कहना चाहिए । क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित हुआ वह संज्वलन क्रोधकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरकर मोहनीयकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर मोहनीयके तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके तीन प्रकारके, दो प्रकारके और एक प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयके तीन प्रकारके, दो प्रकारके और एक प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला तथा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो

जह०जोग० पडिदो तदो मोहणी० चदुविध० तिविध० दुविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्टाणं । पुरिस० उक्क० वड्डी कस्स० ? जो मोहणीयस्स णवविधबंधगो तप्पाओंगजहणगादो जोगट्टाणादो उक्कस्सगं जोगट्टाणं गदो तदो मोहणीयस्स पंचविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो मोहणी० पंचविधबंध० उक्क०जोगी मदो देवो जादो तप्पाओंगजह०जोग० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स ? जो मोहणी० पंचविधबंध० उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंगजह०जोगट्टाणे पडिदो मोहणी० णवविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्टाणं । इत्थिवे० उक्क० वड्डी कस्स० ? जो अट्टविधबंधगो तप्पाओंगजहणगादो जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी मदो असण्णिपंचिंदिएसु उववण्णो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंगजह० पडिदो अट्टविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्टाणं ।

२२७. अण्णदरे आउगे बंधमाणो पुरदो अंतोमुहुत्तमग्गदो^१ अंतोमुहुत्तं याव

जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित होकर अनन्तर मोहनीयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके नौ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर मोहनीयके नौ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । खोवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर असंजी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

२२७. अन्यतर आयुका बन्ध करनेवाला जीव आगेका जो अन्तर्मुहूर्त है उस अन्तर्मुहूर्त कालके समाप्त होने तक आयुकर्मका बन्ध करता है । इस प्रकार इस कालमें यदि सम्यग्दृष्टि है तो

१. ता०प्रतौ 'जोगट्टाणं पडिदो' इति पाठ । २. ता०प्रतौ 'अतोमुहुत्तं मं (?) गदो' इति पाठ ।

आउगं बंधदि । एवं एदं कालं सम्मादिद्वी सम्मादिद्वी चैव, मिच्छादिद्वी मिच्छादिद्वी चैव, यदि सासणो सासणो चैव, यदि असंजदो असंजदो चैव, यदि संजदासंजदो संजदासंजदो चैव, यदि संजदो संजदो चैव । एदं कारणं अट्टस्स हेदू कित्तिदं । एदं कारणं दंसणावरणस्स च पंचण्णं पगदीणं मिच्छत्त-चारसकं एदेसिं कम्माणं यथोप-दिट्ठाणं उक्कस्सपदणिकखेवसामित्तसाधणत्थं यो संसयो तं संसयं णिस्संसयं काहिदि ति एदं कारणं हेदू कित्तिदं । चतुण्णं आउगाणं उक्कं वड्डी कस्सं ? यो अट्टविधबंधगो तप्पाओंगजहण्णजोगट्ठाणादो उक्कस्सयं जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? यो अट्टविधबंधगो उक्कंजोगी पडिभग्गो तप्पाओंगजहण्णं जोगट्ठाणे पडिदो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवट्ठाणं । एवं आउगस्स सव्वत्थ याव अणाहारग चि णेदव्वं ।

२२८. णिरयगदि-देवगदि-वेउव्वि-वेउ-अंगो-दोआणु उक्कं वड्डी कस्सं ? यो अट्टविधबंधगो तप्पाओंगजहण्णजोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सगादो जोगट्ठाणादो तप्पाओंगजहण्णजोगट्ठाणे पडिदो अट्टविधबंधगो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवट्ठाणं ।

सम्यग्दृष्टि ही रहता है, मिथ्यादृष्टि है तो मिथ्याहृष्टि ही रहता है, यदि सासादनसम्यग्दृष्टि है तो सासादनसम्यग्दृष्टि ही रहता है, यदि असंयतसम्यग्दृष्टि है तो असंयतसम्यग्दृष्टि ही रहता है, यदि संयतासंयत है तो संयतासंयत ही रहता है और यदि संयत है तो संयत ही रहता है । इस कारण विवक्षित विषयका हेतु कहा है । तथा इसी कारण यथोपदिष्ट दर्शनावरणकी पाँच प्रकृतियों, मिथ्यात्व और वारह कषाय इन कर्मोंके उत्कृष्ट पदनिक्षेप सम्बन्धी स्वामित्वको सिद्ध करनेके लिए जो संशय है उस संशयको निःसंशय कर देता है । इस कारण हेतु कहा है । चार आयुओंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ है, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वह अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । आयुर्कर्मका सर्वत्र अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार स्वामित्व जानना चाहिए ।

२२९. नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और दो आयुपूर्वकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योग-

१. ताप्रती 'मिच्छादिद्वी चैव यदि असंजदो असंजदो चैव यदि संजदासंजदा संजदासंजदा चैव' इति पाठः । २. ता०प्रती 'च प (प) ञ्ण' इति पाठः । ३. आ०-प्रती 'तप्पाओंगजहण्णजोगट्ठाणं' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'उक्कस्सगादो पडिदो तप्पाओंगजहण्ण [जो] गट्ठाणे' आ०प्रती 'उक्कस्सगादो जोग-ट्ठाणादो पडिदो तप्पाओंगजहण्णजोगट्ठाणे' इति पाठः ।

२२६. तिरिक्खगदिणामाए उक्कं वड्डी कस्सं ? यो अट्टविधं तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्ठाणादो उक्कस्सयं जोगट्ठाणं गदो तदो तेवीसदिणामाए सह सत्तविध-
बंधगो जादो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी
मदो सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तगेषु उववण्णो तप्पाओग्गजहं पडिदो तीसदिणामाए
बंधगो जादो तस्स उक्कं हाणी । उक्कं अवट्ठाणं कस्सं ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्स-
जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्ठाणे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो । ताथे ताओ
चेव तेवीसदिणामाए बंधदि णो तीसं । केण^१ कारणेण ? आउगबंधस्स अभासे जाओ
चेव णामाओ ताओ चेव बंधदि^२ याव आउगबंधगद्धा पुण्णो ति । अण्णं च^३ पुण पुरदो
अंतोसुहुत्तमग्गदो अंतोसुहुत्तं णीचा । एदेण कारणेण तेवीसदिणामाओ बंधमाणगस्स
उक्कस्सयं अवट्ठाणं गो तीसा । एवं ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-
अगु०-उप०-अथिर-असुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि० तिरिक्खगदिभंगो कादव्वो ।

२३०. मणुसगं उक्कं वड्डी कस्सं ? यो अट्टविधबंधगो जहण्णगादो जोग-

स्थानको प्राप्त हुआ और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

२२६. तिर्यञ्चगति नामकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने-
वाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर तथा तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त कर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, तीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता; क्योंकि आयुर्कर्मका बन्ध प्रारम्भ होते समय नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका बन्ध करता है, आयु-
बन्धके कालके पूर्ण होने तक उन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता रहता है । और भी अन्तर्मुहूर्त पूर्वसे अन्तर्मुहूर्त आगे तक उन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता है । इस कारणसे नामकर्मकी तेईस प्रकृ-
तियोंका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है; तीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला नहीं । इसीप्रकार औदारिकशरीर, वैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, अगुरुधु, उपघात, अस्थिर, अशुभ, दुर्मग, अनादेय, अयश.कीर्ति और निर्माणका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान कहना चाहिए ।

२३०. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट प्रदेशवृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी पचीस

१. ता०प्रती 'णो ति संकेण' इति पाठः । २. आ०प्रती 'जाओ चेव बंधदि' इति पाठः ।

३. ता०प्रती 'पुणो ति अण्ण च' इति पाठः ।

द्वानादो उक्तस्सयं जोगद्वानं गदो पणवीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधबंध० उक्क०जोगी मदो मणुसअपज्जत्तएसु उववण्णो तप्पाओंगजह० पडिदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवद्वानं कस्स० ? यो सत्तविधबंध० उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंगजह० जोगद्वाने पडिदो अट्टविधबंधगो जादो । ताघे ताओ चेव पणवीसदिणामाए बंधदि णो एगुणतीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं यं तिरिक्खगदिणामाए भणिदं । एदेण कारणेण पणवीसदिणामाए बंधमाणगस्स उक्क० अवद्वानं णो एगुणतीसं ।

२३१. एहंदिअ-थावर० तिरिक्खगदिभंगो । णवरि' हाणी मदो छ्वीसदिणामाए । बीहंदि०-तीहंदि०-चदुरिंदि०-पंचिदि०- [तस०] उक्क० वड्डी कस्स० ? मणुसगदिभंगो । णवरि उक्क० हाणी कस्स० ? वेहंदि०-तेहंदि०-चदुरिंदि०-पंचिदि०एसु उववण्णो तीसदिणामाए बंधगो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवद्वानं कस्स० ? यो सत्तविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंग० पडिदो अट्टविधबंधगो जादो ।

प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उसको उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगको प्राप्त हुआ और नामकर्मकी अनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उसको उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस समय वह जीव नामकर्मको उन्हीं पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है; अनतीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता । कारण क्या है ? वही कारण है जो तिर्यञ्चगतिनामके सम्बन्धमें कह आये हैं । इस कारणसे नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है; अनतीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला नहीं ।

२३१. एकेन्द्रियजाति, और स्थावर प्रकृतिका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि जो मरनेके बाद नामकर्मकी छव्वोस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, वह उनको उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, पञ्चन्द्रियजाति और त्रसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? इनका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उनको उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वह उस समय नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका

तावेव' पणवीसदिणामाओ बंधदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव । एदं कारणं पण-
वीसदिणामाओ बंधमाणगस्स उक्कं अवट्ठाणं णो तीसं ।

२३२. आहारदुगं उक्कं वड्डी कस्सं ? यो अट्ठविधबंधगो । तप्पाओंगजहं
जोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं गदो तीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स
उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्स ? यो सत्तविधबंधं उक्कंजोगी पडिभग्गो तप्पाओंग-
जहं पडिदो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवट्ठाणं ।

२३३. समचहुं-पसत्थं-सुभग-सुस्सर-आदेँ उक्कं वड्डी कस्सं ? यो अट्ठ-
विधबंधगो तप्पाओंगं उक्कं जोगट्ठाणं गदो अट्ठवीसदिणामाए सह सत्तविध-
बंधगो जादो तस्स [उक्कं] वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? यो सत्तविधबंधं उक्कं
जोगी मदो देवो जादो तप्पाजहं पडिदो तीसदिणामाए सह बंधगो जादो
तस्स उक्कं हाणी । उक्कं अवट्ठाणं कस्सं ? यो सत्तविधं उक्कं जोगी पडिभग्गो
तप्पाओंगजहण्णगे पडिदो अट्ठविधबंधगो जादो । ताधे ताओ चेव अट्ठवीसदिणामाए

बन्ध करता है; तीस प्रकृतियोंका नहीं । कारण क्या है ? कारण वही पूर्वोक्त है । इस कारण
नामकर्मकी पक्षीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है; तीस
प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव नहीं ।

२३२. आहारकट्टिककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी
तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी उत्कृष्ट
हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

२३३. समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी उत्कृष्ट
वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योग
स्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा
वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव हुआ । तथा तत्प्रायोग्य जघन्य
योगको प्राप्तकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगको प्राप्त
हुआ और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।
उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं अट्ठाईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है; तीसका नहीं । कारण

१. तांप्रतौ 'तावे व' इति पाठ । २. आंप्रतौ, 'पणुवीसदिणामाए' इति पाठः । ३. तांप्रतौ
'अप्पाओ जहं' इति पाठः । ४. तांप्रतौ 'हाणीं उं (?) कस्स' इति पाठ । ५. तांप्रतौ 'तीसदि-
णामाए बंधगो' जादो तस्से उक्कं' इति पाठः । ६. तांआंप्रत्यो. 'अवट्ठिद्वधगं' इति पाठ ।

बंधदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं । एदेण कारणेण अट्टवीसदिणामाओ बंधमाणं उक्कं अवट्ठाणं णो तीसं बंधदि ।

२३४. चदुसंठा०-पंचसंधं उक्कं वट्ठी कस्सं ? यो अट्टविधबंधगो तप्पा-ओंग्गजहं जोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध-बंधगो जादो तस्स उक्कं वट्ठी । उक्कं हाणी कस्सं ? यो सत्तविधबंधं उक्कं जोगी मदो असण्णिपंचिदियपज्जत्तएसु उववण्णो तप्पाओंग्गजहं पडिदो तीसदि-णामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्कं हाणी । उक्कं अवट्ठाणं कस्सं ? यो सत्तविधबंधगो उक्कं जोगी पडिभग्गो तप्पाओंग्गजहण्णे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो । ताथे ताओ चेव एगुणतीसदिणामाओ बंधदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं ।

२३५. ओरालियअंगो०-असंपत्तसे० उक्कं वट्ठी अवट्ठाणं च पंचिदियबंधो । उक्कं हाणी वेइंदियअपज्जत्तगेषु उववण्णो तप्पा०जहं जोगट्ठाणे पडिदो तीसदि-णामाए बंधगो जादो तस्स उक्कं हाणी । पर०-उस्सा०-पज्जत्त-थिर-मुभं उक्कं

क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है । इस कारण नामकर्मको अट्टाईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है; तीसका बन्ध करनेवाला नहीं ।

२३४. चार संस्थान और पाँच संहननकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी अनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मर कर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोमे उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं अनतीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है; तीसका बन्ध नहीं करता । कारण क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है ।

२३५. औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोमे उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । परधात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, और शुभकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । उत्कृष्ट हानिका

१. आ०प्रती 'उक्कं असादं णो' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'जहं जोगं गदो उक्कं' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'सत्तविधबंधो (घगो) जादो' इति पाठः । ४. ता०प्रती '-णा [मा] ओ' इति पाठः । ५. ता०आ०प्रत्योः 'जहं जोगी पडिदो' इति पाठः ।

वड्डी अवट्टाणं च पंचिदियभंगो । उक्क० हाणी [कस्स०] ? मदो सुहुमेइंदियपत्तंगेसु उववण्णो तप्पा०जह० जोगट्टाणे तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी ।

२३६. आदाव० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविध० तप्पाओंगजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो छव्वीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? यो सत्तविधबंध० उक्क० जोगी मदो वादरेइंदियपत्तएसु उववण्णो जहण्णजोगट्टाणे पडिदो छव्वीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्क० जोगी पडिभग्गो अट्टविधबंधगो जादो । ताधे चैव छव्वीसदिणामाए बंधदि । उज्जोव० उक्क० वड्डी आदावभंगो । उक्क० हाणी० [कस्स] ? मदो वादरएसु उववण्णो तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? यो सत्तविध० उक्क० जोगी पडिभग्गो अट्टविधबंधगो जादो । ताधे वि नाओ चैव छव्वीसदिणामाओ बंधदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चैव कारणं । एदेण कारणेण छव्वीसदिणामाओ बंधभागस्स उक्क० अवट्टाणं णो तीसदि० बंध० ।

स्वामी कौन है ? जो मरकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकामे उत्पन्न हुआ और तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

२३६. आतपकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकामे उत्पन्न होकर जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ तथा नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह आतपके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वह उस समय नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है । उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी आतपके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा और वादरोमे उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उद्योतकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वह उस समय भी नामकर्मकी उन्हीं छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है ; तीसका नहीं । कारण क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है । इस कारणसे नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उद्योतके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ; तीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव नहीं ।

१. ता०प्रतौ 'हाणी [कस्स ?] मदो' इति पाठ । २. आ०प्रतौ 'शो अवट्टि० तप्पाओंगजह०-जोगट्टाणादो' इति पाठः ।

२३७. अपसत्थ०-दुस्सर० उक्क० वड्डी देवगदिभंगो । उक्क० हाणी कस्स० ? मदो घेरइएसु उववण्णो तीसदिणामाए वंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं समचदु०भंगो । सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क० वड्डी तिरिक्खगदिभंगो । हाणी तं चेव पणवीसदिणामाए वंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स ? यो सत्तविधवंधगो एवँ याव अट्ठविधवंध० जादो ताधे वि ताओ चेव तेवीसदिणामाए वंधदि णो पणवीसं तरस उक्क० अवट्ठाणं । वादरणामाए उक्क० वड्डी अवट्ठाणं तिरिक्खगदिभंगो । हाणी० ? मदो वादरएइंदियअपज्जत्तएसु उववण्णो तीसदिणामाए वंध० जादो तस्स उक्क० हाणी । पत्तेयसरीरं तिरिक्खगदिभंगो । णवरि णियोद वज्ज पत्तेयसरीरसुहुमेसु उववण्णो । तिस्थ० उक्क० वड्डी अवट्ठाणं णग्गोदभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? जो सत्तविधवंध० उक्क० जोगी मदो देव-घेरइएसु उववण्णो तप्पाओंग्ग-जह० पडिदो तीसदिणामाए वंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । एदेण वीजेण घेरइय-देवेसु सव्वपगदीणं उक्क० वड्डी अवट्ठाणं हाणीओ च ओधं देवगदिभंगो । एवं सव्वणिरय-देवाणं ।

२३८. तिरिक्खेसु पंचणा०-दोवेदणी०-दोगोद०-पंचंत० वड्डी-हाणि-अवट्ठाणाणि

२३७. अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी देवगतिके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा और नारकियोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनके उत्कृष्ट अवस्थानका भङ्ग समचतुरस्तरस्थानके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी तिर्यञ्चगतिके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? वही जीव जब नामकर्मकी पचीस प्रकृतियोंका बन्धक हुआ तब उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला इसी प्रकार आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला हुआ वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वह तब भी नामकर्मकी उन्हीं तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है; पचीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता । वादरनामकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा और वादर एकैन्द्रिय अपर्याप्तकोमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । प्रत्येकशरीरका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि निगोदको छोड़कर जो प्रत्येकशरीरसूक्ष्मोंमें उत्पन्न हुआ, ऐसा कहना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी वृद्धि और अवस्थानका स्वामी न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर देव नारकियोंमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोभ्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा, वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इस बीजपदके अनुसार नारकी और देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानके स्वामीका भङ्ग ओचसे देवगतिके समान है । इसी प्रकार सब नारकी और देवोंमें जानना चाहिए ।

२३८. तिर्यञ्चामे पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट

१. ता०प्रती 'सत्तविधवंध० । एव' इति पाठः । २. ता०आप्रत्योः 'तेतीसदिणामाए' इति पाठः ।

ओवं थीणगिद्धिमंगो^१ । चटुआउ०-वेउच्चियच्छक-मणुस०-मणुसाणु०- उच्चा० तिणिण वि सत्थाणे कादव्वं । ओषेण अट्ठावीसाए सह उक्कस्सं तेसिं कम्मार्णं सत्थाणे कादव्वं । तिणिण वि एत्तिं सम्मादिट्ठीं सामिच्चं तेसिं सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं ओवं ।

२३६. पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणाणावरणदंडओ थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-असाद०-णत्तुंल०-गीचा० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्ठविधवंधगो तप्पाओंगजहण्णगादो जोगट्ठाणादो उक्कस्सगं जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी मदो असण्णिपंचिदियअपजत्तगेसु उववण्णो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स ? यो सत्तविध० उक्कस्सजोगी पडिभगो अट्ठविधवंधगो जादो तस्स उक्कस्सं अवट्ठाणं । छदंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं उक्क० वड्डी कस्स० ? अट्ठविधवंध० तप्पाओंगजहण्णजोगट्ठाणादो उक्कस्स-जोगट्ठाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? जो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पडिभगो तप्पाओंगजहण्णजोगट्ठाणे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । अपच्चक्खाण०४ असंजदसम्मादिट्ठि०,

वृद्धिः हानि और अवस्थानका स्वामी ओवसे स्थानगुद्धिके समान है । चार आयु, वैकियिकषट्क, ननुय्याति, ननुय्यगत्यानुपूर्वी और उच्चोत्रके तीनों पदोंका स्वामित्व न्वस्थानमें कहना चाहिए । अन्ते जड्डईत्त प्रकृतियोंके साथ जिनका उत्कृष्ट स्वामित्व है, उनको स्वस्थानमें करना चाहिए । जिनके तीनों पदोंका तन्मृष्टि न्वानी है, उनको न्वस्थानमें कहना चाहिए । अण प्रकृतियोंका भङ्ग ओवके न्वान है ।

२३६. पञ्चैन्द्रिय तिर्यञ्चन्त्रिकमें पाँच ज्ञानावरण वण्डक, स्थानगुद्धित्रिक, सिध्यात्व, अनन्ताणुवन्वीचतुष्क, असावावेदनीय, ननुत्तकवेद और नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला जो तत्प्रायोग्य जवन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और असंज्ञी पञ्चैन्द्रिय अपर्याप्तकस्से उत्सन्न हुआ, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन् होकर आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करने लगा, वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । छह दर्शनावरण, हास्य, रुदि, अरुदि, शोक, मय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला-जो जीव तत्प्रायोग्य जवन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ और सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन् होकर तत्प्रायोग्य जवन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानवरणचतुष्कके

१. ता०प्रवौ 'ओवं । थीणगिद्धिमंगो' इति पाठः । २. आ०प्रवौ 'उक्कस्सं कम्मार्णं इति पाठः । ३. ता०प्रवौ 'अट्ठविधं वंधं' अ०प्रवौ 'अट्ठविधवंधगो' इति पाठः । ४. ता०प्रवौ 'जोगट्ठाणं उक्कस्स-जोगट्ठाणं' इति पाठः ।

पञ्चकखाण०४ संजदासंजदस्स । एवं संजलणचत्तारि^१ चदुआउ-चदुगदि-चदुजादि० एदाणि देवगदिभंगो । पंचिदियजादि-चदुसंठा०-ओरा०अंगो०-छस्संध० उक्क० वड्ढी-हाणि-अवट्टाणाणि णाणावरणभंगो । णवरि हाणी असण्णिपंचिदियअपज्जत्तेसु उववण्णो । चदुसंठा०-चदुसंध० असण्णिपंचिदियपज्जत्तेसु उववण्णो ।

२४०. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ते० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवसु०-उक्क०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंप० उक्क० वड्ढी हाणी अवट्टाणं तिरिक्खगदिभंगो । णवरि हाणी असण्णिपंचिदिग्गमु उववण्णो । सेसाणं सत्थाणे वड्ढी हाणी अवट्टाणं कादव्वं । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं । णवरि अप्पप्पणो अपज्जत्तेसु उववण्णो ।

२४१. मणुस०३ तिरिक्खभंगो । णवरि सम्मादिट्ठि-उवसम - खवगपगदीणं वड्ढी अवट्टाणं मूलोघं । हाणी अवट्टाणमिह कादव्वं ।

२४२. एइंदिग्गमु दोआऊणि मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-मणुसाणु०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० वड्ढी हाणी अवट्टाणं च

सव पदोका स्वामी अमंयतमम्यग्दृष्टि और प्रत्याप्त्यानतरण चतुष्कके सव पदोका स्वामी संयता-संयत जीव है । इसी प्रकार चार संज्वलनके स्वामित्वके विषयमे जानना चाहिए । चार आयु, चार गति और चार जाति इनका भङ्ग वेचोके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और छह संहननकी उत्कृष्ट हानि, वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोमे उत्पन्न हुआ, वह इनकी हानिका स्वामी है । तथा असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोमे उत्पन्न हुआ जीव चार संस्थान और चार संहननकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

२४०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो चेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुसकचेद, छह नोकपाय, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिकामंहननकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोमे उत्पन्न होता है, वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमे करना चाहिए । इसी प्रकार सव अपर्याप्तकोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपने-अपने अपर्याप्तकोमे उत्पन्न हुआ जीव स्वामी है ।

२४१. मनुष्यत्रिकमे तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्दृष्टिसम्यन्धी तथा उपशम और क्षपक प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानिका भङ्ग मूलोचके समान है । हानि अवस्थानमे करनी चाहिए ।

२४२. एकेन्द्रियोमे दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पांच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमे करने चाहिए । शेष प्रकृतियोंके वृद्धि और

१ ता०प्रती 'सजदासंजदस्स एव । सजलणचत्तारि' इति पाठः । २. आ०प्रती 'तिरिक्खगदिभंगो' इति पाठः ।

सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं वड्डी अवट्ठाणं वादरस्स कादव्वं । हाणी मदो सुहुमणिगोदेसु उववण्णो । आदाव० वादरपुढविपज्जत्त० सत्थाणे कादव्वं । एवं पंचकायाणं । विगल्लि-
दियाणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णवरि पंचणा०-णवदंसणा० - दोवेदणी०-
मिच्छ०-सोलसक०-सत्तपोक०-विगल्लिदियजादि-ओरालि०-अंगो०-असंप०-णीचा०-
पंचंत० उक्क० वड्डी अवट्ठाणं सत्थाणे कादव्वं । हाणी मदो अपज्जत्तगेसु उववण्णो ।
सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्वं ।

२४३. पंचिदिएसु सव्वपगदीणं ओघं । णवरि तिरिक्खगादि-चदुजादीणं ओरालि०-
तेजा०-क०-हुंडसं-वण्ण०-४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-आदाउजो०-थावर-वादर-सुहुम-
पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमिणं एदाणं
वड्डी अवट्ठाणं ओघं । हाणी अवट्ठाणमिह कादव्वं । सेसाणं ओघं । एवं तस० २ ।

२४४. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत०
उक्क० वड्डी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी तप्पाओंगजहण्णगादो
जोगट्ठाणादो उक्कस्सं जोगट्ठाणं गदो छव्विधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क०
हाणी कस्स० ? जो छव्विधवंधगो उक्कस्सजोगी पडिभगो तप्पाओंगजहण्णगे जोग-
ट्ठाणे पडिदो सत्तविध० तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । थीणगि० ३-

अवस्थान वादर जीवके करने चाहिए । तथा जो मरकर सूक्ष्म निगोद जीवोमे उत्पन्न हुआ उसके
हानि करनी चाहिए । आतपकी उत्कृष्ट वृद्धि आदि वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तके स्वस्थानमे करनी
चाहिए । इसी प्रकार पाँच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चाहिए । विकलेन्द्रियोमे पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,
दो वेदनीय, मित्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, विकलेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आङ्गो-
पाङ्ग, असम्प्राप्तपाटिका संहनन, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान
स्वस्थानमें करने चाहिए । तथा जो मरकर अपर्याप्तकोमे उत्पन्न हुआ, वह इनकी उत्कृष्ट हानिका
स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके तीनों ही स्वस्थानमे कहने चाहिए ।

२४३. पञ्चेन्द्रियोमे सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि
तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क,
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, आतप, उद्योत, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त,
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशाःकीर्ति और निर्माण इनकी
वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओषके समान है । हानि अवस्थानके समय करनी चाहिए ।
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार त्रसद्विक्रमे जानना चाहिए ।

२४४. पाँच मनोयोगी और वचनयोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,
सातावेदनीय, यश कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात
प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे
उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उनको उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा और सात प्रकारके
कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनको उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही जीव अनन्तर समयमे

मिच्छ०-अर्णताणु०४- [असाद०-] इत्थि०-णलुंस०-णीचा० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविध० तप्पाओंगजह०जोगट्टाणादो उक्कस्सजोगट्टाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंगजहण्णे जोगट्टाणे पडिदो अट्टविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । णिदा-पयला०-छण्णोक्क० उक्क० वड्डी कस्स० ? सम्मादि० अट्टविधवंध० तप्पाओंगजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो अट्टविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । अपच्च-क्खाण०४ असंजदसम्मादिट्टिस्स चदुगदियस्स सत्थाणे वड्डी हाणी अवट्टाणं च कादव्वं । पच्चक्खाण०४ संजदासंजदस्स च दुगदियस्स तिण्णि वि सत्थाणेण । चदु संजलणं पुरिस० वड्डी अवट्टाणं ओघभंगो । हाणि-अवट्टाणेषु पढमसमए हाणी विदिय-समए अवट्टाणं णादव्वं । चहुण्णं आउगाणं ओघं । णामाणं सव्वाणं वड्डी हाणी अवट्टाणं ओघभंगो । णवरि हाणी अप्पणो अवट्टाणेषु पढमसमए उक्कस्सिया हाणी विदियसमए उक्कस्सयमवट्टाणं । सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्वाणि । एवं ओरालियकायजोगि०-कायजोगी० ओघं ।

उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । स्थानवृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असाता-वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा, प्रचला और छह नोकषायोकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ और सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा और वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्कके चार गतिके असंयतसम्यग्दृष्टिके स्वस्थानमें वृद्धि, हानि और अवस्थान करने चाहिए । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीनों ही पद दो गतिके संयतासंयत जीवके स्वस्थानमें कहेने चाहिए । चार संवलन और पुरुषवेदकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । अपने अवस्थानमें प्रथम समयमें उत्कृष्ट हानि होगी और द्वितीय समयमें अवस्थान होगा । चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । नामकर्मकी सब प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि हानि और अपने-अपने अवस्थान इनमेंसे उत्कृष्ट हानि प्रथम

२४५. ओरालियमि० पंचणा०-थीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणुव०४-
णउंस०-णीचा०-पंचंत० उक० वड्डी कस्स० ? जो सत्तविधव० तप्पाओँगजहण्णगादो
जोगट्टाणादो उकस्सजोगट्टाणं गदो से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति तस्स उक०
वड्डी । उक० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक० जोगी मदो सुहुमणिगोद-
अपज्जत्तगोसु उववणो तप्पाओँगजह० पडिदो तस्स उक० हाणी । उक० अवट्टाणं
कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक० जोगी पडिभगो अट्टविधवंधगो जादो तप्पाओँग-
जह० जोगट्टाणे पडिदो तस्सेव से काले उकस्सयं अवट्टाणं । छदंस०-वारसक०-सत्त-
णोक० उक० वड्डी कस्स० ? यो सम्मादिट्ठी तप्पाओँगजहण्णगादो^१ जोगट्टाणादो
[उकस्सयं जोगट्टाणं गदो] तस्स उक० वड्डी । उक० हाणी अवट्टाणं णाणा०-
भंगो । आयु० दो वि ओषं । णवरि अण्णदरस्स पंचिदिय० सण्णि त्ति भणिदव्वं ।
णामाणं वड्डी णाणाव०भंगो । हाणी अवट्टाणं च अप्पणो ओषं । णवरि देवगदि०४
उक० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स सम्मादि० तप्पाओँगजहण्णगादो जोगट्टाणादो
उकस्सजोगट्टाणं^१ गदो से काले सरीरपज्जत्ति जाहिदि त्ति तस्स० उक० वड्डी । समचदु०-

समयमे होती है और दूसरे समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । शेष प्रकृतियोंके स्वस्थानमे तीनों ही कहने चाहिए । इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । काययोगी जीवोंमे ओषके समान भङ्ग है ।

२४५. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको प्राप्त करेगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तिकों उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा, वही अनन्तर समयमे उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सम्यग्दृष्टि तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । तथा इनकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दोनों आयुओंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अन्यतर पञ्चन्द्रिय संज्ञीके कहना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंकी वृद्धिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा हानि और अवस्थानका भङ्ग अपने-अपने ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो, अनन्तर समयमे शरीरपर्याप्तिको पूर्ण करेगा, वह उनकी वृद्धिका स्वामी है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर

१. आ०प्रतौ 'सम्मादिट्ठि त्ति० तप्पाओँगजह ण्णगादो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'जोगट्टाणादो जोगट्टाणं० (?) उक० जोगट्टाणं' इति पाठः ।

पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदैं० वड्डी हाणी अवट्टाणं च णिहाए भंगो । णवरि हाणी असण्णीसु उववण्णो । चदुसंठा०-पंचसंधं० वड्डी अवट्टाणं ओवं । हाणी असण्णीसु उववण्णो । तिथयरं देवगदिभंगो । एवं सेसाणं वड्डी-हाणि-अवट्टाणाणि णाणा०भंगो ।

२४६. वेउव्वियका० देवभंगो । वेउव्वियमि० पंचणा० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णद० मिच्छादि० तप्पाओंगजह०-जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो से काले सरीर-पज्जत्तिं गाहिदि ति तस्स उक्क० वड्डी । एवं थीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४ णवुंसं-दोगोद०-पंचंत० । णवरि पंचणा०-दोवेदणी०-उच्चा०-पंचंत० सम्मादिट्ठिस्स वा मिच्छादिट्ठिस्स वा कादव्वं । छदंसं-चारसक०-सत्तणोक्क० वड्डी कस्स० ? यो अण्णद० सम्मादि० तप्पाओंजहण्णजोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । एवं सच्चपगदीणं । आहार०-आहारमि० मणजोगिभंगो । णवरि आहारमि० से काले सरीरपज्जत्तिं गाहिदि ति ।

२४७. कम्मइगे पंचणा०-थीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थिं^३ णवुंसं-णीचा०-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स० ? तप्पाओंगजह० जोगट्टाणादो उक्क०

और आदेयकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग निद्राके समान है । इतनी विशेषता है कि हानि असंख्योमे उत्पन्न हुए जीवके कहनी चाहिए । चार संस्थान और पाँच संहननकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओषधके समान है । इनकी हानि असंख्योमें उत्पन्न हुए जीवके कहनी चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।

२४६. वैक्रियिककाययोगी जीवोमे देवोके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव तत्त्वा-योग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको पूर्ण करेगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार स्थानगृद्धिन्निक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी सम्यग्दृष्टि भी है और मिथ्यादृष्टि भी है । वह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्त्वायोग्य और अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको ग्रहण करेगा, ऐसा और कहना चाहिए ।

२४७. कर्मणकाययोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धिन्निक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी

१. आ०प्रती 'देवगदिभंगो' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'उक्क० वड्डी । ...दोवेदणी० इति पाठः । ३. ताप्रती 'अणता । इत्थिं' इति पाठः ।

जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्कं वड्डी । छदंसं-वारसकं-सत्तपोकं उक्कं वड्डी कस्सं ?
 अण्णदरस्स सम्मादिट्ठिं तप्पाओँगजहंजोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्कं
 वड्डी । तिरिक्खगदिणामाए उक्कं वड्डी कस्सं ? यो तेवीसदिणामाए तप्पाओँगजहं
 जोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्कं वड्डी । एवं तिरिक्खगदिभंगो एइंदि-
 ओरालिं-तेजां-कं - हुंडसं-वण्णं०४-तिरिक्खाणुं-अगुं-उपं-थावरं-वादार-सुहुम-
 पत्तेयं-साधारं-अथिर-असुभ-दूभग-अणादें-अजसं-णिमिणं चि । मणुसगदिणामाए'
 उक्कं वड्डी कस्सं ? यो पणवीसदिणामाए तप्पाओँगजहंजोगट्ठाणादो उक्कस्सं
 जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्कं वड्डी । एवं मणुसगदिभंगो चहुजादि-ओरालिं-
 अंगो-असंपं-मणुसाणुं-परं-उस्सां-तस-पञ्जत्तं-थिर-सुभ-जसं । देवगदिं उक्कं
 वड्डी कस्सं ? यो सम्मादिट्ठी तप्पाओँगजहंजोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं गदो
 तस्स उक्कं वड्डी । एवं देवगदिं०४ । एवं चेव तित्थयं । णवरि एगुणतीसदिणामाए
 बंधगो जादो तस्सं उक्कं वड्डी । चदुसंठां-पंचसंधं-अप्पसत्थं-दुस्सरं उक्कं
 वड्डी कस्सं ? एगुणतीसदिणामाए बंधगो तप्पाओँगजहंजोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं
 गदो तस्स उक्कं वड्डी । आदाउजो उक्कं वड्डी कस्सं ? यो छवीसदिणामाए बंधगो

उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । ब्रह्म दर्शनावरण, वारह कथाय और सात नोकषायोकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इस प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अंगुरुलघु, उपघात, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान चार जाति, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, त्रस, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । देवगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सम्यग्दृष्टि जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वी और वैक्रियिकद्विक इन तीन प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंका बन्धक है, वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है ।

तप्पाओंगजहण्णादो जोगट्टाणादो उकस्सजोगट्टाणं गदो तस्स उक्कं वड्डी । एवं अणाहारगेसु ।

२४८. इत्थिवेदेसु पंचणा०-थीणागि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थिवे०-णीचा०-पंचंत० उक्कं वड्डी कस्सं ? जो अट्टविधबंधगो तप्पाओंगजह०-जोगट्टाणादो उक्कं जोगट्टाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? यो सत्तविधबंधगो उक्कंजोगी मदो असण्णीसु उववण्णो तप्पाओंगजह० जोगट्टाणे पडिदो तस्स उक्कं हाणी । उक्कं अवट्टाणं कस्सं ? जो सत्तविधबंधगो उक्कंजोगी पडिभगो तप्पाओंगजहण्णजोगट्टाणे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो तस्स उक्कं अवट्टाणं । णिदा-पयला-छण्णोक्कं उक्कं वड्डी कस्सं ? अण्णदरस्स सम्मादिट्ठि० यो अट्टविधबंधगो तप्पाओंगजह०जोगट्टाणादो उक्कंजोगट्टाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्कस्सिगा वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? जो सत्तविधबंधगो उक्कंजोगी पडिभगो तप्पाओंगजहण्णजोगट्टाणे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवट्टाणं । एवं अपच्चक्खाण०४ असंजदं पच्चक्खाण०४ संजदा-

आतप और उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छव्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२४९. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धिन्निक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और असंक्षियोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा, प्रचलन और छह नोकपायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्त्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही जीव अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि आदि पदोंका स्वामित्व असंयत-सम्यग्दृष्टिके तथा प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि आदि पदोंका स्वामित्व संयतासंयत

संजद० । णवुंस० तिण्णि वि मणुसभंगो । चदुदंसणा० उक्क० वड्डी कस्स० ? जो छव्विध-
बंधगो तप्पाओंगजह०जोग०' उक्क० जोगट्ठाणं गदो चदुविधबंधगो जादो तस्स उक्क०
वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो चदुविधबंधगो' उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंग-
जह०जोगट्ठाणे पडिदो छव्विधबंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क०
अवट्ठाणं । चदुसंजल० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अण्णद० पमत्तसंजदस्स अट्ठविध-
बंधगो जादो तप्पाओंगजह०जोगट्ठाणादो उक्क० जोगट्ठाणं गदो तदो सत्तविधबंधगो
जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधबंध० पडिभग्गो अट्ठविध-
बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । पुरिस० उक्क०
वड्डी अवट्ठाणं ओधं । हाणी अवट्ठाणमिह^३ कादव्वं । चदुआउ० ओधं । णामाणं सव्वाणं
जोगिणिभंगो । णवरि तिरिक्खवा० अण्णदर० दुगदि० । एवं सव्वाओ णामाओ ।
पुरिस० इत्थिवेदभंगो । णवरि सम्मादिट्ठिपगदीणं । हाणी मदो अण्णदरीए गदीए
उववण्णो तप्पा०जह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । सेसाणं हाणी अवट्ठाणम्मि कादव्वं ।

जीवके कहना चाहिए । नपुंसकवेदके तीनों ही पदोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है । चार दर्शना-
वरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करनेवाला जो जीव
तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर चार प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध
करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? चार
प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य
जघन्य योगस्थानमें गिरा और छह प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट
हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । चार
संज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर
प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके
कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी
कौन है ? जो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करकेवाला जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा अनन्तर समयमें वही जीव उनके
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका स्वामी ओषके समान
है । हानि अवस्थानके समय करनी चाहिए । अर्थात् अवस्थानका स्वामित्व घटित करते समय
पूर्व समयमें हानि होती है और अनन्तर समयमें अवस्थान होता है । चार आयुओंका भङ्ग ओषके
समान है । नामकर्मकी सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है । इतनी
विशेषता है कि तिर्यञ्चगतिका भङ्ग अन्यतर दो गतिके जीवके कहना चाहिए । इसी प्रकार नाम-
कर्मकी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । पुरुषवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग
है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व कहते समय
जो जीव मरा और अन्यतर गतिमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा, वह उनकी
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि अवस्थानमें करनी चाहिए ।

१. ता०प्रती [त] प्पाओंगजह० जोग०' इति पाठः ! २. आ०प्रती 'जो छव्विधबंधगो' इति पाठः ।
३. ता०धा०प्रत्योः 'हाणी अवट्ठाणं हि' इति पाठः ।

२४६. षडुंसगे पंचणा० वड्डी अवड्डाणं सत्थाणे । हाणी मदो सुहुमणिगोद-
जीवेसु उववण्णो । सम्मादिट्टिपगदीणं वड्डी अवड्डाणं सत्थाणे । हाणी अण्णदरस्स मदस्स
वा सत्थाणे । णवरि णिद्दा-पयला०-अट्टक०-छण्णोफ० ओघं । सेसाणं सत्थाणे । णामाणं
ओघभंगो । अवगदवेदे ओघभंगो । णवरि सत्थाणे हाणी । कोघादि०३ सत्तण्णं क०
षडुंसगभंगो । णामाणं ओघभंगो । लोमे ओघं ।

२५०. मदि-सुद० पंचणा० उक० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविधवंधगो तप्पा-
ओंगजह०जोगट्टाणादो उक० जोगट्टाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक० वड्डी ।
उक० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उक० जोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तएत्थु
उववण्णो तप्पाओंगजह०जोग० पडि० तस्स० उक० हाणी । अवड्डाणं सत्थाणे
णेद्वं । णवदंसणा०-सादासाद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवपोक०-दोमोद०-चदुआउ०
सन्वाओ णामपगदीओ ओघो भवदि । एवं मदि०भंगो अ-भवसि०-मिच्छा०-असण्णि
त्ति विभने पंचणाणावरणादीणं तिण्णि वि सत्थाणे कादब्बाणि ।

२५१. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत०

२४८. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें कहने
चाहिए । तथा उत्कृष्ट हानि जो जीव भरकर सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न हुआ है, उसके कक्षी
चाहिए । सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें कहने चाहिए ।
तथा उत्कृष्ट हानि अन्यतर मरे हुए जीवके अथवा स्वस्थानमें कक्षी चाहिए । इतनी विशेषता है
कि निद्रा, प्रचला, आठ कषाय और छह नोकषायका भङ्ग ओषके समान है । शेषका स्वामित्व
स्वस्थानमें कहता चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें
ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि हानि स्वस्थानमें कहनी चाहिए । कोषादि तीन
कषायवाले जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नपुंसकवेदवाले जीवोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका
भङ्ग ओषके समान है । लोभ कषायवाले जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

२५०. सत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन
है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट
योगस्थानको प्राप्त हो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट
योगसे युक्त जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तिकोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य
योगस्थानमें गिरा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी
स्वस्थानमें ले जाना चाहिए । नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह
कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र, चार आयु और सब नामकर्मकी प्रकृतियों इनका भङ्ग ओषके
समान है । इसी प्रकार सत्यज्ञानियोंके समान अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंही जीवोंमें जानना
चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके तीनों ही पद स्वस्थानमें कहने चाहिए ।

२५१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार
दर्शनावरण, सातावेदनीय, चराःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और

१. आ०प्रती 'कोषादि०४सत्तण्ण' इति पाठः । २. ता०प्रती 'तस्स उक० । हाणी' इति पाठः ।

३. ता०प्रती 'दोगदि० चदुआउ०' इति पाठः ।

उक्क० वड्डी हाणी अवड्डाणं ओधं । गिहा-पचला-असादा०-उण्णोक्क० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णद० यो अट्ठविधव० तप्पाओँगजह०जोगड्डाणादो उक्कस्सजोगड्डाणं गदो सत्तविधव० वंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? सत्तविधव० वंधगो मदो तप्पा-ओँगजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवड्डाणं कस्स० ? यो सत्तविधव० उक्क०जोगी पडिभगो तप्पाओँगजह० पडिदो अट्ठविधव० वंधगो जादो तस्स उक्क० अवड्डाणं । अपच्चक्खाण०४ असंजद० पच्चक्खाण०४ संजदासंजदस्स । चदुसंजल०-पुगिस०-दोआउ०, ओधभंगो । मणुसग० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्ठविधव० तप्पाओँग-जह०जोगड्डाणादो उक्क० जोगड्डाणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधव० वंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधव० वंधगो उक्क०जोगी पडिभगो तप्पाओँगजह० पडिदो अट्ठविधव० वंधगो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवड्डाणं । एवँ ओरा०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० । देवगदि०४ मूलोवँ । पंचिदि० उक्क० वड्डी अवड्डाणं देवगदिभंगो । हाणी मदो देवेषु उववण्णो एगुणतीसदिणामाए सह सत्त-

अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो अन्यतर जीव तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानसे गिरा, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानसे गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन पदोंका स्वामित्व असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंका स्वामित्व संयतासंयत जीवके कहना चाहिए । चार संवलन, पुरुषवेद और दो आयुका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्तकर नामकर्मकी इनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्त्वायोग्य जघन्य योगस्थानसे गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आहोपाह्न, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी वृद्धि आदि तीन पदोंका स्वामित्व जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका भङ्ग मूलोवके समान है । पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग देवगतिके समान है । उत्कृष्ट हानि—जो जीव मरा और देवोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी इनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह

१. ता०प्रवौ 'अवड्डां [७० ?] यो' इति पाठः । २. ता०प्रवौ 'अवड्डाणं । [क्रमागतताडपत्रस्या-शानुपलब्धिः । अरुन्नुचलन्यं सनुपलभ्यते ।] एव' इति पाठः । ३. ता०प्रवौ 'मणुसाणु० देवगदि४ मूलोव' इति पाठः

विधबंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । एवं सव्वाओ णामाओ । णवरि आहारदुगं तित्थ० ओषं । अथिर-अमुभ-अजस० तिण्णि वि पंचिदियभंगो । णवरि सत्तविधबंधगस्स कादव्वं । एवं ओधिदंस०-सम्मा०-खइग०-वेदगस०-उवसमसम्मादिट्ठीसु । मणुस-गदिपंचगस्स वट्ठी हाणी अवट्ठाणं सत्थाणे कादव्वं ।

२५२. मणपज्जवे० सत्तणं क० मणुसगदिभंगो । णामाणं देवगदिआदियाणं वट्ठी हाणी अवट्ठाणं आभिणि०भंगो । णवरि सत्थाणे हाणी षेदव्वं । एवं सव्वार्णं णामाणं । अथिर-अमुभ-अजस० सत्तविधबंध० कादव्वं । एवं संजट-सामाह०-छेदो०-परिहार० ।

२५३. सुहुमसं० छण्णं क० उक्क० वट्ठी कस्स० ? यो तप्पाओंगजह०जोग-ट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वट्ठी । उक्क० हाणी कस्स० ? उक्कस्सगादो जोगट्टाणादो पडिभग्गो तप्पाओंगजह०जोगट्टाणे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० भ्रवट्टाणं । संजदासंजद० परिहारभंगो ।

२५४. असंजदेसु पंचणा०-धीणगि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु४-इत्थि०-

पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार नामकर्मकी सच प्रकृतियोंके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विरोधता है कि आहारकट्टिक और तीर्थद्वर प्रकृतिका भद्र ओषके समान है । अरिथर, अशुभ और अयराःकीतिके तीनों ही पदाका भद्र पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विरोधता है कि सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके कहना चाहिए । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकमम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमे जानना चाहिए । मनुष्यगतिपत्रककी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भद्र स्वस्थानमे कइना चाहिए ।

२५२. मन.पर्ययधानी जीवोंमें सात कर्मोंका भद्र मनुष्योंके समान है । नामकर्मकी देवगति आदिकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भद्र आभिनिवोधिकहानी जीवोंके समान है । इतनी विरोधता है कि हानि स्वस्थानमे ले जानी चाहिए । इसी प्रकार नामकर्मकी सच प्रकृतियोंके विषयमे जानना चाहिए । अरिथर, अशुभ और अयराःकीतिकी वृद्धि आदि सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके कहना चाहिए । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदेपस्यापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

२५३. सूत्रमसम्पराधिकसंयत जीवोंमे छह कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुवा है, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभय होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा है, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । संयतासंयत जीवोंमे परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भद्र है ।

२५४. असंयत जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, स्थानशुद्धिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ता-नुबन्धीचतुष्क, स्वीवेद, नपुंसकवेद, दो गोत्र और पाँच अन्तरायका भद्र मत्स्यजानी जीवोंके

१. ता०प्रती 'उकसि [या] हाणी ।' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एव ओधिद० । सम्मा०' इति पाठः । ३. ताप्रती 'परिहार० सुहुमस० छण्ण' इति पाठः ।

णवुंस०-दोगोद०-पंचंत० मदि०भंगो । छदंस०-वारसक०-सत्तणोक० उक० वड्डी कस्स० ? अण्ण० सम्मादिट्टिस्स अट्ठविधव०० तप्पाओंगजह० [उक०] जोगट्ठाणं गदो सत्तविध-
वंधगो जादो तस्स उक० वड्डी । उक० हाणी कस्स० ? जो सम्मादिट्ठी उक०जोगी
मदो अण्णदरीए गदीए उववण्णो तप्पाओंगजह० पडिदो तस्स उक० हाणी ।
उक० अवट्ठाणं कस्स० ? यो सत्तविधव०० उक०जोगी पडिभग्गो तप्पाओंग-
जहण्णगे जोगट्ठाणे पडिदो अट्ठविधवंधगो जादो तस्स उक० अवट्ठाणं । णामाणं
मदि०भंगो । णवरि देवगदि०४-समचट्ठु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदें० ओवं ।

२५५. चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । णवरि चट्ठुरिदियपज्जत्तेसु उववण्णो० ।
अचक्खु० ओवं । किण्ण-णील-काऊणं असंजदभंगो । तेऊए पंचणा०-थीणगि०३-
[दोवेद०-] मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थिवेद-दोगोद-पंचंत० उक० वड्डी कस्स० ?
अण्णदरस्स अट्ठविधवंधगो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक० वड्डी । उक० हाणी कस्स० !
यो सत्तविधवंधगो उक०जोगी मदो देवो जादो तस्स उक० हाणी । णवरि थीणागिद्वि०३-
मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थिवे० दुगदियस्स० । अवट्ठाणं सत्थाणे० । छदंस०-सत्त-

समान है । छह दर्शनावरण, वारह कपाय और सात नोकपायोको उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन
है ? जो आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य
योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त कर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगवाला
सम्यग्दृष्टि जीव मरा और अन्यतर गतिमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ,
वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो सात
प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य
योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका
स्वामी है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि
देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका भङ्ग
ओषके समान है ।

२५५ चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रस पर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि
चतुरिन्त्रिय पर्याप्तकोमें उत्पन्न हुए जीवके कहना चाहिए । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ओषके
समान भङ्ग है । कृष्ण नील और कापोत लेख्यावाले जीवोंमें अस्यत जीवोंके समान भङ्ग है ।
पीतलेख्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, दी वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी-
चतुष्क, स्त्रीवेद, दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ
प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी
उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव हो गया, वह उनकी उत्कृष्ट हानिका
स्वामी है । इतनी विशेषता है कि स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और
स्त्रीवेद इनका भङ्ग दो गतिवाले जीवके कहना चाहिए । तथा इनके अवस्थानका स्वामित्व

१ ता०प्रती 'तप्पाओंगजहणं जोगट्ठाण पडिदो' इति पाठ. । २. ता०आ०प्रत्यो: 'इत्थिवे० सेसाणं
दुगदियस्स,' इति पाठ. ।

णोक्० उक्० वट्टी कस्स० ? अण्णद० सम्मादिट्ठि० अट्टविधवं० सत्तविधवंधो जादो तस्स उक्क० वट्टी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क०जोगी मदो जह०जोगट्ठाणे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । अवट्ठाणं सत्थाणे कादव्वं । अपचक्खाण०४- [पचक्खाण०४] ओघं । संजलणं पमत्तसंजदस्स कादव्वं । तिण्णिआउ० ओघं० । तिरिक्खगदिणामाए पणवीसं संजुत्ताणं च । मणुसगदिपंचगं^१ आदाउज्जोवं सोधम्मभंगो । देवगदि०४ सत्थाणे कादव्वं । आहारदुगं ओघं । पंचिदियणामाए वट्टी अवट्ठाणं देवगदिभंगो । हाणी मदो देवो जादो तीसदिणामाए बंधगो जादो तप्पाओंगजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । एवं समचदु०-पसत्थ०-मुभग-सुस्सर-आदे० । णवुंसं० सत्थाणे कादव्वं । चदुसंठा०-पंचसंध०- अपसत्थ०-दुस्सर० सोधम्मसंगो । एवं पम्माए वि । णवरि णामाणं तिरिक्ख-गदि-मणुसगदिसंजुत्ताणं सहस्सारभंगो । एवं देवगदिसंजुत्ताणं आभिणि०भंगो । एवं सुक्काए वि । णवरि सम्मत्तपगदीणं ओघभंगो । सेसाणं आणदभंगो । अट्ठावीसदि-संजुत्ताणं आभिणि०भंगो । भवसिद्धिया० ओघभंगो ।

ग्वस्थानमे कर्हना चाहिए । ब्रह्म दर्शनावरण और मात नोकपायोकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा, वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगवाला जीव मरा और जघन्य योगस्थानमे गिर पड़ा, वह उनको उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनका उत्कृष्ट अवस्थान स्वस्थानमे कर्हना चाहिए । अप्रत्यख्यानवरणचतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । संवलनका भङ्ग प्रमत्तसंयतके कर्हना चाहिए । तीन आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट वृद्धि आदिका स्वामित्व नामकर्मकी पचीस प्रकृतियोंसे संयुक्त हुए जीवके होता है । मनुष्यगतिपञ्चक, आतप और उद्योतका भङ्ग सोधर्म फल्पके समान है । देवगनचतुष्कका भङ्ग स्वस्थानमे कर्हना चाहिए । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चन्द्रियजातिकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग देवोंके समान है । तथा उत्कृष्ट हानि—जो जीव मरा और देव होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ बन्धक होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरा, वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेवकी अपेक्षा जानना चाहिए । नपुंसकवेदका भङ्ग स्वस्थानमे कर्हना चाहिए । चार संस्थान, पंच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका भङ्ग सोधर्मकल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामं भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति और मनुष्यगति संयुक्त नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्रार फल्पके समान है । इसी प्रकार देवगति संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार शुक्ललेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वप्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आनतकल्पके समान है । देवगति आदि अट्ठाईस संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है । भव्य जीवोंमे ओघके समान भङ्ग है ।

१. ता०प्रती-संजुत्ताणं च मणुसगदिपचगं इति पाठः । २. ता०प्रती 'आदे० णवुसं०' इति पाठः ।

२५६. सासणे तिणिणआऊणि देवगदि०४ तिणिण वड्डी हाणी अवड्ढाणं सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं वड्डी अवड्ढाणं सत्थाणे० । हाणी अण्णदरो मदो अण्णदरेसु एइंदिएसु उववण्णे तप्पा०जह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । सम्मामि० सव्वाणं पगदीणं सत्थाणे कादव्वं । देवगदिअड्ढावीससंजुत्ताणं मणुसगदिपंचगस्स एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगस्स । सण्णी० ओघं । णवरि थावर-विगलिंदियसंजुत्ताओ सत्थाणे काद-व्वाओ । असण्णि० तिरिक्खोघं । णवरि सव्वाओ पगदीओ मिच्छादिट्ठिस क्कदव्वाओ । आहारा० ओघं ।

एवं उक्कस्ससामिचं समचं ।

२५७. जहण्णए पगदं । तुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णिरयाउ-देवाउ-णिरय-गदि-देवगदि-वेउव्वि०-आहार०-दोअंगो०दोआणु०-तित्थ० जह० वड्डी कस्स० ? यो वा सो वा यत्तो वा तत्तो वा हेट्ठिमाणंतरजोगड्ढाणादो उवरिमाणंतरजोगड्ढाणं गदो तस्स जह० वड्डी । जद० हाणी कस्स० ? यो वा सो वा यत्तो वा तत्तो वा उवरिमाणंतर-जोगड्ढाणादो हेट्ठिमाणंतरं जोगड्ढाणं गदो तस्स जह० हाणी । एकदरस्थमवड्ढाणं । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० वड्डी कस्स० ? यो वा सो वा परंपरपज्जत्तो वा परंपरअपज्जत्तो वा

२५६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीन आयु और देवगतिचतुष्ककी तीनों ही वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए । शेष प्रकृतियोंकी वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए । हानि—जो अन्यतर जीव मग और अन्यतर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तत्त्वयोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा, वह उनकी उच्छ्रष्ट हानिका स्वामी है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उच्छ्रष्ट वृद्धि आदि तीनों पद स्वस्थानमें करने चाहिए । देवगति आदि अट्ठईस संयुक्त प्रकृतियोंका और मनुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके करना चाहिए । संज्ञी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्थावर और विकलेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए । असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंका भङ्ग मिथ्यादृष्टिके करना चाहिए । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उच्छ्रष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

२५७. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे नर-कायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, दो आयुपूर्वी और तीर्थङ्कप्रकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो कोई जीव जहाँ-कहींसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानसे उपरिम अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो कोई जीव जहाँ-कहींसे उपरिम अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थान होता है । शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो कोई परम्परा पर्याप्तक जीव या परम्परा अपर्याप्तक जीव

१. चाग्गवौ ' जो [वा] यत्तो ' इति पाठः । २ वा. प्रतौ 'उवरिमाणंतरं जोगड्ढाणादे' इति पाठः ।

यत्तो वा तत्तो वा हेट्टिमाणंतरजोगट्टाणादो उवरिमाणंतरजोगट्टाणं गदो तस्स जह० बड्डी । जह० हाणी कस्स० ? यो वा सो वा परंपरपजत्तगो वा परंपरअपजत्तगो वा यत्तो वा तत्तो वा उवरिमाणंतरादो जो०ट्टाणादो हेट्टिमाणंतरजोगट्टाणं गदो तस्स जह० हाणी । एकदरत्थमवट्टाणं । एवं ओधमंगो सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वएहंदिद्य-सव्व-विगल्लिदिद्य-पंचिदिद्यपजत्तापजत्त-पंचकाय-सव्वतसकाय-कायजोगि०-इत्थि०-पुरिस०-णत्तुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-आभिणि०-सुद-ओधि०-असंजद०-चक्खुसुद०-अचक्खुसुद०-ओधिदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अ-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग ति ।

२५८. पेरइएसु सव्वपगदीणं ओघं णिरयगदिभंगो । एवं सव्वणिरय-सव्वदेव पंचमण०-पंचवचि०-ओरालिय०-वेउव्वियका०-आहारका०-अवगद०-विमंग०-मणपज०-संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-संजदासंज०-उवसम०-सासण०-सम्माभि० । ओरालियमि० देवगदिपंचगस्स जह० बड्डी क० ? अण्णदरस्स दुसमयओरालियकाय-जोगिस्स । सेसाणं ओघो । वेउव्वियमिस्स० सव्वपगदीणं जह० बड्डी क० ? अण्ण-दरस्स दुसमयवेउव्वियका०मिस्सगस्स । एवं आहारमि० । कम्मइग०-अणाहारगेसु सव्व-

जहों-कहींसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानसे उपरितन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो कोई परम्परा पर्याप्तक जीव या परम्परा अपर्याप्तक जीव जहों-कहींसे उपरिम अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ, वह उनकी जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थान होता है । इस प्रकार ओघके समान सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय व पर्याप्त और अपर्याप्त, पाँच स्थावरकायिक, सब त्रसकायिक, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, ध्यायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२५८. नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघसे नरकगतिके समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब देव, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, अपगतवेदी, विभङ्गज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोप-स्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूत्रमसाम्यरायसंयत, संयतासंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जिसे औदारिकमिश्रकाययोगी प्राप्त हुए दो समय हुए,पैसा अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जिसे वैक्रियिकमिश्रकाययोगी प्राप्त हुए दो समय हुए हैं,पैसा अन्यतर जीव उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका

पगदीणं जह० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स सुहुम० दुसमय-विग्गहगदिसमावण्णस्स तस्स जह० वड्डी एगमेवपदं । णवरि देवगदिपंचगस्स ओरालियमिस्सभंगो । णवरि ओघो^१ । किंचि विसोसो ।

एवं जहण्णयं समत्तं ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

अप्पावहुअं

२५६. अप्पावहुगं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० चटुआउ० वेउन्वियल्लकं आहारदुगं सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुल्लाणि विसेसाधियाणि । सेसाणं पगदीणं सव्वत्थोवा उक्क० वड्डी । उक्क० अवट्ठाणं विसेसाधियं । उक्क० हाणी विसे० । एवं ओघभंगो^२ पंचिदिय-तस० २-कायजोगिं-कोधादि० ४-मदि०-सुद०-आभिणि०-सुद-ओधि०-असंजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-तिण्णिले०-तेउ-पम्म-सुकले०-भवसि०-अ भवसि०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग ति । णवरि एदेसिं सव्वेसिं पगदोणं अप्पावहुगं । यासिं पगदीणं मरणं णत्थि० तेसिं आउग-भंगो कादव्वो ।

स्वामी कौन है ? जिसे विग्रहगतिको प्राप्त हुए दो समय हुए ऐसा अन्यतर सूक्ष्म जीव सब प्रकृतियोंको जघन्य वृद्धिका स्वामी है । यहाँ एक ही पद है । इतनी विशेषता है कि इनमें देवगतिपञ्चकका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । इतनी विग्रहता है कि ओघसे इच्छ विशेषता है ।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

अल्पवहुत्व

२५६. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार आयु, वैक्रियिकषट्क और आहारकद्विककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि और अवन्थान दोनों परस्परमे तुल्य होकर भी विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । इस प्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, काययोगी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यजानी, श्रुताजानी, आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतजानी, अवधिजानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवाधिदर्शनी, कृष्णादि तीन छेदयावाले, पीतलेदयावाले, पद्मलेदयावाले, शुक्ललेदयावाले, भव्य, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, मिय्यादृष्टि, सर्वा, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन सबसे अल्पवहुत्व है । तथा जिन प्रकृतियोंके बन्धके समय मरण नहीं है, उनका भङ्ग आयुकर्मके समान कठूना चाहिए ।

१. ता०प्रतौ 'मिस्सभंगो णवरि । ओघो' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'विसेसाधिय । हाणी' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'विनेसाधि० । ओघभंगो' इति पाठः । ४. आ०प्रतौ 'तस० कायजोगि०' इति पाठः ।

२६०. सन्वपोरह०-देव०-पंचमण०-पंचवचि०-ओरा०-वेउ०-आहार०-अवगदवे०-विभंग०-मणपज०-संजद-समाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-संजदासंजद-सम्मामिच्छा० एदेसिं वि याओ पगदीओ अत्थि तेसिं मूलोषं यथा आहारसरीरं तथा कादव्वं । ओरालियमि० दोआउ० ओधं । देवगदिपंचगं वज्ज । सेसाणं सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा उक्क० अवट्ठणं । उक्कहाणी विसे० । उक्क० वड्डी असंखेंअगु० । वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मह०-अणाहारगेसु हाणी अवट्ठणं च णत्थि । एकमेव वड्डी ।

एवं उक्कस्सयं अप्पावहुगं समत्तं ।

२६१. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सन्वपगदीणं जह० वड्डी जह० हाणी जह० अवट्ठणं च तिण्णि वि तुल्लाणि । एस कमो याव अणाहारग च्चि । णवरि वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मह०-अणाहार० जह० वड्डी । हाणी अवट्ठणं णत्थि । ओरालियमिस्स० देवगदिपंचगस्स एकमेव पदं वड्डी अत्थि । सेसं णत्थि ।

एवं जहण्णं अप्पावहुगं समत्तं ।

२६२. एसिं पगदीणं अणंतभागवड्डी अणंतभागहाणी वा तेसिं पगदीणं तम्हि चेव समए अजहणिया वड्डी वा हाणी वा अवट्ठणं वा होज्ज, ण पुण एरिसलन्खणं पत्तैगम्हि ।

२६० सव नारकी, सव देव, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, अपगतवेडवाले, विभङ्गज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी, सयत, सामायिक सयत, छेदोपस्थापनासयत, परिहारविशुद्धिसयत, सूक्ष्मसम्परायसयत, सयतासयत और सम्यग्मिथ्यादृष्टि इन मार्गणाओमे जो प्रकृतियाँ हैं, उनका अल्पवहुत्व मूलोषसे जिस प्रकार आहारकशरीरका कहा है, उस प्रकार करना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे दो आयुओका भङ्ग ओषके समान है । तथा देवगतिपञ्चकको छोडकर शेष प्रकृतियोका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असख्यातगुणी है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोमे हानि और अवस्थान नहीं है, एकमात्र वृद्धि है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

२६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सव प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तीनों ही तुल्य हैं । यह क्रम अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जघन्य वृद्धि है । हानि और अवस्थान नहीं हैं । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकका एकमात्र वृद्धिपद है, शेष दो पद नहीं हैं ।

इस प्रकार जघन्य अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

२६२. जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि या अनन्तभागहानि होती है, उन प्रकृतियोंकी उसी समयमें अजघन्य वृद्धि, हानि या अवस्थान होवे, पर इस प्रकारका लक्षण प्रत्येकमें नहीं है ।

१. ता०प्रती 'हाणि-अवट्ठण णत्थि' इति पाठः । २. ताप्रती 'जह० वड्डीहाणिअवट्ठण णत्थि' इति पाठः ।

वद्विबन्धो समुक्तिणा

२६३. एत्तो वद्विबन्धे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि । तं जहा—समुक्तिणा^१ याव अप्पावहुणे त्ति १३ । समुक्तिणाए दुबिधो णिदेसो—ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०-यीणाणि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-चदुआउ०-पंचंत० अत्थि [असंख्जेज्जागवद्वि-हाणी संख्जेज्जागवद्वि-हाणी^२ संख्जेज्जगुणवद्वि-हाणी असंख्जेज्जगुणवद्वि-हाणी अवद्विदं अवत्तव्वबंधगा य । छदंस०-वारसक०-सत्तणोको० अत्थि अणंतभागवद्वि-हाणी असंख्जेज्जागवद्वि-हाणी संख्जेज्जागवद्वि-हाणी संख्जेज्जगुणवद्वि-हाणी असंख्जेज्जगुणवद्वि-हाणी अवद्विदं अवत्तव्वबंधगा^३ य । दोवेदणीयं सव्वाओ गामपगदीओ दोगोदं अत्थि चत्तारिवद्वि-हाणी अवद्विदं अवत्तव्वबंधगा य । एवं ओषमंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सुकले०-भवसि०-सण्णि-आहारग त्ति ।

२६४. णिरएसु छदंस०-वारसक०-सत्तणोको० अत्थि पंचवड्डी पंचहाणी अवद्विदं । सेसाणं धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवद्विदबंधगा य । सेसाणं परिचमाणियाणं पगदीणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवद्विदं अवत्तव्वबंधगा य । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-सव्वदेव-वेउव्वि०-असंजद०-पंचलेस्ता० ।

वृद्धिवन्ध समुक्तीर्तना

२६३. आगे वृद्धिवन्धका प्रकरण है । उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं । यथा—समुक्तीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक १३ । समुक्तीर्तनाका निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार आयु और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यात-भागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । छह दर्शनावरण, वारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । दो वेदनीय, नामकर्मकी सव प्रकृतियों और दो गोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इस प्रकार ओषके समान मनुष्यांत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रिसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्लछेष्ट्रयावाले, भव्य, संक्षी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२६४. नारकियोंमें छह दर्शनावरण, वारह कषाय और सात नोकषायकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थान पदके बन्धक जीव हैं । शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष पराधर्तमान प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अव-

१. ता०प्रतौ 'सम (सु) क्तिणा' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अत्थि तत्तेज्जभागवद्वि तत्तेज्जभा-गवद्विहाणि' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'अवद्वि (द्वि) अवत्तव्वबंधगा' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'अवद्वि (द्वि) । सेसाणं' इति पाठः ।

२६५. सव्वअपज्जत्तगाणं तसाणं थावराणं च सव्वएइंदिय-विगालिंदिय-पंच-कायाणं धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्ठिदबंधगा य । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्ठि० अवत्तव्वबंधगा य ।

२६६. ओरालियमि० अपज्जत्तभंगो । णवरि देवगदिपंचगस्स अत्थि असंखेंज्ज-गुणवड्ठिवंधगा य । सेसाणं णत्थि । वेउन्वियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेषु धुविगाणं एकवड्डी । सेसाणं परियत्तमाणियाणं अत्थि असंखेंज्जगुणवड्ठि० अवत्तव्व-बंधगा य ।

२६७. इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधेसु पंचणाणावरणीयाणं चदुदं-चदुसंज०-पंचंत० अवत्त० णत्थि । सेसपदा अत्थि । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं माणे । णवरि पंचणा०-चदुदंस०-तिण्णिसंज०-पंचंत० । एवं मायाए । णवरि पंचणा०-चदुदंस०-दोसंज०-पंचंत० । एवं लोमे । णवरि पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-चदुसंज०-जसमि०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य ।

स्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत और पाँच लेख्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए ।

२६५ त्रस और स्थावरके सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं ।

२६६ औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तक जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव नहीं हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं ।

२६७. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी और क्रोधकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तव्य पद नहीं है । शेष पद हैं । तथा इनमें शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार मानकपायवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार मायाकपायवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार लोभकपायवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं ।

१. ता०प्रतां 'पचलेस्सा सव्वअपज्जत्तगाण तसाण यावराण च । सव्वएइदिय-^२ इति पाठः ।

२६८. मदि-सुद० धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवड्डिदबंधगा य ।
सेसाणं परियत्तमाणिगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवड्डिद० अवत्तच्चबंधगा
य । एवं विभंग०-अन्भव०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि मदि-सुद० विभंग०भंगो ।
मिच्छा० सादभंगो ।

२६९. आभिणि-सुद-ओधि० चदुदंस०-अड्ढक० अत्थि पंचवड्डी पंचहाणी अव-
ड्डिद० अवत्तच्चबंधगा य । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवड्डिद० अवत्तच्च-
बंधगा य । एवं ओधिदंस०-सम्मा०-खड्ग०-वेदग०-उवसम० त्ति । णवरि वेदगे
धुविगाणं अवत्तच्चं णत्थि । छदंसणा० णाणा०भंगो ।

२७०. मणपज्जे सच्चपगदीणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवड्डिद०
अवत्तच्चबंधगा य । चदुदंसणा० अत्थि पंचवड्डी पंचहाणी अवड्डिद० अवत्तच्चबंधगा
य । एवं संजद-सामाह०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० - संजदासंजद० - सासण० ।
सम्माभि० धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी-हाणी अवड्डाणं । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्डी
चत्तारिहाणी अवड्डिद० अवत्तच्चबंधगा य ।

एवं समुक्तिगणा समत्ता

२६८. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार
हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि,
अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इस प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और
असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें
विभङ्गज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । तथा मिथ्यात्वका भङ्ग सातावेदनीयके समान है ।

२६९. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार दर्शनावरण और
आठ कषायकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । शेष
प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार
अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका
अवक्तव्यपद नहीं है । तथा छह दर्शनावरणका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।

२७०. मन-पर्ययज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । चार दर्शनावरणकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत,
परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, संयतासंयत और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना
चाहिए । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और
अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्य-
पदके बन्धक जीव हैं ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

सामित्तं

२७१. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०-तेजा०-क०-वण्णा०-अगु०-उप० - णिमि० - पंचंत० चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठिदबंधगो कस्स० ? अण्णदरस्स । अवत्तव्वबंध० कस्स० ? अण्णद० उवसमग० परिपुडमाण० मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमयदेवस्स वा । धीणणि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०-४ चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठिदबंध० कस्स ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छत्तादो वा परिपुडमाणगस्स पढम-समयमिच्छादिट्ठिस्स वा सासणसम्मादिट्ठिस्स वा । णवरि मिच्छा० अवत्त० सासण-सम्मत्तादो वा त्ति भण्णिदव्वं । णिहा-पयला-भय-दुर्ग०-चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । अवत्तव्व० णाणा०-भंगो । अणंतभागवट्ठ्ठी कस्स० ? अण्ण० पढम-समयसम्मादिट्ठि० संजदासंजद० संजदस्स वा । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० सम्मत्तादो परिपुडमाणगस्स पढमसमयमिच्छा० [सासण०] । चदुदंस० णाणा०-भंगो । णवरि अणंतभागवट्ठ्ठी कस्स ? अण्णद० पढमसमयअसंजदसम्मा० संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा पढमसमए वट्ठमाणगस्स । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० अपुव्व-

स्वामित्व

२७१. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणित्से गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य और मनुष्यिनी तथा प्रथम समयवर्ती देव उनके अवक्तव्यबन्धके स्वामी है । स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । उनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरकर जो प्रथम समयमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि हुआ है, वह उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका सासादनसम्यक्त्वसे च्युत होकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हुआ है, वह जीव भी स्वामी है—ऐसा कहना चाहिए । निद्रा, प्रचला, भय और जुगुप्साकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत जीव उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो सम्यक्त्वसे च्युत होकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव है, वह उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी है । चार दर्शनावरणका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासयत और संयत जीव उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी है । उनकी अनन्त-

१. ता०प्रती 'अणु (ण्ण०)' इति पाठः । २. आ०प्रती 'णवरि अवत्त० अणंतभागवट्ठ्ठी' इति पाठः ।

करणस्स वा णिदा-पयलाणं पढमसमयबंधगस्स पढमसमयमिच्छादिद्विस्स [सासण०] वा । सेसाणं पदाणं णाणा० भंगो । दोवेदणी० सच्चाओ णामपगदीओ दोगोद० च्चारि-वद्वि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्णद० । अवत्तव्वं कस्स० ? अण्णद० परियत्तमाणगस्स पढमसमयबंधगस्स । अपच्चक्खाण० ४ अणंतभागवड्डी कस्स ? अण्ण० पढमसमय० असंजदस्स । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० सम्मत्तादो परिपडमाणपढमसमय-मिच्छादि० वा सासणसम्मादिद्विस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणा० भंगो । पच्चक्खाण० ४ अणंतभागवड्डी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयअसंजदस्स वा संजदासंजदस्स वा । हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा परिपडमाणगस्स पढमसमय-मिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणावरणभंगो । णवरि अट्टक० अवत्तव्वं भुजगारभंगो । चदुसंजलणार्णं अणंतभागवड्डी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयअसंजदसम्मा० वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा । हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिपडमाणगस्स पढमसमय-मिच्छादिद्विस्स वा सासण० वा सम्मामि० वा असंजदस्स वा संजदासंजदस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणा० भंगो । चदुण्णं आउगाणं च्चारिवद्वि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ?

भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर लौटते हुए निद्रा और प्रचलका बन्ध करनेवाला, ऐसा प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण जीव और प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दो वेदनीय, नामकर्मकी सब प्रकृतियों और दो गोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । उनके अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर परावर्तमान प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । अप्रत्याख्यानानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । उनकी अनन्त-भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । प्रत्याख्यानानावरण चतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयमसे और संयमासंयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंके अवक्तव्यपदका भङ्ग भुजगारके समान है । चार संवल्लनोंकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्त-भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्भिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव स्वामी है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । चार आयुर्बोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन

१. ता० प्रती 'णदा [णं] णाणावरण-भंगो' इति पाठः । २. ता० प्रती 'चदुसंजलणणा (ण)' इति पाठः ।

अण्णद० । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० पढमसमयआउगबंधमाणगस्स । एवं ओध-
भंगो मणुस० ३-पंचिदि०-त्तस० २-पंचमण०-पंचवच्चि० - काययोगि-ओरालि०-चक्खु०-
अचक्खु०-भवसि०-संण्णि-आहारग ति । णवरि मणुस० ३-पंचमण०-पंचवच्चि० ओरा०
अवत्त० देवो ति ण भाणिदव्वं ।

२७२. गिरएसु धुवियाणं चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० ।
छंदस०-वारसक०-सत्तणोको अणंतभागवड्डी कस्स० ? अण्णद० पढमसमयसम्मादिट्ठिस्स ।
अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० पट्टिमाण० पढमसमयमिच्छादिट्ठि० वा सासण-
सम्मा० वा । सेसाणं भुजगारमंगो । एवं सत्तसु पुढवीसु । सव्वतिरिक्ख-सव्वदेव-
वेउव्वियका०-असंजद०-किण्ण-णील-काऊणं गिरयमंगो । णवरि तिरिक्खेसु अणंत-
भागवट्ठि-हाणी० संजदासंजदादो अत्थि ति णादव्वं ।

२७३. सव्वअपजत्तगेसु धुविगारणं चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० ।
सेसाणं परियत्थियाणं ओधमंगो । एवं सव्वअपजत्तगारणं एइदिय-विगल्लिदिय-पंच-
कायारणं च ।

है ? प्रथम समयमें आयुबन्ध करनेवाला अन्यतर जीव स्वामी है । इस प्रकार ओधके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें अवक्तव्यपदका स्वामी देव है, ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ ओधसे सब प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका स्वामी कहा है । मात्र तीन वेद और चार नोकषायोके सम्भव पदोंका स्वामित्व उपलब्ध नहीं होता सो जान कर घटित कर लेना चाहिए ।

२७२. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । छह दर्शनावरण, चारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगार अनुयोगद्वारके समान है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । सब तिर्यञ्च, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चोंमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि संयतासंयतके सम्पर्कसे भी होती है । अर्थात् संयतासंयतमे भी अनन्तभागवृद्धि होता है और उससे गिरनेवाले जीवके भी अनन्तभागहानि होती है, ऐसा जानना चाहिए ।

२७३. सब अपर्याप्तक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग

१. आ० प्रती 'त्तस० पंचमण पंचवच्चि० ओरा० अक्त्त०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'सम्मा (व) अपजत्तगेसु' इति पाठः ।

२७४. ओरोलियमि० धुविगाणं चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० कस्स० ? अण्णद० ।
सेसाणं परियत्तमाणिगाणं चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० कस्स० ? अण्णद० । अवत्त०
कस्स० ? अण्णद० परियत्तमाण० पढमसमयबंधगस्स । देवगदिपंचग० संखेज्जगुणवट्टि०
कस्स० ? अण्णद० सम्मादि० ।

२७५. वेउन्वियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-
तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० असंखेज्जगुणवट्टि
कस्स० ? अण्णद० । सेसाणं असंखेज्जगुणवट्टि कस्स ? अण्णद० । अवत्त० कस्स० ?
अण्णद० परियत्तमाणपढमसमयपढमबंधगस्स । एवं आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेषु ।
णवरि अप्पणो धुविगाओ णादव्वाओ ।

२७६. इत्थिवेदगेषु ओषं । णवरि अवत्त० मणुसि०भंगो । एवं णवुंसगे । पुरिस०
ओषं । अवगदवेदे ओषं । णवरि अवत्त० परिपडुमाण० उवसम० पढमसमयबंधगस्स ।
एवं सुहुमसं० । णवरि अवत्त० णत्थि । कोधादि०४ ओषं । णवरि अप्पणो धुवि-
गाओ णादव्वाओ ।

ओषके समान है । इसी प्रकार सत्र अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२७४ औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर परावर्तमान प्रकृतियोंका प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । देवगतिपञ्चककी संख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सन्यग्दृष्टि जीव स्वामी है ।

२७५. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? परावर्तमान प्रकृतियोंका प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मण-काययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ जाननी चाहिए ।

२७६. स्त्रीवेदी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य-पदका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । इसी प्रकार नमुंसकवेदी जीवोंमें जानना चाहिए । पुरुष-वेदी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । अपगतवेदी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें जो षषमश्रेणिसे गिरनेवाला जीव प्रथम समयमें बन्ध करता है, वह उनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । इसी प्रकार सूक्ष्मात्मपराय संयत जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी

२७७. आभिणि^१सुद-ओधि० चदुदंस० अणंतभागवट्टी कस्स० ? अण्ण० अपुच्च-करणस्स णिहा-पयलाबंधवोच्छिण्णपढमसमयबंधगस्स^२ । अणंतभागहाणी कस्स^३० ? अण्ण० अपुच्चकरणस्स णिहा-पयलापढमसमयबंधगस्स । पच्चखाण०४ अणंतभागवट्टी कस्स० ? अण्णदरस्स संजदासंजदस्स पढमसमयबंधमाणगस्स । हाणी कस्स० ? अण्णद० संजमासंजमादो परिपडमाण० पढमसमयबंध० असंजदसम्मादिट्ठि० । चदुसंज० अणंत-भागवट्टी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयसंजदासंजदस्स [संजदस्स] वा । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो संजमासंजमादो वा परिपडमाणपढमसमयअसंजद० वा संजदा-संजदस्स वा । सेसाणं ओधं । णवरि अणंतभागवट्टि-हाणी णत्थि । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खड्ग०-वेदगस०-उवसम० । मणज्व^४० ओधं । णवरि चदुदंस० अणंतभाग-वट्टि-हाणी अत्थि । सेसाणं णत्थि । ताओ वि पगदीओ ओधि० भंगो । एवं संजद-सामाइ०-खेदो०-परिहार०-संजदासंजद० । णवरि एदाणं दोणं अणंतभागवट्टि-हाणी

विशेषता है कि इनमें अवकथ्यपद नहीं है । क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों जाननी चाहिए ।

२७७. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्तिके प्रथम समयमें विद्यमान अन्यतर अपूर्वकरण जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? उतरते समय प्रथम समयमें निद्रा और प्रचलाका बन्ध करनेवाला अन्यतर अपूर्वकरण जीव स्वामी है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? चदुते समय प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? संयमासंयमसे गिरनेवाला और प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर असंयत-सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । चार संज्वलनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? चदुते समय प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव और संयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? संयमसे और संयमासंयमसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भंग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंसे किसीकी भी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानि नहीं है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें ओषके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है तथा शेषकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है । फिर भी इन प्रकृतियोंका भंग अर्वाचिज्ञानी जीवोंमें समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, ज्ञेयोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अन्तके इन दोनों संयमोंमें

१. ता० प्रती 'धुविगाओ । आभिणि०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'लोच्छिण्णा पढमसमयबंधग' इति पाठः । ३. आ० प्रती 'अणतभागवट्टी कस्स०' इति पाठः । ४. ता० प्रती 'उवसमा (म०) मणज्व' इति पाठः ।

णत्थि । एदेण कमेण सामित्तं णेदव्वं ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

कालो

२७८. कालाणुगमेण—दुवि०-ओधे० आदे० । ओधे० सव्वपगदीणं असंखेंजगुण-
वट्टि-हाणिवं० केवचिरं कालादो होदि ? जह० एग०, उक्क० अंतोमुहुत्तं । असंखेंज-
भागवट्टि-हाणि-संखेंजभागवट्टि-हाणि-संखेंजगुणवट्टि-हाणिवंधकालं केवचिरं कालादो
होदि ? जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें० । अवट्टि०बंध० जह० एग०, उक्क०
पवाइज्जेतेण उवदेसेण ँकारससमयं । अण्णेण पुण उवदेसेण पण्णारससमयं । एसिं
कम्मणं अणंतभागवट्टि-हाणी अत्थि तेसिं सव्वेसिं च अवत्त० सव्वत्थ कालो एयसमयं ।
दोण्णं आउगणं चत्तारिवट्टि-हाणि-अवत्त० गाणा०भंगो । अवट्टिदुबंध० केवचिरं
कालादो ? जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं । णवरि
ओरालियमिस्स० देवगदिपंचग० असंखेंजगुणवट्टी केवचिरं कालादो ? जह० उक्क०
अंतोमु० । वेउव्वियमि० सव्वपगदीणं० असंखेंजगुणवट्टिवंधकालो केवचिरं ? जह०

अनन्तभागवट्टि और अनन्तभागहानि नहीं है । इस प्रकार इस क्रमसे स्वामित्व ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

काल

२७८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश । ओधसे सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवट्टि और असंख्यातगुणहानिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवट्टि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवट्टि और संख्यातगुणहानिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार न्यारह समय है और अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय है । जिन कर्मोंकी अनन्तभागवट्टि और अनन्तभागहानि है उनके उन दोनों पदोंका तथा सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका सर्वत्र एक समय काल है । दो आयुओंकी चार वट्टि, चार हानि और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवस्थितबन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवट्टिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवट्टि बन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

१. ता०प्रती 'एवं सामित्तं समत्तं' इति पाठो नास्ति । २ ता०प्रती 'एगमम [वं दोण्णं] आउगणं' इति पाठः ।

एग०, उक्क० अंतोम्ल० । एवं आहारमि० । णवरि एसिं अवत्त० अत्थि तेसिं एयसमयं । कम्मइ०-अणाहारगेसु सव्वपगदीणं असखेंजगुणवड्डी जह० एग०, उक्क० तिणिसमयं । देवगदिपंचग० असखेंजगुणवड्डी जह० एग०, उक्क० वेसमयं । एसिं० अवत्त० अत्थि तेसिं एगसमयं । णवरि अवगद० कोधसंजलणाए अवट्ठिदबंधकालं जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं । सेसाणं अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० ऐंकारससमयं । सुहुमसं० अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं । उवसम० णिहा-पयला-अपच्चक्खान०४ सव्वाओ णाम-पगदीओ जसगिति वज्ज अवट्ठि० जह० उक्क० सत्तसमयं । सेसाणं अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० ऐंकारससमयं । अथवा पणारससमयं ।

एवं कालं समत्तं ।

अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिनका अवक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । तथा इनमें जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोंमें क्रोधसंज्वलनके अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । शेष प्रकृतियोंके अवस्थित-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्यारह समय है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । उपशमसन्त्यग्दृष्टि जीवोंमें निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और यशःकीर्तिको छोड़कर नामकर्मकी सब प्रकृतियों इनके अवस्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल सात समय है । शेष प्रकृतियोंके अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्यारह समय अथवा पन्द्रह समय है ।

विशेषार्थ—यहाँ ओषसे जिस प्रकृतिके जितने पद बतलाये हैं, उनमेंसे प्रत्येक एक समय तक हो और दूसरे समयमें अन्य पद हो, यह सम्भव है, इसलिए सबका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त और असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट काल आबलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । जैसा कि स्वामित्वसे विदित होता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि जिन प्रकृतियोंकी होती हैं, एक समयके लिए ही होती हैं, इसलिए इसके कालके समान उत्कृष्ट काल भी एक समय कहा है । अवस्थितपदके उत्कृष्ट कालके विषयमें दो उपदेश मिलते हैं—एक ग्यारह समयका और दूसरा पन्द्रह समयका, इसलिए यहाँ इन दोनों उपदेशोंका संकलन कर दिया है । उनमेंसे ग्यारह समयवाला उपदेश प्रवर्तमान बतलाया है । और पन्द्रह समयवाले उपदेशको अन्य कहा है । अवक्तव्यपद तो बन्धके प्रथम समयमें ही होता है, इसलिए उसका उत्कृष्ट काल भी एक समय है, यह स्पष्ट ही है । यह ओषप्ररूपणा अनाहारक मार्गणा तक अपने-अपने पदोंके

१. ता० प्रती 'ए० अतो० (?) उ० अतो०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'थे (ए) सिं' इति पाठः ।

३. ता० प्रती 'वज्ज । अवट्ठि०' इति पाठः । ४. ता० प्रती 'एवं काल समत्तं ।' इति पाठो नास्ति ।

अंतरं

२७६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओधे० आदे० । ओधे० पंचणा०-तेजा०-क०-
वण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० दोवट्टि-हाणिवंधंतरं केवचिरं कालादो० ? जह०
एग०, उक्क० अंतो० । दोवट्टि-हाणि-अवट्टिदबंधंतरं केवचिरं ? जह० एग०, उक्क०
सेटीए असखेंज० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोंगल० । थीणागिट्टि०३-
मिच्छ०-अणंताणु०४ असखेंजभागवट्टि-हाणि-असखेंजगुणवट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क०
वेळावट्टि० देसु० । दोवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० पाणा०भंगो । छदंस०-चदुसंज०-

अनुसार सर्वत्र धन जाती है, इसलिये अनाहारक मार्गणातक इसी प्रकार जानना चाहिए-यह कहा है । मात्र जिन मार्गणाओमें कुछ विशेषता है उनमें उसका अलगसे निर्देश किया है । यथा—औद्यारिकमिश्रकाययोगी मार्गणामें अन्य प्रकृतियोंके सम्भव पदोका काल तो ओधके समान धन जाता है, पर देवगतिपञ्चककी मात्र असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, और इस मार्गणाका जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिये इसमें इन पाँच प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें यद्यपि सामान्यसे सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है, पर यह काल परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जानना चाहिए । ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त यहाँ भी है । आहारक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें भी वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है, इसलिये उनमें 'इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए' यह कहा है । इन दोनों मार्गणाओंमें जिनका अवक्त्यपद है, उनके उस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यह स्पष्ट ही है । कर्मणकाययोग और अनाहारक मार्गणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय होनेसे इनमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है । मात्र देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीवोका इन मार्गणाओमें उत्कृष्ट काल दो समय ही प्राप्त होता है, इसलिये यहाँ इनकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । तथा यहाँ जिनका अवक्त्यपद है, उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यह भी स्पष्ट है । इसी प्रकार अन्य मार्गणाओंमें जो विशेषता बतलाई है उसे जानकर घटित कर लेनी चाहिए ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

२७६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश । ओधसे पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कामेशशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके दो वृद्धिवन्ध और दो हानिवन्धका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितबन्धका कितना अन्तर है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रणिके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण है । अवक्त्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । स्थानवृद्धिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो इथासठ सागरप्रमाण है । दो वृद्धि, दो हानि, अवस्थित और अवक्त्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । छह दर्शनावरण, चार संस्वलन, भय और जुगुप्साकी अनन्तभागवृद्धि,

भय-दु० अणंतभागवद्धि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोंगल० । सेसपदा
 पाणा०भंगो । सादासाद०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०दोवद्धि-हाणि० जह० एग०,
 उक्क० अंतो० । मज्झिक्कलाओ वद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असखें० ।
 अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंतो० । अट्टक० अणंतभागवद्धि-हाणि-अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० अद्धपोंगल० । असखेंजगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी
 देस० । दोणिवद्धि-हाणि-अवद्धि० पाणा०भंगो । इत्थि० मिच्छ०भंगो । णवरि अवत्त०
 जह० अंतो०, उक्क० वेळावद्धि० देस० । णउंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूभग-
 दुस्सर-अणादें० दोवद्धि-हाणि० अंतिल्लाओ जह० एग०, उक्क० वेळावद्धिसाग० सादि०
 तिण्णि पलिदो० देस० । मज्झिक्कलाओ दोवद्धि-हाणि-अवद्धि० पाणा०भंगो । अवत्त०
 जह० अंतो०, उक्क० वेळावद्धि० सादि० तिण्णि पलिदो० देस० । पुरिस० अणंत-
 भागवद्धि-हाणि० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोंगल० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क०
 वेळावद्धि० सादि० । सेसाणं साद०भंगो । तिण्णिआउ० वेउव्वियल्लकं चत्तारिवद्धि-चत्तारि
 हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त०^३ जह० अंतो०, उक्क० सव्वाणं अणंतकालं ।

अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, असाता-वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मध्यकी वृद्धि और हानिका तथा अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातत्वे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कपायकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातरुणवृद्धि और असंख्यातरुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित-पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । स्त्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्थासठ सागर है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयकी अन्तकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक छ्थासठ सागरप्रमाण है । मध्यकी दो वृद्धि और दो हानिका तथा अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ्थासठ सागर है । पुरुषवेदकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्थासठ सागरप्रमाण है । शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । तीन आयु और वैक्रियिक षट्ककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका

१. ता०प्रती 'अवत्त० उक्क० अतो०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'अत्थिक्कलाओ' इति पाठः ।
 ३. ता०आ०प्रत्योः 'ज० ए० उ० अवत्त०' इति पाठः ।

तिरिक्खाउ० दोवङ्कि-हाणि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसद-
पुषत्तं । दोण्णिवङ्कि-हाणि-अवङ्कि० जह० एग०, उक्क० सेदीए असंखें० । तिरिक्ख०-
तिरिक्खाणु०-उज्जो० दोवङ्कि-हाणी० जह० एग०, उक्क० तेवङ्किसागरोवमसदं । दोण्णि-
वङ्कि-हाणि-अवङ्कि० साद०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेंजा लोगा ।
णवरि उज्जो० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवङ्किसागरोवमसदं । मणुसग०-मणुसाणु०-
उच्चा० चत्तारिवङ्कि-हाणि-अवङ्कि० जह० एग०, उक्क० असंखेंजा लोगा । अवत्त० जह०
अंतो०, उक्क० असंखेंजा लोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ दोवङ्कि-हाणि० जह०
एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । दोण्णिवङ्कि-हाणि०-
अवङ्काणं णाणाभंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ चत्तारिवङ्कि-हाणि-अवङ्कि०
णाणाभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि०-
ओरालि०अंगो०-वज्जरि० दोवङ्कि-हाणि० अंतिमाओ जह० एग०, उक्क० तिण्णि-
पलिदो० सादि० । दोण्णिवङ्कि-हाणि-अवङ्कि० जह० एग०, उक्क० सेदीए असंखें० ।

जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। निर्यञ्जायुकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है। तथा इसकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। तथा दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्ककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आज्ञापाङ्ग और वर्षर्षभनाराच संहननकी अन्तिम दो वृद्धि, और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्त्य है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। औदारिकशरीरके अवक्तव्य

१ आ०प्रतौ 'उज्जो० जह०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'पंचसागरोवमसद' इति पाठः । ३. आ०प्रतौ 'तस०' चत्तारिवङ्कि' इति पाठः ।

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखे० । ओरालि० अंगो०-वज्जरी० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । आहारदुगं चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपौंगल० । समचदु०-पसत्थ०-सुसग-सुस्सर-आदें० चत्तारिवट्ठि-हाणि-[अवट्ठि०] गाणा० भंगो' । अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० वेत्थावट्ठि० सादि० तिण्णिपलिदो० देसु० । तित्थ० दोवट्ठि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दोण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० [जह०] अंतो०, उक्क० तैत्तीसं० सादि० । णीचा० णवुंसगभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखे० जा लोगा ।

पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । औद्यारिकशरीर आद्रोपाद्म और वज्रपभनाराच संहननके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर माधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुत्वर और आदृषकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका भद्र ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । तीर्थद्वार प्रकृतिकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रका भद्र नपुंसकवेदी जीवाके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

विशेषार्थ—ओघसे पौंच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं । इनका अवक्तव्य बन्धका अन्तर दो चार उपशमश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके इन प्रकृतियोंका अवन्धक होकर और पुनः बन्ध करानेपर ही सम्भव है और इस प्रकार दो चार उपशमश्रेणिपर चढ़कर दो बार अवन्धक होनेके बाद पुनः बन्धक होनेका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा इनकी शेष वृद्धि, हानि और अवस्थितपद एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए तो उनका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । आगे भी सब प्रकृतियोंकी इन वृद्धियों, हानियों और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । अब रहा इन वृद्धियों, हानियों और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर सो इनमेंसे दो वृद्धियों और दो हानियोंकी प्राप्ति यदि अधिकसे अधिक कालमें हो तो वह नियमसे अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है और शेष वृद्धियों, हानियों व अवस्थित पद यदि अधिकसे अधिक कालमें प्राप्त हो, तो उनकी दो बार प्राप्तिके मध्य अधिकसे अधिक जगश्रेणिके असंख्यातके भागप्रमाण कालका अन्तर पड़ सकता है, क्योंकि सब योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातके भागप्रमाण ही होते हैं, अतः इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । स्थानवृद्धिन्निक आदि आठ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर

कुत्र कम दो छ्यासठ सागरप्रमाण होनेसे यहाँ असख्यातभागवृद्धि, असख्यातभागहानि, असख्यातगुणवृद्धि और असख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। मात्र इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए इसके स्वामित्वका विचार कर घटित कर लेना चाहिए। छह दर्शनावरण आदि वारह प्रकृतियोंके स्वामित्वके अनुसार अवक्तव्यपदके समान अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं और अवक्तव्यपदके समान इन दोनों पदोंका भी जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंके इन तीनों पदोंका यह अन्तर काल अपने-अपने स्वामित्वके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरका विचार करके ही घटित करना चाहिए। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय आदि यद्यपि परावर्तमान प्रकृतियों हैं, फिर भी योगन्यानोंके अनुसार इनकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा मध्यकी दो वृद्धियों, दो हानियों और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगत्त्रेणिके असख्यातवे भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके बन्धका एक वार प्रारम्भ होकर व्युच्छित्ति हो जाने पर पुन दूसरी वार बन्धका प्रारम्भ होनेसे कमसे कम और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त लगता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। आठ कषायोंकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जो स्वामी कहा है, उसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण प्राप्त होनेसे इन पदोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इन आठ कषायोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर कुल्ल कम एक पूर्वकोटिप्रमाण बतलाया है, इसलिए यहाँ असख्यातभागवृद्धि, असख्यातभागहानि, असख्यातगुणवृद्धि और असख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। स्त्रीवेदका बन्धान्तर मिथ्यात्वके समान प्राप्त होनेसे इसका भङ्ग मिथ्यात्वके समान कहा है। किन्तु यह परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वके समान नहीं प्राप्त होनेसे उसका निर्देश अलगसे किया है। नपुंसकवेद आदि पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर कुल्ल कम तीन पल्य अधिक दो छ्यासठ सागरप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए इनकी दोनों छोरकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल भी उक्तप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेदकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि का जो स्वामी है, उसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण प्राप्त होनेसे पुरुषवेदके इन दोनों पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा पुरुषवेदका बन्ध साधिक दो छ्यासठ सागर तक निरन्तर होता रहे, यह सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा यह परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसके शेष पदोंका भङ्ग सानावेदनीयके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। तीन आयु आदिका बन्ध अनन्त काल तक न हो, यह सम्भव है। इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चयुका अधिकसे अधिक सौ सागर प्रत्यक्त्व काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी दो वृद्धियों, दो हानियों और अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर जगत्त्रेणिके असख्यातवे भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्चगति आदि तीनका बन्ध एक सौ त्रैसठ सागर काल तक न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका

२८०. गिरएसु धुविगाणं असंखेजभागवद्धि-हाणि-असंखेजगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक० अंतो० । दोणिणवद्धि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक० तैत्तीसं० देसु० । एसि अणंतभागवद्धि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक० तैत्तीसं० देसु० । एवं

उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । तिर्यश्चगतिद्विकका अत्रिकायिक और वायुकायिक जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । पर यह बात उद्योतके विषयमे नहीं है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर इसकी दो वृद्धियों और दो हानियोंके उत्कृष्ट अन्तरके समान एक सौ त्रेसठ सागर कहा है । इन तीनों प्रकृतियोंका शेष भङ्ग सातावेदनीयके समान है, यह स्पष्ट ही है । अत्रिकायिक और वायुकायिक जीव मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । चार जाति आदिका एक सौ पचासी सागर प्रमाण काल तक बन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । तथा इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । पञ्चोद्भियजाति आदिका निरन्तर बन्ध एक सौ पचासी सागर तक होता रहे, यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । औदारिकशरीर आदि तीन प्रकृतियोंका साधिक तीन पत्य तक बन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो छोर की दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनकी दो वृद्धियों, दो हानियों और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवै भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । तथा औदारिक शरीरका अनन्त काल तक निरन्तर बन्ध होता रहे, यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । और औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग व वज्रर्षभ नाराचसंहननका साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इन दोनोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । आहारकद्विकका कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक बन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । समचतुरस्रसंस्थान आदिका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक तेतीस सागर काल सम्भव है, इसलिए इसमें मय्यकी दो वृद्धियों, दो हानियों, अवस्थित और अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है, यह स्पष्ट ही है । नीचगोत्रका अत्रिकायिक और वायुकायिक जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । इसके शेष पदोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है, यह स्पष्ट ही है ।

२८०. नारकियोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर

एदेण वीजेण भुजगारभंगो कादव्वो । णवरि असंखेँजभागवड्डि-हाणि० असंखेँजगुणवड्डि-हाणि० भुजगार-अप्पदरभंगो कादव्वो । दोण्णिवड्डि-हाणि०-अवड्डिदस्स अवड्डिदंतरं कादव्वं । एसि अणंतभागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसि पगदिअंतरं कादव्वं । एवं सव्वणोरइगाणं ।

२८१. तिरिक्खेसु सव्वपगदी० भुजगारभंगो । णवरि एसि पगदीणं अणंतभाग-वड्डि-हाणि० अत्थि तेसि जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोंगल० । असंखेँज [भागवड्डि-हाणि० असंखेँज] गुणवड्डि-हाणि० भुजगार-अप्पदरं कादव्वं । दोण्णिवड्डि-हाणि०-अवड्डि०

है । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागवड्डि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारपद और अल्पतरपदके समान करना चाहिए । तथा दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका अन्तर काल भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए । जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनका प्रकृतिबन्धके समान अन्तर काल करना चाहिए । इसी प्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नारकियोकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है, इसलिए इनमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी मध्यकी दो हानि, दो वृद्धि तथा अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । इन प्रकृतियोंका शेष भङ्ग सुगम है । यहाँ छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि सम्यक्त्व प्राप्तिके प्रथम समयमें होती है । तथा इनकी अनन्त-भागहानि गिरते समय मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें होती है । यतः यह अवस्था दो बार कमसे कम अन्तमुहूर्त कालके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । यहाँ इनके शेष पदोंका तथा शेष प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग भुजगारके समान जाननेकी सूचना करके भी यहाँके किस पदका अन्तर काल भुजगारके किस पदके समान है, इसका स्पष्ट निर्देश मूलमें ही कर दिया है । तात्पर्य यह है कि इन प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारके भुजगार और अल्पतर पदके समान है, इसलिए उसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । तथा संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात-गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि तथा अवस्थितपदका अन्तर काल भुजगारके अवस्थित पदके समान होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । सम्यग्दृष्टिके जिन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, उनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है, इसलिए विशेष ज्ञान करानेके लिए मूलमें यह कहा है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं होती उनमें प्रकृतिबन्धके समान अन्तर काल जान लेना चाहिए । इसी प्रकार अपनी-अपनी भवस्थितिको जानकर प्रथमादि सब नरकोमे वहाँ बँधनेवाली प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तर काल ले आना चाहिए ।

२८१. तिर्यञ्चोमे सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल भुजगार और अल्पतरके समान करना चाहिए । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित पदका अन्तरकाल

भुजगारववृद्धिदंतरं कादव्वं । अवत्त० भुजगारववत्तव्वं तरं कादव्वं ।

२८२. सव्वपंचिदियतिरिक्खेसु सव्वपगदीणं भुजगार० भंगो । णवरि एसि अणंतभागवद्धि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडि-पुघत्तं० । असंखेंजगुणवद्धि-हाणि० भुजगार-अप्पदरं कादव्वं । तिण्णिवद्धि-हाणि० अवद्धिदस्स अवद्धिदंतरं कादव्वं । एसि अवत्तव्वं अत्थि तेसिं अवत्तव्वंतरं कादव्वं ।

२८३. सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वपगदीणं चत्तारिवद्धि - हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एसि अवत्त० अत्थि तेसिं जह० उक्क० अंतो० ।

२८४. मणुसेसु सव्वपगदीणं भुजगारभंगो कादव्वो । णवरि विसेसो अणंत-भागवद्धि-हाणि० छदंस०-चारसक०-सत्तणोक्क० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलि०

भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए । तथा अवक्तव्य पदका अन्तर भुजगारके अवक्तव्य पदके अन्तरकालके समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमें यह दर्शनावरण, चारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्त-भागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है । तथा तिर्यञ्चोकी कायस्थिति अनन्त काल है, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके उक्त पदोका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थ-पुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो जानेसे उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८२. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है । इतनी विशेषता है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके उन पदोका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । असंख्यातरुणवृद्धि और असंख्यातरुणहानिका अन्तरकाल भुजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका अन्तरकाल भुजगारके अवस्थित पदके समान करना चाहिए । तथा जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद है, उनके उस पदका अन्तरकाल भुजगारके अवक्तव्य के समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसलिए इनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२८३. सब अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्य-पद है उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति ही अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे उक्तप्रमाण कहा है । तथा अवक्तव्य पदका सर्वत्र जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं बनता; इसलिए यहाँ जिन प्रकृतियोंका यह पद सम्भव है, उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

२८४. मनुष्योंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह दर्शनावरण, चारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त भागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन

पुव्वकोटिपुथ० । सेसाणं असंखेंजगुणवड्ढि-हाणि० भुज०-अप्प०अंतरभंगो । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० अवड्ढिदंतरं कादव्वं । अवत्त० अवत्तव्वं-तरं कादव्वं ।

२८५. देवेसुं भुजगारभंगो । णवरि एसिं अणंतभागवड्ढि-हाणि० अत्थि तेसिं पगदीणं अंतरं कादव्वं । असंखेंजगुणवड्ढि-हाणि० भुजगार-अप्पदरंतरं कादव्वं । सेसाणं अवड्ढिदभंगो कादव्वो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं कादव्वं ।

२८६. सव्वएइंदिय-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं भुजगारभंगो कादव्वो । पंचिदि०-तस०२ सव्वपगदीणं भुजगारभंगो । णवरि एसिं अणंतभागवड्ढि-हाणि० अत्थि तेसिं अंतरं सगड्ढिदि० कादव्वं । असंखेंजगुणवड्ढि-हाणि० भुज०-अप्पदरंतरं कादव्वं । तिण्णि वड्ढि-हाणि-अवड्ढिदस्स अवड्ढिदंतरं कादव्वं । सव्वपगदीणं अवत्त० अप्पप्पणो भुजगार-अवत्त०भंगो कादव्वो ।

पल्य है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर भुजगारके अल्पतरके समान है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका अन्तर भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान है । तथा अवक्तव्यपदका अन्तर भुजगारके अवक्तव्यके समान है ।

विशेषार्थ—मनुष्योंकी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसलिए इनमें छह दर्शनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्त-मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य बन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८५ देवोंमें भुजगारके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान कर लेना चाहिए । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर भुजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए । तथा शेष पदोंका भुजगारके अवस्थितके समान अन्तर करना चाहिए । इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना अन्तर करना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें उत्कृष्ट भवस्थिति तेतीस सागर है, इसलिए इनमें जिनकी अनन्तभाग-वृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है । शेष कथन सुगम है ।

२८६. सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानि है, उनका अन्तर अपनी-अपनी स्थितिके अनुसार करना चाहिए । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भुजगारके अल्पतरके समान अन्तर कर लेना चाहिए । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितका अवस्थितके समान अन्तर कर लेना चाहिए । तथा सब प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका अपने-अपने भुजगारके अवक्तव्यके समान अन्तर कर लेना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियोंकी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । तथा त्रसकायिक जीवोंकी

२८७. पंचपण०-पंचवचि० पंचणा० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं धीणगि०२-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-चदुआउ० सन्वाओ णामपगदीओ गोद-पंचंतरं । णवरि दोवेदणीयादिपरियत्त-माणिगाणं भुजगारभंगो कादन्वो । छदंस०-वारसक०-सत्तणोक्क० एवं चेव । णवरि अणंतभागवड्डि-हाणि० णत्थि अंतरं ।

२८८. कायजोगीसु पंचणा० असंखेंजगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेठीए असंखेंजदिभा० । अवत्त० णत्थि अंतरं । धीणगिदि०२-मिच्छ०-अणंताणु०४-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि-पंचंत० णाणा०भंगो । छदंस०-वारसक०-भय-दु० णाणा०भंगो । णवरि

कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर और त्रसकाधिक पर्याप्त जीवोंकी कायस्थिति दो हजार सागर प्रमाण है । यहाँ इस कायस्थितिका विचार कर यथायोग्य अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

२८९. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरणकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवक्तव्यपदका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तालुवन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार आयु, नामकर्मकी सब प्रकृतियों, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तर-काल नहीं है ।

विशेषार्थ—इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । यहाँ मूलमे जो यह कहा है कि वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए सो उसका अभिप्राय इतना ही है कि भुजगार-वन्धमे इनके अवक्तव्यवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर जो अन्तमुहूर्त कहा है वह यहाँ इनके अवक्तव्यवन्धका जानना चाहिए । तथा यहाँ छह दर्शनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके निषेधका यह कारण है कि इन मार्गणाओंका काल अल्प होनेसे इनमें उक्त प्रकृतियोंका अन्तर देकर दो बार अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

२९०. काययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगभ्रैणिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तालुवन्धीचतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका

अणंतभागवद्धि-हाणि० णत्थि अंतरं । दोवेदणी०-इत्थि०-णवुंस०-पंचजादि-
 छस्संठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-पर० - उस्सा० - आदाउज्जो[दोविहा०-] तस-
 थावरादिसयुगल[णीचा०] णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० ।
 पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० एवं चेव । णवरि अणंतभागवद्धि-हाणि० णत्थि अंतरं ।
 दोआउ० वेउच्चियल्लकं आहारदुगं तित्थि० चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह०
 एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । तिरिक्खाउ० असंखेँज्जगुणवद्धि-हाणि
 जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वावीसं वाससहस्साणि सादि० । तिण्णि
 वद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेँ । मणुसाउ० चत्तारिवद्धि-
 हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त० [जह०] अंतो०, उक्क० अणंतकालं । तिरिक्ख-
 तिरिक्खाणु०-णीचा० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेँजा
 लोगा । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त०
 जह० अंतो०, उक्क० असंखेँजा लोगा ।

भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभाग-
 हानिका अन्तर काल नहीं है । दो वेदनीय, खीवेद, नपुंसकवेद, पाँच जाति, छह संस्थान,
 औदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-
 स्थावर आदि दस युगल और नीचगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है
 कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति
 और शोकका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-
 भागहानिका अन्तर काल नहीं है । दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी
 चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
 अन्तमुहूर्त है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चायुकी असंख्यातगुणवृद्धि
 और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त
 है और इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अव-
 स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण
 है । मनुष्यायुकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है,
 अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तिर्यञ्ज
 गति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है
 कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक-
 प्रमाण है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका
 जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट
 अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

विशेषार्थ—काययोगका उत्कृष्ट काल अनन्तकाल है, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें सामान्यसे
 काययोग ही पाया जाता है, इसलिए इसमें पाँच ज्ञानावरणके विवक्षित पदोंका उत्कृष्ट अन्तर-
 काल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, अतः यह उक्त

२८६. ओरालियका० पंचणाणावरणादीणं असंखैजगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिणिणवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० वावीसं वास-सहस्साणि देख्ठ० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-

कालप्रमाण कहा है । काययोगमे एक वार इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेके बाद पुनः उसके प्राप्त करनेमे कमसे कम भी जितना काल लगता है उस कालके भीतर यह योग बदल जाता है, इसलिए इसमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है । स्थानगृद्धिन्निक आदिके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमे कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इसे ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । तथा छह दर्शनावरण आदिका भङ्ग भी ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । मात्र इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है । पर इनके उक्त पदोंका यहाँ अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके अन्तरकालमें जितना समय लगता है उस कालके भीतर काययोग बदल जाता है । दो वेदनीय आदि प्रकृतियोंका अन्य भङ्ग तो ज्ञानावरणके ही समान है । मात्र यहाँ इनके अवक्तव्यपदका अन्तर काल बन जाता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है । यतः ये सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । पुरुषवेद आदिका सब भङ्ग सातावेदनीयके समान है, इसलिए उसे सातावेदनीयके समान जाननेकी सूचना की है । परन्तु इन पाँच प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है । पर इनका इस योगमें अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । कारणका निर्देश पहले कर आये है । नरकायु, देवायु और वैकृतिकपट्ट आदिका बन्ध पञ्चन्द्रिय जीव ही करते हैं और इनमे काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यके सिवा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ यद्यपि इनका अवक्तव्यपद होता है, पर एक वार इनका बन्ध प्रारम्भ होकर बन्धव्युच्छित्तिके बाद पुनः इनका बन्ध प्रारम्भ होनेमे कमसे-कम जितना काल लगता है उसमे यह योग बदल जाता है, अतः यहाँ इनके अवक्तव्य पदके अन्तरकालका निषेध किया है । काययोग चालू रहते हुए तिर्यश्चायुका दो वार बन्ध होनेमे साधिक बाईस हजार वर्षका उत्कृष्ट अन्तर पड़ता है, इसलिए इसके विचक्षित पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है । तथा इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवत् भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि लगातार यदि कोई जीव तिर्यश्च होता रहे तो वह तिर्यश्चायुका बन्ध करते समय अधिकसे-अधिक इतने कालतक उक्त पद न करे, यह सम्भव है । मनुष्यायुका तिर्यश्च अनन्त कालतक बन्ध न करे, यह सम्भव है, इसलिए इसके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । अग्निकायिक और वायु-कायिक जीव तिर्यश्चगतिद्विक और नीचगोत्रका उत्कृष्टसे असंख्यात लोकप्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है । इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । तथा अग्निकायिक और वायुकायिक जीव मनुष्यगतिद्विकका बन्ध नहीं करते, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर-काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८६. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात-गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार स्थानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्ताणु-

ओरो०-तेजा०-क०-वृण्ण०४-अशु०-उप०-णिमि०-पंचंत । छदंसं० वारसक० - भय - दु० एवं चैव । णवरि अणंतभागवड्डि-हाणीणं णत्थि अंतरं । दोवेदणी०-इत्थि०-णत्तुंस०-दोगदि-पंचजादि-छस्संठा०-ओरो०-अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-धावरादिदसयुग०-दोगोद० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । पंचणोक० एवं चैव । णवरि अणंतभागवड्डि-हाणीणं णत्थि अंतरं । दोआउ०-वेउन्वियल्ल०-आहारदुगं तित्थि० मणजोगिभंगो । दोआउ० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सच्चपदाणं सत्तवाससहस्साणि सादि० ।

वन्धी चतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अशुस्लधु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका सब पदोंकी अपेक्षा अन्तरकाल जानना चाहिए । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तरकाल नहीं है । दो वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आतुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल और दो गोत्रका भङ्ग ज्ञानावरण के समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पाँच नोकषायका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभाग वृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तरकाल नहीं है । दो आयु, वैक्रियिकपट्क, आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । दो आयुको चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है । यहाँ असंख्यातरगुणवृद्धि आदि पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और शेषका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वर्षप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका यहाँ अवक्तव्यपद तो सम्भव है, पर दूसरी बार इस पदके प्राप्त होनेके पहले यह योग बदल जाता है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके इस पदके अन्तरकालका निषेध किया है । आगे दूसरे दण्डकमें कही गई स्थानवृद्धित्रिक आदिके सब पदोंका भङ्ग इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे इसीके समान जाननेकी सूचना की है । तीसरे दण्डकमें कही गई छह दर्शनावरण आदिका और चौथे दण्डकमें कही गई दो वेदनीय आदिका भङ्ग भी इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे पाँच ज्ञानावरणके समान ही जाननेकी सूचना की है । साथ ही इन दो दण्डकमें जो विशेषता है, उसका अलगसे निर्देश किया है । बात यह है कि छह दर्शनावरण आदिका यहाँ अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है पर उनका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि पञ्चेन्द्रियोंमें इनके अन्तरकालकी अपेक्षा इस योगका काल छोटा है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका निर्देश करके उनके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे उनके अवक्तव्यपदके साथ उसका अन्तरकाल भी सम्भव है, इसलिए इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया है । पाँच नोकषायका अन्य सब भङ्ग तो दो वेदनीय आदिके समान बन जाता है,

१. ता०प्रतौ 'अणताणु०४ । ओरो०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'पंचंत० छदसं०' इति पाठः ।

३. आ०प्रतौ 'वारसक० एव' इति पाठः ।

२६०. ओरालियमि० धुविगाणं चत्तारिवट्टिहाणि-अवट्टि० जह० [एग०], उक्क० अंतो० । सेसाणं चत्तारिवट्टिहाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । देवगदिपंचग० असंखेज्जगुणवट्टी० णत्थि अंतरं ।

२६१. वेउन्विय०-आहारका० मणजोगिभंगो । वेउन्वियमि० धुविगाणं असंखेज्जगुणवट्टी० णत्थि अंतरं । सेसाणं पि असंखेज्जगुणवट्टीणं णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवरि मिच्छ० अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० । णवरि एदाणं अवत्त० णत्थि अंतरं ।

क्योंकि ये भी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए उन्हें दो वेदनीय आदिके समान जाननेकी सूचना की है । पर इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है, पर अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया है । नरकायु, देवायु और वैक्रियिकपदक आदिका बन्ध पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं और उनके इस योगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । तिर्यश्चायु और मनुष्यायुका बन्ध एकेन्द्रिय जीव भी करते हैं और उनके इस योगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है, इसलिए उत्कृष्ट त्रिभागाका ख्यालकर यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधक सात हजार वर्ष कहा है ।

२६०. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—जिन औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है उनके इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए यहाँ इसके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

२६१. वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंकी भी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—पर्याप्त योगोंको छोड़कर शेष योगोंमें उत्तरोत्तर वृद्धिगत योगस्थान होता है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक मात्र असंख्यातगुणवृद्धि होनेसे उसके अन्तरकालका निषेध किया है । पर जो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल केवल वैक्रियिकमिश्रकाययोगीमें ही बनता है, इसलिए वहाँ उनका विधान कर अन्यत्र निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

२६२. इत्थिवेदगेषु पंचणा० असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं । एवं पंचंत० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०-४ असंखेज्ज[गुण]वद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसु० । तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्ठिदी० । णिहा-पयला-भय-दुगुं० णाणा०भंगो । णवरि अणंत-भागवद्धि-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० कायट्ठिदी० । अवत्त० णत्थि अंतरं । चदुदंस०-चदुसंज० एवं चेव । णवरि अवत्त० णत्थि । दोवेदणी०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अट्ठकसा० असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडि० देसुणं । सेसाणं थीणगिद्धिभंगो । णवरि अणंत-भागवद्धि-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० कायट्ठिदी० । इत्थि०-णत्तंस० असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसु० । तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसु० । तिरिक्ख०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउजो०-अप्पसत्थ०-

२६२. स्त्रीवेदवाले जीवोमे पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्यप्रथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार पाँच अन्तरायके विषयमें जानना चाहिए । स्थानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानु-बन्धीचतुष्क्री असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । निद्रा, प्रचला, भय और जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । चार दर्शनावरण और चार संवलनका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है । दो वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । शेष पदोंका भङ्ग स्थानगृद्धिके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर काय-स्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । तिर्यग्गतति, एकैन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत,

१. आ०प्रतौ, असंखेज्ज वद्धि हाणि' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अट्ठकस (सा०) असंखेज्जगुणवद्धि हाणि०' आ०प्रतौ 'अट्ठकसा० संखेज्जगुणवद्धि-हाणि' इति पाठः ।

धावर-दूमग-दुस्सर-अणादें०-णीचा० इत्थि०भंगो । पुरिस० णिहाए भंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देख्ठो । एवं हस्सरदि-अरदि-सोगाणं । णवरि अवत्त० साद०भंगो । णिरयाउ० चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० पगादि-अंतरं कादव्वं । [दो] आउ० चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्ठिदी० । देवाउ० असंखेंजगुणवट्ठि-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्ठावण्णं पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तं । तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । दोगादि-तिण्णिजादि-वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-दोआणु०-सुहुम०-अपजत्त-साधारणं असंखेंजगुणवट्ठि-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० । तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सगट्ठिदी० । मणुसगादि०४ असंखेंजगुणवट्ठि-हाणी० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० देख्ठो । तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देख्ठो । एवं ओरालि० । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० । पंचिदि०-समचदु०-पसत्थि०-तस-सुमग-सुस्सर-

अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भंग, दुःस्वर, अनाद्येय और नीचगोत्रका भङ्ग स्वीचेदके समान है । पुरुषवेदका भङ्ग निद्राके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पल्य है । इसी प्रकार हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग साता-वेदनीयके समान है । नरकायुकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका प्रकृति-बन्धके समान अन्तरकाल कहना चाहिए । दो आयुकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । देवायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक अट्ठावन पल्य है । तथा इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । दो गति, तीन जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । मनुष्यगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पल्य है । इसी प्रकार औदारिकशरीरका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, व्रस,

आदें०-उच्चा० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० मणुसगदिभंगो । आहारदुगं चत्तारिवड्डि-
हाणि-अवड्डि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायड्डिदी० । पर०-उस्सा०-
बादर-पज्ज०-पत्तेय० असंखेंज्जगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्डि-
हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सगड्डिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं
पलिदो० सादिरे० । तित्थ० असंखेंज्जगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देस्स० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।
[ध्रुवियाणं सेसाणं भुजगारभंगो ।]

सुभग,सुस्वर,आदेय और उच्चगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अव-
क्तन्यपदका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । आहारकद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित-
पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येककी असंख्यात-
गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।
तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी
स्थितिप्रमाण है । अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरसाधिक
पचपन पत्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवक्तन्य-
पदका अन्तरकाल नहीं है । ध्रुवबन्धवाली शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पत्यपृथक्त्व प्रमाण है, इसलिए यहाँ
पाँच ज्ञानावरणके विवक्षित पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । पाँच अन्तराओंका
भङ्ग पाँच ज्ञानावरणके समान बन जाता है, इसलिए उनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा
है । स्त्रीवेदी जीवोंमें स्थानगृह्णित्रिक आदिका कुछ कम पचपन पत्य तक बन्ध न हो, यह सम्भव
है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि आदि दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त
कालप्रमाण कहा है । तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है ।
निद्रादिक चार प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह भी स्पष्ट ही है । मात्र इनकी यहाँ
अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके साथ उनका अन्तरकाल भी सम्भव है, इसलिए उसका
अलगसे उल्लेख किया है । स्त्रीवेदी जीवके अन्तर्मुहूर्त कालमें दो बार सम्यक्त्वपूर्वक मिथ्यात्वकी
प्राप्ति सम्भव है, इसलिए तो यहाँ उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है और यह विधि
कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो, यह भी सम्भव है, इसलिए इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर
कायस्थितिप्रमाण कहा है । निद्रादिकका अवक्तन्यपद उतरते समय आठवे गुणस्थानमें सम्भव है,
पर स्त्रीवेदी जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ते समय नौवे गुणस्थानमें अपगतवेदी हो जाता है, इसलिए
स्त्रीवेदके रहते हुए उपशमश्रेणिका चढ़ना और उतरना सम्भव न होनेसे यहाँ इनके अवक्तन्यपदके
अन्तरकालका निषेध किया है । चार दर्शनावरण और चार संवलनका अन्य सब भङ्ग निद्रादिक
के समान बन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन आठ प्रकृतियोंका
अवक्तन्यपद उपशमश्रेणिसे उतरते समय दसवे गुणस्थानमें होता है ; पर ऐसा जीव स्त्रीवेदी नहीं
होता, इसलिए यहाँ इनके अवक्तन्यपदका निषेध किया है । दो वेदनीय आदिका अन्य सब भङ्ग
ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । पर परावर्तमान प्रकृतियों होनेसे यहाँ इनका अवक्तन्यपद

और उसका अन्तरकाल सम्भव है, इसलिए उसे अलगसे कहा है। आठ कपायोंका यहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक बन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग स्थान-गुद्धिके समान है, यह स्पष्ट ही है। पर यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये दो पद तथा उनका अन्तरकाल सम्भव होनेसे इसका अलगसे उल्लेख किया है। इनके उक्त दोनों पदोंके अन्तरकालका खुलासा निद्रादिकके इन्हीं पदोंके अन्तरकालके समान कर लेना चाहिए। स्वामित्वकी विशेषता अलगसे जान लेनी चाहिए। सम्यग्दृष्टिके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य कहा है। इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। सम्यग्दृष्टि जीवके तिर्यञ्जगति आदिका भी बन्ध नहीं होता, इसलिए इनका भङ्ग स्त्रीवेदके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। पुरुषवेदका अन्य सब भङ्ग निद्राके समान बन जाता है, पर इसके अवक्तव्यपदका यहाँ अन्तरकाल सम्भव होनेसे उसका अलगसे उल्लेख किया है। पुरुषवेदके इस पदके अन्तरकालका खुलासा स्पष्ट ही है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके एकमात्र पुरुषवेदका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य कहा है। हास्य आदि चार प्रकृतियोंका अन्य सब भङ्ग तो पुरुषवेदके ही समान है, फरक केवल अवक्तव्य पदके अन्तरकालमें है। बात यह है कि एक तो ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं और दूसरे सम्यग्दृष्टिके भी इनका बन्ध होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग सातावेदनीयके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। नरकायुकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका प्रकृतिबन्धके समान अन्तर करना चाहिए, यह सामान्य कथन है। विशेषरूपसे इसकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके उत्कृष्ट अन्तरके समान है। तिर्यञ्जायु और मनुष्यायुके सब पद कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। अट्टावन पत्य और पूर्वकोटिप्रयवत्त्वके आदिमें और अन्तमें देवायुका बन्ध हो यह सम्भव है, क्योंकि जो जीव पचपन पत्यकी देवायु बौधकर देवियोंमें उत्पन्न होता है। पुनः वहाँसे न्युत होकर और पूर्वकोटिप्रयवत्त्व अधिक तीन पत्यके अन्तमें पुनः देवायुका बन्ध करता है, उसके दो वार देवायुका बन्ध होनेमें उक्त कालप्रमाण अन्तर प्राप्त होता है, इसलिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त-कालप्रमाण कहा है। तथा शेष पद कायस्थितिके आदिमें और मध्यमें देवायुका बन्ध करते समय हों और मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। स्त्रीवेदी जीवोंके दो गति आदि प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक साधिक पचपन पत्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य कहा है। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर काय-स्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। स्त्रीवेदी जीवोंके मनुष्यगति आदिका अधिकसे अधिक कुछ कम तीन पत्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनका देवियोंमें सम्यक्त्वदर्शामे कुछ कम पचपन पत्य तक निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इस कालके आगे पीछे अवक्तव्यपद करनेसे अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य कहा है। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। औदारिकशरीरका भङ्ग इसी प्रकार है। मात्र देवीके

२६३. पुरिसेसु पंचणा० असंखेज्जगुणवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसदपुध० । एवं पंचंत० । शीणगिड्ढि० ३-मिच्छ०-अणंताणु० ४ एकवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० वेखावड्डि० देसू० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगड्डिदी० । णिहा-पयला० अणंतभागवड्डि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगड्डिदी० । सेसपदा० आभिणि० भंगो । एवं भय-दु० । चहुदंस०-चहुसंज० एवं चेव । णवरि अवत्त० णत्थि ।

इस प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य कहा है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है । पर इनका यहाँ अवक्तव्यपद सम्भव है जो कि मनुष्यगतिके समान प्राप्त होता है, इसलिए उसका भङ्ग मनुष्यगतिके समान जाननेकी सूचना की है । आहारकद्रिकके सब पद कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हों, यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है । परधात आदि ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं और इनका मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि सबके बन्ध सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा सम्यग्दृष्टिके इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है और आगे पीछे भी इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य कहा है । इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । तीर्थङ्कर-प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ होनेपर उसकी अवन्धक दशा इतनी नहीं प्राप्त होती जिससे उसकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक बन सके, अतः इसके इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा स्त्रीवेदी जीवोंमें कुछ कम एक पूर्व-कोटि कालतक ही इसका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदके सिवा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कालप्रमाण कहा है । उपशमश्रेणियों नौवेंके आगे जीवके स्त्रीवेद नहीं रहता, अतः स्त्रीवेदी जीवके इसका अवक्तव्यपद होकर भी उसका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है ।

२६३. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और वचन्यितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौसागरपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार पाँच अन्तरायका भङ्ग जानना चाहिए । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्करी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो द्वायासठ सागर है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । निद्रा और प्रचलाकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । शेष पदोंका भङ्ग आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार भय और जुगुप्साका भङ्ग समझना चाहिए । चार दर्शनावरण

१. वा०आ०प्रत्योः अवत्त० णत्थि अंतरं इत्यतः पश्चात् पुरिसेसु इव. प्राक् 'पुरिसेसु पचणाणा० असंखेज्जगुणवड्डिहाणि० ज० ए० उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्डिहाणिअवड्डि० ज० ए० उ० सगड्डिदी० अवत्त० ज० अंतो० उ० पयत्तणं पडि० साटि० । तित्थं असंखेज्जगुणवड्डिहाणि ज० ए० उ० अंतो० । तिण्णिवड्डि-हाणियवड्डि० ज० ए० उ० पुब्बकोटिदे० अवत्त० णत्थि अंतरं । इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते ।

दोवेदणी०-थिरादितिणियुग० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अट्टक० ओघं । णवरि सगट्टिदी० । इत्थि० थीणगिद्धिभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेत्थावट्टि० देह्म० । एदेण कमेण भुजगारभंगो सव्वाणं । णवरि असंखेज्ज-गुणवट्टि-हाणी० [भुज०-अप्पदरभंगो । तिणिवट्टि-तिणिहाणि-अवट्टिद०] अवट्टि० दभंगो । अवत्त० अप्पप्पणो अवत्त०भंगो ।

और चार संज्वलनका भङ्ग भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है। दो वेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आठ कपायोका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। खीवेदका भङ्ग त्त्यानगृद्धिके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है। इस क्रमसे सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारपदके समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारके अल्पतरपदके समान करना चाहिये। तीन वृद्धि, तीन हानि, और अवस्थितपदका भङ्ग भुजगारके अवस्थितपदके समान करना चाहिए। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग अपने-अपने अवक्तव्यपदके समान करना चाहिए।

विशेषार्थ—एक तो पाँच ज्ञानावरण ध्रुवबन्धिनो प्रकृतियों हैं। दूसरे पुरुषवेदी जीवकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है; इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण कहा है। पाँच अन्तरायका भङ्ग इसी प्रकार है; इसलिए उसे पाँच ज्ञाना-वरणके समान जाननेकी सूचना की है। पुरुषवेदी जीवके कुछ कम दो छयासठ सागर काल तक त्त्यानगृद्धिक आदिका बन्धन न करे, यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। निद्रादिककी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणहानि और अवक्तव्यपद अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे ही, यह भी सम्भव है और अपनी कायस्थितिके अन्तरसे ही, यह भी सम्भव है; इसलिए इनके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। तथा इनके शेष पदोंका भङ्ग आभिनिवोधिकज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। निद्रादिकके समान भय और जुगुप्साका भी भङ्ग होता है; इसलिए इसे निद्रादिकके समान जाननेकी सूचना की है। चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका अन्य सब भङ्ग तो निद्रादिकके ही समान है। मात्र इन प्रकृतियोंका पुरुषवेदी जीवके अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है; क्योंकि निद्रादिक, भय और जुगुप्साकी बन्धव्युच्छित्ति अपूर्वकरणमें होती है; इसलिए इन जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे चतरते समय कराके और पुनः अन्तर्मुहूर्तमें उपशमश्रेणिपर चढ़ाकर अपूर्वकरणमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद मरण कराकर देवोंमें उत्पन्न होनेपर पुनः अवक्तव्यबन्धन करानेसे यहाँ इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद भी बन जाता है और उसका अन्तर काल भी घटित हो जाता है। यह क्रिया यदि अन्तर्मुहूर्तके भीतर करते हैं तो अन्तर्मुहूर्त अन्तर काल आ जाता है और कायस्थितिके प्रारम्भमें एक बार अवक्तव्यपद तथा कायस्थितिके अन्तमें दूसरी बार अवक्तव्यपद करानेसे कायस्थितिप्रमाण अन्तरकाल आ जाता है। पर चार दर्शनावरण और चार संज्वलनकी बन्धव्युच्छित्ति अपगतावेदी होनेपर होती है; इसलिए पुरुषवेदीके उनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। दो वेदनीय आदि

२६४. णवुंसगवेदेसु सव्वपगदीणं भुजगारभंगो । कोघादि०४- मदि-सुद-विभंग०
भुजगारभंगो ।

२६५. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणाणा० - णिहा-पयला-पुरिस०-भय-दुगुं०-
पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थवि०-त्स०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-
णिमि०-उच्च०-पंचंत० असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णि-
वड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छावड्ढिसाग० सादि० ।

सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। आठ कपायोका भङ्ग ओषके समान यहाँ बन जाता है, पर अपनी कायस्थिति कालतक ही पुरुषवेद रहता है, इसलिए जिन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पुरुषवेदकी कायस्थितिसे अधिक कहा है वह पुरुषवेदकी कायस्थितिप्रमाण है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए उसकी अलगसे सूचना की है। पुरुषवेदी जीवके स्त्रीवेदका बन्ध कुछ कम दो छयासठ सागर कालतक न हो, यह सम्भव है, क्योंकि इसके बाद यदि जीव मिथ्यात्वमे आता है तां उसका बन्ध नियमसे होने लगता है, इसलिए यहाँ अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदका शेष भङ्ग स्त्यानगुद्धित्रिकके समान है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ तक कुछ प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अलग-अलग अन्तरकाल कहा है। इनके सिवा जो प्रकृतियों रह जाती हैं, उनका अन्तरकाल भुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ भी घटित हो जाता है। मात्र यहाँ सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगार और अल्पतरपदके समान प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी प्रकृतिका बन्ध होनेपर जैसे उसके भुजगार और अल्पतरका नियम है, उसी प्रकार असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भी नियम है। तथा जिस प्रकार भुजगारके अवस्थितपदका नियम है, उसी प्रकार यहाँ तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका नियम है। तथा जिस प्रकार भुजगारके अवक्तव्यपदका नियम है, उसी प्रकार यहाँ भी अवक्तव्यपदका नियम है, इसलिए यहाँ अनुयोगद्वारके समान जाननेकी सूचना करके इन विशेषताओंका अलगसे उल्लेख किया है।

२६४. नपुंसकवेदी जीवोंमे सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है। क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमे भुजगारके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—पूर्व पुरुषवेदी जीवोंमे असंख्यातगुणवृद्धि आदि किन पदोंका भुजगार अनुयोगद्वारके किन पदोंके साथ साम्य है, इस बातको जानकर यहाँ सब प्रकृतियोंका इन मार्ग-गायोंमे कहे गये भुजगार अनुयोगद्वारके समान अन्तरकाल घटित हो जाता है, इसलिए उसे भुजगारके समान जाननेकी सूचना की है।

२६५. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, निद्रा, प्रचला, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र-सस्थान, वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उषगोत्र और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है

१. ता०प्रती 'णवुंसके (ग) वेदेसु' इति पाठः ।

चदुदंस०-चदुसंज० णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छावट्ठि० सादि० । साद०दंडओ णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अपच्चक्खाण०४ एकवड्ढि-हाणी० ओघं । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० णाणा०-भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेंतीसं० सादि० । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० छावट्ठिसाग० सादि० । मणुसाउ० असंखेंज्ज-गुणवड्ढि-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेंतीसं० सादि० । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० छावट्ठि० सादि० । एवं देवाउ० । णवरि छावट्ठिसागरो० देख्ठो । मणुसगदिपंचगस्स असंखेंज्जगुणवड्ढि-हाणी० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० छावट्ठि० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेंतीसं० सादि० । देवगदि०४ असंखेंज्जगुणवड्ढि-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेंतीसं० सादि० । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० छावट्ठिसाग० सादि० । एवं आहारदुगं । तित्थ० ओघं ।

और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । चार दर्शनावरण और चार संव्वलनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । सातावेदनीय दण्डकका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इस दण्डकके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी एक वृद्धि और एक हानिका भङ्ग ओघके समान है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । मनुष्यायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । इसी प्रकार देवायुका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम छयासठ सागर कहना चाहिए । मनुष्यगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देव-गतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । इसी प्रकार आहारकद्विकका भङ्ग जानना चाहिए । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—आभिनिवोधिकज्ञानो आदि जीवोमे पाँच ज्ञानावरणादिका केवल उपशम-
श्रेणिमे ही बन्धका अन्तर पड़ता है, वैसे अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्ति तक उनका निरन्तर बन्ध
होता रहता है। उपशमश्रेणिमे भी अन्तर होकर वह अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होता, इसलिए
यहाँ इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त वन जानेसे
वह उन्तप्रमाण कहा है। तथा यहाँ इनका साधिक छयासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध
सम्भव है, अतः इतने कालका अन्तर देकर इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और
अवक्तव्यपद भी सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है।
यहाँ इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रेणिपर
चढ़ाकर और दो बार अवक्तव्यबन्ध कराकर ले आना चाहिए। चार दर्शनावरण और चार
संस्वलनका अन्य सब भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, पर यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और
अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके साथ उक्त पदोंका जघन्य और
उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। सातावेदनीयदण्डकमे सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके
अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त वन जानेसे उक्तप्रमाण कहा है।
शेष भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कुछ कम
एक पूर्व कोटि तक बन्ध न हो, यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात
गुणहानिका अन्तरकाल ओषके समान वन जानेसे वह ओषके समान कहा है। इनकी तीन
वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। तथा इनका
अवक्तव्य पद अन्तर्मुहूर्तमे भी दो बार सम्भव है और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी
दो बार सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर
साधिक तेतीस सागर कहा है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अन्य सब भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण
चतुष्कके समान वन जानेसे उसके समान कहा है। मात्र यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और
अनन्तभागहानि भी सम्भव है, इसलिए इनके इन पदों का अन्तरकाल अलगसे कहा है।
चौथेसे पाँचवमे जानेपर अनन्तभागवृद्धि होती है और पाँचवसे चौथेमे आनेपर अनन्तभाग-
हानि होती है। दो बार यह क्रिया अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे भी सम्भव है और साधिक छयासठ
सागरके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त दो पदों का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल
उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ मनुष्यायुका दो बार बन्ध होनेमे साधिक तेतीस सागरका उत्कृष्ट
अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-
पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा आभिनिवोधिकज्ञानी आदि जीवोंके साधिक
छयासठ सागर कालके भीतर अपने बन्धकालके योग्य समयके प्राप्त होने पर कई बार मनुष्यायु
का बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ
वारन्ममे और अन्तमे आयुबन्धके समय विवक्षित पद कराके उसका अन्तर ले आना चाहिए।
सर्वत्र यहाँ विधि जाननी चाहिए। देवायुका भङ्ग इसी प्रकार है। विशेष बात इतनी है कि यहाँ कुछ
कम छयासठ सागरके भीतर ही यथासम्भव देवायुका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसकी तीन वृद्धि,
तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर कहा है। यहाँ मनुष्य-
गतिपञ्चकका एक पूर्वकोटि कालतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और
असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। इन मार्गाओका
उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि
और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर कहा है। तथा तेतीस सागरकी
आयुवाले विजयादिकके देवने भवके प्रथम समयमे इनका अवक्तव्यपद किया। पुनः तेतीस

२६६. मणपञ्च०-संजदा० भुजगारभंगो । णवरि अर्णतभागवद्धि-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

२६७. सामाह०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० मणपञ्च०-भंगो । णवरि अवत्त० णत्थि । सेसाणं मणपञ्च०भंगो । तिण्णिसंज०-देवगदिअट्ठावीसं सव्वपदा णाणाभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । परिहार० भुजगारभंगो । सुहुमसंप० सव्वपगदीणं चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । संजदासंजद०

सागर काल तक इनका निगन्तर बन्ध करता रहा । पुन' एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर इनका अवन्धक हो गया और दूसरी बार देव होनेपर भवके प्रथम समयमे पुन' इनका अवक्तव्य बन्ध किया । इस प्रकार इनके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा सप्रतिपक्ष प्रकृतियों होनेसे इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, यह स्पष्ट ही है । उपशमश्रेणिमे बन्धव्युच्छिन्निके वाद देवगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता । देवपर्यायमे तो होता ही नहीं, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मनुष्य पर्यायमे यथासम्भव अधिकसे अधिक काल तक सम्यक्त्व रखनेके पूर्व मिथ्यात्वमे इनका अवक्तव्यपद कराकर यह अन्तर लावे । इन मार्गणाओका उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर है, इसलिए इनमे उक्त प्रकृतियोंके शेष पदोंका, उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । आहारकद्विकका भङ्ग इसी प्रकार प्राप्त होने से उसे इनके समान जाननेकी सूचना की है । ओषमे तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका अन्तरकाल इन्हीं मार्गणाओकी मुख्यतासे कहा है, इसलिए यहाँ उसे ओषके समान जाननेकी सूचना की है ।

२६६. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोमे भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—यहाँ चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है । तथा इनके ये पद अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे हो, यह भी सम्भव है, क्योंकि अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रेणि पर आरोहण कराने और उतारनेसे अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे ये दोनो पद बन जाते हैं, इसलिए तो इनका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है और प्रारम्भमे व अन्तमे उपशमश्रेणिपर आरोहण करानेसे और उतारनेसे कुछ कम एक पूर्वकोटिके अन्तरसे भी ये पद बन जाते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२६७. सामाधिकसंयत और छेदोपस्थापनासयत जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभसंस्वल्पन, उरुचगोत्र और पाँच अन्तरायका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर इनका अवक्तव्यपद नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । तीन संस्वल्पन और देवगति आदि अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोमे भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग है । सूक्ष्मात्परायसंयत जीवोमे सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय

परिहार०भंगो । असंजद-चक्वु०-अचक्वु० ओषं । ओषिदं०^१ ओषिणा०भंगो ।

२६८. किष्णाए पंचणा० - तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु-उप०-णिमि०-पंचंत०
असंखेंअगुणवृद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिष्णिवृद्धि-हाणि-अवृद्धि० जह०
एग०, उक्क० तेंतीसं सादि० । एवं सञ्चपगदीणं भुजगारभंगो । णवरि दोआउ०-दोगदि-
चदुजादि-दोआणु०-आदाव-थावरदि०४-तित्थ० चत्तारिवृद्धि-हाणि-अवृद्धि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । ओरा०-ओरा०अंगो० एकवृद्धि-हाणि० जह०
एग०, उक्क० अंतो० । तिष्णिवृद्धि-हाणि-अवृद्धि० जह० एग०, उक्क० तेंतीसं० देक्ख० ।
अवत्त० णत्थि अंतरं । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ एकवृद्धि-हाणि० जह० एग०,

है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत है । संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भङ्ग है । असंयत, चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौवें गुणस्थान तक होते हैं, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका निषेध किया है । तथा यहाँ तीन संज्वलन और देवगति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद तो होता है, क्योंकि इन मार्गणाओंके कालके भीतर ही इनको वन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिए लौटते समय इनका अवक्तव्यपद वन जाता है । पर इन मार्गणाओंके कालके भीतर दो बार इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है । इन मार्गणाओंमें शेष कथन स्पष्ट ही है । परिहारविशुद्धिसंयत छठे और सातवें गुणस्थानमें होता है, इसलिए भुजगार अनुयोगद्वारासे यहाँ कोई विशेषता नहीं आती, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान जाननेकी सूचना की है । सूक्ष्मसाम्परायसंयतका काल अन्तमुर्हृत है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके यहाँ सम्भव सब पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है । यहाँ जिन मार्गणाओंमें जिनके समान जाननेकी सूचना की है वह स्पष्ट ही है, इसलिए उस विषयमें विशेष नहीं लिखा जाता है ।

२६८. कृष्णलेख्यामें पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्षाचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका भुजगार अनुयोगद्वाराके समान भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो आयु, दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । औदारिकशरीर और औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गकी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हृत है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, और प्रसचतुष्ककी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर

१. आ०प्रती 'अचक्वु० ओषिदं०' इति पाठः ।

उक्त० अंतो० । तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्त० तैत्तीसं० सादि० । अवच० णत्थि अंतरं । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० तिण्णिवद्धि-तिण्णिहाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्त० अंतो० । असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्त० वावीसं० सादि० । अवच० भुजगारभंगो । एवं णील-काऊणं । णवरि काउए तित्थ० णिरयभंगो । तिण्णि लेस्साणं एसिं अणंतभागवद्धि-हाणी अत्थि तैसिं अंतरं जह० अंतो०, उक्त० तैत्तीसं० सत्तारस सत्त सागरो० देच्च० । सेसाणं भुजगारभंगो ।

अन्तमुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । वैक्रियिक-शरीर और वैक्रियिकशरीर आद्भोपाङ्गकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर है । इनके अवक्तव्यबन्धका भङ्ग भुजगारके समान है । इसी प्रकार नील्लेश्या और कापोतलेश्यामे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामे तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है । तीन लेश्याओमे जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है । शेष पदोका भङ्ग भुजगारके समान है ।

विशेषार्थः—पौंच ज्ञानावरण आदि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों हैं, इसलिए इनकी असंख्यात-गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त घन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा इस लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके सब पदोका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । इस प्रकार यद्यपि भुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोका अन्तरकाल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अलगसे उसके निर्देश करनेकी आवश्यकता नहीं है । फिर भी कुछ प्रकृतियोंमे विशेषताका ज्ञान करानेके लिए मूलमे उनके विषयमे अलगसे सूचना की है । यथा—मनुष्यो और तिर्यञ्चोमे कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए यहाँ नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, चार जाति, नरकान्यानुपूर्वा, देवगत्यानुपूर्वा, आतप, स्थावर आदि चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदको छोड़कर सब पदोका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । यहाँ यद्यपि इनका अवक्तव्यपद होता है, पर इनके दूसरी बार अवक्तव्यपदके प्राप्त होने तक लेश्या बदल जाती है, इसलिए इस लेश्यामे उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य-पदके अन्तरकालका निषेध किया है । नरकमे औदारिकशरीरद्विकका निरन्तर बन्ध होता रहता है और तिर्यञ्चो व मनुष्योमे यथासम्भव ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियों हैं, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । नरकमे कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसके प्रारम्भमे और अन्तमे उक्त दोनो प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद हो तथा मध्यमे न हो, यह सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । नरकमे तो इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, तिर्यञ्चो और मनुष्योके सम्भव है, पर इन जीवोके इस लेश्याके कालमे दो बार अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः यहाँ इनके अवक्तव्यपदके

२६६. तेऊए पंचणा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-
पंचंत० एकवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह०
एग०, उक्क० वेसाग० सादि० । एसिं अणंत०वड्ढि-हाणी अत्थि तेसिं जह० अंतो०,
उक्क० वेसाग० सादि० । देवगदि०४ तिण्णिवड्ढि-चत्तारिहाणि-अवड्ढि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । असंखेंज्जगुणवड्ढी० जह० एग०, उक्क० वेसाग० सादि० । ओरालि०

अन्तरकालका निषेध किया है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि एक तो सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं। दूसरे इनका निरन्तर बन्ध भी सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा नरकमें व वहाँ जानेके पूर्व और वादमें अन्तर्मुहूर्त कालतक इनका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इनकी आदि और अन्तमें तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका प्राप्त होना सम्भव होनेसे इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैवीस सागर कहा है। इनके भी अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं होता, इसका खुलासा पूर्वके समान जानकर कर लेना चाहिए। तिर्यञ्च और मनुष्य वैक्रियिकद्विकका बन्ध करते हैं और इनके कृष्णलेख्याका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अब एक ऐसा जीव लो जिसने नरकमें जानेके पूर्व इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की। वादमें वह छोटे नरकमें उत्पन्न हुआ। सातवेंमें तो इसलिए नहीं उत्पन्न कराया है कि वहाँसे निकलनेके बाद भी वह अन्तर्मुहूर्त कालतक औदारिकद्विकका ही बन्ध करता है और उसके बाद लेख्या बढल जाती है। परन्तु छोटे नरकके लिए ऐसा नियम इसलिए नहीं है, क्योंकि वहाँसे सम्यग्दृष्टि जीव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं और ऐसे जीवोंके यहाँ उत्पन्न होनेपर प्रथम समयसे ही इस लेख्याके रहते हुए वैक्रियिकद्विकका बन्ध होने लगता है। यतः प्रारम्भमें अवक्तव्यपद होकर असंख्यातगुणवृद्धि और अन्तमें परिमाणयोगस्थान होनेपर असंख्यातगुणहानि होती है। इसके बाद लेख्या बढल जाती है, इसलिए यहाँ इन दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक चाईस सागर कहा है। इनके भुजगार अनुयोगद्वारमें अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चाईस सागर प्राप्त होता है। वह वहाँ भी बन जाता है, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदका भङ्ग भुजगारके समान कहा है। इसी प्रकार नील और कापोतलेख्यामें अपने-अपने कालके अनुसार यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें कृष्णलेख्याके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र कापोतलेख्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान बन जानेसे उसमें इसके सम्यग्बन्धमें नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है। इन तीन लेख्याओंमें जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं उन प्रकृतियोंके इन पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। तथा इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका भङ्ग भुजगार अनुयोगद्वारके समान है, यह स्पष्ट ही है।

२६६. पीतलेख्यामें पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कामगणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-
चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायकी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके उन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। देवगतिचतुष्ककी तीन वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातगुण-
वृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। औदारिकशरीरका

णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं एदेण सच्चक्रम्माणं भुजगारभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि एसिं अणंतभागवड्ढिहाणी अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० अट्टारस सागरो० सादि० । देवगदि०४ असंखेंअगुणवड्ढी० जह० एग०, उक्क० अट्टारस साग० सादि० । ओरालि०अंगो० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं ।

भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इस प्रकार इस विधिसे सब कर्माका भङ्ग भुजगारके समान है। इसी प्रकार पद्मलेख्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—पीत लेख्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, इसलिए इनकी एक वृद्धि और एक हानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा इस लेख्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है, अतः यहाँ इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। इस लेख्यामें जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है, उनका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर बन जाता है, इसलिए यह उक्त कालप्रमाण कहा है। इन पदोंके अन्तरकालका खुलासा पहले अनेक बार कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। मात्र पीतलेख्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी उस कालके भीतर प्राप्त किया जा सकता है, इस बातको ध्यानमें रखकर उक्तप्रमाण कहा है। देवगतिचतुष्कका बन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं और इनके पीतलेख्याका काल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा किसी जीवने देवोंमें उत्पन्न होनेके पूर्व इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की और वहाँसे आकर पुनः मनुष्योंमें इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की, यह सम्भव है, क्योंकि देवोंमें से आनेके बाद औदारिकमिश्रकाययोगमें इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है और देवोंमें उत्पन्न होनेके पूर्व भी यह सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। औदारिकशरीरका बन्ध तिर्यञ्चों और मनुष्योंके भी होता है और देवोंमें यह ध्रुवबन्धिनी है, इसलिए इसका भङ्ग ज्ञानावरण के समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इसका अवक्तव्यपद या तो देवोंके प्रथम समयमें सम्भव है या तिर्यञ्चों और मनुष्योंके सम्भव है। पर इस लेख्याके रहते हुए यह पद दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकृतिके उक्त पदके अन्तरकालका निषेध किया है। इस प्रकार यहाँ जिन प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाल कहा है, उसे ध्यानमें रखकर शेष प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाल भुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए यहाँ शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान घटित कर लेनेकी सूचना की है। पद्मलेख्यामें भी इसी विधिसे अन्तरकाल ले आना चाहिए। मात्र इस लेख्याका उत्कृष्ट काल साधिक अठारह सागर है, इसलिए इस कालको ध्यानमें रखकर अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभाग वृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है, उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। तथा यहाँ एकेद्रियजातिसम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध न होनेके कारण देवोंमें औदारिकआङ्गी-

३००. सुकाए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०क०-वण्ण०-
४-अगु०४-त्तस०४-णिमि०-पंचंत० एकवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० तेंचीसं० सादि० । अवत्त० णत्थि
अंतरं । एसिं अणंतभागवड्ढि-हाणी अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० ऐक्कीसं० देसू० ।
मणुसगदि०४ धुविगाण भंगो । णवरि तेंचीसं० देसू० । देवगदि०४ असंखेंज्जगुणवड्ढि०
जह० एग०, उक्क० तेंचीसं० सादि० । सेसपदाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त०
जह० अट्टारससाग० सादि०, उक्क० तेंचीसं० सादि० । एवं भुजगारभंगो कादञ्चो ।

पाढ़ भी ध्रुवबन्धनी प्रकृति हो जाती है, अतः इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। परन्तु यहाँ औदारिक आङ्गोपाङ्गका अवक्तव्यपद भी सम्भव है. पर उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकृतिके उक्त पदके अन्तर-कालका निषेध किया है। सुलासा पहले औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध करते समय कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए।

३०० शुक्ललेख्यामे पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संखलन, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति. तैजसशरीर. कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पांच अन्तरायकी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इक्तीस सागर है। मनुष्यगतचतुष्कका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर इन्द्र कम तैतीस सागर है। देवगतचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है। इनके शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर है। इस प्रकार भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग करना चाहिए।

विशेषार्थ—शुक्ललेख्यामे उपशमश्रेणिमे बन्धन्युच्छित्तिके वादके कालको छोड़कर पांच ज्ञानावरणादिका निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसलिए यहाँ इनकी एक वृद्धि और एक हानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा इस लेख्याका उत्कृष्ट काल साधिक तैतीस सागर है। यह सम्भव है कि इसके कालके प्रारम्भमे और अन्तमें एक प्रकृतियोंको तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद हों तथा मध्यमे न हों, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तैतीस सागर कहा है। यहाँ उपशम-श्रेणिसे उतरते समय यद्यपि इनका अवक्तव्यपद होता है, पर इस लेख्याके उसी कालमें दूसरी वार उपशमश्रेणिपर चढ़ना और उतरना सम्भव नहीं है. क्योंकि उपशमश्रेणिसे उतरकर सातवें गुणस्थानमें आनेपर लेख्या बदल जाती है। इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होकर भी उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, अतः उसका निषेध किया है। यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है, उनके इन पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त तो पूर्ववत् धटित कर लेना चाहिए। पर उत्कृष्ट अन्तर जो कुछ कम इक्तीस सागर बतलाया

३०१. भवसि०-अभवसि०-सम्मा०-खड्ग०-वेदग० भुजगारभंगो । णवरि
अणंतभागवट्टि-हाणि०अंतरं ओधि०भंगो । अप्पप्पणो द्विदी कादव्वं ।

३०२. उवसम० चदुदंसं०-चदुसंज० चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अणंतभागवट्टि-हाणि-अवत्त० णत्थि अंतरं । पच्चक्खण०४ अणंत-
भागवट्टि-हाणि-अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । सेसाणं भुजगारभंगो । सासण०-

है, उसका कारण यह है कि इकतीस सागरसे अधिक स्थितिवाले देव नियमसे सम्यग्दृष्टि होते हैं और ऐसे देवोंके उक्त प्रकृतियोंके उक्त दोनों पद नहीं बनते । अतः यहाँ इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । एक मनुष्यने उपशमश्रेणिपर आरोहण करते समय देवगानिचतुष्कर्का असंख्यातगुणवृद्धि की । उसके बाद उतरते समय इनका अवक्तव्यबन्ध किया और मरकर तेतीस सागरकी आयुके साथ देव हो गया । पुनः वहाँसे च्युत होकर प्रथम समयमें अवक्तव्यबन्ध करके द्वितीय समयमें असंख्यातगुणवृद्धि की । इस प्रकार इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । इनके शेष पद तिर्यञ्चो और मनुष्योंमें होते हैं और वहाँ इस लेशयाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । अब रहा एक अवक्तव्यपद सो मनुष्योंमें इनका अवक्तव्यपद करावे । बादमें देवोंमें उत्पन्न करावे और वहाँसे च्युत होकर मनुष्य होनेपर पुनः अवक्तव्यपद करावे और अन्तरकाल ले आवे । यतः यहाँ इस प्रकार दो बार अवक्तव्यपद प्राप्त करनेमें कमसे कम साधिक अठारह सागर और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल लगता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदका जघन्य अन्तरकाल साधिक अठारह सागर और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । इस प्रकार यहाँ तक जो अन्तरकाल कहा है, उसके आगे शेष प्रकृतियोंका उनके अपने-अपने पदोंके अनुसार अन्तरकाल भुजगार अनुयोगद्वारा को लक्ष्यमें रखकर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उसे भुजगारके समान जाननेकी सूचना की है ।

३०१ भव्य, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें भुजगारके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तर अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । मात्र सर्वत्र अपनी-अपनी स्थिति कष्टनी चाहिए । अर्थात् जिस मार्गणाका जो उत्कृष्ट काल है उसे जानकर उत्कृष्ट अन्तरकाल लाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ अभव्य मार्गणामें किसी भी प्रकृतिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-
भागहानि सम्भव नहीं है । शेषमें सम्भव है सो अवधिज्ञानमार्गणाके अनुसार वह घटित कर लेना चाहिए । पर जिसकी जो कायस्थिति हो उसे जानकर घटित करना चाहिए । यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए कि भव्य मार्गणामें मिथ्यात्वादि सब गुणस्थान सम्भव हैं, इसलिए इसमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका भङ्ग ओषके समान बन जाता है ।

३०२. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार दर्शनावरण और चार संवलनकी चार वृद्धि, चार हानि और अक्षस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनन्त-
भागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कर्की अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

सम्मामि० - मिच्छादि० - सण्णि-असण्णि - आहारका० - अणाहार चि भुजगारभंगो कादव्वो ।

एवं अंतरं समत्तं ।

णाणाजीवेहि भंगविचओ

३०३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०-ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसकसा०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० णियमा अत्थि । अवत्तव्वगा भयणिज्जा । तिण्णि भंगो । तिण्णिआउगाणं सच्चपदा भयणिज्जा । वेउव्वियल्लक्कं आहारदुगं तित्थ० असंखेंजुणवड्ढि-हाणी० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सेसाणं पगदीणं सच्चपदा णियमा अत्थि । णवरि छदंस०-वारसक०-सत्तणोक० चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० णियमा अत्थि । अणंतभागवड्ढि-हाणिवंधगा भयणिज्जाणि । ओषभंगो तिरिक्खोषो कायजोगि-ओरालिका० - ओरालि० मि० - णवुंसग०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-

शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संहि, असंज्ञा, आहारक और अनाहारक जीवोमे भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्वका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें चार दर्शनावरण और चार संवलयनकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्य पद तो सम्भव हैं, पर ये पद यहाँ दो बार नहीं हो सकते, इसलिए उक्त प्रकृतियोंके इन पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र उपशमसम्यक्त्वके कालमे संयमासंयम और समयकी दो बार प्राप्ति और दो बार च्युति सम्भव है, इसलिए यहाँ प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद दो बार बन जानेसे उनका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय

३०३. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भङ्गविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव भजनीय हैं । भङ्ग तीन होते हैं । तीन आयुओके सब पद भजनीय हैं । वैक्रियिकषट्क, आहारकद्रिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि नियमसे है । शेष पद भजनीय हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पद नियमसे हैं । इतनी विशेषता है कि छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद नियमसे हैं । अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव भजनीय हैं । इस प्रकार ओषके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाय-

३०४. गिरएसु असंखैज्जगुणवड्ढि-हाणी गियमा अत्थि । सेसपदा भयणिजा । मणुसअपज्जत्त-वेउव्वि०मि०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सच्चपगदीणं सच्चपदा भयणिजा । एदेण कमेण षेदव्वं ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं ।

भागाभागो

३०५. भागाभागाणुगमेण दुवि०-ओवे० आदे० । ओषेण पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०-असंखैज्जगुणवड्ढिवंधगा सच्चजीवाणं केवडियो भागो ? दुभागो सादिरेयो । असंखैज्जगुणहाणिवंधगा सच्चजीवाणं केवडियो भागो ? दुभागो देसुणो । तिण्णिणवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० सच्चजीवाणं केवडियो भागो ? असंखैज्जदिभागो । अवत्त०बंध० सच्चजीवाणं केवडि० ? अणंतभागो । एत्ति^१ अणंतभागवड्ढि-हाणि० अत्थि तेत्तिं सच्चजीवाणं केवडियो भागो ? अणंतभागो । सेसाणं पगदीणं एकवड्ढि० के० ? दुभागो सादिरेयो । एकहाणि० दुभागो देसु० । सेसपदा सच्चजीवाणं केवडियो भागो ? असंखैज्जदिभागो ।

३०४. नारकियोंमें असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । मनुष्य अपर्याप्त, वैकिकिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारक-मिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, सूक्ष्मसाम्परायसंघत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सन्यमित्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं । इस क्रमसे ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्त आदि सान्तर मार्गणाएँ हैं, इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय होना स्वाभाविक है शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

भागाभाग

३०५. भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं । असंख्यातगुण-हानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं ? तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग-प्रमाण हैं । निजकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंकी एक वृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं । एक हानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं । शेष पदोंके बन्धक

१. ता०प्रतौ 'केवडि ? अणंतभागो । एत्ति अणंतभागो एत्ति' आ०प्रतौ 'केवडि ? अणंत भागा । एत्ति अणंतभागो एत्ति' इति पाठः ।

एवं आहारदुर्गं । णवरि संखेज्जं कादव्वं । तित्थय० णाणा० भंगो । णवरि अवत्त० साद० भंगो । एवं ओषभंगो तिरिक्खोषं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-णवुंस०-कोधादि०-४-मदि-सुद०-असंजद - अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अ-भव सि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहारग ति । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंचगस्स एक्कवड्ढि० । कम्मइ०-अणाहारग० एसिं अवत्त० अत्थि तेसिं असंखेज्जगुणवड्ढि० असंखेज्जा भागा । अवत्त० असंखेज्जदिभागो । सेसाणं णिरयादीणं एसिं असंखेज्जजीवा तेसिं ओषं साद० भंगो । एसिं संखेज्जजीविगा तेसिं ओषं आहारसरीरभंगो' । एवं णेदव्वं ।

एवं भागाभागं समत्तं ।

जीव सत्र जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार आहारकद्रिकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भागाभाग करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात करना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका भागाभाग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयके समान है । इस प्रकार ओषके समान सामान्य तीर्थञ्ज, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्त्यजानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भन्ध, अभन्ध, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी एक वृद्धि है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जिनका अवक्तव्यपद है, उनकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष नरकादि मार्गणाओमें जिनका परिमाण असंख्यात है, उनका ओषसे सातावेदनीयके समान भङ्ग है और जिन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है, उनमें ओषसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है । इस प्रकार ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो कुल जीवराशि है, उसमें सत्र प्रकृतियोंके सम्भव सब पदोंके बन्धकोंका यदि बटवाया किया जाय तो कितना हिस्सा किसे मिलेगा, इसका विचार भागाभागमें किया गया है । तदनुसार पाँच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव आषेसे कुछ अधिक प्राप्त होते हैं । असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव आषेसे कुछ कम प्राप्त होते हैं । फिर भी इन दोनों पदोंके बन्धक जीवोंका कुल परिमाण मिलाकर सम्पूर्ण जीव राशि नहीं होता है । जो परिमाण बच रहता है उसमें शेष पदोंके बन्धक जीव होते हैं । भागाभागकी दृष्टिसे उनका विचार करनेपर तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव सब जीव राशिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं । अर्थात् सत्र जीवराशिमें असंख्यातका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने इत पदोंके बन्धक जीव होते हैं और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव अनन्तवें भाग-प्रमाण होते हैं । अर्थात् सत्र जीवराशिमें अनन्तका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, उतने इस पदके बन्धक जीव होते हैं । कारणका विचार पहले कर आवे हैं । यहाँ इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि आगे परिमाण अनुयोगद्वारमें जो प्रत्येक प्रकृतिके विवक्षित पदके बन्धक जीवोंका परिमाण बतलाया है, उसे प्रतिभाग बनाकर यहाँ सर्वत्र भागहार प्राप्त करना चाहिए । पाँच ज्ञानावरणादिमें पाँच नोकषायोंको छोड़कर शेष ऐसी प्रकृतियों भी सम्मिलित हैं, जिनकी

१. ता० प्रती 'असंखेज्जजीविगा तेसिं ओष । आहारसरीरभंगो' इति पाठः । २. ता० प्रती 'एव भागाभाग समत्तं' इति पाठो नास्ति ।

परिमाण

३०६. परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओषे० आदे० । ओषेण पंचणा०-छंदसणा०-
[पञ्चखाण०४]-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-गिभि०-पंचंत०
चत्तारिबद्धि-हाणि-अवद्धि० केंत्तिया ? अणता । अवत्तव्व० केंत्तिया ? संखेज्जा । थीण-
गिद्धि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरालि० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० केंत्तिया ?

अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है। पाँच नोकषायोंके साथ उनके इन पदवालोंका भागाभाग कितना है, यह बतलानेके लिए उसको अलगसे सूचना की है। ये पाँच ज्ञानावरणादि सब ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं। अपनी-अपनी बन्धव्युच्छिन्निके पूर्व इनका सब जीव नियमसे बन्ध करते हैं। इनमें औदारिकशरीर ऐसा है जो सप्रतिपक्ष प्रकृति कही जा सकती है, परन्तु सब अपर्याप्तक और एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव उसका नियमसे बन्ध करते हैं, इसलिए उन जीवोंकी अपेक्षा वह भी ध्रुवबन्धिनी है। अब शेष जो प्रकृतियाँ रहती हैं, वे परावर्तमान हैं, इसलिए उनके अवक्तव्य पदकी परिगणना तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके साथ की गई है। अतः पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदवालोका भागाभाग जो अलगसे कहा गया है, उसे यहाँ अलगसे नहीं दिखलाया गया है। मात्र आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके विषयमें कुछ विशेषता है। वात यह है कि आहारकद्विकका बन्ध करनेवाले जीव ही संख्यात होते हैं, इसलिए असंख्यातवें भागप्रमाणके स्थानमें यहाँ संख्यातवे भागप्रममाण होते हैं, ऐसा कहनेकी सूचना की गई है। तथा तीर्थङ्कर प्रकृति ध्रुवबन्धिनी ही है, यह दिखलानेके लिए उसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है, पर इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयके समान है। क्योंकि तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात होते हैं और इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात होते हैं, इसलिए यहाँ इस पदकी अपेक्षा भागाभाग सातावेदनीयके समान धन जानेसे उसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ सामान्य तिर्यञ्च आदि कुछ अन्य मार्गणाएँ गिनाई हैं, जिनमें ओषके समान जाननेकी सूचना की है। उसका कारण इतना ही है कि ये सब मार्गणाएँ अनन्त संख्यावाली हैं, इसलिए उनमें ओषप्ररूपणा वन जाती है। मात्र अपनी-अपनी बन्धयोग्य प्रकृतियोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिए। किन्तु उनमें औदारिकमिश्रकाययोग एक ऐसी मार्गणा है जिसमें देवगतिपञ्चककी एकमात्र असंख्यातगुणवृद्धि होती है, इसलिए यहाँ इसका भागाभाग सम्भव नहीं है। कामेणकाययोगी और अनाहारक ये दो ऐसी मार्गणाएँ हैं, जिनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए इनका भागाभाग सम्भव नहीं है। शेष प्रकृतियोंकी अवश्य ही असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपद होते हैं, इसलिए इनका भागाभाग अलगसे कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

परिमाण

३०६. परिमाणाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश। ओषसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार संखलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-शरीर, कामेणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। स्थानगुद्धिक, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं।

असंखेंजा । तिण्णिआउगाणं वेउव्वियल्लकं तित्थ० चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त०
 कैत्तिया ? असंखेंजा । णवरि तित्थ० अवत्त० कैत्तिया ? संखेंजा । आहारदुगस्स
 सव्वपदा कैत्तिया ? संखेंजा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वपदा कैत्तिया ? अणंता ।
 एसिं अणंतभागवड्ढि-हाणि० अत्थि तेसिं असंखेंजा । एवं ओधमंगो तिरिक्खोघं
 कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-णुसुं०-कोधादि०-४-मदि-सुद०-असंजद-अचक्खुदं०-
 तिण्णिले०-भवसिं०-अ-भवसिं०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहारग ति । णवरि ओरा-
 लियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदिपंचग० असंखेंजगुणवड्ढि० कैत्तिया ? संखेंजा ।
 कम्मइग०-अणाहार० सव्वपदा कैत्तिया ? अणंता । णवरि धुविमाणं एगपदं अणंता ।
 णवरि मिच्छ० अवत्त० कैत्तिया ? असंखेंजा । एदेण वीजेण पेदव्वं याव अणाहारग ति ।

असंख्यात है । तीन आयु, वैक्रियिकपदक और तीर्थङ्करप्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित
 और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्करप्रकृतिके
 अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । आहारकदिकके सब पदोंके बन्धक जीव
 कितने हैं ? संख्यात है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ।
 जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।
 इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाय-
 योगी, नपुंसकचेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी,
 तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।
 इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देव-
 गतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । कर्मणकाययोगी और
 अनाहारक जीवोंमें सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि ध्रुव-
 बन्धवाली प्रकृतियोंके एक पदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि
 मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इस वीजपदके अनुसार
 अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणदिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका
 बन्ध अन्यतर जीव करते हैं और सब जीवराशि अनन्त है, अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंके उक्त पद-
 वाले जीवोंका परिमाण अनन्त कहा है । परन्तु इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणियोंमें ही सम्भव
 है, अतः इनके इस पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । स्थानगृद्धि आदिके विषयमें
 यही बात है, अतः उनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । मात्र उनके अवक्तव्यपदके
 स्वामित्वमें विशेषता है । बात यह है कि इनका अवक्तव्यपद यथायोग्य प्रथम गुणस्थानसे पाँचवें
 गुणस्थान तक होता है । यथा—गिरते समय स्थानगृद्धिका पहले और दूसरे गुणस्थानमें,
 मिथ्यात्वका पहले गुणस्थानमें, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका प्रथमादि चारमें प्रत्याख्यानावरण-
 चतुष्कका प्रथमादि पाँचमें और औदारिकशरीरका असंज्ञी आदि जीवोंके अवक्तव्यपद होता है
 और ऐसे जीवोंका परिमाण असंख्यात सम्भव है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके
 बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । तीन आयुके उदयवाले जीव असंख्यात हैं । इस
 न्यायसे इनका बन्ध करनेवाले जीव भी असंख्यात होते हैं । यही कारण है कि यहाँ इनके सब
 पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । वैक्रियिकपदका असंज्ञी आदि जीव और

३०७. गेररएसु धुविगाणं चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० कैंत्तिया ? असंखैंजा । मणुसाउ० सव्वपदा कैंत्तिया ? संखैंजा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा असंखैंजा । एत्ति अणंतभागवट्टि-हाणि० अत्थि तेसिं असंखैंजा । णवरिं तित्थ० अवत्त० कैंत्तिया ? संखैंजा । एवं सव्वणोरइय-देव-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-अपज्ज०-सव्वविगालिदिय-सव्वपुढ०-आउ० - तेउ-वाउ० - दादरपज्जत्तपत्ते०-वेउच्चिय०-[वेउच्चियमि० - इत्थिवे०-पुरिसवे०-विभंग०-सासणसम्मादिट्टि ति ।] णवरिं पंचिदियतिरिक्ख०-विभंग०-सासणे देवाउ०

तीर्थङ्करप्रकृतिका सन्यग्रहट्टि कुल्ल जीव बन्ध करते हैं । यतः ये जीव भी असंख्यात हैं, अतः इनके सब पदोंके बन्धक जीव भी असंख्यात कहे हैं । मात्र तीर्थङ्करप्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो उपशमश्रेणिमें सम्भव है, दूसरे आठवे गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद जो जीव मरकर देव होते हैं, उनके प्रथम समयमें सम्भव है और तीसरे जो इसका बन्ध करनेवाले जीव दूसरे-तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं, उनके सम्भव है । यत ये मिलकर भी संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । आहारकट्टिके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं, यह स्पष्ट ही है । अब रहीं शेष परावर्तमान प्रकृतियों सो उनके सब पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए उनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त कहा है । यहाँ छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकषायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती हैं, पर उनके इन पदवालोंका परिमाण अभी तक नहीं कहा गया था, इसलिए उसका अलगसे उल्लेख किया है । तात्पर्य यह है कि ये पद भी यथासम्भव गुणस्थान चढ़ते समय और उतरते समय होते हैं । चढ़ते समय अनन्तभागवृद्धि होती है और उतरते समय अनन्तभागहानि । विशेष जानकारी स्वामित्वको देखकर कर लेनी चाहिए । यतः ऐसे जीव असंख्यात हो सकते हैं, अतः उक्त प्रकृतियोंके इन पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । यहाँ मूलमें गिनाई गई सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य मार्गणाओंमें यह ओषप्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनमें ओषके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तथा इनके साथ कर्मण-काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं और यहाँ इनकी एकमात्र असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें भुवबन्धवाली प्रकृतियोंका एक असंख्यातगुणवृद्धि पद और शेषके असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्य ये दो पद होते हैं तथा इनका परिमाण अनन्त है, यह स्पष्ट ही है ।

३०७ नारकियोंमें भुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि हैं, उनके इन पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, देव, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब अपयॉम, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, वादर पयॉम प्रत्येक वनस्पतिकायिक, वैक्रियिकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, विभङ्गज्ञानी और सासादनसम्यग्रहट्टि जीवोंमें

१ ता०प्रती 'गदर० पत्ते० वेउच्चिय' [सासण० स] म्मामि० णवरिं आ० प्रती वादर पज्जत्तपत्ते० वेउच्चिय० 'सासण० सम्मामि० । णवरिं' इति पाठ । २ ता०प्रती 'विभंग० । सासणे' इति पाठ ।

असंखेंजा । केसिं च मणुसाउ० सच्चपदा असंखेंजा । सेसाणं संखेंजा । वेउन्वियमि० धुविगणं एगपदं असंखेंजा । सेसाणं असंखेंजगुणवड्ढि-अवत्त० असंखेंजा । तित्थ० एयपदं संखेंजा । [इत्थि० तित्थ० सच्चपदा संखेंजा ।]

३०८, मणुसेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं-ओरोलि०-

जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, विभङ्गज्ञानी और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवायुके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव किन्हींमें असंख्यात हैं और शेषमें संख्यात हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें भ्रुवबन्ध-वाली प्रकृतियोंके एक पदके बन्धक जीव असंख्यात है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवड्ढि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिके एक पदके बन्धक जीव संख्यात हैं । तथा स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—नारकियोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके यथा-सम्भव पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात बन जाता है । मात्र इसके दो अपवाद हैं— एक तो मनुष्यायुके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीव और दूसरे तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य-पदका बन्ध करनेवाले जीव । नारकी जीव गर्भज मनुष्योंकी आयुका ही बन्ध करते हैं और गर्भज मनुष्य संख्यात होते हैं, इसलिए नारकियोंमें मनुष्यायुके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं, उन्हींके वहाँ सम्यग्दर्शन होनेपर तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद होता है । यतः ऐसे जीव संख्यात ही हो सकते हैं, अतः नारकियोंमें इसके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । यहाँ गिनाई गई सब नारकी आदि मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन मार्गणाओंमेंसे तीन प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, विभङ्गज्ञानी और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवायुका भी बन्ध होता है, इसलिए इनमें देवायुके सब पदवाले जीवोंका कितना परिमाण होता है, यह अलगसे बतलाया है । तथा इन सब मार्गणाओंमें यद्यपि मनुष्यायुका बन्ध होता है, पर उनमेंसे वैक्रियिककाययोगी और सासादनसम्यग्दृष्टि इन दो मार्गणाओंमें संख्यात जीव ही इस आयुका बन्ध करते हैं, किन्तु अन्य मार्गणाओंमें असंख्यात जीव मनुष्यायुका बन्ध करते हैं, इसलिए उक्त मार्गणाओंमें मनुष्यायुसम्बन्धी उक्त विशेषताका उल्लेख करनेके लिए इसकी प्ररूपणा भी अलगसे की है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए इनमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके एक पदवाले जीव और तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके दो पदवाले जीव असंख्यात हैं, यह स्पष्ट ही है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य मर कर देव होते हैं और प्रथम नरकके नारकी होते हैं, उन्हींके इस योगमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है । ऐसे जीव संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तथा मनुष्योंमें ही स्त्रीवेदी जीव तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध करते हैं, इसलिए इस मार्गणामें इसके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण अलगसे कहा है ।

३०८, मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामर्षणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलक्षु, उपघात, निर्माण और पाँच

तेजा०-क०-वण्ण०-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० असंखेंजा । अवत्त० संखेंजा । एसि अणंतभागवट्ठि-[हाणि० अत्थि तेसिं संखेंजा । दोआउ०-वेउच्चियल्लकं] आहारदुगं तित्थय'० सव्वपदा केंत्तिया ? संखेंजा । सेसाणं सव्व-पगदीणं सव्वपदा असंखेंजा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपदा केंत्तिया ? संखेंजा । एवं सव्वट्ठु०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० ।

३०६. एहंदि०-वणप्फदि-णिगोद० सव्वपगदीणं सव्वपदा केंत्तिया ? अणंता । णवरि मणुसाउ० सव्वपदा केंत्तिया ? असंखेंज्जा ।

अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । यहाँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनमें इन पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं । दो आयु, वैक्रियिकपट्टक, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अर्थात् मनुष्य पर्याप्त जीवोंके समान सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, मन पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसयत और सूक्ष्मसाम्परायसयत जीवोंमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंका परिमाण असंख्यात है । लब्धपर्याप्त मनुष्य भी पाँच ज्ञानावरणदिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । परन्तु इनका अवक्तव्यपद लब्धपर्याप्त मनुष्योंके सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । यहाँ विवक्षित प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये पद भी लब्ध-पर्याप्तक मनुष्योंके नहीं होते, इसलिए इन पदवाले जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है । दो आयु, वैक्रियिकपट्टक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध गर्भज मनुष्य यथासम्भव करते हैं, यह स्पष्ट ही है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शेष सब प्रकृतियों और उनके सब पदोंका बन्ध मनुष्योंमे यथायोग्य सबके सम्भव है, इसलिए उनके सब पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनो इनका परिमाण ही संख्यात है, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंके सम्भव सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । यहाँ गिनाई गई' अन्य सब मार्गणाओंमे जीवोंका परिमाण संख्यात है, इसलिए उनमे अन्तके इन दो प्रकारके मनुष्योंके समान जाननेकी सूचना की है ।

३०६ एकैन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—इन तीन मार्गणाओंमे परिमाण अनन्त है, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंके

१ ता०प्रतौ 'अणंतभागव [ट्ठि ...आहारदुग] तित्थय' आ०प्रतौ अणतभागवट्ठि .. आहारदुग तित्थय०' इति पाठ ।

३१०. एदेण कमेण आभिणि-सुद०-[ओधि० पंचणा०-देवग०-पंचिदि०-
वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चि०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणुपु०-अगु०४-पसत्थ०-
तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे० - णिमि०-तित्थ० - उच्चा०-पंचंत० चत्तारिवड्ढि-हाणि-
अवट्ठि० कैत्तिया ? असखेज्जा । अवत्त० संखेज्जा । एवं णिहा-पयला-पुरिस०-भय-दु० ।
एवं चदुदंसणा० । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० संखेज्जा । चदुसंज०-पच्चक्खाण०४
णाणा०-भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० कैत्तिया ? असखेज्जा । [दोवेदणी०-
अपच्चक्खाण०४-चदुणो०-देवाउ०-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-
मणुसाणु०-थिरादितिणियुग० सच्चपदा० कैत्तिया० ?] असखेज्जा । मणुसाउ०-
आहारदुगं सच्चपदा कैत्तिया ? संखेज्जा । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग० ।

सब पदवाले जीवोंका परिमाण अनन्त बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । पर कुछ मनुष्य ही असंख्यात होते हैं, इसलिए मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले जीव कहीं असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते । यही कारण है कि यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है ।

३१० इस क्रमसे आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैकियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मगशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात है । इसी प्रकार निद्रा, प्रचला, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार चार दर्शनावरणका भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं । चार संव्वलन और प्रत्याख्यानानावरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानानावरणचतुष्क, चार नोकषाय, देवायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रपेभनाराच संहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकट्टिकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ये तीन मार्गावाले जीव असंख्यात हैं, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं । परन्तु इनका अवक्तव्य-पद उपशमभ्रंशमे होता है, इसलिए इनके उक्त पदके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । निद्रादिक पाँचका भङ्ग इसी प्रकार है, इसलिए उनके विषयमें पाँच ज्ञानावरणादिके समान जाननेकी सूचना की है । चार दर्शनावरणका भङ्ग भी इसीप्रकार बन जाता है । मात्र इनकी अनन्तभाग-वृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव होनेसे इन पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण अलगसे कहा

१ ता०प्रती 'अभिणिसुद...' [केवल०] पचि०' आ० प्रती 'आभिणि-सुद० ...केवल० पचिदि०'
इति पाठः । २ आ०प्रती 'वण्ण० देवाणुपु० अगु० पसत्थ०' इति पाठः । ३ ता०प्रती 'केत्ति० १ अस
[खेज्जा । ...असखेज्जा] । मणुसाउ०' आ०प्रती 'केत्तिया ? असखेज्जा । ...असखेज्जा । मणुसाउ०
इति पाठः ।

३११. संजदासंजद^१० सव्वपगदीणं सव्वपदा कैंत्तिया ? असंखेंज्जा । णवरि
त्तित्थ० सव्वपदा संखेंज्जा ।

३१२. तेउ०-पम्म० [पच्चक्खाण०४-] देवगदि०४-त्तित्थ० अवत्त० कैंत्तिया ?
संखेंज्जा । सेसपदा असंखेंज्जा । सेसपगदीणं सव्वपदा कैंत्तिया ? असंखेंज्जा ।
[मणुसाउ०-आहारदु० सव्वपदा कैंत्तिया ? संखेंज्जा ।]

हे जो सख्यात प्राप्त होता है, क्यों कि यहाँ इनके ये दो पद उपशमश्रेणिमे ही सम्भव हैं। चार संख्यलन और प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये दो पद चौथेसे पाँचवमे जाते समय और ऊपरके गुणस्थानोसे चौथेमे आते समय भी सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवालोंका परिमाण असख्यात कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग पाँच ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। दो वेदनीय आदि कुछ तो परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अप्रत्याख्यानावरणका चतुर्थ गुणस्थानमे बन्ध होता है तथा मनुष्यगतित्त्रिक, औदारिक-शरीरद्विक और वज्रपभनाराचसहननका अचिरतसम्यग्दृष्टि सब देव और नारकी बन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण असख्यात प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। यहाँ मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव सख्यात हैं, यह स्पष्ट ही है। अवधिदर्शनवाले आदि मूलमेकही गई तीन मार्गणाओमे यह प्ररूपणा अविक्कल घटित हो जाती है, इसलिए उनमे आभिनिवोधिकज्ञानी आदि जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है।

३११ सयतासयत जीवोमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात है। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं।

विशेषार्थ—संयतासंयतोंमे मनुष्य ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करते हैं, इसलिए इनमे इस प्रकृतिके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

३१२ पात और पद्दलेश्यामे प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, देवगतिचतुष्क, और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात है। शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ? तथा मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? सख्यात हैं।

विशेषार्थ—जो सयत मनुष्य नीचेके गुणस्थानोमे आते हैं या मरकर देव होते है उनके ही प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद होता है, इसलिए तो इन लेश्याओमे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण सख्यात कहा है। तथा देव और नारकियोंके तो देवगतिचतुष्कका बन्ध ही नहीं होता, इसलिए वहाँ इनके अवक्तव्यपदकी बात ही नहीं। जो मिथ्यादृष्टि देव मरकर अन्य गतियोंमे उत्पन्न होते है उनके भी इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए वहाँ भी इनके अवक्तव्य पदकी बात नहीं। हँ, जो उक्त लेश्यावाले सम्यग्दृष्टि देव मरकर मनुष्योंमे उत्पन्न होते है, उनके देवगतिचतुष्कका अवक्तव्यपद मुख्यरूपसे सम्भव है और ऐसे जीव संख्यात होते है, इसलिए यहाँ देवगतिचतुष्कके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा इन लेश्याओमे तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद मनुष्योंमे ही सम्भव है, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव भी संख्यात कहे हैं। यहाँ इन प्रकृतियोंके शेष पदोंके तथा मनुष्यायु और आहारकद्विकको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके

१ ता०प्रतौ 'वेदग० सजदासजदा' इति पाठ । २ आ०प्रतौ देवगदि ४ मिच्छ० अवत्त०' इति पाठ ।

३१३. सुक्काए ध्रुविगाणं चत्तारि [वड्ढि-हाणि-अवड्ढि केंत्तिया० । असंखेंजा । अवत्त० केंत्तिया० । संखेंज्जा । दोआउ०-आहार० सव्वपदा केंत्तिया० ? संखेंजा । सेसाणं सव्वप० के० असंखेंज्जा] । णवरि^१ मणुसगादिपंच०-देवगादि४-तित्थ० अवत्त० केंत्तिया ? संखेंज्जा । सेसपदा असंखेंज्जा । [खइय० एवमेव ।]

३१४. उवसम० ध्रुविगाणं मणुसगादिपंचग०-देवगादि०४ अवत्त० केंत्तिया ? संखेंजा । सेसपदा असंखेंजा । चदुदंस० अणंतभागावड्ढि-हाणि० संखेंजा । सेसपदा केंत्तिया ? असंखेंजा । आहारदुगं तित्थ० सव्वपदा केंत्तिया ? संखेंजा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा केंत्तिया ? असंखेंजा ।

सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात है, यह स्पष्ट ही है । यहाँ मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात है, यह भी स्पष्ट है ।

३१३ शुक्ललेख्यामे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिपञ्चक, देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंसे इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—शुक्ललेख्यामे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे उतरते समय होता है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदवाले जीव संख्यात कहे हैं । जो शुक्ललेख्यावाले उपशमश्रेणिसे उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करते हैं, उनके इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद होता है और जो मरकर देव होते हैं, उनके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे मनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्यपद होता है । यत, ये जीव संख्यात होते हैं, अतः यहाँ इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शुक्ललेख्यामे तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ एक तो मनुष्य करते है । दूसरे उपशमश्रेणिमे तीर्थङ्कर प्रकृतिकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद जो मर कर देव होते हैं या नीचे उतर आते हैं, वे भी इसके बन्धको पुनः प्रारम्भ करते हैं । अतः ये संख्यात होते हैं, अतः इस लेख्यामे तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव भी संख्यात कहे हैं । शेष कथन सुगम है । यहाँ मूलमे कुछ पाठ त्रुटित है और गड़बड़ भी है । सुधारकर पाठ बनानेका प्रयत्न किया है । ज्ञायिकसम्यक्त्वमे प्रायः शुक्ललेख्याके समान भङ्ग बन जाता है, इसलिए उसमे भी शुक्ललेख्याके समान जाननेकी सूचना कर दी है । जो विशेषता है उसे जान लेना चाहिये ।

३१४. उपशमसम्यक्त्वमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और मनुष्यगति पञ्चक तथा देवगति चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

१ ता० प्रतौ 'चत्तारि [वड्ढि हाणि] ... 'एवमेव णवरि' आ० प्रतौ 'चत्तारि' ... 'एवमेव णवरि' इति पाठः ।

३१५. सासण०-सम्मामि० सच्चपगदीणं सच्चपदा असंखेंजा । णवरि सासणे मणुसाउ० सच्चपदा संखेंजा ।

एवं परिमाणं समत्तं ।

खेतं

३१६. खेंचाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक० - भय - दु०-ओरालि० - तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चचारिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिदबंधगा केवडि खेत्ते ? सच्चलोगे । अवत्त० केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेंजदिभागे । एसि अणंतभागवड्ढि-हाणी अत्थि तेसि लोगस्स

विशेषार्थ—जो मनुष्य उपशमसम्यक्त्वके साथ मर कर देव होते हैं, उनके प्रथम समयमें मनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्य पद होता है और उपशमश्रेणिसे उतरते हुए उपशमसम्यग्दृष्टि मनुष्यों के देवगति चतुष्कका अवक्तव्यपद होता है । यत. ये संख्यात ही होते हैं, अत. यहाँ इनका परिमाण उक्तप्रमाण कहा है । इनमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभाग-हानि भी उपशमश्रेणिमें होती है, इसलिए इनके बन्धक जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है । इनमें आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात होते हैं, यह स्पष्ट ही है । तथा उपशमसम्यग्दर्शनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ मनुष्य ही करते हैं और ऐसे मनुष्य उपशम-श्रेणिमें यदि मरते हैं, तो देवोंमें भी अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर संचित हुए तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि देव देखे जा सकते हैं । यत: ये सब जीव भी संख्यात ही होते हैं, अत. यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३१५. सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—यद्यपि सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें परिमाणका निर्देश पहले आ चुका है । उस हिसाबसे यह पुनरुक्त हो जाता है, पर हमने यहाँ मूलके अनुसार ही रहने दिया है । पहले सम्यग्मिथ्यादृष्टि पदका भी मूलमें निर्देश किया है, पर उसे उसी स्थल पर टिप्पणीमें दिखला दिया है । एक तरहसे यह पूरा प्रकरण झुटित और पुनरुक्त है । किसी प्रकार उसे समझाला है । इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

क्षेत्र

३१६. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायकी चार वृद्धि, चाग हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्वलोक क्षेत्र है । अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असख्यातवें

१ ता०प्रती 'एवं परिमाण समत्त' इति पाठो नास्ति । २. ता०प्रती 'असखेंजदिभागे' इति पाठः ।

असंखेंज० । तिण्णिआउ० वेउव्वियळ०^१ आहारदुगं तित्थ० सव्वपदा केवडि खेंत्ते ?
 लोगस्स असंखें० । सेसाणं सव्वाणं पगदीणं सव्वपदा केवडि खेंत्ते ? सव्वलोगे । एवं
 ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि० - ओरालियमि० - कम्मइ०-णवुंस०-
 कोधादि०४-मदि-सुद०-असंजद०-अचक्खुद०-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०- मिच्छा०-
 असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि० - कम्मइ०-अणाहारगेसु
 देवगदिपंचगस्स एगपदं लोगस्स असंखेंज० ।

भागप्रमाण क्षेत्र है । तीन आयु, वैक्रियिकपट्टक, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्वलोक क्षेत्र है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनवाले, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके एक पदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण है ।

निशेषार्थ—पॉच धानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका बन्ध एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है; इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक कहा है । इनमेंसे कुछका अवक्तन्यपद उपशमश्रेणिमें होता है, स्थानगृह्णिक और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तन्यपद गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंके उतरकर सासादन और मिथ्यात्वमें आनेपर होता है; मिथ्यात्वका अवक्तन्यपद ऊपरके गुणस्थानवालोंका मिथ्यात्वमें आनेपर होता है; अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तन्यपद ऊपरके गुणस्थानवालोंके चौथे गुणस्थानमें आनेपर होता है; प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तन्यपद संयत जीवके संयतासंयत होनेपर होता है और औदारिकशरीरका अवक्तन्यपद यथासम्भव असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय आदि जीवोंके होता है । यतः इन सब जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवै भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता; अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंके इस पदवाले जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंमेंसे छह दर्शनावरण, वारह कपाय और सात नोकपायकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है; पर इनका स्वामित्व भी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंके होता है और उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण है । अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण कहा है । नरकायु और देवायुका असंज्ञी आदि जीव बन्ध करते हैं, मनुष्यायुका बन्ध यद्यपि एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं पर ये असंख्यातसे अधिक नहीं होते; क्योंकि मनुष्योंका परिमाण ही असंख्यात है; वैक्रियिकपट्टका बन्ध असंज्ञी आदि जीव, आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवाले जीव तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं । यतः इन सब जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवै भागप्रमाण है; अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है । शेष सब प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं; अतः उनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । यहाँ गिनाई गई सामान्य तिर्यञ्च आदि मार्गणाओमें अपनी-अपनी बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके सम्भव पदोंके अनुसार ओघप्ररूपणा बन जाती है;

३१७. वादरेड्दिभ्य-पञ्चत्तापञ्चत्ता० ध्रुविगाणं चत्तारिवृद्धि-हाणि-अवद्वि० सन्व-
लोगे । तसपगदीर्णं चत्तारिवृद्धि - हाणि-अवद्वि०-अवत्त० लोगस्त संखेज्जदिभागे ।
मणुसाउ० ओषं । तिरिक्ख्खाउ० सन्वपदा लोगस्त संखेज्ज० । सेसाणं सन्वपगदीर्णं
सन्वपदा सन्वलोगे । णवरि तिरिक्ख्ख०३ अवत्त० लोगस्त असंखेज्ज० । मणुसगदितिगं
सन्वपदा लोगस्त असंखेज्ज० । एदेण वीजेण याव अणाहारग त्ति षोदव्वं ।

एवं खेत्तं समत्तं ।

अतः उनमें ओषके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्माण-
काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका एक ही पद होता है और वह भी सन्व-
न्द्रित्योंके ही । इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातव भागप्रमाण कहा है ।

३१८. वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अग्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी
चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । त्रसप्रकृतियोंकी
चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातव भाग-
प्रमाण है । मनुष्यायुका भङ्ग-ओषके समान है । तिर्यञ्चायुके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके
संख्यातव भागप्रमाण है । शेष सत्र प्रकृतियोंके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण
है । इतनी विरोधता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके
असंख्यातव भागप्रमाण है । तथा मनुष्यगतित्रिकके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके
असंख्यातव भागप्रमाण है । इस वीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—वादर एकेन्द्रिय आदि तीनों प्रकारके जीव मारणान्तिक समुद्रातके समय
भी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सत्र पद करते हैं, इसलिए इनके सत्र पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व
लोक कहा है । परन्तु एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय त्रसप्रकृतियोंका बन्ध
नहीं होता, इसलिए इनके सत्र पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातव भागप्रमाण कहा
है । ओषसे मनुष्यायुके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातव भागप्रमाण
सिद्ध करके बतला आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी बन जाता है । इसलिए यहाँ ओषके समान
जाननेकी सूचना की है । इन वादर एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वस्थान क्षेत्र लोकके संख्यातव
भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है ।
इन जीवोंके शेष सत्र प्रकृतियोंके सत्र पदोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव
है, इसलिए इनके सत्र पदवालोंका क्षेत्र सर्वलोक कहा है । मात्र तिर्यञ्चगतित्रिकका अवक्तव्य-
पद वादर वायुकायिक जीव नहीं करते और इन जीवोंको छोड़कर अन्य वादर जीवोंका स्वस्थान
क्षेत्र लोकके संख्यातव भागप्रमाण नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक
जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातव भागप्रमाण कहा है । तथा अग्निकायिक और वायुकायिक
जीव मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नहीं करते, इसलिए इनके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र भी
लोकके असंख्यातव भागप्रमाण कहा है । अनाहारक मार्गणा तक इस वीज पदको समझकर क्षेत्र
प्राप्त करना सम्भव है, इसलिए उसे इस कथनको वीज मानकर जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

१. वा०आ०प्रत्ये, 'लोगस्त असंखेज्जदिभागे' इति पाठः । २. ना०प्रती 'तिगं सन्वलोग अनखे०'
इति पाठः । ३. वा०प्रती 'एवं खेत्तं समत्तं !' इति पाठो नास्ति ।

फोसणं

३१८. फोसणाणुगमेण दुवि०—ओषेण आदेसेण य । ओषेण पंचणा० तेजा० क० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० चत्तारिवड्ढिहाणि - अवड्ढिदवंधगेहि केवडि खेंत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । अवत्त० लोगस्स असंखें० । थीणगि० ३ मिच्छ० अणंताणु० ४ णाणा० भंगो । णवरि अवत्त० अट्टुचो० । मिच्छ० अवत्त० अट्टुचारह० । छदंस अट्टुक० भयदु० णाणा० भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढिहाणि० अट्टुचो० । सादासाद० सत्तणोक० तिरिक्खाउदोगदिपंचजादि छस्संठाणओरालि० अंगो - छस्संघ० दोआणु० पर० उस्सा० आदाउज्जो० दोविहा० तसादिदसयुग० दोगोद' सव्वपदा केवडि खेंत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । णवरि पुरिस० हस्स० रदिअरदि० सोग० अणंतभागवड्ढिहाणि० अट्टुचो० । अपच्चक्खण० ४ णाणा० भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढिहाणि० केवडि खेंत्तं फोसिदं ? अट्टुचो० । अवत्त० केव० खेंत्तं फोसिदं ? छच्चो० । दोआउ० आहारदुगं

स्पर्शन

३१९. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आगुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि दस युगल और दो गोत्रके सब पदोके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन

१. ता० प्रती 'तसादिदस [युगल०] दोगोद' इति पाठः । २. ता० प्रती 'केवडि खेंत्तं फोसिदं ? सव्वलोगे' आ० प्रती 'केवडि खेंत्तं फोसिदं ? सव्वलोगे' इति पाठः ।

सन्वपदा खेंत्तभंगो । मणुसाउ० सन्वपदा लोगस्स असंखे० अट्टुचोँदं० सन्वलो० ।
दोगदि-दोआणु० चचारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० छुच्चोँ० । अवत्त० खेंत्तभंगो । वेउव्वि०-
वेउव्वि०अंगो० चचारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० वारहचोँ० । अवत्त० खेंत्तभंगो । ओरालि०
णाणा०भंगो । अवत्त० वारहचोँ० । तिथय० चचारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० अट्टुचोँ० ।
अवत्त० खेंत्तभंगो । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि०-कोधादि०४-अचक्खुदं०-
भवसि०-आहारग ति । एवं एदेण वीजेण भुजगारभंगो कादव्वो याव अणाहारग ति ।
णवारि अणंतभागवट्टि-हाणि० सन्वणिरय-सन्वतिरिक्ख-मणुस-ओरालि०-णत्तुंस०-
मणपज्जव० - संजद-खइग० - उवसम० खेंत्तभंगो । आभिणि-सुद-ओधि० खेंत्तभंगो ।
तेऊए अपच्चक्खाण०४ अवत्त० दिवट्टुचोँदं० पम्माए पंचचोँ० सुक्काए छचोँदंस० ।
अण्णोसिं तेसिं केसिं च ओघेण साघेदूण णेदव्वं ।

एवं फोसणं समत्तं ।

क्रिया है । दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्वीकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तन्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तन्य-पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । मात्र इसके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्करप्रकृतिको चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसके अवक्तन्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काय-योगी, क्रोधादि चार कपायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार इस बीजके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । इतना विशेषता है कि सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, मन पर्ययवानवाले, संयत, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । आभिनवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें भी क्षेत्रके समान भङ्ग है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तन्य-पदके बन्धक जीवोंने पीत लेश्यामें त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका, पद्मलेश्यामें त्रसनालीके कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका और शुक्ललेश्यामें त्रस-नालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अन्य प्रकृतियोंका उनमें तथा किन्हींमें ओघके अनुसार साथ लेना चाहिए ।

१. ता०प्रतौ 'एवं फोसणं समत्तं' इति पाठो नास्ति ।

विशेषार्थः—पाँच ज्ञानावरणादिकां चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका बन्ध मव जीव करते हैं. इसलिय इनके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। मात्र इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। म्यानगुद्धित्रिक आदिके अन्य पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं, इसलिय उक्त स्पर्शन बन जाता है। पर म्यानगुद्धित्रिक और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद तृतीयादि ऊपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमें होता है। गने जीवोंमें देवोंकी मुख्यता है, क्योंकि इस पदकी अपेक्षा विहार-वत्त्वस्थान आदिके समय त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन उन्हींके सम्भव है। इस पदवाले अन्य सब जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण होता है जो पूर्वोक्त स्पर्शनमें गभित है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। तथा मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और नीचे कुछ कम पाँच व ऊपर कुछ कम सात राज्जुप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, अतः इसके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वाह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। छह दर्शनावरण आदिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पद एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है और इनका अवक्तव्यपद यथायोग्य उपशमश्रेणिमें व प्रत्याख्यानवरणचतुष्कका गिरते समय पाँचवेंके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जानेसे उनके समान कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है जो देवोंके विहारवत्त्वस्थान आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवालोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन अलगसे कहा है। सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके सब पद एकेन्द्रिय आदि जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है। मात्र इनमेंसे पुरुषवेद आदिकी अनन्तभाग-वृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है, इसलिए इन पाँच प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन अलगसे कहा है। यह त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्या कहा है? इस बातका स्पष्टीकरण छह दर्शनावरण आदिका स्पर्शन कहते समय कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। अप्रत्याख्यानवरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है, यह स्पष्ट ही है। इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन तो त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है, वह भी स्पष्ट है। तथा देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नरकायु और देवायुका असंख्य आदि जीव बन्ध करते हैं। उसमें भी मारणान्तिक समुद्रातके समय इनका बन्ध नहीं होता। तथा आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण जीव बन्ध करते हैं। यत ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः यहाँ इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। तथा अतीत स्पर्शन देवोंके विहारवत्त्वस्थान आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा सर्वलोकप्रमाण है। अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय नरकगतिद्विककी तथा देवोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय देवगतिद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित-पदका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह

कालो

३१६. कालाणुगमेण दुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणा०-तेजा०क०-

वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । नीचे कुछ कम छह राजू और ऊपर कुछ कम छह राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्रात करते समय वैकृतिकद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । परन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । औदारिक-शरीरका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते हैं, इसलिए इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । मात्र इसके अवक्तव्यपदके स्पर्शनमें अन्तर है । बात यह है कि देव और नारकी उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इसका अवक्तव्यबन्ध करते हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवोंके विहारवत्त्वस्थान आदिके समय भी तीर्थङ्कर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद सम्भव हैं, इसलिए इसके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । इसका अवक्तव्यपद एक तो उपशमश्रेणिये होता है, दूसरे इसकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद जो मरकर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें होता है और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य अन्तमें सिध्यादृष्टि होकर दूसरे-तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं, उनके सम्यक्त्वपूर्वक पुनः इसका बन्ध प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमें होता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः यहाँ इसका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है; क्योंकि इस पदवाले जीवोंका क्षेत्र इतना ही है । यहाँ सामान्य तीर्थञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें अपने-अपने बन्धके अनुसार यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । यहाँ इसी प्रकार अनाहारक पर्थन्त भुजगार प्रदेशबन्धके समान जाननेकी सूचना करके कुछ अपवादीका अलगसे निर्देश किया है । यथा—मूलमें गिनाई गई सब नारकी आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होता है । कारण स्पष्ट है, इसलिए इनमें उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । आभिनिबोधिक-ज्ञानी आदि तीन मार्गणाओंमें भी इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन इसी प्रकार जानना चाहिए । पीतादि लेश्याओंके रहते हुए देवोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अपत्यात्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यबन्ध सम्भव है, क्योंकि जो पञ्चम आदि गुणस्थानवाले जीव इन लेश्याओंके साथ भरकर देव होते हैं, उनके प्रथम समयमें उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद ही होता है, इसलिए इन लेश्याओंमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्रमसे त्रसनालीके कुछ कम डेढ़, कुछ कम पाँच और कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है । इस प्रकार ओघके अनुसार साध कर सर्वत्र स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

काल

३१६ कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच

वृष्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्वारिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० केवचिरं कालादो होदि ? सव्वद्दा^१ । अवत्त० केवचिरं कालादो ? जह० एग०, उक्क० असंखेंजसमयं । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-ओरालि० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० केवचिरं कालादो ? जह० एग०, उक्क० आवलियाए असंखें । छदंस०-अट्टक०-भय-दु० णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें । अपच्चक्खण०४ णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवट्टि-हाणि-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें । पुरिस०-चदुणोक्क० अणंतभागवट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें । सेसपदा० केवचिरं ? सव्वद्दा । तिण्णिआउ० असंखेंज-गुणवट्टि-हाणिवंधगा केवचिरं ? जह० एग०, उक्क० पलियो० असंखें । तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें । वेउच्चियल्ल० असंखेंजगुणवट्टि-हाणि० सव्वद्दा^१ । तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखें । आहारदु० असंखेंजगुणवट्टि-हाणि० सव्वद्दा । तिण्णिवट्टि-

ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और औदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । पुरुषवेत् और चार नोकषायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा है । तीन आयुओंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । वैक्रियिक-पट्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । आहारकट्टिककी असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा इनकी तीन वृद्धि और

१. ता०प्रतो 'सव्वत्थो (द्वा)०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'सव्वत्थो (द्वा)' इति पाठः ।

हाणि० [जह० एग०, उक्क० आवलि असंखें० ।] अवट्टि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेंजसमयं । तित्थ० देवगदिभंगो । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेंजसमयं । सेसाणं सादादीणं चत्तारिवट्टि - हाणि-अवट्टि०-अवत्त० सव्वद्दा । एवं ओषभंगो कायजोगि - ओरालि०-णवुंस०-क्रीधादि०-अचक्खुदं-भवसि० - अ भवसि०-आहारग ति । ओरालियमि० एवं चेव । णवरि देवगदिपंचग० असंखेंजगुणवट्टि० जह० उक्क० अंतो ।

तीन हानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । तथा अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इस प्रकार ओषके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, अचलुदर्शनवाले, भव्य, अभव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्गृह्य है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके नौ पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि सव जीव भी करते हैं, इसलिए इनके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है । मात्र इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है या ऐसे जीवोंके होता है जो उपशमश्रेणिमें इनके अवन्धक होकर मरकर देव हो जाते हैं और उपशमश्रेणिपर प्रथम समयमें चढ़कर दूसरे समयमें अन्य जीव नहीं चढ़ते । तथा लगातार यदि जीव चढ़ते रहें तो सख्यात समय तक ही चढ़ते हैं । उसके बाद व्यवधान पड़ जाता है । इस हिसाबसे अवक्तव्यपद भी कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक होता है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । स्थानगृद्धि-त्रिक आदिके नौ पद एकेन्द्रियादि यथासम्भव सब जीवोंके सम्भव है, अतः इन पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद उपरके गुणस्थानोंसे मिथ्यात्व और सासादनमें आनेपर प्रथम समयमें होता है और इन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेका कमसे कम एक समय है और अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है, क्योंकि अन्य जिन गुणस्थानोंसे इन गुणस्थानोंमें जीव आते हैं, उनमेंसे कुछका परिमाण असंख्यात समय है, इसलिए अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक इन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेके क्रममें कोई बाधा नहीं आती । यही कारण है कि यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । मात्र औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद अन्य प्रकारसे प्राप्त कर यह काल घटित कर लेना चाहिए । जह दर्शनावरण आदिके नौ पदोंका बन्ध यथासम्भव एकेन्द्रियादि जीव करते हैं, इसलिए तो इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा वन जानेसे वह ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनमेंसे प्रत्याख्यानावरण चारको छोड़कर शेषका अवक्तव्यपद ज्ञानावरणके समान ही घटित हो जाता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल भी ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । अब रहीं प्रत्याख्यानावरण

चतुष्क सो इनका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानवाले जीवोंके संयतासंयत होनेपर प्रथम समयमे होता है और ऐसे जीव संख्यात होकर भी कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही अवक्तव्यपद कर सकते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल भी ज्ञानावरणके समान धन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। अब रहीं इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सो इनके उक्त पदोंकी असंख्यात जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक कर सकते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके नौ पदोंका बन्ध भी यथायोग्य एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका काल ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद करनेवाले जीव युगपत् और लगातार असंख्यात होते हैं, इसलिए इनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। पुरुषवेद और चार नोकषायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके इन पदोंकी अपेक्षा कहे गये कालके समान ही घटित कर लेना चाहिए। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं और यथायोग्य एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके शेष पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पहले बतला आये हैं। यहाँ जघन्य काल तो एक समय ही है, क्योंकि नाना जीव एक समयतक इन पदोंको करे और दूसरे समयमें अन्य पदोंको करे, यह सम्भव है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव क्रमसे निरन्तर यदि इन पदोंको करे तो उस सब कालका जोड़ उक्तप्रमाण होता है। परन्तु इनके शेष पदोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव एक समय तक ही इन पदोंको करे और दूसरे समयमे विवक्षित पदके सिवा अन्य पदको करने लगे, यह भी सम्भव है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि यदि अन्तरके विना नाना जीव इन आयुओंके बन्धका प्रारम्भ कर इन पदोंको करे तो उस कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाणसे अधिक नहीं होता। तात्पर्य यह है कि असंख्यातगुणवृद्धि आदि दो पदोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। मान लीजिए कुछ जीवोंने अन्तर्मुहूर्त कालतक ये दोनों पद किये। उसके बाद व्यवधान न पड़ते हुए अन्य कुछ जीवोंने ये दो पद किये। इस प्रकार निरन्तर क्रमसे इन पदोंके करनेपर वह काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण होता है, इसलिए तो इन पदवालोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। तथा शेष पदोंमे एक जीवकी अपेक्षा अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काल एक समय है, अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल सात समय है और शेष पदोंका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है। यहाँ भी व्यवधानके विना एकके बाद दूसरे इस क्रमसे यदि इन पदोंको करे तो इस प्रकार व्यवधानके विना प्राप्त हुए उत्कृष्ट कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवे भागसे अधिक नहीं होता, क्योंकि असंख्यात समयोंका जोड़ भी आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण होगा और असंख्यात आवलियोंके असंख्यातवे भागका जोड़ भी आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण होगा, इसलिए यहाँ शेष पदवालोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। नाना जीवोंके वैक्रियिकपदकका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ

३२०. कम्मइग०-अणाहारगेसु देवगदिपंचग० असंखेज्जगुणवड्ढि० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसमयं। मिच्छ० अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे०। धुविगणां असंखेज्जगुणवड्ढि० सेसाणं परियत्त० असंखेज्जगु० अवत्त० सव्वद्दा। वेउव्वियमि० सव्वपगदीणं असंखेज्जगुणवड्ढि० जह० अंतो०, परियत्तीणं [जह०] एग०, उक्क० पलिदो० असंखे०। एसि अवत्त० अत्थि तेसि जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे०। तित्थ०

इनकी असख्यातगुणवृद्धि और असख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है। तथा इनके शेष पदोंका क्रमसे असख्यात जीव बन्ध कर सकते हैं, इसलिए उनके बन्धकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असख्यातवे भागप्रमाण कहा है। आहारकद्रिकके बन्धक नाना जीव सर्वदा पाये जाते हैं और उनमेंसे किसी-न-किसीके इनकी असख्यातगुणवृद्धि और असख्यातगुणहानि भी होती रहती है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। इनकी तीन वृद्धि और तीन हानिको क्रमसे संख्यात जीव भी करे तो भी उस सब कालका जोड़ आवलिके असख्यातवे भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असख्यातवे भागप्रमाण कहा है। तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काल एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे संख्यात समय और एक समय है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इसका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष सातावेदनीय आदि एक तो परावर्तमान प्रकृतियों है। दूसरे एकेन्द्रियादि जीव इनका बन्ध करते हैं, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। यह ओघप्ररूपणा काययोगी आदि कुञ्ज मार्गणाओमें अविकल वन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेको सूचना की है। औदारिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें यथासम्भव अन्य सब प्ररूपणा ओघके समान वन जाती है, इसलिए उनमें भी ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इनमें देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं और इनकी यहाँ एक असख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है।

३२० कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असख्यातवे भागप्रमाण है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असख्यातगुणवृद्धि और शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी असख्यातगुणवृद्धि तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का काल सर्वदा है। वैक्रियकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें सब प्रकृतियों की असख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है, परावर्तमान प्रकृतियों की असख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पत्यके असख्यातवे भागप्रमाण है। तथा जिनका अवक्तव्यपद है उनके बन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असख्यातवे भाग-प्रमाण है। तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। नरक आदि

१ ता०प्रतो 'अरुत्तेज्जगु०। अवत्त०' इति पाठः।

ओरालियमिस्सभंगो । णिरयादीणं एसि अणंतभागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं परियत्त-
माणेण ओघेणेव णेदब्बं । णवरि एसिं असंखेज्जरासीणं तेसिं ओघं देवगदिभंगो । एसिं
संखेज्जरासी तेसिं ओघं आहारसरीरभंगो । एसिं अणंतरासी तेसिं ओघं साद०भंगो ।
णवरि'.....'याउभंगो कादब्बो । एसिं अणंतभागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं परिमाणेण
ओघेण च साधेदब्बं । एवं याव अणाहारग ति ।

एवं कालं समत्तं ।

गतियों में जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदों का भङ्ग ओघके अनुसार ही परावर्तमान प्रकृतियों के समान साध लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियों के बन्धकों की असंख्यात राशि है, उनमें ओघसे देवगतिके समान भङ्ग है । जिन प्रकृतियों के बन्धकों की सख्यात राशि है, उनमें ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है और जिन प्रकृतियों के बन्धकों की अनन्त राशि है, उनमें ओघसे सातावेदनीयके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि. . . . के समान भङ्ग करना चाहिए । तथा जिनकी अनन्त-भागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदवाले जीवों का काल परिमाण या परिवर्तमान प्रकृतियों के समान ओघके अनुसार साध लेना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें अधिकसे अधिक संख्यात जीव देवगतपञ्चकका बन्ध करनेवाले होते हैं और ये जीव यदि निरन्तर उत्पन्न होते रहें तो संख्यात समय तक ही यह सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव यहाँ अमंख्यात सम्भव हैं और वे लगातार आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक उत्पन्न होते रहें, यह सम्भव भी है; इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका यहाँ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । यहाँ शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव अनन्त होते हैं, अत यहाँ इनके उक्त पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि एक समयके लिए ही, यह भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । मात्र परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । यहाँ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है, यह स्पष्ट ही है । नरक आदि गतियों में जिन प्रकृतियों की अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है उनका इन पदों के साथ बन्ध करनेवाले जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण

अंतरं

३२१. अंतराणुगमेण दुवि०—ओषेण आदेसेण य । ओषेण पंचणा० चत्तारि-
वड्डि-हाणि-अवड्डि०बंधगतंरं केवचिरं कालादो होदि ? पत्थि अंतरं । अवत्त० जह०
एग०, उक्क० वासपुधत्तं । एवं सच्चवाणं धुविगाणं । णवरि धीणाणि०३-सिच्छ०-
अणंताणु०४ अवत्त० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । अपच्चक्खाण०४ जह०
एग०, उक्क० चोदस रादिदियाणि । पच्चक्खाण०४ जह० एग०, उक्क० पण्णारस
रादिदियाणि । एसिं पगदीणं अणंतभागवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेटीए
असंखेँ । सादादीणं तिरिक्खाउगस्स य चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्डि०-अवत्त० पत्थि
अंतरं । एवं सच्चवासिं परियत्तमाणियाणं । णिरय-मणुस-देवाऊणं तिण्णिवड्डि-हाणि-
अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखेँ । असंखेँज्जगुणवड्डि-हाणि-अवत्त० जह०
एग०, उक्क० चदुवीसं मुहुत्तं । वेउव्वियल्ल०-आहारदु० असंखेँज्जगुणवड्डि-हाणि० पत्थि
अंतरं । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखेँ । अवत्त०

ओषके अनुसार यहाँ भी वन जाता है, इसलिए इस विषयमें ओषके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तर

३०१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच
ज्ञानावरणको चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना अन्तर है ?
अन्तर नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण
है । इसी प्रकार सब ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि
स्थानगुद्धिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । अप्रत्याख्यानावरण
चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
चौदह दिन-रात है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है । तथा जिन प्रकृतियोंकी
अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवस्थितपद है, उनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण
है । सातावेदनीय आदि और तिर्यञ्चायुकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार परावर्तमान सब प्रकृतियोंका
भङ्ग जानना चाहिए । नरकायु, मनुष्यायु और देवायुकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-
पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे
भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । वैक्रियिकषट्क और आहारक-
द्विककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है ।
तीन वृद्धि तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और

जह० एग०, उक० अंतो० । एवं चेव तित्थ० । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक० वासपुधत्तं । णिरएसु तित्थय० अवत्त० जह० एग०, उक० पलिदो० असंखें० । एवं ओघमंगो कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-लोभ०-अचक्खु०-भवसि०-आहारगत्ति । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंच० असंखेंअगुणवड्ढि० जह० एग०, उक० मासपुधत्तं । णवरि तित्थय० वासपुधत्तं । एवं कम्मइ०-अणाहार० ।

उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । नारकियोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, लोभकपायवाले, अचलुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणका एकेन्द्रियादि जीव भी बन्ध करते हैं और वे अनन्त होनेसे उनके इन प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद भी निरन्तर सम्भव है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं कहा है । किन्तु इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें सम्भव है और उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्तिके वाद मरकर जो देव होते हैं उनके सम्भव है और उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । जितनी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं, उनका यह भङ्ग बन जाता है, इसलिए उनके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति उपशमश्रेणिमें होती है उनके लिए ही यह अन्तर कथन पूरी तरहसे लागू होता है । जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति उपशमश्रेणिसे पूर्व अन्य गुणस्थानोंमें होती है, उनका अन्य भङ्ग तो पाँच ज्ञानावरणके समान बन जाता है पर अवक्तव्यपदके अन्तर्गमें फरक है, इसलिए उसका अलगसे उल्लेख किया है । सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व या सासादनको अधिकसे अधिक सात दिन-रात तक नहीं प्राप्त हों यह सम्भव है, इसलिए यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है । देशविरत जीव अधिकसे अधिक चौदह दिन-रात तक अविरत अवस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसलिए अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात कहा है । तथा संयत जीव अधिकसे अधिक पन्द्रह दिन-रात तक संयतासंयत आदि नहीं होते, इसलिए प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात कहा है । इन सबका जघन्य अन्तर एक समय है, यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदि और

३२२. अवगद्वे० सव्वपगदीणं असंखेज्जगुणवड्ढिहाणि० जह० एगं०, उक्क०

तिर्यङ्गायुका एकेन्द्रिय आदि यथासम्भव सब जीव बन्ध करते हैं और वहाँ उनके सब पद निरन्तर सम्भव हैं, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंके अन्तरकालका निषेध किया है। परावर्तमान सब प्रकृतियोंके विषयमें यही बात जाननी चाहिए। नरकयु आदि तीन आयुओका अधिकसे अधिक असंख्यात जीव ही बन्ध करते हैं, इसलिए इनका निरन्तर बन्ध तो सम्भव ही नहीं है, क्योंकि एक तो आयुबन्धका कुछ काल अन्तमुहूर्त है और वह भी त्रिभागमें बन्ध होता है, इसलिए इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल जगत्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। परन्तु इन तीनों आयुओंके बन्धमें जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त प्राप्त होता है, इसलिए इनके शेष पदवाले जीवोंका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यद्यपि वैक्रियिकपदका बन्ध करनेवाले असंख्यात और आहारकद्रिकका बन्ध करनेवाले संख्यात जीव हैं, फिर भी इनका किसी-न-किसीके नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इनको असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि सर्वदा होती रहनेसे इनके अन्तरकालका निषेध किया है। पर तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके विषयमें यह बात नहीं है। ये क्रमसे क्रम एक समय तक न हों, यह भी सम्भव है और अधिकसे अधिक जगत्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक न हों, यह भी सम्भव है, इसलिए इन पदवाले जीवोंका उक्तप्रमाण अन्तरकाल कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद क्रमसे क्रम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्तके अन्तरसे होता है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका उक्त कालप्रमाण अन्तर कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिके सब पदवाले जीवोंका यह अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए इसे वैक्रियिकपदके समान जाननेकी सूचना की है। पर इसके अवक्तव्यपदके अन्तर कालमें फरक है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है। मात्र दूसरे और तीसरे नरकमें तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य क्रमसे क्रम एक समयके अन्तरसे उत्पन्न हों, यह भी सम्भव है और अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न हों, यह भी सम्भव है, इसलिए नारकियोंमें इसके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय कहा है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। यहाँ मूलमें काययोगी आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह औषधप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें औषके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र औदारिकमिश्रकाययोगमें देवगति-पञ्चकरी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है। तथा कोई भी सम्यग्दृष्टि इस योगवाला न हो तो क्रमसे क्रम एक समय तक नहीं होता और अधिकसे अधिक मासपृथक्त्व काल तक नहीं होता, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्वप्रमाण कहा है। इस योगमें तीर्थङ्करप्रकृतिकी भी एक असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है। साय ही यह नियम है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला यदि मनुष्योंमें जन्म न ले तो क्रमसे क्रम एक समय तक नहीं लेता और अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व काल तक नहीं लेता, इसलिए यहाँ इस प्रकृतिके उक्त पदवाले जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष-पृथक्त्वप्रमाण कहा है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगमें कहीं कई अन्तरप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए इनमें औदारिकमिश्रकाययोगके समान जाननेकी सूचना की है।

३२२.अपगतवेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंको असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। तीन वृद्धि, तीन

छम्मासं० । तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखें० । अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं० । एवं सुहुमसं० । णवरि अवत्त० णत्थि ।

३२३. वेउव्वियमि० मिच्छ० अवत्त० जह० एग०, उक्क० पलिदी० असंखें० । एवं ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० । वेउव्वियमि० सच्चपगदीणं एगवट्ठि-अवत्त० जह० एग०, उक्क० वारसमुहुत्तं० । णवरि इण्णियतिगस्स चउव्वीसं मुहुत्तं । एवं सेसाणं णिरयादीणं ओवेण आदेसेण य साधेदव्वं । एसिं संखेंजरासी असंखेंजरासी तेसिं अंतरं ओधं देवगदिभंगो । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं ।

एवं अंतरं समत्तं ।

हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रुथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्प्रायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें अवक्तव्यपद नहीं है ।

विशेषार्थ—छह और सात कर्मोंका बन्ध करनेवाले अपगतवेदी जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । पर चपकश्रेणिमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रुथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रुथक्त्वप्रमाण कहा है । यहाँ इन प्रकृतियोंके शेष पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । सूक्ष्मसाम्प्रायिक जीवोंकी स्थिति अपगतवेदी जीवोंके समान ही है, इसलिए उनमें इनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र सूक्ष्मसाम्प्रायिकसंयत जीवोंमें किसी भी प्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए उसका निषेध किया है ।

३२३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी एक वृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चारह मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति-त्रिकका उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । इसी प्रकार शेष नरकादि गतियोंमें ओध और आदेशके अनुसार अन्तरकाल साध लेना चाहिए । जिनकी संख्यात और असंख्यात राशि है उनका अन्तर ओधसे देवगतिके समान है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोगीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चारह मुहूर्त है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंकी जिनकी केवल वृद्धि सम्भव है, उनकी वृद्धिकी अपेक्षा और जिनकी वृद्धि और अवक्तव्यपद दोनों सम्भव हैं, उनके दोनों पदोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चारह मुहूर्त कहा है । मात्र यहाँ एकेन्द्रियजातित्रिकका

१. ता०प्रती 'अणाहार० वेउव्वियमि०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एव अंतर समत्तं' इति पाठो नास्ति ।

भावो

३२४. भावाणुगमेण सव्वत्थ ओढङ्गो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति षोदव्वं ।

अप्पावहुअं

३२५. अप्पावहुअं दुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणा० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवङ्घ्रिदव्वं० अणंतगु० । संखेज्जभागवङ्घ्रिहाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । संखेज्जगुणवङ्घ्रिहाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । असंखेज्जभागवङ्घ्रिहाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणाहाणि० असंखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणवङ्घ्रि० विसे० । एवं शीणगि० ३-मिच्छ०-अणंताणु० ४-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण० ४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० । एस भंगो छदंस०-वारसक०-भय-दु० । णवरि सव्वत्थोवा अवत्त० । अणंतभागवङ्घ्रि-

वन्ध करनेवाले अधिकसे अधिक चौबीस मुहूर्तके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त कहा है । तथा सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवे भाग-प्रमाण है, इसलिए इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अन्तर बन जाता है, इसलिए इन तीन मार्गणाओंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अन्तरकाल कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

भाव

३२४. भावाणुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

अल्पवहुत्व

३२५ अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी अपेक्षा जानना चाहिए । तथा छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे

१. ता०आ०प्रतौ 'सव्वत्थोवा । अवत्त० अवङ्घ्रिदव्वं' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'असखेज्जगुणवङ्घ्रिहाणि०' इति पाठः ।

हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । अवट्ठि० अणंतगुणा । उवरि णाणा० भंगो । सादादीणं
 सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । संखेज्ज-
 भागवट्ठि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । संखेज्जगुणवट्ठि-हाणि० दो वि तुल्ला
 असंखेज्जगुणा । [अवत्त० असंखेज्जगुणा ।] असंखेज्जगुणहाणिं० असंखेज्जगु० । असंखेज्ज-
 गुणवट्ठि० विसे० । इत्थि-णत्तुंस०-चदुआउ०-चदुगदि-पंचजादि-वेउत्वि०-उत्तसंठा०-
 दोअंगो०-उत्तसंध०-चदुआणु०-पर०-उत्तसा०-आदाउत्तो०-दोविहा०-तसथावरादिदसयुग०-
 दोगोद० साद०भंगो कादव्वो । पुरिस०-चदुणोक० सव्वत्थोवा अणंतभागवट्ठि०-
 हाणि० । अवट्ठि० अणंतगु० । उवरि साद०भंगो । आहारदुगं सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।
 असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि० दो वि तुल्ला संखेज्जगु० । संखेज्जभागवट्ठि-हाणि० दो वि
 संखेज्जगुणा । संखेज्जगुणवट्ठि-हाणि० दो वि तुल्ला संखेज्जगुणा । अवत्त० संखेज्जगुणा ।
 असंखेज्जगुणहाणि० संखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणवट्ठि विसे० । तित्थ० सव्वत्थोवा
 अवत्त० । अवट्ठि० असंखेज्जगुणा । असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा ।
 संखेज्जभागवट्ठि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । संखेज्जगुणवट्ठि-हाणि० दो वि

हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इससे आगेका अल्पबहुत्व ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय आदिके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे असंख्यात-
 भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे
 संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं ।
 उनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे
 हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव
 असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है । स्त्रीवेद, नपुंसक-
 वेद, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आह्नोपाङ्ग, छह
 संहनन, चार आनुपूर्वा, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसन्थावर आदि दस
 युगल और दो गोत्रका मङ्ग सातावेदनीयके समान कहना चाहिए । पुरुषवेद और चार नोकपायो-
 की अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थित-
 पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आगे सातावेदनीयके समान मङ्ग है । आहारकट्टिके अव-
 स्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके
 बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग-
 हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात-
 गुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव
 संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुण-
 वृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक
 हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धि और असं-
 ख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धि
 और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात-

१. ता०प्रती 'असंखेज्जभाग (गुण) वट्ठिहाणि०' इति पाठः । २ ता०प्रती 'तुल्ला असंखेज्जगु०'
 इति पाठः ।

तुल्ला असंखेँजगुणा । असंखेँजगुणहाणि० असंखेँजगुणा । असंखेँजगुणवड्डि० विसे० । एवं ओधमंगो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति ।

३२६. णेरइएसु पंचणाणावरणादिध्रुविगाणं सन्वत्थोवा अवड्डि० । संखेँजभाग-वड्डि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेँजगुणा । उवरि ओधं । एसिं ध्रुविगाणं अणंत-भागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं ताओ थोवाओ । अवड्डि० असं०गु० । उवरि णाणा०-मंगो । सेसं ओधं । एवं सन्वणिरय-सन्पपंचिदियतिरिक्खु०-मणुस०अपज्ज०-[सन्वदेव-]सन्वएइंदि०-विगलिंदि०-पंचकायाणं च । तिरिक्खेसु ओधमंगो । णवरि ध्रुविगाणं एसिं अणंतभागवड्डि[हाणि०]अत्थि तेसिं ताओ थोवाओ । अवड्डि० अणंतगु० । उवरि ओधो । मणुसेसु ओधो । णवरि दोआउ० वेउन्विद्यळकं आहारदुगं आहारसरीर-मंगो । सेसाणं ओधं । णवरि किंचि विसेसो । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तं चेव । णवरि संखेँजं कादव्वं ।

३२७. पंचिदि०-त्तस०२ ओधं । णवरि यम्हि अवड्डि० अणंतगु० तम्हि असंखेँजगुणं कादव्वं । पंचमण०-तिणिवचि० पंचणा०-थीणागि०३-मिन्ध०-अणंताणु०४-देवगदि-ओरालिय०-वेउन्विद्य०-तेजा०-क० - वेउन्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अणु०४-

गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार ओषके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनवाले, मव्य और आहारक जीवोंमे जानना चाहिए ।

३२६. नारकियोंमे पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । आगे ओषके समान भङ्ग है । जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है, उनके इन पदोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इस प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमे जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आगे ओषके समान भङ्ग है । मनुष्योंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें दो आयु, वैक्रियिकषट्क और आहारकद्विकका भङ्ग आहारक-शरीरके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । मात्र कुछ विशेषता है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमे वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा कलना चाहिए ।

३२७. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे कहे हैं वहाँ असंख्यातगुणे करने चाहिए । पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानु-बन्धीचतुष्क, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामंशरीर, वैक्रियिक-शरीरआज्ञोपाज्ञ, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण

वादार-पञ्च-पत्ते-णिमि०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखेंजगुणा । सेसाणं पदानं ओघं तित्थयरभंगो । सेसपगदीणं ओघभंगो । वचिजो०-असच्चमोसवचि०-चक्खुदं० पंचिदियभंगो । ओरालियमिस्स० तिरिक्खोघं । णवरि अणंतभागवट्ठि-हाणि० णत्थि ।

३२८. वेउव्वियका० देवोघं । वेउव्वियमिस्सका० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखेंज-गुणवट्ठिवं० असंखेंजगुण० । एवं कम्मइ०-अणाहार० । णवरि मिच्छ० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखेंजगुणवट्ठिवं० अणंतगु० । आहारकायजोगी० । सव्वट्ठभंगो० । आहार-मिस्स० वेउव्वियमिस्स०भंगो ।

३२९. इत्थिवेद० पंचणा०-पंचंत० । सव्वत्थोवा' अवट्ठि० । उवरि ओघं । शीणगि०-३-मिच्छ०-अणंताणु०-४ - ओरालि० - तेजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखेंजगुणा । उवरि ओघं । णिहा-पयला०-अट्ठक०-भय-दु० सव्वत्थोवा अवत्त० । अणंतभागवट्ठि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेंजगुणा । अवट्ठिद० असंखेंजगु० । उवरि ओघं । णवरि चट्ठसंज० सव्वत्थोवा अणंतभागवट्ठि-

और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष पदोंका भङ्ग ओघसे तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । वचनयोगी, असत्यमृपावचनयोगी और चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है ।

३२८. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यान-गुणवृद्धिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आहारककाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान भङ्ग है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

३२९. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तातुर्बंधी-चतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अशुक्लधु, उपघात और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय और जुगुप्साके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-

१. ता०प्रती 'इत्थिवेदभंगो पंचणा० पचत० । सव्वत्थोवा' आ०प्रती इत्थिवेदभंगो पचणा० पचत सव्वत्थोवा' इति वाठः ।

हाणि० । अवट्टि० असंखेंजगु० । उवरि ओघं । पुरिस० इत्थि० भंगो । गलुंसग० धुविगाणं^१ इत्थि० भंगो । णवरि अवट्टि० अर्णतगु० ।

३३०. कोधकसा० गलुंसगभंगो । माणे० पंचणा०-चदुदंसणा०-तिणिसंज०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवट्टि० । उवरि ओघं । मायाए पंचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवट्टि० । उवरि ओघं । लोभकसाए ओघं ।

३३१. मदि-सुद० धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्टि० । उवरि ओघं । सेसाणं वि ओघो । विभंगे धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्टि० । उवरि ओघं । असंखेंजगुणं कादव्वं । देवगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा० - वादर-पज्जत्त-पत्ते० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्टि० असं०गु० । एवं [अ] संखेंजगुणं कादव्वं । सेसाणं ओघं ।

३३२. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०- [छदंस०-] अपच्चक्खाण०४-पुरिस०-भय-दु०-दोगदि-पंचिदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु० - दोअंगो०-वज्जि०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदें०-णिमि०-तित्थि०-उच्चा०-

भागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । पुरुषवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ।

३३० कोधकपायवाले जीवोंमें नपुंसकवेदवाले जीवोंके समान भङ्ग है । मानकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, तीन संव्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । मायाकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संव्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । लोभकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

३३१ मत्थज्जानी और श्रुताज्जानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भी ओघके समान है । विभङ्गज्जानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । मात्र असंख्यातगुणा करना चाहिए । देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वा, परधात, उच्छ्रास, वादर, पर्यास और प्रत्येकके अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे असंख्यातगुणा कर्ना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

३३२. आभिनिवोधिकज्जानी, श्रुतज्जानी और अवधिज्जानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अप्रत्यायानावरणचतुष्क, पुरुषवेद, भय, जुगप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराचसहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, मशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,

१. ता०प्रतौ 'णपुसक धुवि (?) धुविगाण' इति पाठः ।

पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखेंज्जु० । उवरि ओघं । णवरि चट्ठदंस०
 सव्वत्थोवा अणंतभागवट्ठि-हाणि० । अवत्त० संखेंज्जु० । अवट्ठि० असंखेंज्जु० ।
 उवरि ओघं । पच्चक्खाणाव०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । अणंतभागवट्ठि-हाणि० दो वि
 तुल्ला असंखेंज्जु० । अवट्ठि० असंखेंज्जु० । उवरि ओघं । [एवं चट्ठसंज०] । दोवेदणी०-
 थिरादित्तिण्णियुग०-आहारदुगं ओघं । चट्ठणोक्क० साद० भंगो । एवमाउगं । णवरि
 मणुसाउ० मणुसि०भंगो । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खड्ग०-वेदग० । मणपज्ज०-
 संजद०-सामाह०-छेदो०-परिहार० ओधि०भंगो । णवरि संखेंज्जुणुं कादव्वं । सुहुमसंप०
 अवगद०भंगो । संजदासंजद० परिहार०भंगो ।

३३३. असंजदेसुं धुविगाणं मदि०भंगो । एसिं धुविगाणं अणंतभागवट्ठि-हाणि०
 अत्थि तेसिं ताओ थोवाओ । अवट्ठि० अणंतगुणा । उवरि ओघं । सेसाणं पगदीणं
 ओघं । एवं किण्ण-णील-काऊणं । तेऊए धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । उवरि ओघं ।
 देवगदिपंचग-ओरालि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखेंज्जु० । उवरि ओघं ।

सुभग, सुखर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक
 जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान
 भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके
 बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे
 अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । प्रत्याख्यानावरण-
 चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभाग-
 हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव
 असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । इसी प्रकार चार संज्वलनके विषयमें जानना
 चाहिए । दो वेदनीय, स्थिर आदि तीन युगल और आहारकविकका भङ्ग ओघके समान है ।
 चार नोकपायोका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार आयुके विषयमें जानना चाहिए ।
 इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी,
 सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी,
 संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें अवधिज्ञानी
 जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा कर्ना चाहिए । सूक्ष्मसाम्पराय
 संयत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत
 जीवोंके समान भङ्ग है ।

३३३. असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ।
 जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है, उनके इन पदोंके बन्धक
 जीव स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है ।
 शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्यामें
 जानना चाहिए । पीतलेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे
 स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । देवगतिपञ्चक और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके

१. ता०प्रती 'ओधिदं' । सम्मादि० खड्ग० वेदग० मणपज्ज' इति पाठः । २. ता०प्रती 'असखेज्जु
 (असख) देसु' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'अवत्त० । असखेज्जु०' इति पाठः ।

एवं पम्माए वि । णवरि देवगदिपंचा० - ओरा०-ओरा०अंगो०-समचदु०-उच्चा०
शीणगिद्धिभंगो । सुक्काए तेउ०भंगो ।

३३४. उवसम० धुविगाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखेंजगु० । उवरि
ओघं । चदुदंस० सव्वत्थोवा अणंतभागवट्ठि-हाणि० । अवत्त० संखेंजगु० । अवट्ठि०
असंखेंजगु० । सेसाणं ओघं । सासण०-सम्मामि० मदि०भंगो । एवं मिच्छदिट्ठि०-
असण्णि० । सण्णि० पंचिदियभंगो । आहारा० ओघं ।

एवं अप्पावहुगं समत्तं

एवं वट्ठिवंधे त्ति समत्तमणियोगहारं ।

अज्भवसाणसमुदाहारपरूवणा परिमाणानुगमो

३३५. अज्भवसाणसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहाराणि णादव्वाणि
भवन्ति । तं जहा—परिमाणानुगमो^१ अप्पावहुगे त्ति । परिमाणानुगमेण दुवि०—
ओघेण आदेसेण य । आभिणिवोधिगणाणावरणीयस्स असंखेंजाणि पदेसबंधाणारिं ।
जोगट्ठाणेहितो संखेंज०भागुत्तरारिं । कथं संखेंजदिभागुत्तरारिण ? अट्ठुविधबंधगेण

वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके
समान भङ्ग है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवगति-
पञ्चक, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, समचतुरस्रसंस्थान और उच्चगोत्रका भङ्ग
स्त्यानगृद्धिके समान है । शुक्ललेश्यामे पीतलेश्याके समान भङ्ग है ।

३३६. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अघक्तन्यपदके वन्धक जीव
सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान
भङ्ग है । चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके वन्धक जीव सबसे स्तोक
हैं । उनसे अवक्तन्यपदके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितपदके वन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं । शेषका भङ्ग ओघके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमें
मत्यजानो जीवोके समान भङ्ग है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोमें जानना चाहिए ।
संज्ञी जीवोमें पञ्चेन्द्रिय जीवोके समान भङ्ग है । आहारक जीवोमें ओघके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार वृद्धिवन्ध अनुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

अध्यवसानसमुदाहारपरूपणा परिमाणानुगम

३३७. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है । उसमे ये दो अनुयोगद्वारा ज्ञातव्य हैं । यथा—
परिमाणानुगम और अल्पबहुत्व । परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और
आदेश । ओघसे आभिनिवोधिकज्ञानावरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान है । ये योगस्थानोसे
संख्यातवे भाग अधिक है । संख्यातवे भाग अधिक कैसे है ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाले

१. ता०प्रती 'परिमा [ण] गुगमो' इति पाठः । २. ता०प्रती 'परिमाणानुगम दुवि०' इति पाठः ।

३. ता०प्रती 'पदेसवध [डा] णारिण' इति पाठः । ४. ता.आ.प्रती: 'असंखेंजभागुत्तरारि' इति पाठः

ताव सव्वाणि जोगट्टाणाणि लद्धाणि । तदो सत्तविधबंधगस्स उक्कस्सगादो अट्टविध-
बंधगस्स उक्कस्सगं सुद्धं । सुद्धिसेसो यावदियो भागो अधिद्धित्तो जोगट्टाणं तदो
सत्तविधबंधगेण विसेसो लद्धो । एवं सत्तविधबंधगादो छव्विधबंधगं उवणीदा । एदेणं
कारणेण आभिणिवोधिपणाणावरणीयस्स असख्खेज्जाणि पदेसबंधट्टाणाणि जोगट्टाणेहितो
सख्खेज्जभागुत्तराणि । एवं सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-केवलणा०-पंचंतराइयारणं च एसेव
भंगो । थीणगि०३ असख्खेज्जाणि पदेसबंधट्टाणाणि जोगट्टाणेहितो विसेसाधियाणि ।
विसेसो पुण सख्खेज्जदिभागो । णिद्दा-पयलाणं असख्खेज्जाणि पदेसबंधट्टाणाणि ।
जोगट्टाणेहितो दुगुणाणि सख्खेज्जदिभागुत्तराणि । चदुदंस० असख्खेज्जाणि पदेस-
बंधट्टाणाणि जोगट्टाणेहितो तिगुणाणि सख्खेज्जदिभागुत्तराणि । कथं तिगुणाणिं सख्खेज्जदि-
भागुत्तराणि? असण्णिघोलमाणं जहण्णयं जोगट्टाणं आदिं कादूण सव्वाणि जोगट्टाणाणि
अट्टविधबंधगेण लद्धाणि । तदो सत्तविधबंधगेण विसेसो लद्धो । एत्तियाणिं चैव
पदेसबंधट्टाणाणि सम्मादिद्धिणा वि लद्धाणि । पुणो वि णिद्दा-पयलाणं बंधगदो च्छेदो
एत्तियाणिं चैव पदेसबंधट्टाणाणि लद्धाणि । एदेण कारणेण चदुदंसणावरणीयस्स
असख्खेज्जाणि पदेसबंधट्टाणाणि जोगट्टाणेहितो तिगुणाणि सख्खेज्जदिभागुत्तराणि ।
सादामाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णखुंस० चदुण्णं आउ० सव्वासिं णामपगदीणं

जीवने सच योगस्थान प्राप्त किये हैं । उनसे सात प्रकारके बन्धक जीवके उत्कृष्टसे आठ प्रकारके
बन्धक जीवका उत्कृष्ट घटा दें । घटानेपर योगस्थानका जितना भाग शेष रहे, उसको अपेक्षा
सात प्रकारके बन्धक जीवने विशेष प्राप्त किया है । इसी प्रकार सात प्रकारके बन्धक जीवसे छह
प्रकारके बन्धक जीवने विशेष अधिक प्राप्त किया है । इस कारणसे आसिनिवोधिकज्ञानावरणके
असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानसे संख्यातवे भाग अधिक हैं । इसी प्रकार श्रुतज्ञाना-
वरण, अवधिज्ञानावरण, मन-पर्यथज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण और पाँच अन्तरायाँके विषयमें
यही भङ्ग जानना चाहिए । स्थानगृद्धित्रिकके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान है जो योगस्थानसे विशेष
अधिक हैं । विशेषका प्रमाण संख्यातवे भागप्रमाण है । निद्रा और प्रचलाके असंख्यात प्रदेश-
बन्धस्थान हैं जो योगस्थानसे संख्यातवाँ भाग अधिक दूने हैं । चार दर्शनावरणके असंख्यात
प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानसे संख्यातवाँ भाग अधिक तिगुणे हैं । संख्यातवाँ भाग अधिक
तिगुणे कैसे हैं? असंज्ञीके घोलमान जघन्य योगस्थानसे लेकर सब योगस्थान आठ प्रकारके
कर्माँका बन्ध करनेवाले जीवने प्राप्त किये हैं । उनसे सात प्रकारके कर्माँके बन्धक जीवने विशेष
प्राप्त किये हैं । तथा इतने ही प्रदेशबन्धस्थान सम्यग्दृष्टि जीवने प्राप्त किये हैं । तथा फिर भी
निद्रा और प्रचलाका बन्धसे छेद होनेके बाद इतने ही प्रदेशबन्धस्थान प्राप्त किये हैं । इस
कारणसे चार दर्शनावरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानसे संख्यातवाँ भाग
अधिक तिगुणे है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद,
नपुंसकवेद, चार आयु, नामकर्माँका सब प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनका स्थानगृद्धि-

१. आ०प्रतौ 'अवद्विट्ठग्वगस्स' इति पाठ । २. ता०प्रतौ 'उवणिण० एदेण' इति पाठ ।
३. ता०प्रतौ 'कथं (घ) तिगुणाणि' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'यत्तियाणि' इति पाठः । ५. ता०प्रतौ
'बधवेच्छेदो यत्तियाणि' इति पाठः ।

णीचुच्चागोदस्स य यथा थीणगिद्धितियस्स भंगो कादव्वो । अपच्चक्खणाणं चदुक्कस्स दुवे परिवाडीओ । पच्चक्खणाणं ४ तिण्णि परिवाडीओ । कोधसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ । अण्णा च अट्ठ परिवाडीओ^१ । माणसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ अण्णा च तिभागूणियां परिवाडी । मायसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ अण्णा च चदुभागूणिया परिवाडी । लोभसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ अण्णा च अट्ठम-भागूणिया परिवाडी । पुरिसवेदस्स दुवे परिवाडीओ अण्णा च तदिया पंचभागूणिया परिवाडीओ । छण्णोकसायाणं दुवे परिवाडीओ । परिवाडी णाम सण्णा का ? याणिं मिच्छादिट्ठिस्स पदेसबंधट्ठाणाणि एसा परिवाडी सण्णा णाम ।

एवं परिमाणानुगमो समत्तो^२ ।

अप्पावहुच्चं

३३६. अप्पावहुच्चं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणाणावरणीयाणं सव्व-त्थोवाणि जोगट्ठाणाणि । पदेसबंधट्ठाणाणि विसेसाधियाणि । सव्वत्थोवाणि णवण्हं^३ दंसणावरणीयाणं जोगट्ठाणाणि । थीणगिद्धितियस्स पदेसबंधट्ठाणाणि विसेसा० । णिहा-पयलणं पदेसबंधट्ठाणाणि विसेसा० । चदुण्हं दंसणावर० पदेसबंधट्ठाणाणि विसेसाधि० । सव्वत्थोवाणि सादासादारणं द्रोण्हं पगदीणं जोगट्ठाणाणि । असादस्स

त्रिकके समान भङ्ग कइना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमे दो परिपाटियों हैं । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें तीन परिपाटियों हैं । क्रोधसंज्वलनके विषयमे चार परिपाटियों हैं और आठ अन्य परिपाटियों हैं । मान सज्वलनकी चार परिपाटियों हैं और त्रिभाग कम एक अन्य परिपाटी है । मायासज्वलनकी चार परिपाटियों हैं और चतुर्थ भाग कम एक अन्य परिपाटी है । लोभसंज्वलनकी चार परिपाटियों हैं और अष्टम भाग कम एक अन्य परिपाटी है । पुरुषवेदकी दो परिपाटियों हैं और तृतीय भाग कम एक तीसरी परिपाटी है तथा छह नोकपायोंकी दो परिपाटियों हैं ।

शंका—परिपाटी इस संज्ञाका क्या अर्थ है ?

समाधान—मिथ्यादृष्टिके जो प्रदेशबन्धस्थान होते हैं उतनेकी परिपाटी संज्ञा है ।

अल्पवहुत्व

३३६. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरणके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । उनसे प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । नौ दर्शनावरणके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । उनसे स्थानगुद्धित्रिकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे निद्रा और प्रचलाके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे चार दर्शनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय और असातावेदनीय इन दोनों प्रकृतियोंके योगस्थान सबसे

१. ता०प्रती 'अण्णा व (च) अट्ठपरिवाडीए' इति पाठः । २. ता०प्रती 'तिभागू (ऊ) णिया' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'सण्णा कायाणि' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'एवं परिमाणानुगमो समत्तो' इति पाठो नास्ति । ५. ता०प्रती 'सव्वत्थोवाण (णि) णवण्ह' इति पाठः ।

पदेसबंधाहियाणि विसेसाधियाणि । सादस्स पदेसबंध० विसे० । सव्वत्थोवाणि मिच्छ०-
सोलसक० जोगट्टाणाणि । मिच्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंध० विसे० । अपच्चक्खाण०४
पदेसबंध० विसे० । पच्चक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० । कोधसंज० पदेसबंध० विसे० ।
माणसंज० पदेसबंध० विसे० । मायसंज० पदेसबंध० विसेसा० । लोभसंज० पदेस-
बंध० विसेसा० । सव्वत्थोवाणि णचणोकसायाणं जोगट्टाणाणि । इत्थि०-णवुंस०
पदेसबंध० विसेसा० । छण्णोक० पदेसबंध० विसेसा० । पुरिस० पदेसबंध० विसेसा० ।
चट्टुण्हमाउगाणं सव्वासिं णामपगदीणं पंचण्हमंतराइगाणं च णाणावरणमंगो ।
णीचुच्चागोदाणं सादासाद०भंगो । एवं ओघमंगो मणुस०३-पंचिदि०-तसर-पंचमणं-
पंचवचिजो-कायजोगि-ओरालिय०-इत्थि०- पुरिस०-णवुंस० - अवगद० - कोधादि०४-
आभिणि०- सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-सामा० - छेदो०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-
सुकले०-भवसि०-सम्मदि०-खहग०-उवसम०-सण्णि-आहारग ति ।

३३७. णिरयगदीए पंचणा० सव्वत्थोवाणि जोगट्टाणाणि । पदेसबंध० विसे० ।
एवं दोवेदणी०-दोआउ० सव्वाणं णामपगदीणं दोभोदं० पंचंतराइगाणं च । सव्वत्थोवाणि

स्तोक हैं । उनसे असातावेदनीयके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे सातावेदनीयके
प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । मिथ्यात्व और सोलह कपायोंके योगस्थान सबसे स्तोक है ।
उनसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके
प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे क्रोधसंज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं ।
उनसे मान संज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे माया संज्वलनके प्रदेशबन्ध-
स्थान विशेष अधिक हैं । उनसे लोभसंज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । नौ
नोकघायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । उनसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशबन्धस्थान विशेष
अधिक हैं । उनसे छह नोकघायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे पुरुषवेदके प्रदेश-
बन्धस्थान विशेष अधिक हैं । चार आयु, नामकर्मकी सब प्रकृतियों और पाँच अन्तरायका भङ्ग
ज्ञानावरणके समान है । नीचगोत्र और उच्चगोत्रका भङ्ग सातावेदनीय और असातावेदनीयके
समान है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी,
पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, नपुंसकवेदवाले,
अपगतवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन-
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले,
अवधिदर्शनवाले, शुक्लछेरथावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी
और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

३३७. नरकगतिमे पाँच ज्ञानावरणके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । तथा योगस्थानोंसे
प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार दो वेदनीय, दो आयु, नामकर्मकी सब
प्रकृतियों, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके विषयमे जानना चाहिए । नौ दर्शनावरणके योगस्थान

१. आ०प्रती 'तस० पंचमण०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'सव्वत्थो०' । जोगट्टाणादो० पदे० विसे०
साधियाणि ।' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'दोभोदि०' इति पाठः ।

णवण्हं दंसणा० जोगट्टाणाणि । थीणगिद्धि०३ पदेसबंध० विसे० । छदंस० पदेसबंध० विसे० । सव्वत्थोवाणि मिच्छ०सोलसकसायाणं जोगट्टाणाणि । मिच्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंध० विसे० । वारसक० पदेसबंध० विसे० । सव्वत्थोवाणि णवण्हं णोकसा० जोगट्टाणाणि । इत्थि०-णुंस० पदेसबंध० विसे० । सत्तणोक० पदेसबंध० विसे० । एवं सव्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख०३ देवा याव उवरिमगेवजा त्ति वेउच्चि०-असंजद०-पंचले०-वेदग० । णवरि एदेसु किंचि विसेसो । तिरिक्खेसु सव्वत्थोवाणि मिच्छ०-सोलसक० जोगट्टाणाणि । मिच्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंध० विसे० । अपच्चक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० । अट्टरु० पदेसबंध० विसे० । एवं तेउ-पम्माणं । णवरि अपच्चक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० । पच्चक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० । चदुसंज० पदेसबंध० विसे० । एवं वेदग० ।

३३८. सव्वअपज्जत्ताणं तसाणं थावराणं च सव्वएइंदिय-विगलिं०-पंचकायाणं च सव्वपगदीणं च सव्वत्थोवाणि जोगट्टाणाणि । पदेसबंध० विसे० । एवं ओरालियमि०-मदि-सुद-विभंगे० अभव०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि ओरालियमिस्स० देवगदि-

सबसे स्तोक हैं। उनसे स्थानगृद्धित्रिकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है। उनसे छह दर्शनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मिथ्यात्व और सोलह कपायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे बारह कपायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। नौ नोकपायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे सात नोकपायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव, उपरिम भैवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, असंतत, पाँच लेश्यावाले और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन मार्गाओंमें सामान्य नारकीयोंसे कुछ विशेष है। यथा—सामान्य तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व और सोलह कपायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे आठ कपायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है। इसी प्रकार पीत और पद्मलेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे चार सज्जलनोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

३३८. त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्स्यजानी, श्रुताजानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकका अल्पबहुत्व नहीं है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना

१ ता०प्रतौ 'एवं वेदगं सव्वअपज्जत्ताणं' इति पाठः ।

पंचग० णत्थि अप्पावहुगं । एवं वेउच्चियमि० । कम्मइ०-अणाहार० सव्वपगदीणं णत्थि अप्पावहुगं । अणुदिस याच सव्वट्ट त्ति अपज्जत्तमंगो । एवं आहार०-आहारमि०-परिहार०-संजदासंजद०-सासण०-सम्मामिच्छादिट्ठि त्ति । णवरि सम्मामिच्छादिट्ठीणं णत्थि अप्पावहुगं ।

एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

एवं अज्झवसाणसमुदाहारे त्ति समत्तमणियोगदारं ।

जीवसमुदाहारपरूवणा

३३६. जीवसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि । तं जहा—पमाणाणुगमो अप्पावहुगे त्ति ।

पमाणाणुगमो जोगट्ठाणपरूवणा

३४०. पमाणाणुगमो त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि—जोगट्ठाण-परूवणा पदेसबंधट्ठाणपरूवणाचेदि^१ । जोगट्ठाणपरूवणादाए सव्वत्थोवो^२ सुहुमअपज्जत्तयस्स जहण्णगो जोगो^३ । वादरअपज्जत्तयस्स जहण्णगो जोगो असंखेज्जगुणो^४ । एवं बीईदि०-तीईदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-अपज्ज० जहं० जोगो असंखेज्जगुणो ।

चाहिए । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व नहीं है । अनुविशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार आहारक-काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सन्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सन्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अध्यवसानसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

जीवसमुदाहार प्ररूपणा

३३६. जीवसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये दो अनुयोगद्वार हैं । यथा—परिमाणानुगम और अल्पबहुत्व ।

परिमाणानुगम योगस्थानप्ररूपणा

३४०. परिमाणानुगममें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—योगस्थानप्ररूपणा और प्रदेशबन्ध-स्थानप्ररूपणा । योगस्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्त जीवका जघन्य योग सबसे स्तोक है । उससे बादर अपर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त और असंखी पञ्चिन्द्रिय अपर्याप्त जीवका जघन्य योग उत्तरोत्तर

१. ता०प्रतौ 'वेउच्चियमि० कम्मइ०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'सम्मादिट्ठि णत्थि' आ०प्रतौ 'सम्मादिट्ठीण णत्थि' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'चेदि' इति पाठो नास्ति । ४. ता०प्रतौ 'सव्वत्थोवा (वो)' आ०प्रतौ 'सव्वत्थोवा' इति पाठः । ५. ता०प्रतौ 'जहण्णयं जोगो' इति पाठः । ६. ता०प्रतौ 'असंखेज्जगुण' इति पाठः । ७. ता०प्रतौ 'अपज्ज० । जहं०' इति पाठः ।

सुहुमस्स पञ्जत्तयस्स जह० जोगो असंखेज्जगुणो' । वादरेइंदियपञ्जत्तयस्स जह० जोगो असंखेज्जगुणो' । सुहुम० अपञ्जत्तयस्स उक्कस्सगो जोगो असंखेज्जगुणो । वादर० अपञ्ज० उक्क० जोगो असंखेज्जगु० । सुहुम० पञ्जत्त० उक्क० जोगो असंखेज्जगु० । वादर० पञ्जत्त० उक्क० जोगो असंखेज्जगु० । वेइंदि०पञ्जत्त० जह० जोगो असंखेज्जगु० । एवं तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिदि०-सण्णिपंचिदि०पञ्जत्त० जह० जोगो असंखेज्जगुणो । वीइंदि०अपञ्ज० उक्क० जोगो असंखेज्जगुणो । एवं तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिदि०-सण्णिपंचिदि०अपञ्ज० उक्क० जोगो असंखेज्जगुणो । वीइंदि०पञ्जत्त० उक्क० जोगो असंखेज्जगुणो । एवं तीइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिदि०-सण्णिपंचिदि०पञ्जत्त० उक्क० जोगो असंखेज्जगुणो । एवमेक्कस्स जीवस्स जोगगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभापो ।

एवं जोगट्टाणपरूवणा समत्ता ।

पदेसबंधट्टाणपरूवणा

३४१. पदेसबंधट्टाणपरूवणादाए सव्वत्थोचा सुहुमस्स अपञ्जत्तयस्स जहण्यं पदेसगं । वादर०अपञ्ज० जह० पदेसगं असंखेज्जगुणं । एवं वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिदि०-सण्णिपंचिदि०अपञ्जत्त० जह० पदेसगं असंखेज्जगुणं । सुहुमस्स

असख्यातगुणा है । असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके जघन्य योगस्थानसे सूक्ष्म पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । उससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । उससे सूक्ष्म अपर्याप्तका उत्कृष्ट योग असख्यातगुणा है । उससे वादर अपर्याप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे सूक्ष्म पर्याप्तका उत्कृष्ट योग असख्यातगुणा है । उससे वादर पर्याप्तका उत्कृष्ट योग असख्यातगुणा है । उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवका जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तका उत्कृष्ट योग असख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवका उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार एक-एक जीवका उत्तरोत्तर योग गुणकार पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।

इस प्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई ।

प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणा

३४१ प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोका है । उससे वादर अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय

१ ता०प्रती 'जोग० असखेज्जगुण' इति पाठः । २ ता०प्रती 'पञ्जत्त० जोगो० जह० असखेज्जगुण०' इति पाठः । ३ ता०प्रती 'असण्णिपंचिदि० । सण्णिपंचिदि०' इति पाठः ।

पञ्जत्त० जह० पदेसगं असंखेँजगुणं । एवं वादर०पञ्जत्त० । सुहुम०अपञ्जत्त० उक्क० पदेसगं असंखेँगुणं । वादर०अपञ्ज० उक्क० पदे० असं०गुणं । सुहुम०पञ्ज० उक्क० पदे० असं०गुणं । वादर०पञ्जत्त० उक्क० पदे० असं०गुणं । वेईदि०पञ्जत्त० जह० पदे० असं०गुणं । एवं तीईदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०पञ्जत्त० जह० पदे० असं०गुणं । वीईदि०अपञ्ज० उक्क० पदे० असं०गुणं । एवं तेईदि०-चदुरिंदि० - असण्णिपंचिंदि० - सण्णिपंचिंदि०अपञ्ज० उक्क० पदे० असंखेँगुणं । वीईदि०पञ्जत्त० उक्क० पदे० असं०गुणं । एवं तेईदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०पञ्जत्त० उक्क० पदे० असं०गु० । एवमेकैकस्स जीवस्स पदेसगुणगारो^३ पलिदोवमस्स असंखेँज्जदिभागो ।

एवं पदेसबंधट्टाणपरूवणा समत्ता ।

अप्पावहुगं

३४२. अप्पावहुगं तिचिहं—जहण्णयं उक्कस्सयं जहण्णुक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । द्रुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण तिण्णिआउगाणं वेउन्निवय्ज्जक्क० तित्थयरस्स य सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । अणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असं०गुणा । आहारदुगस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । अणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा

अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । आगे सूक्ष्म पर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे वादर पर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे सूक्ष्म अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे वादर अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे सूक्ष्म पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे वादर पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । आगे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार आगे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । आगे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार आगे क्रमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक-एकका प्रदेश गुणकार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

इस प्रकार प्रदेशबन्धस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई ।

अल्पवहुत्व

३४२.-अल्पवहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्योत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैकियिकपट्क और तीर्थेद्धर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुकृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विकके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे

१. ता०प्रती 'श्रीह उ (अ) प०' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एवमेकैकस्स पदेसगुणगारो' इति पाठः ।

संखेँज्जगुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । [अणुकस्स-पदेसबंधगा जीवा] अणंतगुणा । एवं ओधभंगो तिरिक्खोवंधं कायजोगि-ओरालियका-ओरालियमि-कम्मइ-णवुंस-कोधादि-मदि-सुद-असंजद-अचक्खुदं - तिण्णिले-भवसि-अ-भवसि-मिच्छा-असण्णि-आहार-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि-कम्मइ-अणाहारगेषु देवगदिपंचग-सव्वत्थोवा उक्क-पदेसबंधं जीवा । अणुक-पदेसबंधं जीवा संखेँज्जगुणा । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि ति एसिं असंखेँज्जरासीणं^१ तेसिं एइंदिय-अण्णफ्फदि-णियोदाणं च ओधं देवगदिभंगो । णवरि णिरएसु मणुसाउगमादीणं याव सासण ति एसिं परियत्त-अपरियत्तरासीणं याओ पगदीओ परिमाणे संखेँजाओ तासिं पगदीणं ओधं आहारसरीरभंगो ।

एवं उक्कस्सगं अप्पावहुगं समत्तं ।

३४३. जहण्णए पगदं । दुवि-ओधे-आदे-ओधे-आहारहुगं सव्वत्थोवा जह-पदेबंधगा जीवा । अजह-पदेबंधं जीवा संखेँज्जगुणा । एवं याव अणाहारग ति संखेँज्जपगदीणं सव्वणं । सेसाणं पगदीणं णाणावरणादीणं सव्वत्थोवा जह-पदे-

अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तरगुणे हैं । इस प्रकार ओधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असयत, अचक्षुदर्शनवाले तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिस्याष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष नारिकोंसे लेकर संज्ञी मार्गणा तक जो असख्यात संख्यात्राली मार्गणाएँ हैं उनमें तथा एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें ओधसे देवगतिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नारिकियोंमें मनुष्यायु आदिका सासादन-सम्यग्दृष्टि तक तथा परिवर्तमान और अपरिवर्तमान जिन प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं उन प्रकृतियोंका ओधसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

३४३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश । ओधसे आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अनाहारक मार्गणा तक जिन प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जो सख्यात जीव हैं, उन सबका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । अर्थात् जिन प्रकृतियोंका किन्हीं भी मार्गणाओंमें संख्यात जीव बन्ध करते हैं उनमें तथा जिन मार्गणाओंका परिमाण ही सख्यात है, उनमें ओधसे आहारकशरीरके समान भङ्ग जानना चाहिए । शेष ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंका

१. ता०प्रतौ 'ए[मिं] असंखेँज्जरासीणं' इति पाठ । २. ता०प्रतौ 'एव उक्कस्सगं समत्तं' इति पाठ ।

बंधगा जीवा । अजहण्णपदे०बंधं जीवा असं०गुणा । एवं याव अणाहारग सि असंखेज्जरासीणं अणंतरासीणं च सव्वेसिं च षेदव्वं ।

३४४. जहण्णुक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्क०-तिरिक्खाउ०-दोगदि - पंचजादि-तिण्णि-सरीर-छस्संठाण-ओरा०अंगो० - छस्संघ०-वण्ण०४ - दोआणु०-अगु०४-आदाउजो०-दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग०-दोगोद०-पंचतरा० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बंधं जीवा । जह०पदेसबंधं जीवा अणंतगु० । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबंधं जीवा असंखेज्जगुणा । णिरय-मणुस-देवाउ-णिरयगदि-णिरयाणुं० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बंधं जीवा । जह०पदे०बंधं जीवा असं०गुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदे०बंधं जीवा असं०गुणा । देवगदि०४ सव्वत्थोवा जह०पदे०बंधं जीवा । उक्क०पदे०बंधं जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बंधं जीवा असं०गुणा । आहारदु० सव्वत्थोवा जह०पदे०बंधं जीवा । उक्क०पदे०बंधं जीवा संखेज्जगुणा । अज०मणु०पदे०बंधं जीवा सं०गुणा । तित्थ० सव्वत्थोवा जह०पदे०बंधं जीवा । उक्क०पदे०बंधं जीवा संखेज्जगु० । अजह०मणु०पदे०बंधं जीवा असंखेज्जगुणा ।

बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक असंख्यात राशिवाली और अनन्त राशिवाली जितनी मार्गणएँ हैं, उन सबमें जानना चाहिए ।

इस प्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

३४४. जघन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्वका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकामु, मनुष्यायु, देवायु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य

१. ता०प्रती 'आ० । पंचणा०' इति पाठः । २. आ०प्रती 'पंचणा० तिण्णिसरीर छसठाण अणो०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'असंखेज्जगुणं (णा)' इति पाठः । ४. ता०प्रती 'देवाउणिरयाणु०' इति पाठः । ५. ता०प्रती 'अबह० अ (अ) णुक्क० पदे०बंधं' इति पाठः ।

एवं ओषभंगो तिरिक्खोधं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइका०-णत्तुंस०-
कोधादि०४-मदि-सुद०-असंजद-अचक्खुदं०-तिणिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-
असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदि-
पंचग० ओषं । णवरि संखेंज्जं कादव्वं ।

३४५. गिरएसु छदंस०-वारसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०
वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असंखेंज्जु० । अज०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० ।
मणुसाउ० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जी० संखेंज्जु० ।
अजह०मणु०पदे०वं० जीवा संखेंज्जु० । सेसाणं पगदीणं तित्थय० सव्वत्थोवा
जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा
असं०गु० । एवं सत्तसु पुढवीसु । सव्वत्थोवासंखेंज्जं कादव्वं ।

४४६. तिरिक्खेसु ओषं । पंचिदियतिरिक्खि० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०-
पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असंखेंज्जु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा
असं०गु० । देवगदि०४ ओषभंगो । पंचिदियतिरिक्खपञ्जत्त-जोगिणीसु पंचणा०-
शीणमि०३-दोवेदणी० - मिच्छ० - अणंताणु०४ - इत्थि० - मणुसाउ-देवाउ-देवगदि०४-

अनुक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार ओषके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनवाले, तीन लेश्यावाले, मव्य, अमव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोमे देवगति-पञ्चकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणे करना चाहिए ।

३४५. नारकियोमे छह दर्शनावरण, वारह कषाय, सात नोकषाय, और तिर्यञ्चायुके उक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुके उक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । संख्यात कहना चाहिए ।

३४६. तिर्यञ्चोमें ओषके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे सब प्रकृतियोंके उक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुक्कष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओषके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तक और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमें पाँच ज्ञानावरण, स्थान-गृह्णित्तिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, असन्तानुबन्धी चतुष्क, जीवेद, मनुष्यायु, देवायु,

१. ता०आ०प्रत्यो. 'असं०गु०' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'अससेज्जु०' इति पाठः ।
३. ता०प्रती 'सव्वत्थोवारे सखेज्ज' इति पाठः ।

समचतु०-पसत्थ०-सुभग-सुम्सर-आदौ०-उच्चा० - पंचतरा० सव्वत्थोवा जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा असंखेज्जगुणा । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असंखेज्जगुणा । सेसाणं पगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असं० गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु । पंचिदियतिरिक्खअपजत्त० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असंखेज्जगु० । अज०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । एवँ एइंदिय-वादरेइंदिय-विगळिंदियाणं तिण्णिपदा । पंचिदिय-तसअपज्ज० पंचकायाणं च ओघं पदा । तेसिं वादराणं ओघं पदा । वादरेइंदियपज्जत्ता सव्वसुहुमपंचकायाणं वादरपज्जत्तापज्जत्ताणं तेसिं सव्वसुहुमाणं सव्वत्थोवा जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा असं०गुणा । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । किं कारणं जह०पदे० जीवा थोवा ? सगरासिस्स असंखेज्जदिमागो जहण्णयं करेदि त्ति । मणुसाउ० ओघो ।

३४७. मणुसेसु दोआउ-वेज्जवियल्लकं आहारदुगं तित्थ० ओघं आहारसरीरभंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जी० असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा

देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर, आदेय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकामे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवोंमे तीन पटोंका अल्प-बहुत्व जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और पाँच स्थावरकायिकामे ओघके अनुसार पटोंका अल्पबहुत्व है । उनके वादरोंमे ओघके अनुसार पटोंका अल्पबहुत्व है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, सब सूक्ष्म पाँच स्थावरकायिक, वादर पर्याप्त और वादर अपर्याप्त तथा उनके सब सूक्ष्म जीवोंमे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं, इसका क्या कारण है ? क्योंकि अपनी राशिके असंख्यातवे भागप्रमाण जीव जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करते हैं । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है ।

३४७. मनुष्योमे दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियामे सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक

१. आ०प्रतौ 'जह०पदे०वं० जीवा असखेज्जगु० । एवँ इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'पद (दा) वादर-एइंदियपज्जत्ता' इति पाठः ।

जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा संखेंजगु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा संखेंजगु० । णवरि पंचणा०-छदंस०सादा०-वारसक०-सत्तणोक०-जस०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा संखेंजगु० । अजह०मणु०-पदे०वं० जीवा संखेंजगु० । मणुसअपज्ज० णिरयभंगो ।

३४८. पंचिंदिय-त्तसाणं देवगदि०४ सादाणं ओघं । सेसाणं पंचिंदिय-तिरिक्खभंगो । पंचिंदियपज्जत्तगेषु थीणगिद्धि०३-असाद०-मिच्छ-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-देवगदि०-पंचसंठा०-पंचसंध०-पर०उस्सा०-आदाउज्जो० - पसत्थ०-पज्जत्त-थिर-सुभ-सुस्सर-आदे०-णीत्वा० सव्वत्थोवा जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजहणमणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । पंचणा०-छदंस०-सादा०-वारसक०-सत्तणोक०-चट्टुआउ०-तिण्णिगदि-पंचजादि-ओरालि० - तेजा०-क० - हुंड० - ओरालि०-अंगो०-असंप०-वण्ण०४-तिण्णिआउ०-अगु०-उप० - अप्पसत्थ०-त्स-थावर-वादर-सुहुम-अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-अथिरादिळक्क-जसगि०-णिमि०-उच्चागो०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । आहारदुगं तित्थय० ओघं । एवं तसपज्जत्त० ।

जीव सन्नसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अज्ञघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, छह-दर्शनावरण, सातावेदनीय, वारह कषाय, सात नोकषाय, यश.कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अज्ञघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है ।

३४८. पञ्चेन्द्रिय और त्रस जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें स्थानगुद्धित्तिक, असाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, औवेद, नपुंसकवेद, देवगतिचतुष्क, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुस्वर, आदेय और नौचगोत्रके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अज्ञघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, वारह कषाय, सात नोकषाय, चार आयु, तीन गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तसृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तीन आयु, अगुरुत्त्व, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर आदि छह, यश.कीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अज्ञघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार त्रसपर्याप्तक जीवोंमें जानना चाहिए ।

३४९. पंचमणु-तिण्णिवचि० मणुसगु०-देवग०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-वेउन्वि०-अंगो०-दोआणु० सव्वत्थोवा जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । आहारदुगं तित्थयरं ओघं । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । वचिजोगि०-असच्चमोसवचि० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । आहारदुगं तित्थ० ओघं ।

३५०. कायजो०-ओरालियका०-ओरालियमि० ओघमंगो । वेउन्विपका० देवोघं । वेउन्विपमि० छदंसणा०-वारसक०-सत्तणोक० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । एवं सव्वपगदीणं । णवरि मणुसगदि-मणुसाणु०-उचा० सव्वत्थोवा जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । तित्थ० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा संखेँज्जगु० । अजह०मणुक्क०-पदे०वं० जीवा संखेँज्जगुणा । आहारकायजोगीसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० संखेँज्जगु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा संखेँज्जगु० ।

३४८. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर-प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

३५०. काययोगी, औदारिककाययोगी और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें छह दर्शानावरण, वारह कपाय और सात नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । आहारककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य

आहारमिस्स० वेउन्वियमिस्स० भंगो । णवरि संखेंजगुणं कादव्वं । कम्मइगं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा अणंतगु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । देवगदि०४ ओधं । णवरि संखेंजगुणं कादव्वं । तित्थयरं वेउन्वियमिस्स० भंगो ।

३५१. इत्थिवेदगे पंचणाणावरणीय-थीणगि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-चदुसंठा०-पंचसंध०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-पसत्थ०-पज्ज० - थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-दोगोद०-पंचंत० सव्वत्थोवा जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जी० असं०गु० । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० असं०गु० । आहारदुगं ओधं । तित्थ० सव्वत्थोवा जह०पदे०वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा संखेंजगु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा संखेंजगु० । एवं पुरिसवेदगेसु । णवरि आहारदुगं तित्थ० ओधं भंगो । णवुंस० ओधं । णवरि देवगदि-वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-देवाणु० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा । जह०पदे०वं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असंखें०गु० । तित्थय० सव्वत्थोवा जह०-

अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है ।

३५१. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणीय, स्यान्तधृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्रिकका भङ्ग ओषके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पुरुषवेदवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आहारकद्रिक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । नपुंसकवेदवाले जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गी-पाङ्ग और देवगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे

पदे०व० जीवा । उक्क०पदे०व० जीवा संखेंजगुणा । अजह०मणु०पदे०व० जीवा संखेंजगुणा ।

३५२. क्रोध-माण-माय-लोभकसाईसु ओघभंगो । मदि-सुद० ओघभंगो । णवर देवगदि०४ णिरयगदिभंगो । विभंग० देवगदि०४ सव्वत्थोवा जह०पदे०व० जीवा । उक्क०पदे०व० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०व० जीवा असं०गु० । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०व० जीवा । जह०पदे०व० जीवा असंखेंजगुणा । अजह०मणु०पदे०व० जीवा असंखेंजगुणा ।

३५३. आभिणि-सुद-ओधिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चदुदंस०-सादा०चदुसंजल०-पुरिस०-देवाउ०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०व० जीवा । जह०पदे०व० जीवा असंखेंजगु० । अजह०मणु०पदे०व० जीवा असंखेंजगु० । मणुसाउगं णिरयभंगो । आहारदुगं तित्थ० ओघभंगो । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह०पदे०व० जीवा । उक्क०पदे०व० जीवा असंखेंजगु० । अजह०मणु०पदे०व० जीवा असंखेंजगुणा । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० । णवर उवसम० तित्थय० सव्वत्थोवा जह०पदे०व० जीवा । उक्क०पदे०व० जीवा संखेंजगुणा । अजह०मणु०पदे०व० जीवा संखेंजगुणा ।

उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणें हैं ।

३५२. क्रोधकपायवाले, मानकपायवाले, मायाकपायवाले और लोभकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कका भङ्ग नरकगतिके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । शेष सत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं ।

३५३. आभिनिव्रोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, देवायु, यश-कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । मनुष्यायुका भङ्ग नारकियोंके समान है । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । शेष सत्र प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणें हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायािकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव

१. ता०प्रती 'सेसाण सव्वपगदीण सव्वत्थोवा णं (?) उक्क०पदे०' आ०प्रती 'सेसाण सव्वपगदीण सव्वत्थोवाण उक्क०पदे०व०' इति पाठः । २ आ० प्रती 'पंचणाणावरणीय सव्वत्थोवा' इति पाठः ।

३५४. मणपञ्चव० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-चदुसंजल०-पुरिस०-जसगि०-
उच्चा०पंचंतरा० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा संखेंजगुणा ।
अजहण्णमणु०पदे०बं० जीवा संखेंजगुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह०
पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा संखेंजगुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा
संखेंजगुणा । एवं संजदा० । सामाइ०-छेदो०-परिहार० सव्वपगदीणं मणपञ्चव०असादभंगो ।
णवरि सामाइ०-छेदो० चदुदंस०-पुरिस०-जसगित्ति० मणपञ्चवभंगो ।

३५५. सुहुमसंप० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०-
पदे०बं० जीवा संखेंजगुणा । अजहण्णमणु०पदे०बं० जीवा संखेंजगुणा । एवं
अवगदवेदार्ण पि । संजदासंजदेसु असाद०-अरदि-सोग-देवाउ० सव्वत्थोवा उक्कस्स-
पदेसवंधगा जीवा । जहण्णपदेसवंधगा जीवा असंखेंजगुणा । अजहण्णमणुक्कस्स-
पदेसवंधगा जीवा असंखेंजगुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसवंधगा
जीवा । उक्कस्सपदेसवंधगा जीवा असंखेंजगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसवंधगा जीवा
असंखेंजगुणा । असंजदेसु तिरिक्खोवं । णवरि तिथयरं ओवं । एवं किण्णलेस्सिय-

सवसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे ।

३५५. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संव्वलन, पुरुषवेद, यश कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिए । सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्गमनःपर्ययज्ञानियोंमें कहे गये असातावेदनीयके समान है । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें चार दर्शनावरण, पुरुषवेद, और यश कीर्तिका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है ।

३५५. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अपगतवेदो जीवोंमें जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें असातावेदनीय, अरति, शोक और देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सवसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । असंयत जीवोंमें सामान्य

१. ता०आ०प्रत्योः 'पुरिस० उवसम० जसगि०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'चदुदंस० पुरिस०' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'पवेत्तवधोवा (धगा) जीवा' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'उक्कस्स उक्कस्स (?) पदेस-
वंधगा' इति पाठः ।

णीललेस्सिय-काउलेस्मियाणं । णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थयरं इत्थि० भंगो । चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदंसणी० ओघं ।

३५६. तेउ-पम्मासु छदंसणावरणीयाणं वारहकसायं सत्तणोकसायं सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । जहण्णपदेसबंधगा जीवा असंखेंज्जगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेंज्जगुणा । मणुसाउगं देवभंगो । देवाउगं ओधि० भंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा । उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेंज्जगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेंज्जगुणा ।

३५७. सुक्काए पंचणाणावरणीयाणं च्चदुदंस० सादा० च्चदुसंजल० पुरिस० जसगित्ति उच्चामोद पंचण्णं अंतराइमाणं च सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । जहण्णपदेसबंधगा जीवा असंखेंज्जगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेंज्जगुणा । दोआउ० देवभंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा । उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेंज्जगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेंज्जगुणा ।

३५८. भवसिद्धिया० ओघं । अभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि० मदि० भंगो । वेदगसम्ममादिट्ठी० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा । उक्कस्सपदेस-

तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अर्थात् असंयत जीवोंके समान कृष्णलेख्यावाले, नीललेख्यावाले और कापोत लेख्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेख्यावाले जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रस पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

३५६ पीत और पद्मलेख्यावाले जीवोंमें छह दर्शनावरणीय, वारह कषाय और सात नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है । देवायुका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

३५७. शुक्ललेख्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संव्रलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

३५८. भव्य जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके

वंधगा जीवा असंखेंजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसवंधगा जीवा असंखेंजगुणा । एवं सासण०-सम्मामि० । सण्णीसु पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०^१-जसगिचि-उच्चागोद-पंचतराह्गणं च सच्चत्थोवा उक्कस्सपदेसवंधगा जीवा । जहण्ण-पदेसवंधगा जीवा असंखेंजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसवंधगा जीवा असंखेंजगुणा । एवं चदुण्णमाउगाणं णाणावरणभंगो । आहारदुगं तित्थयरं च ओघं । सेस-पगदीणं सच्चत्थोवा जहण्णपदेसवंधगा जीवा । उक्कस्सपदेसवंधगा जीवा असंखेंजगुणा । अजहण्णमणुकस्सपदेसवंधगा जीवा असंखेंजगुणा । एवं एदेण वीजेण चित्तेदूण गेदव्वं भवंति । आहार० ओघो । अणाहार० कम्मइगकायजोगिभंगो ।

एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

एवं जीवसमुदाहारे त्ति समत्तमणियोगद्दारं ।

एवं पदेसवंधो समत्तो ।

एवं बंधविधाणे त्ति समत्तमणियोगद्दारं ।

एवं चदुविधो बंधो समत्तो ।

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।

णमो उव्वत्तायाणं णमो लोए सच्चसाहूणं ॥

बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि और सन्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संव्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार चार आयुओंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार विचार कर ले जाना चाहिए । आहारक जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार जीवसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार प्रदेशबन्ध समाप्त हुआ ।

इस प्रकार बन्धन अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार चार प्रकारका बन्ध समाप्त हुआ ।

अरिहन्तोको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें सब साधुओंको नमस्कार हो ।